



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 19] नई दिल्ली, मई 1—मई 7, 2016, शनिवार/ वैशाख 11—वैशाख 17, 1938
No. 19] NEW DELHI, MAY 1—MAY 7, 2016, SATURDAY/ VAISAKHA 11—VAISAKHA 17, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2016

का.आ. 751.—केंद्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में संलग्न अनुबंध में उल्लिखित निम्नलिखित बैंकों की सूचीबद्ध शाखाओं/कार्यालयों को, जिनके 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

क्र.सं.	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
1.	केनरा बैंक	644
	कुल	644

[फा.सं. 11016/1/2015-हिंदी (अधि.)]
डॉ.वेद प्रकाश दूबे, संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किए जाने वाले कार्यालयों / शाखाओं की सूची अंचल कार्यालय : शिमोगा (16)

- केनरा बैंक
अरसालू शाखा (डी पी कूट 5387)
मुख्य रास्ता
अरसालू, तहसील - होसानगर जिला - शिमोगा
राज्य - कर्नाटक
- केनरा बैंक
अरलापुरा शाखा (डी पी कूट 5390)
मुख्य रास्ता
अरसालू, होडला - अरलापुरा
तहसील - तीर्थहल्ली
जिला - शिमोगा
राज्य - कर्नाटक

- | | |
|--|--|
| <p>3. केनरा बैंक
बि बिरनहल्ली शाखा (डी पी कूट 5396)
बि बिरनहल्ली
तहसील - शिमोगा जिला - शिमोगा
राज्य - कर्नाटक - 577227</p> <p>4. केनरा बैंक
भद्रावती होसमने एक्सटेंशन शाखा
(डी पी कूट 5945)
भद्रावती
तहसील - शिमोगा जिला - शिमोगा
राज्य - कर्नाटक - 577301</p> <p>5. केनरा बैंक
गोदूनकोप्पा शाखा (डी पी कूट 5388)
गोदूनकोप्पा
तहसील - शिकारीपुरा
जिला - शिमोगा
राज्य - कर्नाटक - 577101</p> <p>6. केनरा बैंक
हितला शाखा (डी पी कूट 8857)
हितला, तहसील - शिकारीपुरा जिला - शिमोगा
राज्य - कर्नाटक - 577123</p> <p>7. केनरा बैंक
कम्मरडी शाखा (डी पी कूट 5571)
मुख्य मार्ग, कम्मरडी
तहसील - कोप्पा, जिला - शिमोगा
राज्य - कर्नाटक</p> <p>8. केनरा बैंक
शिमोगा काशीपुरा शाखा (डी पी कूट 5237)
ऐश्वर्याप्रदा अर्काडे काशीपुरा सर्कल
तहसील - शिमोगा जिला - शिमोगा
राज्य - कर्नाटक - 577204</p> <p>9. केनरा बैंक
शिमोगा एस आर रोड शाखा (डी पी कूट 5236)
सुभद्रा निलय, संगोली रायन्ना रोड
तहसील - शिमोगा, जिला - शिमोगा
राज्य - कर्नाटक - 577201</p> <p>10. केनरा बैंक
शिमोगा गोपाला शाखा (डी पी कूट 5945)
गोपाला
तहसील - शिमोगा जिला - शिमोगा
राज्य - कर्नाटक - 577201</p> | <p>11. केनरा बैंक
बन्नूर शाखा (डी पी कूट 5391)
बन्नूर
तहसील - शिमोगा जिला - शिमोगा
राज्य - कर्नाटक - 577201</p> <p>12. केनरा बैंक
गुब्बिगा शाखा (डी पी कूट 5393)
गुब्बिगा
तहसील - एन आर पुरा
जिला - चिकमंगलूर
राज्य - कर्नाटक - 577134</p> <p>13. केनरा बैंक
इन्दावरा शाखा (डी पी कूट 5389)
इन्दावरा
तहसील - चिकमंगलूर
जिला - शिमोगा
राज्य - कर्नाटक - 577132</p> <p>14. केनरा बैंक
जोगन्ननकेरे शाखा (डी पी कूट 5536)
जोगन्ननकेरे
तहसील - मुडिगेरे जिला - शिमोगा
राज्य - कर्नाटक - 577132</p> <p>15. केनरा बैंक
केलगूर शाखा (डी पी कूट 5392)
केलगूर
तहसील - चिकमंगलूर जिला - चिकमंगलूर
राज्य - कर्नाटक - 577111</p> <p>16. केनरा बैंक
पत्तनगेरे शाखा (डी पी कूट 5394)
पत्तनगेरे
तहसील - कडूर जिला - चिकमंगलूर
राज्य - कर्नाटक - 577548</p> <p>अंचल कार्यालय : कोषिकोड (13)</p> <p>17. केनरा बैंक
पेरलशशेरि शाखा (डी पी कूट 4752)
बिल्डिंग सं पी पी XI-185/सी
पंचायत कार्यालय के सामने पेरलशशेरि मंदिर के पास,
हाई स्कूल रोड, पेरलशशेरि
जिला - कण्णूर
राज्य - केरला - 670622</p> |
|--|--|

- | | |
|---|---|
| <p>18. केनरा बैंक
कदिरुर शाखा (डी पी कूट 4699)
के पी XIII-812,813
वृन्दावन कॉम्प्लेक्स कदिरुर डाक, तलशशेरि
जिला - कण्णूर
राज्य - केरला - 670642</p> <p>19. केनरा बैंक
परप्पनंगाडि शाखा (डी पी कूट 4701)
पीपी वी / 567 ए वी सी से वी तक बीच रोड
परप्पनंगाडि
जिला - मल्लप्पुरम
राज्य - केरला - 676303</p> <p>20. केनरा बैंक
कारपरम्बा शाखा (डी पी कूट 4885)
2/163, समाम कॉम्प्लेक्स
हॉमिओ मेडिकल कॉलेज के पास
जिला - कालिकट
राज्य - केरला - 673010</p> <p>21. केनरा बैंक
मंजेरी सरकारी मेडिकल कॉलेज शाखा (डी पी कूट 5010)
सरकारी मेडिकल कॉलेज मंजेरि
मंजेरी डाक जिला - मलप्पुरम
राज्य - केरला - 676121</p> <p>22. केनरा बैंक
एडपट्टा शाखा (डी पी कूट 5417)
एडपट्टा विलेज ओफिस के पास
एडपट्टा पेरितलमण्णा
जिला - मलप्पुरम
राज्य - केरला - 679326</p> <p>23. केनरा बैंक
तरुवणा शाखा (डी पी कूट 5011)
मानंतवाडि रोड
तरुवणा
जिला - वयनाड
राज्य - केरला - 670645</p> <p>24. केनरा बैंक
चोरोड शाखा (डी पी कूट 5418)
कस्तूरि बिल्डिंग कैनाट्टि
बडगरा, जिला - कालिकट
राज्य - केरला - 673106</p> | <p>25. केनरा बैंक
कोषिचेना शाखा (डी पी कूट 5419)
डोर सं 1484, मुंडशशेरि टावर
तापे कोषिचेना, डाक - वलकुलम
जिला - मलप्पुरम
राज्य - केरला - 676508</p> <p>26. केनरा बैंक
नल्ललम शाखा (डी पी कूट 5420)
एम टी टावर, जयंति रोड जंक्शन नल्ललम,
जिला - कोषिकोड
राज्य - केरला - 673027</p> <p>27. केनरा बैंक
पोन्मला शाखा (डी पी कूट 5626)
वारिक्कोडन बिल्डिंग, पल्लिपडि
पोन्मला डाक जिला - मलप्पुरम
राज्य - केरला - 676528</p> <p>28. केनरा बैंक
मेलाट्टूर शाखा (डी पी कूट 5542)
वारिक्कोडन आर्केड, रेलवे गेट के पास
मेलाट्टूर
जिला - मलप्पुरम
राज्य - केरला - 679326</p> <p>29. केनरा बैंक
परंबिल बज़ार शाखा (डी पी कूट 4884)
पी के बिल्डिंग, पालेत्ते परंबा
प्रभांत पुस्तकालय के पास परंबिल डाक
जिला - कोषिकोड
राज्य - केरला - 673012</p> <p>अंचल कार्यालय : मेरठ (05)</p> <p>30. केनरा बैंक
खतौली शाखा (डी पी कूट 5027)
मेन जी टी रोड
इंद्रा मूर्ती होली चौक के पास खतौली
जिला - मुजफ्फरनगर
राज्य - उत्तर प्रदेश - 251201</p> <p>31. केनरा बैंक
सरधना शाखा (डी पी कूट 5026)
प्रभात नगर के पास
सरधना, बिनौली रोड
जिला - मेरठ
राज्य - उत्तर प्रदेश - 250342</p> |
|---|---|

32. केनरा बैंक
भंगेल शाखा (डी पी कूट 5548)
आर सी मार्केट
मेन रोड भंगेल, नोयडा
जिला - जी बी नगर
राज्य - उत्तर प्रदेश - 201305
33. केनरा बैंक
काँठ शाखा (डी पी कूट 5028)
विशनपुरा
इस्टेट बिल्डिंग
काँठ
जिला - मुरादाबाद
राज्य - उत्तर प्रदेश - 244501
34. केनरा बैंक
भोपुरा शाखा (डी पी कूट 5550)
मेन रोड भोपुरा
(श्री साई ज्योति आटोमोबाईल्स)
गजियाबाद, जिला - गजियाबाद
राज्य - उत्तर प्रदेश - 201001
- अंचल कार्यालय : नागपुर (18)**
35. केनरा बैंक
पातूर शाखा (डी पी कूट 5257)
जनश्री, प्लॉट नं 23, वार्ड नं 1,
राठौड़ कॉम्प्लेक्स के पास,
वाशिम रोड, पातूर, अकोला
जिला - अकोला
राज्य - महाराष्ट्र - 444501
36. केनरा बैंक
मूर्तिजापुर शाखा (डी पी कूट 5818)
आशीर्वाद हाइट्स बबन अस्पताल के पास,
प्लॉट नं 1, मूर्तिजापुर, अकोला
जिला - अकोला
राज्य - महाराष्ट्र - 444107
37. केनरा बैंक
नागपुर बालाजी नगर शाखा (डी पी कूट 5846)
राडके ले-आउट, प्लॉट नं 1,
भारत पेट्रोलियम के आगे
हिंणघाट रोड, बालाजी नगर, नागपुर
जिला - नागपुर
राज्य - महाराष्ट्र - 440016
38. केनरा बैंक
नागपुर सोमलवाडा शाखा (डी पी कूट 5991)
47, उज्जवल नगर, सोमलवाडा
वर्धा रोड, नागपुर
जिला - नागपुर
राज्य - महाराष्ट्र - 440023
39. केनरा बैंक
कारंजा शाखा (डी पी कूट 5998)
पुराना शशिकांत टाकीज रोड
कारंजा, वाशिम, जिला - वाशिम
राज्य - महाराष्ट्र - 444105
40. केनरा बैंक
वणि शाखा (डी पी कूट 5820)
वेंकटेश मंदिर, मेन रोड
तहसील - वणि, यवतमाल
जिला - यवतमाल
राज्य - महाराष्ट्र - 445304
41. केनरा बैंक
वरुड शाखा (डी पी कूट 5819)
जागृति विद्यालय, इंदिरा चौक
रिंग रोड, वरुड, अमरावती
जिला - अमरावती
राज्य - महाराष्ट्र - 444906
42. केनरा बैंक
अकोला जठारपेठ शाखा (डी पी कूट 5498)
शुभमंगल, जठारपेठ रोड
अकोला
जिला - अकोला
राज्य - महाराष्ट्र - 444005
43. केनरा बैंक
देवली शाखा (डी पी कूट 5500)
एम एम किराना स्टोर, ठाकरे चौक
बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, देवली
जिला - वर्धा
राज्य - महाराष्ट्र - 442101
44. केनरा बैंक
नागपुर हुडकेश्वर शाखा (डी पी कूट 5499)
प्लॉट नं 9, चन्द्रकिरण नगर, हुडकेश्वर रोड

- हुडकेश्वर, नागपुर
जिला - नागपुर
राज्य - महाराष्ट्र - 440034
45. केनरा बैंक
मजितपुर शाखा (डी पी कूट 5379)
ग्राम व तहसील - मजितपुर
गोंदिया
जिला - गोंदिया
राज्य - महाराष्ट्र - 441603
46. केनरा बैंक
साकोली शाखा (डी पी कूट 5533)
बस स्टॉप के पास, नर्सरी कॉलोनी
मेन रोड, साकोली, भंडारा
जिला - भंडारा
राज्य - महाराष्ट्र - 441802
47. केनरा बैंक
आकोट शाखा (डी पी कूट 5497)
साई रेसीडेंसी, प्लॉट नं 15
स्ट्रीट 10, वकारिया, आकोट, अकोला
जिला - अकोला
राज्य - महाराष्ट्र - 444101
48. केनरा बैंक
आमगाँव शाखा (डी पी कूट 5534)
म, नं 702/34, मेन रोड, वार्ड नं 2
आमगाँव, गोंदिया
जिला - गोंदिया
राज्य - महाराष्ट्र - 441902
49. केनरा बैंक
थाना जवाहर नगर शाखा (डी पी कूट 5623)
थाना पेट्रोल पम्प के पास
थाना जवाहर नगर, भंडारा
जिला - भंडारा
राज्य - महाराष्ट्र - 441906
50. केनरा बैंक
देवरी शाखा (डी पी कूट 5501)
प्लॉट नं 65, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6
तहसील कार्यालय के सामने, देवरी
जिला - गोंदिया
राज्य - महाराष्ट्र - 441901

51. केनरा बैंक
मौदा शाखा (डी पी कूट 6069)
एम एस ई बी कार्यालय के सामने, भंडारा रोड
मौदा
जिला - नागपुर
राज्य - महाराष्ट्र - 441104
52. केनरा बैंक
तिरोदा शाखा (डी पी कूट 6077)
डायमंड टॉवर, शाहाकर नगर, सहीद मिश्रा वार्ड
जी टी टी रोड, तिरोदा
जिला - गोंदिया
राज्य - महाराष्ट्र - 441911

अंचल कार्यालय : करनाल (07)

53. केनरा बैंक
हिसार सै 14 शाखा (डी पी कूट 5525)
एस सी ओ 11, सै 14
हिसार
जिला - हिसार
राज्य - हरियाणा - 125001
54. केनरा बैंक
पंचकुला सै 19 शाखा (डी पी कूट 5824)
एस सी ओ 69, सै 19
पंचकुला
जिला - पंचकुला
राज्य - हरियाणा - 134109
55. केनरा बैंक
इस्माईलाबाद शाखा (डी पी कूट 5825)
भारतीय स्टेट बैंक के नजदीक
इस्माईलाबाद
जिला - कुरुक्षेत्र
राज्य - हरियाणा - 136129
56. केनरा बैंक
करनाल हॉसी रोड शाखा (डी पी कूट 5845)
नं 32/7 (पुराना नं 6), हॉसी रोड
निरंकारी भवन के अपोजिट, करनाल
जिला - करनाल
राज्य - हरियाणा - 132001
57. केनरा बैंक
पुण्डरी शाखा (डी पी कूट 5859)
एस सी ओ 51, हुड्डा मार्केट

पुण्डरी
जिला - कैथल
राज्य - हरियाणा - 136026
58. केनरा बैंक
पिंजोर शाखा (डी पी कूट 6021)
1584/ बी-1 अबदुल्लापुर, एडजैसैंट ईजी डे
कालका शिमला हाईवे, पिंजोर जिला - पंचकुला
राज्य - हरियाणा - 134102

59. केनरा बैंक
मंसा देवी कॉम्प्लेक्स शाखा (डी पी कूट 6022)
एस सी ओ 128, सै-5 मंसा देवी कॉम्प्लेक्स,
पंचकुला
जिला - पंचकुला राज्य - हरियाणा - 134114

अंचल कार्यालय : अहमदाबाद (16)

60. केनरा बैंक
सी जी रोड शाखा (डी पी कूट 4826)
चैतन्य टॉवर, तल मंजिल,
मारडिया टॉवर के सामने
जसुभाई ज्वेलर्स के पास,
सी जी रोड अहमदाबाद
जिला- अहमदाबाद,
राज्य- गुजरात-380009

61. केनरा बैंक
न्यू राणिप शाखा (डी पी कूट 4820)
12ए से 19 होम टाउन,
3 आलोक बंगलेज के सामने
जी एस टी क्रॉसिंग के पास,
अहमदाबाद, न्यू राणिप
जिला - अहमदाबाद
राज्य - गुजरात - 382470

62. केनरा बैंक
मोटेरा शाखा (डी पी कूट 4819)
तल मंजिल, श्रुति आर्केड के सामने एच पी पेट्रोल
पम्प के पास, मोटेरा
जिला-अहमदाबाद,
राज्य-गुजरात-380005

63. केनरा बैंक
गोधरा शाखा (डी पी कूट 4824)

तल मंजिल, एच सी एफ सी बैंक के सामने एल
आय सी रोड, गोधरा
जिला-पंचमहल,
राज्य- गुजरात-389001

64. केनरा बैंक
उंझा शाखा (डी पी कूट 3810)
सरलिसा कॉम्प्लेक्स, स्टेशन रोड
स्टेट बैंक के पास,
उंझा, अहमदाबाद
जिला-मेहसाणा,
राज्य-गुजरात-384001

65. केनरा बैंक
गांधी आश्रम शाखा (डी पी कूट 5691)
गांधी आश्रम साबरमती के सामने हरिजन आश्रम,
अहमदाबाद
जिला - अहमदाबाद
राज्य - गुजरात - 380007

66. केनरा बैंक
सिद्धपुर शाखा (डी पी कूट 5690)
तिरुपति प्लाज़ा, तल मंजिल
120-124 सिद्धपुर जी आय डी सी रोड, सिद्धपुर
जिला - पाटन
राज्य - गुजरात - 384151

67. केनरा बैंक
पेटलाद शाखा (डी पी कूट 4542)
तल मंजिल, हस्त शरण कॉम्प्लेक्स,
हस्त कॉम्प्लेक्स के सामने
स्टेशन रोड, पेटलाद
जिला - आणंद
राज्य - गुजरात - 388450

68. केनरा बैंक
गोरवा शाखा (डी पी कूट 4828)
तल मंजिल, दुकान क्र. 467,
ट्रिनिटी कॉम्प्लेक्स
न्यू आय पी सी एल रोड,
गोरवाए वडोदरा
जिला - वडोदरा
राज्य - गुजरात - 390016

69. केनरा बैंक
वस्त्राल शाखा (डी पी कूट 4822)
सरोवर 4, गेलेक्सी टाउनशिप के पास
आर ए एफ कैम्प, एस पी रिंग रोड,
वस्त्राल, अहमदाबाद
जिला - अहमदाबाद
राज्य - गुजरात - 390123
70. केनरा बैंक
लाम्भा शाखा (डी पी कूट 4533)
रुद्र ग्रींस, लाम्भा रोड, पुराने नारोल कोर्ट के पास
लाम्भा, अहमदाबाद
जिला - अहमदाबाद
राज्य - गुजरात - 382405
71. केनरा बैंक
कठवाडा शाखा (डी पी कूट 4534)
पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के सामने
कठवाडा रोड, कठवाडा
जिला - अहमदाबाद
राज्य - गुजरात - 382430
72. केनरा बैंक
वापी शाखा (डी पी कूट 4543)
दुकान क्र 12 13 14 फॉर्च्यून चौराहा
सर्वे क्र 110/ए/2 चाला,
प्रायमरी स्कूल के पास, वापी
जिला-वलसाड,
राज्य-गुजरात -396191
73. केनरा बैंक
बायड शाखा (डी पी कूट 4536)
दुकान क्र 1 से 5, पवन प्लाज़ा
मोडासा रोड, जिला साबरकांठाए बायड
जिला- अरावल्ली,
राज्य-गुजरात-382470
74. केनरा बैंक
प्रह्लाद नगर शाखा (डी पी कूट 4821)
तल मंजिल, पार्श्वनाथ चौराहा
कॉरपोरेट रोड, प्रह्लाद नगर, अहमदाबाद
जिला - अहमदाबाद
राज्य - गुजरात - 380015

75. केनरा बैंक
वेरावल शाखा (डी पी कूट 4829)
अमृतदीप राजमहल रोड
जिला जूनागढ़, वेरावल
जिला - गिर सोमनाथ
राज्य - गुजरात - 362265

अंचल कार्यालय : बेंगलूर मेट्रो (09)

76. केनरा बैंक
बी आई ए एल शाखा (डी पी कूट 3025)
एयरलाइन लैंडसाइड कार्यालय
बी आई ए एल कैम्पस, देवनहल्ली
जिला - बेंगलूर
राज्य - कर्नाटक - 560300
77. केनरा बैंक
डोम्मसंद्रा शाखा (डी पी कूट 4789)
नं 79/1, आर के कांप्लेक्स के सामने
डोम्मसंद्रा सर्कल, डोम्मसंद्रा डाक
जिला - बेंगलूर
राज्य - कर्नाटक - 562125
78. केनरा बैंक
शिवकोटे शाखा (डी पी कूट 5370)
एस जी एस बिल्डिंग, हेसरघट्टा रोड
शिवकोटे, जिला- बेंगलूर उत्तर
राज्य - कर्नाटक - 560089
79. केनरा बैंक
चिक्कबाणावरा शाखा (डी पी कूट 5597)
नं 1052, 80 फीट रोड
तीसरा स्टेज ए जी बी (आत्मीय गेलेयर बलगा)
लेआउट हेसरघट्टा मेन रोड
सप्तगिरि मेडिकल कॉलेज व अस्पताल
जिला - बेंगलूर
राज्य - कर्नाटक - 560090
80. केनरा बैंक
यादवनहल्ली शाखा (डी पी कूट 5911)
द आक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज व अनुसंधान केंद्र
यादवनहल्ली डाक
जिला - बेंगलूर
राज्य - कर्नाटक - 562107
81. केनरा बैंक
कलकेरे शाखा (डी पी कूट 5910)

- के एस मुनियप्पा बिल्डिंग, के चन्नसंद्रा मेन रोड
399/1, कलकेरे, होरमावु डाक
जिला - बेंगलूर
राज्य - कर्नाटक - 560089
82. केनरा बैंक
कुंबलगोडु बेंगलूर एस एम ई शाखा (डी पी कूट 4799)
सर्वे नं 24/12, नं 236
॥ ब्लॉक कुंबलगोडु, केंगेरी होबली
जिला - बेंगलूर
राज्य - कर्नाटक - 560074
83. केनरा बैंक
यलचेनहल्ली बेंगलूर एसएमई शाखा (डी पी कूट 4798)
नं 25/5बी/3 श्री मादेश्वरी कॉम्प्लेक्स
यलचेनहल्ली, कनकपुरा मेन रोड
जिला - बेंगलूर
राज्य - कर्नाटक - 560078
84. केनरा बैंक
सिंगसंद्रा शाखा (डी पी कूट 4785)
37/1, सिंगसंद्रा
होसुर मेन रोड
जिला - बेंगलूर
राज्य - कर्नाटक - 560068
- अंचल कार्यालय : पटना (45)**
85. केनरा बैंक
राजगीर शाखा (डी पी कूट 4569)
धर्मशाला रोड
डाकघर एवं थाना - राजगीर
जिला - नालन्दा
राज्य - बिहार - 803116
86. केनरा बैंक
सबौर शाखा (डी पी कूट 4948)
एन एच 80 मेन रोड
डाकघर एवं थाना - सबौर
जिला - भागलपुर
राज्य - बिहार - 813210
87. केनरा बैंक
एस एम ई हाजीपुर शाखा (डी पी कूट 4960)
- देवन्ती कम्प्लेक्स, पासवान चौक
डाकघर एवं थाना - हाजीपुर
जिला - वैशाली
राज्य - बिहार - 844101
88. केनरा बैंक
काँटी शाखा (डी पी कूट 4189)
हॉस्पिटल रोड, नगर पंचायत
डाकघर एवं थाना - काँटी
जिला - मुजफ्फारपुर
राज्य - बिहार - 843109
89. केनरा बैंक
महादपुर शाखा (डी पी कूट 4575)
डाक - विनोदपुर
थाना - सिंघौल
जिला - बेगुसराय
राज्य - बिहार - 851134
90. केनरा बैंक
बैरगाछी शाखा (डी पी कूट 4577)
डाकघर - गाछपारा
थाना - किशनगंज
जिला - किशनगंज
राज्य - बिहार - 855107
91. केनरा बैंक
हरनौत शाखा (डी पी कूट 4953)
चंडी मोड, कालीस्थान के निकट
डाकघर एवं थाना - हरनौत
जिला - नालन्दा
राज्य - बिहार - 803110
92. केनरा बैंक
सगुना मोड शाखा (डी पी कूट 4955)
शशिधर कुंज, पहला तल
डाकघर एवं थाना - दानापुर
जिला - पटना
राज्य - बिहार - 801503
93. केनरा बैंक
अगमकुओं शाखा (डी पी कूट 4956)
स्टेशन रोड, गुलजारबाग
डाकघर - गुलजारबाग
थाना - आलमगंज

- जिला - पटना
राज्य - बिहार - 800007
94. केनरा बैंक
गेराबारी शाखा (डी पी कूट 5243)
पृथ्वी मार्केट
डाकघर एवं थाना - कोरहा
जिला - कटिहार
राज्य - बिहार - 854108
95. केनरा बैंक
सोनाली शाखा (डी पी कूट 5244)
मेन रोड
डाकघर - सोनाली
थाना - कदवां
जिला - कटिहार
राज्य - बिहार - 855114
96. केनरा बैंक
महनार बाज़ार शाखा (डी पी कूट 5245)
बस स्टैंड मेन रोड
सेंट्रल बैंक ऑफ केनिकट
डाकघर एवं थाना - महनार
जिला - वैशाली
राज्य - बिहार - 844506
97. केनरा बैंक
बनमन्खी बाजार शाखा (डी पी कूट 5246)
डॉ मुक्तिनाथ मार्केट, नेहरु चौक
डाकघर एवं थाना - बनमन्खी
जिला - पूर्णियां
राज्य - बिहार - 845202
98. केनरा बैंक
श्यामपुर शाखा (डी पी कूट 9206)
डाकघर एवं थाना - श्यामपुर
जिला - शिवहर
राज्य - बिहार - 843329
99. केनरा बैंक
संदलपुर पटना शाखा (डी पी कूट 5467)
के पी मेहता बिल्डिंग
डाकघर - महेन्द्र थाना - बहादुरपुर
जिला - पटना
राज्य - बिहार - 800006
100. केनरा बैंक
भूतनाथ रोड शाखा (डी पी कूट 5466)
म एच / 51 भूतनाथ रोड
हनुमान मंदिर के निकट
डाकघर - भूतनाथ रोड
थाना - अगमकुआँ
जिला - पटना
राज्य - बिहार - 800026
101. केनरा बैंक
मीठापुर बस स्टैण्ड शाखा (डी पी कूट 5487)
कृष्णा बैकुण्ठ काम्प्लेक्स
इन्द्रा नगर मोड, पोस्टल पार्क
मीठापुर बस स्टैण्ड के निकट
डाकघर - पोस्टलपार्क
थाना - जक्कनपुर
जिला - पटना
राज्य - बिहार - 844506
102. केनरा बैंक
दरियापुर शाखा (डी पी कूट 9021)
ग्राम दरियापुर
डाकघर - नेउरा थाना - शाहपुर
जिला - पटना
राज्य - बिहार - 801113
103. केनरा बैंक
श्रीमतपुर शाखा (डी पी कूट 4578)
ग्राम - सुजावलपुर
डाकघर - शकरपुर थाना - मूंगेर
जिला - मूंगेर
राज्य - बिहार - 811201
104. केनरा बैंक
पड़री शाखा (डी पी कूट 4586)
ग्राम / डाक - पड़री
थाना - शिवसागर
जिला - रोहतास
राज्य - बिहार - 821108
105. केनरा बैंक
बलभद्रपुर खजूरी शाखा (डी पी कूट 4587)
खान मार्केट चौक, खजूरी
डाक - खजूरी थाना - कल्याणपुर

- जिला – समस्तीपुर
राज्य - बिहार - 848301
106. केनरा बैंक
सियानी शेखपुरा शाखा (डी पी कूट 8813)
ग्राम – सियानी
डाक – बेलछी थाना – करेंदे जिला – शेखपुरा
राज्य - बिहार - 811304
107. केनरा बैंक
फरीदपुर शेखपुरा शाखा (डी पी कूट 5469)
एन एच 30
डाक – औधेफरीदपुर थाना – शेखपुरा जिला –
शेखपुरा
राज्य - बिहार - 811105
108. केनरा बैंक
कोहबरा पूर्णियां शाखा (डी पी कूट 5471)
ग्राम – कोहबरा
डाक – बनैली
थाना – के नगर
जिला – पूर्णियां
राज्य - बिहार - 854201
109. केनरा बैंक
ओलापुर गंगौर शाखा (डी पी कूट 3120)
वार्ड नं 14
ग्राम + डाक – ओलापुर गंगौर
थाना – ओलापुर गंगौर
जिला – खगड़िया
राज्य - बिहार - 851204
110. केनरा बैंक
मानपुर गया शाखा (डी पी कूट 5622)
महादीपुर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स
डाक + थाना – मानपुर
जिला – गया
राज्य - बिहार - 823003
111. केनरा बैंक
दीघाघाट पटना शाखा (डी पी कूट 5740)
रेलवे क्रासिंग के निकट
डाक + थाना – दीघा
जिला – पटना
राज्य - बिहार - 800011
112. केनरा बैंक
सरैयागंज शाखा (डी पी कूट 5741)
सीता कॉम्प्लेक्स
डाक + थाना – सरैयागंज
जिला – मुजफ्फरपुर
राज्य - बिहार - 842001
113. केनरा बैंक
अघोरिया बाज़ार शाखा (डी पी कूट 5742)
श्री राम एण्ड श्याम मार्केट
डाक - रमना
थाना – काजी मुहम्मदपुर
जिला – मुजफ्फरपुर
राज्य - बिहार - 842002
114. केनरा बैंक
सुलतानगंज शाखा (डी पी कूट-5748)
नगर परिषद के सामने, मेन रोड, सुलतानगंज
डाक + थाना – सुलतानगंज
जिला – भागलपुर
राज्य - बिहार - 813213
115. केनरा बैंक
जलालगढ़ शाखा (डी पी कूट 5746)
मेन बाज़ार, मेन रोड
डाक + थाना – जलालगढ़
जिला – पूर्णियां
राज्य - बिहार - 854327
116. केनरा बैंक
पूर्णियां लाइन बाज़ार शाखा (डी पी कूट 5745)
बाजार, प्रथम तल, एन एच – 15
डाक - लाइन बाज़ार पूर्णियां
थाना – लाइन बाज़ार पूर्णियां
जिला – पूर्णियां
राज्य - बिहार - 854301
117. केनरा बैंक
अशोक राजपथ पटना शाखा (डी पी कूट 4957)
इलाहाबाद बैंक के विपरीत
डाक - महेन्द्र पटना
थाना – पीरबहोर पटना
जिला – पटना
राज्य - बिहार - 800004

118. केनरा बैंक
बौंसी शाखा (डी पी कूट 5738)
थाना रोड, बौंसी
डाक + थाना – बौंसी
जिला – बांका
राज्य - बिहार - 813104
119. केनरा बैंक
भगवानपुर शाखा (डी पी कूट 5751)
भगवानपुर चौक के निकट
डाक - कम्पनीबाग थाना –भगवानपुर
जिला – मुजफ्फरपुर
राज्य - बिहार - 843120
120. केनरा बैंक
रामनगरी पटना शाखा (डी पी कूट 5860)
श्री हनुमान धाम रामनगरी असियाना, दीघा रोड
डाक - असियाना, पटना
थाना – राजीव नगर, पटना
जिला – पटना
राज्य - बिहार - 800025
121. केनरा बैंक
सिमरी शाखा (डी पी कूट 5861)
प्रथम तल, सिमरी बख्तियारपुर बाज़ार
डाक - सिमरी बख्तियारपुर थाना – सिमरी
बख्तियारपुर
जिला – सहरसा
राज्य - बिहार - 852127
122. केनरा बैंक
बहादुरपुर शाखा (डी पी कूट 5465)
प्रथम मंजिल, पायलोन हाऊस बाज़ार समिति
रोड
डाक - बहादुरपुर थाना – बहादुरपुर
जिला – नलन्दा
राज्य - बिहार - 800016
123. केनरा बैंक
श्रीकृष्णनगर पटना शाखा (डी पी कूट 4958)
मकान संख्या – 134
डाक + थाना – श्रीकृष्णनगर
जिला – पटना
राज्य - बिहार
124. केनरा बैंक
गुडगाँवा पटना शाखा (डी पी कूट 5468)
ग्राम – गुडगाँवां
125. केनरा बैंक
सोहसराय शाखा (डी पी कूट 6048)
पटना-राँची रोड, बिहारशरीफ
डाक - सोहसराय
थाना – सोहसराय
जिला – नलन्दा
राज्य - बिहार - 803101
126. केनरा बैंक
चौरीया शाखा (डी पी कूट 6049)
ग्राम + डाक – चौरीया थाना – फेसर
जिला – औरंगाबाद
राज्य - बिहार - 824102
127. केनरा बैंक
सरिस्ताबाद पटना शाखा (डी पी कूट 6110)
पछियारी टोला, सरिस्ताबाद
डाक - अनिसाबाद थाना – गर्दनीबाग
जिला – पटना
राज्य - बिहार - 800001
128. केनरा बैंक
सम्पतचक शाखा (डी पी कूट 4952)
प्रथम तल, गोपालपुर थाना के निकट
डाक + थाना – सम्पतचक
जिला – पटना
राज्य - बिहार - 800007
129. केनरा बैंक
अंचल कार्यालय पूर्णियां (डी पी कूट 7942)
कैप्टन पारा
डाक + थाना – पूर्णियां
जिला – पूर्णियां
राज्य - बिहार - 854326
- अंचल कार्यालय : तिरुवनंतपुरम (23)**
130. केनरा बैंक
बुधनूर शाखा (डी पी कूट 5965)
बी पी 11/405, (ए जी) माडपल्ली जंक्शन
कडम्पूर

- जिला - आलप्पी
राज्य - केरल - 689510
131. केनरा बैंक
मुलकुषा शाखा (डी पी कूट 5966)
डोर नं 614 (ए बी) वार्ड सं 4
मुलकुषा पी ओ
जिला - आलप्पी
राज्य - केरल - 689505
132. केनरा बैंक
वीयापुरम शाखा (डी पी कूट 5841)
वी पी 12/206, एलंजिक्कल
वीयापुरम पी ओ
जिला - आलप्पी
राज्य - केरल - 690514
133. केनरा बैंक
पुलियन्नूर शाखा (डी पी कूट 5636)
चेन्नाट्टु बिल्डिंग
मुतोली जंक्शन, पुलियन्नूर पी ओ
जिला - कोट्टायम
राज्य - केरल - 686573
134. केनरा बैंक
मुत्तूर शाखा (डी पी कूट 5635)
मणिमंगलम बिल्डिंग, बिल्डिंग सं 27/239
मुत्तूर पी ओ
जिला - पत्तनमतिट्टा
राज्य - केरल - 689107
135. केनरा बैंक
पेरुतान्नी शाखा (डी पी कूट 5114)
टी सी 36/1025 (1-4) आराट्टु रोड
एलंजिक्कल जंक्शन के सामने, पेरुतान्नी
जिला - त्रिवेन्द्रम
राज्य - केरल - 695008
136. केनरा बैंक
मैलम शाखा (डी पी कूट 5836)
एम पी 18/618, पूजा बिल्डिंग
एम सी रोड, इंचक्काट्टु,
मैलम पी ओ, कोट्टारक्करा
जिला - कोल्लम
राज्य - केरल - 691560
137. केनरा बैंक
उषवूर शाखा (डी पी कूट 4674)
वेलिकेट्टिल बिल्डिंग,
उषवूर पोस्ट ओफीस
जिला - कोट्टायम
राज्य - केरल - 686634
138. केनरा बैंक
वेरुर इंडस्ट्रियल पस्टेट शाखा (डी पी कूट 5511)
सर्वे नं 599/10, कुमिली रोड, चेत्तिपुष विलेज
वेरुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, चंगनाशेरी
जिला - कोट्टायम
राज्य - केरल - 686106
139. केनरा बैंक
ओयर शाखा (डी पी कूट 4668)
बदरुद्दीन मेमोरियल बिल्डिंग,
परुयाक्कोड, ओयुर
जिला - कोल्लम
राज्य - केरल - 691510
140. केनरा बैंक
निलमेल शाखा (डी पी कूट 5515)
बिल्डिंग नं 8/124, एम सी रोड
निलमेल जंक्शन के सामने
जिला - कोल्लम
राज्य - केरल - 691535
141. केनरा बैंक
पुत्तूर शाखा (डी पी कूट 4669)
सर्वे नं 660/3, मुल्लिक्काट्टु ट्रस्ट
मैन रोड, पुत्तूर
जिला - कोल्लम
राज्य - केरल - 691507
142. केनरा बैंक
रामनकुलंगरा शाखा (डी पी कूट 1511)
हौस नं 36/57, मातृभूमी के सामने
एन एच 47, रामन कुलंगरा
जिला - कोल्लम
राज्य - केरल - 691003
143. केनरा बैंक
मान्नार शाखा (डी पी कूट 3534)
एम पी 14/500 के तिरुवोणम

- बिल्डिंग कुरट्टिशेरी, मान्तार
जिला - आलप्पी
राज्य - केरल - 689622
144. केनरा बैंक
भरणन्गानम शाखा (डी पी कूट 4672)
जीवन बुक्स बिल्डिंग, विशुद्ध
गिरजाघर के सामने, पाला रोड
जिला - कोट्टायम
राज्य - केरल - 686578
145. केनरा बैंक
कडुत्तुरुत्ती शाखा (डी पी कूट 4671)
1/298, टी आर आर्केड, पाला रोड
कडुत्तुरुत्ती
जिला - कोट्टायम
राज्य - केरल - 686604
146. केनरा बैंक
एरिकाड शाखा (डी पी कूट 2779)
524 बी, नरिमट्टिल बिल्डिंग
वेट्टत्तकवला, पुत्तुप्पल्ली
जिला - कोट्टायम
राज्य - केरल - 686011
147. केनरा बैंक
किडंगूर शाखा (डी पी कूट 4675)
बिल्डिंग नं 645, राजमार्ग जंक्शन के सामने
ए पी रोड, किडंगूर
जिला - कोट्टायम
राज्य - केरल - 686572
148. केनरा बैंक
वैकम शाखा (डी पी कूट 4670)
सर्वे नं 187, वलियकवला बस स्टैन्ड के सामने
कोट्टायम रोड
जिला - कोट्टायम
राज्य - केरल - 686141
149. केनरा बैंक
वेलूर शाखा (डी पी कूट 4004)
हौस नं 26/217, चेरिक्कल हौस
वेलूर पी ओ
जिला - कोट्टायम
राज्य - केरल - 686003

150. केनरा बैंक
पोडियाडी शाखा (डी पी कूट 5519)
मणिमंगलम टवर्स, पोडियाडी पी ओ
पत्तनंतिट्टा, जिला - पत्तनंतिट्टा
राज्य - केरल - 689104
151. केनरा बैंक
चेट्टिकुलंगरा शाखा (डी पी कूट 5637)
बिल्डिंग नं 9/40 सी आध्यश्री बिल्डिंग
ईरेषा सौथ, चेट्टिकुलंगरा पी ओ, मावेलिक्करा
जिला - आलप्पी
राज्य - केरल - 690106
152. केनरा बैंक
नालांचिरा शाखा (डी पी कूट 5837)
टी सी 11/26 (2) मलंचेरुविल हिल्स
हिल गार्डन, स्टेप्स जंक्शन, नालांचिरा
जिला - त्रिवेन्द्रम
राज्य - केरल - 695015

अंचल कार्यालय : देहरादून (13)

153. केनरा बैंक
कंकरखेत शाखा (डी पी कूट 5870)
नजदीक नयाहाना मंदिर
ब्लॉक चाकुतियाँ, पोस्ट - नाउवारा
जिला - अल्मोडा
राज्य - उत्तराखण्ड - 263660
154. केनरा बैंक
नैनीताल शाखा (डी पी कूट 5871)
न्यू देवारस, सुखताल मलिताल
नैनीताल, जिला - नैनीताल
राज्य - उत्तराखण्ड - 263001
155. केनरा बैंक
पिपली शाखा (डी पी कूट 5872)
गाँव पिपली, पोस्ट - देवलीखेत
कुनहिल ब्लॉक - साल्ट
जिला - अल्मोडा
राज्य - उत्तराखण्ड - 263667
156. केनरा बैंक
बलभदरपुर शाखा (डी पी कूट 5873)
गाँव - रतनपुर सुखराऊ

- बेल रोड़, कोट्टवार
जिला - पोडी गढवाल
राज्य - उत्तराखण्ड - 246149
157. केनरा बैंक
बरकिण्डा शाखा (डी पी कूट 5874)
गाँव - बरकिण्डा, पो कुनहिल
ब्लॉक - साल्ट
जिला - अल्मोडा
राज्य - उत्तराखण्ड - 263660
158. केनरा बैंक
फरसादी शाखा (डी पी कूट 5876)
गाँव - पानचराड
पोस्ट - फरसादी
जिला - पोडी गढवाल
राज्य - उत्तराखण्ड - 246271
159. केनरा बैंक
भरोली शाखा (डी पी कूट 5896)
गाँव - भरोली, पोस्ट - कडोला बाया -
वेदीखाल, ब्लॉक बिरोनखाल
जिला - पोडी गढवाल
राज्य - उत्तराखण्ड - 243177
160. केनरा बैंक
किच्छा शाखा (डी पी कूट 5908)
जिला - उधम सिंह नगर
राज्य - उत्तराखण्ड - 248179
161. केनरा बैंक
रायपुर देहरादून शाखा (डी पी कूट 5909)
खसरा नंबर 309/6 रायपुर,
जिला - देहरादून
राज्य - उत्तराखण्ड - 248171
162. केनरा बैंक
हरिद्वार एस एम ई शाखा (डी पी कूट 5994)
प्रेम नगर आश्रम नजदीक रानीपुर मोड
हरिद्वार
जिला - हरिद्वार
राज्य - उत्तराखण्ड - 246149
163. केनरा बैंक
रुद्रप्रयाग शाखा (डी पी कूट 5875)
अंलकनंदा पैलेस, नजदीक न्यू बस
- अगले आई डी बी आई
जिला - रुद्रप्रयाग
राज्य - उत्तराखण्ड - 248171
164. केनरा बैंक
गोपेश्वर शाखा (डी पी कूट 6033)
खसरा नंबर 308 नजदीक पट्टोल पंप
गोपेश्वर
जिला - चमोली
राज्य - उत्तराखण्ड - 246401
165. केनरा बैंक
काशीपुर शाखा (डी पी कूट 6101)
नज़दीक कुक्कु टायर हाउस, लावनिया
अस्पताल के सामने, मुरादाबाद रोड, काशीपुर
राज्य - उत्तराखण्ड - 244713
अंचल कार्यालय : गोवा (08)
166. केनरा बैंक
सिओलिम शाखा (डी पी कूट 5239)
शोप से 981 / बी व सी, टोर्चीभट्ट
सिओलिम, बरदेज
उत्तर गोवा - 403517
167. केनरा बैंक
बेतिम शाखा (डी पी कूट 5293)
भवन सं बी 175 सी
बेतिम बरदेज
गोवा - 403101
168. केनरा बैंक
कोरगाव शाखा (डी पी कूट 5461)
ग्राम पंचायत बिल्डिंग, कोरगाव
पेरनेम
गोवा - 403512
169. केनरा बैंक
माडेल शाखा (डी पी कूट 5461)
भवन सं 1141/ 1 मोडेल, चोदान
गोवा - 403103
170. केनरा बैंक
चिकालिम शाखा (डी पी कूट 5656)
शोप सं 5 व 6, आम्बियंस बेल्ल विस्टा चिकालिम
अय्यस फाक्टरी के सामने चिकालिम बस स्टोप,
चिकालिम
गोवा - 403711

171. केनरा बैंक
मजोर्डा शाखा (डी पी कूट 5947)
भवन सं 47/1, गोदिन्हो वड्डो
ओसकार जंक्शन के पास, सलाटा
गोवा - 403713
172. केनरा बैंक
मापा शाखा (डी पी कूट 5948)
भवन सं 178, मापा पंचवडी
गोवा - 403706
173. केनरा बैंक
पेरनेम शाखा (डी पी कूट 5972)
देशप्रभु बिल्डिंग पेरनेम हाय स्कूल के सामने
नानुवाडा पेरनेम
गोवा - 403512
- अंचल कार्यालय : एरणाकुलम (38)**
174. केनरा बैंक
एरणाकुलम एस एम ई शाखा (डी पी कूट 3539)
प्रथम तल, कोडै टवर,
चडंपुषा पार्क, देवनकुलडरा, इडप्पल्ली
जिला - एरणाकुलम
राज्य - केरल - 682024
175. केनरा बैंक
कोचि इडपल्ली शाखा (डी पी कूट 3566)
बिल्डिंग सं 50/390,
मधुशिला चेम्बर्स,
पालस रोड जंक्शन एन उच्च 47 इडपल्ली
जिला - एरणाकुलम राज्य - केरल - 682024
176. केनरा बैंक
वैटिला शाखा (डी पी कूट 3567)
प्रथम तल, रोज़ी बाज़ार, एस ए रोड वैटिला
जिला - एरणाकुलम राज्य - केरल - 682019
177. केनरा बैंक
वाषकुलम शाखा (डी पी कूट 3588)
मानचो बिल्डिंग, मंत्रल्लूर गाँव
कुवाट्टुपुषा (द्वारा), वाषकुलम
जिला - एरणाकुलम राज्य - केरल - 686670
178. केनरा बैंक
कोट्टोपाडम शाखा (डी पी कूट 3785)
179. केनरा बैंक
तोणूरकरा शाखा (डी पी कूट 4003)
18/204, कैलासम, बिल्डिंग, मेन रोड
तोणूरकरा पी ओ त्रिशूर, जिला - त्रिशूर राज्य -
केरल - 680586
180. केनरा बैंक
मुल्लूरकरा शाखा (डी पी कूट 4213)
रोस कॉम्प्लेक्स मेन रोड
मुल्लूरकरा, जिला - त्रिशूर राज्य - केरल -
680583
181. केनरा बैंक
कलमश्शेरी शाखा (डी पी कूट 4663)
कोट्टुपुरत आर्केड, चर्च रोड
उत्तर कलमश्शेरी
जिला - एरणाकुलम राज्य - केरल - 683104
182. केनरा बैंक
परवूर शाखा (डी पी कूट 4665)
सर्वे सं 291/ 4ए, तखीव कॉम्प्लेक्स, नोर्थ परवूर
जिला - एरणाकुलम राज्य - केरल - 683513
183. केनरा बैंक
अडिमाली शाखा (डी पी कूट 4666)
कण्णाट्टु बिल्डिंग, पंचायत कार्यालय के पास
कल्लारकुट्टी रोड, अडिमाली
जिला - इडुक्की राज्य - केरल - 685561
184. केनरा बैंक
पषयन्नूर शाखा (डी पी कूट 4667)
4593/ए, के बी प्लासा, त्रिशूर रोड पषयन्नूर
जिला - त्रिशूर राज्य - केरल - 680587
185. केनरा बैंक
गुरुवायूर तैक्काड शाखा (डी पी कूट 4676)
वयपरा भवन, चोवलूरपडी तैक्काड, जिला - त्रिशूर
राज्य - केरल - 680104
186. केनरा बैंक
त्रिशूर कूर्कन्वेरी शाखा (डी पी कूट 5113)

- अबा प्लाज़ा, कमरा सं 239/IV
मेनरोड, कूर्कन्वेरी, जिला – त्रिशूर राज्य – केरल - 680007
187. केनरा बैंक
पुतनकुरिश शाखा (डी पी कूट 5291)
जय निवास कॉम्प्लेक्स, पेट्रोल पंप के पास
पुतनकुरिश, जिला – एरणाकुलम राज्य – केरल - 682308
188. केनरा बैंक
पेरिडोट्टुकरा शाखा (डी पी कूट 5507)
नेल्लिपरम्बिल बिल्डिंग, पेट्रोल पंप के सामने फोर
वे जंक्शन, पेरिडोट्टुकरा
जिला – त्रिशूर राज्य – केरल - 680565
189. केनरा बैंक
कारकुरिश शाखा (डी पी कूट 5508)
#14/457, कारकुरिशी ग्राम पंचायत बिल्डिंग
कारकुरिश
जिला – पालक्काड राज्य – केरल - 678595
190. केनरा बैंक
पुदूर शाखा (डी पी कूट 5509)
#153/VII, पुदूर रोड पुदूर, जिला – पालक्काड राज्य – केरल - 678581
191. केनरा बैंक
मुरिकाशशेरी शाखा (डी पी कूट 5510)
तोडुतिल बिल्डिंग मुरिकाशशेरी जिला – इडुक्की राज्य – केरल - 685604
192. केनरा बैंक
पूतोट्टा शाखा (डी पी कूट 5632)
शोप सं 114/ई एफ जी, एस एन जंक्शन
पुतनकातु, पूतोट्टा
जिला – एरणाकुलम राज्य – केरल - 682307
193. केनरा बैंक
चुण्डवेली शाखा (डी पी कूट 5653)
8/569, नैस्सेरी बिल्डिंग, चुण्डवेली
एरुमतल पोस्ट
जिला – एरणाकुलम राज्य – केरल - 683112
194. केनरा बैंक
कुरीक्काड शाखा (डी पी कूट 5654)
- नं 1/154 मडत्तिपरम्बिल बिल्डिंग
कुरीक्काड पोस्ट
जिला – एरणाकुलम राज्य – केरल - 682305
195. केनरा बैंक
वेल्लिकुलडरा शाखा (डी पी कूट 5655)
7/5ए, विरमेल बिल्डिंग, मेन रोड
वेल्लिकुलडरा पोस्ट
जिला – त्रिशूर राज्य – केरल - 680699
196. केनरा बैंक
पालक्काड ओलवक्कोड शाखा (डी पी कूट 5779)
बिल्डिंग नं 36/1(8), मात्राली बिल्डिंग
मेन रोड ओलवक्कोड
जिला – पालक्काड राज्य – केरल - 678002
197. केनरा बैंक
अरयनकावु शाखा (डी पी कूट 5780)
मरियन शोपिंग सेंटर, अरयनकावु बाज़ार के सामने
कुलयेट्टिकार पी ओ अरयनकावु
जिला – एरणाकुलम राज्य – केरल - 682315
198. केनरा बैंक
पालक्काड खुदरा संपदा केंद्र (डी पी कूट 5631)
श्रीपद्म ऑडिटोरियम
नेडुडुडि कॉम्प्लेक्स
जिला – पालक्काड राज्य – केरल - 678001
199. केनरा बैंक
कारलम शाखा (डी पी कूट 5899)
बिल्डिंग सं 101, वार्ड 2, करलयिल बिल्डिंग
मावेलि स्टोर के पास, कारलम पी ओ
जिला – त्रिशूर राज्य – केरल - 680711
200. केनरा बैंक
एलवन्चेरी शाखा (डी पी कूट 5781)
जे शंकर कॉम्प्लेक्स, कारिकुलम जंक्शन
एलवन्चेरी
जिला – पालक्काड राज्य – केरल - 678508
201. केनरा बैंक
त्रिशूर ईस्ट फोर्ट शाखा (डी पी कूट 5898)
23/113, जेस्वे बिल्डिंग, ईस्ट फोर्ट
त्रिशूर
जिला – एरणाकुलम राज्य – केरल - 680005

202. केनरा बैंक
मरड शाखा (डी पी कूट 4664)
कुरियप्पिल्ली टवर्स
पी एस हॉस्पिटल के पास, मरड पी ओ
जिला - एरणाकुलम राज्य - केरल - 682304
203. केनरा बैंक
कोम्बोडिजामक्कल शाखा (डी पी कूट 5897)
बिल्लिंग सं 157, वार्ड 14, कोम्बोडिजामक्कल
तषवकाड पी ओ
जिला - त्रिशूर राज्य - केरल - 680697
204. केनरा बैंक
अंचल कार्यालय एरणाकुलम (डी पी कूट 7938)
पुकलवकाट लक्ष्मीभाई टवर, टी डी रोड (उत्तर)
जिला - एरणाकुलम राज्य - केरल - 682035
205. केनरा बैंक
माला शाखा (डी पी कूट 8555)
अल खामीस कॉम्प्लेक्स, प्राइवेट बस स्टैंड
के पास के के रोड माला
जिला - त्रिशूर राज्य - केरल - 680732
206. केनरा बैंक
त्रिशूर खुदरा संपदा केंद्र (डी पी कूट 5630)
श्री कृष्ण बिल्लिंग वेस्ट पालेस रोड
जिला - त्रिशूर राज्य - केरल - 680022
207. केनरा बैंक
एरणाकुलम खुदरा संपदा केन्द्र (डी पी कूट 3924)
षेणाई चेम्बर्स, षनमुखम रोड
जिला - एरणाकुलम राज्य - केरल - 682031
208. केनरा बैंक
एलनाड शाखा (डी पी कूट 5900)
17/60, 61, 62 भूतल, पुरक्कुलम टवर्स
बंगल पडी, एलनाड
जिला - त्रिशूर राज्य - केरल - 680586
209. केनरा बैंक
कूनम्मावु शाखा (डी पी कूट 6009)
IV/86ए जी कोडोरपिल्ली रोड
चावरा इंस्टिट्यूट के पास
जिला - त्रिशूर राज्य - केरल - 683518

210. केनरा बैंक
पल्लशना शाखा (डी पी कूट 6010)
572 / एफ वी एस के कॉम्प्लेक्स, चेरकोड
पल्लशना गाँव
जिला - पालक्काड राज्य - केरल - 678505
211. केनरा बैंक
वल्लपुषा शाखा (डी पी कूट 6011)
14/475 ई फातिमा कॉम्प्लेक्स
मेन रोड वल्लपुषा
जिला - पालक्काड राज्य - केरल - 679366

अंचल कार्यालय : गुडगांव (09)

212. केनरा बैंक
सुखराली शाखा (डी पी कूट 5479)
सन टॉवर, मेन मेहरौली रोड
सुखराली
जिला - गुडगाँव राज्य - हरियाणा - 122001
213. केनरा बैंक
भौड़सी शाखा (डी पी कूट 5693)
शॉप नं 10, गुडगाँव
सोहना रोड
जिला - गुडगाँव राज्य - हरियाणा - 122012
214. केनरा बैंक
गुलावड़ शाखा (डी पी कूट 9006)
कोराली गुलावड़ रोड गुलावड़ का नंगला, तहसील
जिला - पलवल राज्य - हरियाणा - 121102
215. केनरा बैंक
पृथला शाखा (डी पी कूट 5592)
मेन पृथला छपरौला रोड पृथला
जिला - पलवल राज्य - हरियाणा - 121102
216. केनरा बैंक
गुडगाँव सेक्टर 51 शाखा (डी पी कूट 5662)
यूनिट 10, ब्लॉक बी
निवाना कंट्री, साउथ सिटी II
जिला - गुडगाँव राज्य - हरियाणा - 121001
217. केनरा बैंक
भिवानी सब्जी मंडी शाखा (डी पी कूट 5692)
नियर इन्द्रजीत हॉस्पिटल
एवं सब्जी रोहतक गेट
भिवानी
जिला - गुडगाँव राज्य - हरियाणा - 127021

218. केनरा बैंक
सोहना शाखा (डी पी कूट 4166)
दिल्ली अलवर रोड, नियर पूजा सर्विस सेंटर
रजौरिया कॉलोनी
जिला – गुडगाँव राज्य – हरियाणा - 122103
219. केनरा बैंक
फरीदाबाद सेक्टर 15 शाखा (डी पी कूट 5844)
एस सी एफ - 56, हुडा मार्किट
फरीदाबाद
जिला – फरीदाबाद राज्य – हरियाणा - 121007
220. केनरा बैंक
सिकरी शाखा (डी पी कूट 5951)
959, दिल्ली मथुरा रोड
42 किलो मीटर स्टोन
सिकरी
जिला – फरीदाबाद राज्य – हरियाणा - 121004
- अंचल कार्यालय : शिमला (03)**
221. केनरा बैंक
सलोह शाखा (डी पी कूट 5382)
ग्राम व पोस्ट ऑफिस सलोह
जिला – कांगड़ा राज्य – हिमाचल प्रदेश - 176102
222. केनरा बैंक
कजलोट शाखा (डी पी कूट 5384)
पोस्ट ऑफिस सुधेर
जिला – कांगड़ा राज्य – हिमाचल प्रदेश - 176215
223. केनरा बैंक
केलांग शाखा (डी पी कूट 5883)
पोस्ट ऑफिस केलांग
जिला – लाहौल स्पीति राज्य – हिमाचल प्रदेश - 175132
- अंचल कार्यालय : भोपाल (31)**
224. केनरा बैंक
धनगवां शाखा (डी पी कूट 4320)
धनगवां गाँव - धनगवां, तहसील-मंझोली
जिला – जबलपुर राज्य – मध्यप्रदेश - 483225
225. केनरा बैंक
जीवाजीपुर शाखा (डी पी कूट 5698)
जीवाजीपुर पोस्ट लशकरपुर
जिला – विदिशा राज्य – मध्यप्रदेश - 464001
226. केनरा बैंक
मेढकी शाखा (डी पी कूट 5699)
गाँव - मेढकी
जिला – रायसेन राज्य – मध्यप्रदेश - 464661
227. केनरा बैंक
इछावार शाखा (डी पी कूट 4728)
बस स्टैंड के सामने नसरुलागंज रोड
जिला – सीहोर राज्य – मध्यप्रदेश - 466115
228. केनरा बैंक
पादुरंता शाखा (डी पी कूट 5486)
शस्ती वार्ड वार्ड नं 20 बस स्टैंड के पास, पादुरंता
जिला – छिंदवाडा राज्य – मध्यप्रदेश - 480334
229. केनरा बैंक
नज़रुल्लागंज शाखा (डी पी कूट 5919)
तलै मोहल्ला, इंदौर रोड मज़ीद के पास,
नज़रुल्लागंज
जिला – सेहोर राज्य – मध्यप्रदेश - 466331
230. केनरा बैंक
सौंसर शाखा (डी पी कूट 5920)
पल्स प्लॉजा, वार्ड नं 15 नागपुर छिंदवाडा हाईवे
जिला – छिंदवाडा राज्य – मध्यप्रदेश - 480106
231. केनरा बैंक
निवाडी शाखा (डी पी कूट 5921)
खसरा नं 1837/ 1/4 वार्ड नं 5, पुलिस थाने के
सामने निवाडी
जिला – टीकमगढ़ राज्य – मध्यप्रदेश - 472442
232. केनरा बैंक
राहतगढ़ शाखा (डी पी कूट 5973)
वार्ड नं 13 विदिशा तिगाड़ा के पास
जिला – सागर राज्य – मध्यप्रदेश - 470119
233. केनरा बैंक
देवरी शाखा (डी पी कूट 5974)
झुनकु वार्ड
कचहरी तिराहा, देवरी
जिला – सागर राज्य – मध्यप्रदेश - 470226

234. केनरा बैंक
मुंगावली शाखा (डी पी कूट 5975)
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कार्यालय
स्टेशन रोड, मुंगावली
जिला – अशोक नगर
राज्य – मध्यप्रदेश - 473443
235. केनरा बैंक
जबलपुर आधारताल शाखा (डी पी कूट 5976)
107/7, राधि चौक
पेट्रोल पंप के सामने
जिला – जबलपुर राज्य – मध्यप्रदेश - 482004
236. केनरा बैंक
कौलारस शाखा (डी पी कूट 5977)
ए बी रोड, जगतपुर कौलारस, जिला – शिवपुरी
राज्य – मध्यप्रदेश - 473774
237. केनरा बैंक
जबलपुर नागपुर रोड शाखा (डी पी कूट 6072)
देवताल रामायण मंदिर के सामने
नागपुर रोड जबलपुर
जिला – जबलपुर राज्य – मध्यप्रदेश - 482003
238. केनरा बैंक
जबलपुर महाराजापुर शाखा (डी पी कूट 6073)
257 मेन रोड
महाराजापुर (बवाली)
जिला – जबलपुर राज्य – मध्यप्रदेश - 482004
239. केनरा बैंक
सौहागपुर शाखा (डी पी कूट 6075)
देनवा लॉज के पास रेलवे स्टेशन रोड
जिला – होशंगाबाद राज्य – मध्यप्रदेश -
461771
240. केनरा बैंक
औबेदुल्लागंज शाखा (डी पी कूट 6076)
वार्ड नं 5, चंद्रिका वायर हाउस के सामने
होशंगाबाद रोड
जिला – रायसेन राज्य – मध्यप्रदेश - 464993
241. केनरा बैंक
सिराँज शाखा (डी पी कूट 6088)
गल्ला मंडी के सामने बेगम बाग रोड
जिला – विदिशा राज्य – मध्यप्रदेश - 464228
242. केनरा बैंक
ग्वालियर एसएमई शाखा (डी पी कूट 3910)
26 पार्वती भवन शास्त्री नगर के सामने गेट नं 3,
गौंधी रोड, थातीपुर
जिला – ग्वालियर राज्य – मध्यप्रदेश - 474011
243. केनरा बैंक
मंडला शाखा (डी पी कूट 4115)
आर्शीवाद भवन तिलक वार्ड, नेहरू स्मारक
जिला – मंडला राज्य – मध्यप्रदेश - 481661
244. केनरा बैंक
भोजपुर शाखा (डी पी कूट 4323)
78 जैन मंदिर के पास जैन मंदिर रोड भोजपुर
जिला – रायसेन राज्य – मध्यप्रदेश - 464993
245. केनरा बैंक
चंदेरी शाखा (डी पी कूट 4731)
पिछोड़ रोड प्रगति पेट्रोल पंप के पास चंदेरी
जिला – अशोक नगर राज्य – मध्यप्रदेश -
473446
246. केनरा बैंक
मकरोनिया बुजुर्ग शाखा (डी पी कूट 4730)
ओम पेट्रोल पंप के पास जबलपुर रोड, मकरोनिया
जिला – सागर राज्य – मध्यप्रदेश - 470004
247. केनरा बैंक
भोपाल शाहपुरा शाखा (डी पी कूट 5084)
एसएस/7-8 महाकाली एच एस बावडिया कलां
त्रिलंगा जिला – भोपाल राज्य –
मध्यप्रदेश- 462039
248. केनरा बैंक
भोपाल टी टी नगर शाखा (डी पी कूट 5443)
हाल डी, सेंटर पाइंट कमर्शियल काम्प्लेक्स
न्यू मार्केट, जिला – भोपाल राज्य – मध्यप्रदेश -
462003
249. केनरा बैंक
ग्वालियर सिटी सेंटर शाखा (डी पी कूट 5446)
राजकमल, एफ 20 सिटी सेंटर, साईट नं 1,
ग्वालियर जिला – ग्वालियर
राज्य – मध्यप्रदेश - 474011

250. केनरा बैंक
मुलताई शाखा (डी पी कूट 5538)
भगत सिंह वार्ड बैतूल हाईवे, मुलताई
जिला – बैतूल राज्य – मध्यप्रदेश - 460661
251. केनरा बैंक
ग्वालियर शिंदे की छावनी शाखा
(डी पी कूट 5555)
आदर्श कॉलोनी चौराहा जिन्दे वाली सड़क
जिला – ग्वालियर राज्य – मध्यप्रदेश - 470001
252. केनरा बैंक
गंज बासौदा शाखा (डी पी कूट 5676)
पंचवटी मांगलिक भवन वार्ड नं 8, वरीथ रोड
जिला – विदिशा राज्य – मध्यप्रदेश - 464221
253. केनरा बैंक
ग्वालियर मोरार शाखा (डी पी कूट 5677)
बारादरी चौराहा झांसी लूप रोड, मोरार जिला –
ग्वालियर राज्य – मध्यप्रदेश - 474006
254. केनरा बैंक
रिटेल असेस्ट हब शाखा (डी पी कूट 3991)
एम पी नगर
जोन-2, बैंक स्ट्रीट
जिला – भोपाल राज्य – मध्यप्रदेश - 462011
- अंचल कार्यालय : जयपुर (12)**
255. केनरा बैंक
बयाना शाखा (डी पी कूट 5785)
स्टेशन रोड, डॉ रामकुमार की गली के पास
बयाना पोस्ट
राज्य – राजस्थान
256. केनरा बैंक
बिजय नगर शाखा (डी पी कूट 5786)
दुकान सं 6,7,8 संचेती कॉलोनी ए मील रोड
बिजय नगर तह मसौदा
जिला – अजमेर राज्य – राजस्थान - 305623
257. केनरा बैंक
उदयपुर सेक्टर 14 शाखा (डी पी कूट 5802)
3/12 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड (आर एच बी)
कॉलोनी, गोवर्धन विलास
जिला – उदयपुर
राज्य – राजस्थान - 313004
258. केनरा बैंक
ऑर्बिट मॉल शाखा (डी पी कूट 4851)
1-2 ऑर्बिट मॉल रोड सिविल लाइंस अजमेर रोड
जिला – जयपुर राज्य – राजस्थान - 302006
259. केनरा बैंक
श्याम नगर शाखा (डी पी कूट 4852)
6- तीर्थ नगर, श्याम नगर के पास मेट्रो स्टेशन,
नया सांगानेर जिला – जयपुर राज्य – राजस्थान
- 302019
260. केनरा बैंक
आमेर रोड शाखा (डी पी कूट 4853)
एस-10 व 11, गोलीमार गार्डन स्कीम आमेर रोड
जिला – जयपुर राज्य – राजस्थान
261. केनरा बैंक
लालकोटी शाखा (डी पी कूट 5917)
5/1, फ्रेंड कॉलोनी, लालकोटी के पीछे नई विधान
सभा रोड, टोंक रोड जिला – जयपुर राज्य –
राजस्थान
262. केनरा बैंक
सपोल एफ आई शाखा (डी पी कूट 3816)
गाँव व पोस्ट, सपोल तह- राजसमंद जिला –
राजसमंद राज्य – राजस्थान - 313334
263. केनरा बैंक
भीलवाड़ा एस एम ई शाखा (डी पी कूट 6042)
पी-19, ग्राउंड फ्लोर सी/ ओ पीरल एंटरप्राइज़र,
इंडस्ट्रियल एस्टेट भीलवाड़ा
264. केनरा बैंक
भरतपुर एस एम ई शाखा (डी पी कूट 6043)
सी / ओ मेसर्स कुमार अमित ट्रेडर रंजीत नगर
रोड, नयी मण्डी भरतपुर - 321001
265. केनरा बैंक
नोहर शाखा (डी पी कूट 6102)
पंचायत समिति के विपरीत
सेक्टर-5, तहसील
नोहर - 335523

266. केनरा बैंक
अनूपगढ़ शाखा (डी पी कूट 6103)
सं 44 बी नई धन मण्डी तह - अनूपगढ़
जिला - श्रीगंगानगर
राज्य - राजस्थान - 335701
- अंचल कार्यालय : भुवनेश्वर (32)**
267. केनरा बैंक
ब्रह्मेस्वरपटना शाखा (डी पी कूट 4912)
प्लॉट नं 3/799 बसुअघाड़, टंकापानी रोड,
भुवनेश्वर जिला - खुर्दा
राज्य - ओडिशा - 751018
268. केनरा बैंक
डेल्टा स्क्वायर शाखा (डी पी कूट 4913)
सब प्लॉट नं 16, रविन्द्र गार्डन, सौभाग्य नगर
जिला - खुर्दा
राज्य - ओडिशा - 751003
269. केनरा बैंक
गोदीबन्धा शाखा (डी पी कूट 5474)
पो-गोदीबन्धा, ब्लॉक-नर्सिंघपुर, पुलिस स्टेशन
कानपुर
जिला - कटक
राज्य - ओडिशा - 754037
270. केनरा बैंक
बसंतपुर शाखा (डी पी कूट 5477)
बसंतपुर, पो-जिलिंदा ब्लॉक नर्सिंघपुर जिला -
कटक
राज्य - ओडिशा - 754032
271. केनरा बैंक
जाजपुर शाखा (डी पी कूट 4923)
पो. जजती नगर, यूनिट नं 8 जगेस्वरपुर, जाजपुर
टाउन जिला - जाजपुर
राज्य - ओडिशा - 755001
272. केनरा बैंक
कसंदा शाखा (डी पी कूट 5473)
पो - कसंदा, ब्लॉक रानपुर
जिला - नयागढ़
राज्य - ओडिशा - 752065
273. केनरा बैंक
सिंकुलीपदर शाखा (डी पी कूट 5475)
पो सिंकुलीपदर ब्लॉक मोहना जिला - गजपति
राज्य - ओडिशा - 751015
274. केनरा बैंक
गौड़सहि शाखा (डी पी कूट 5614)
गौड़सहि, पो - मसदा, ब्लॉक - बिंझरपुर जिला -
जाजपुर
राज्य - ओडिशा - 755012
275. केनरा बैंक
बड़ापाण्डुसर शाखा (डी पी कूट 5615)
पो बड़ापाण्डुसर ब्लॉक - नयागढ़ जिला -
नयागढ़
राज्य - ओडिशा - 752068
276. केनरा बैंक
बुधराजा शाखा (डी पी कूट 4917)
गुरु भवन, मेंन रोड पो सम्बलपुर
जिला - सम्बलपुर
राज्य - ओडिशा - 768004
277. केनरा बैंक
धामनगर शाखा (डी पी कूट 4922)
मेंन रोड, मेडिकल स्क्वायर, धामनगर जिला -
भद्रक
राज्य - ओडिशा - 756117
278. केनरा बैंक
कोठार शाखा (डी पी कूट 4924)
पो कोठार मेंन रोड जिला - भद्रक
राज्य - ओडिशा - 756118
279. केनरा बैंक
बलिअपाल शाखा (डी पी कूट 4925)
पो बलिअपाल जिला - बालेश्वर
राज्य - ओडिशा - 756026
280. केनरा बैंक
हॉडिभंगना शाखा (डी पी कूट 5826)
हॉडिभंगना ब्लॉक - केंदुझरगढ़ जिला - केओन्झार
राज्य - ओडिशा - 758031
281. केनरा बैंक
मिछापाली शाखा (डी पी कूट 5827)
मिछापाली ब्लॉक कॉमना जिला - नुआपड़ा
राज्य - ओडिशा - 766106
282. केनरा बैंक
कुसुमी शाखा (डी पी कूट 5857)

- गाँव कुसुमी ब्लॉक कुचिंडा जिला – संभलपुर
राज्य – ओडिशा – 768225
283. केनरा बैंक
पट्टामुण्डै शाखा (डी पी कूट 5928)
पो पट्टामुण्डै, कॉलेज रोड जिला – केन्द्रापड़ा
राज्य – ओडिशा – 754215
284. केनरा बैंक
बोनईगढ़ शाखा (डी पी कूट 5929)
मेंन रोड, पोस्ट ऑफिस के नज़दीक पो बोनईगढ़
जिला – सुंदरगढ़
राज्य – ओडिशा – 770038
285. केनरा बैंक
सोमनासासना शाखा (डी पी कूट 5930)
प्लाट नं 1446 / 1447, पो मुकुन्ददासपुर
बाया - पीपली जिला – खुर्दा
राज्य – ओडिशा – 752104
286. केनरा बैंक
महमदपुर शाखा (डी पी कूट 5934)
प्लाट नं 905, बलिहट जिला – कटक
राज्य – ओडिशा – 754134
287. केनरा बैंक
अस्तरंग शाखा (डी पी कूट 6015)
प्लाट नं 2267, पो अस्तरंग जिला – पुरी
राज्य – ओडिशा – 752109
288. केनरा बैंक
बरी शाखा (डी पी कूट 6044)
पो रामचंद्रापुर जिला – जाजपुर
राज्य – ओडिशा – 755003
289. केनरा बैंक
छतिअ शाखा (डी पी कूट 6047)
पो छतिअ जिला – जाजपुर
राज्य – ओडिशा – 754023
290. केनरा बैंक
कोचिंडा शाखा (डी पी कूट 6045)
पो कोचिंडा, बाई पास रोड जिला – संभलपुर
राज्य – ओडिशा – 766105
291. केनरा बैंक
नुआपदा शाखा (डी पी कूट 6046)
पो नुआपदा
जिला – जाजपुर
राज्य – ओडिशा – 766105
292. केनरा बैंक
गोपालपुर शाखा (डी पी कूट 5931)
पो कटक गोपालपुर
जिला – गोपालपुर
राज्य – ओडिशा – 766105
293. केनरा बैंक
बारंग शाखा (डी पी कूट 5932)
पो बारंग जिला – कटक बारंग
राज्य – ओडिशा – 766105
294. केनरा बैंक
गेटबाजार शाखा (डी पी कूट 5933)
पो गेटबाजार
जिला – गंजाम
राज्य – ओडिशा – 760001
295. केनरा बैंक
अट्टाबिरा शाखा (डी पी कूट 6104)
प्लाट नं 2170, पो अट्टाबिरा जिला – बारंगड
राज्य - ओडिशा - 768027
296. केनरा बैंक
भुवनेश्वर किट कॉम्पस शाखा
(डी पी कूट 4915)
प्लाट नं 215, किट कॉम्पस के निकट कॉम्पस II
पा – पटिया, भुवनेश्वर
जिला – खुर्दा
राज्य - ओडिशा - 751024
297. केनरा बैंक
बिजिपुर शाखा (डी पी कूट 6109)
सरस्वती निवास, बिजिपुर जंक्यान मेन रोड,
बेहरमपुर
जिला – गंजाम
राज्य - ओडिशा - 760003
298. केनरा बैंक
वासुदेवपुर शाखा (डी पी कूट 6123)

बासुदेवपुर पंचायत समिति मार्केट काम्प्लेक्स,
पो - बासुदेवपुर जिला - बारगड
राज्य - ओडिशा - 756125

अंचल कार्यालय : रायपुर (26)

299. केनरा बैंक
बागडूमर शाखा (डी पी कूट 4763)
नंदनी रोड पोस्ट : नंदनी, तह धामदा
जिला - दुर्ग (छग)
300. केनरा बैंक
भिलाई रिसाली शाखा (डी पी कूट 5858)
कृष्णा टाकीज रोड
आशीष नगर (पश्चिम) रिसाली, भिलाई
तह / जिला - दुर्ग (छग) 490006
301. केनरा बैंक
बिलासपुर राज किशोर नगर शाखा
(डी पी कूट 5648)
ए/28 राज किशोर नगर
गणेश स्वीट के पास बिलासपुर - 495006 (छग)
302. केनरा बैंक
बिटकुला शाखा (डी पी कूट 4262)
श्री रामेश्वर प्रसाद पाटनवार का मकान
वार्ड सं 2, मेन रोड पोस्ट : सांथी, तह : मस्तूरी
जिला - दुर्ग,
बिटकुला - 495559 (छग)
303. केनरा बैंक
दुर्ग पद्मनाभपुर शाखा (डी पी कूट 5731)
बसना मंगलम के बाजू में
जी के टॉवर, फुलगांव रोड पद्मनाभपुर
जिला - दुर्ग 491001 (छग)
304. केनरा बैंक
ऐरामसाही शाखा (डी पी कूट 4762)
पटेल मुहल्ला मेन रोड
पोस्ट / गाँव : ऐरामसाही तह : मस्तूरी
जिला - बिलासपुर 491001 (छग)
305. केनरा बैंक
गीदम शाखा (डी पी कूट 5577)
बस स्टैंड के पास
तह : गीदम, जिला : दंतेवाडा
गीदम 494441 (छग)

306. केनरा बैंक
जगदलपुर चित्रकूट रोड शाखा
(डी पी कूट 5986)
जी/1/ए एवं जी /1/बी
बिनाका मॉल, चित्रकूट रोड
जगदलपुर 494001 (छग)
307. केनरा बैंक
कॉंकेर शाखा (डी पी कूट 3482)
गिल्ली चौक, राठौर कॉंप्लेक्स
कॉंकेर - 494334 (छग)
308. केनरा बैंक
खरसिया शाखा (डी पी कूट 5535)
महात्मा गाँधी कॉलेज के पास
तह : खरसिया, जिला : रायगढ
खरसिया- 496661 (छग)
309. केनरा बैंक
कुम्हारी शाखा (डी पी कूट 5305)
जी ई रोड, पुराना कपडा मार्केट
तह : धामधा, जिला : दुर्ग
कुम्हारी - 490042 (छग)
310. केनरा बैंक
मनेंद्रगढ शाखा (डी पी कूट 4307)
211/2, भू तल वार्ड सं 1, अंबिकापुर रोड
जिला : कोरिया
मनेंद्रगढ - 497442 (छग)
311. केनरा बैंक
मोहंदी शाखा (डी पी कूट 5381)
ग्राम : मोहंदी, जिला : दुर्ग
मोहंदी - 490024 (छग)
312. केनरा बैंक
नारायणपुर शाखा (डी पी कूट 5425)
बस स्टैंड के पास, मेन रोड
जिला : नारायणपुर
नारायणपुर - 494661 (छग)
313. केनरा बैंक
रायपुर टाटीबंध शाखा (डी पी कूट 5307)
पी एच 103, जी ई रोड टीटीबंध, रायपुर -
492099 (छग)

314. केनरा बैंक
खुदरा आस्ति केंद्र शाखा (डी पी कूट 5285)
पुजारी चैंबरर्स, ब्लॉक सं बी / 1
पचपेढी नाका, रायपुर- 492001 (छग)
315. केनरा बैंक
रायपुर शंकर नगर शाखा (डी पी कूट 5732)
छोटी रेलवे लाईन के पास
मेन रोड, शंकर नगर
रायपुर - 492007 (छग)
316. केनरा बैंक
रायपुर सुंदर नगर शाखा (डी पी कूट 5647)
विनायक टॉवर्स
विद्या भवन के सामने महादेव घाट रोड,
सुंदर नगर
रायपुर - 492013 (छग)
317. केनरा बैंक
रायपुर ट्रांसपोर्ट नगर शाखा (डी पी कूट 5306)
प्लॉट सं डब्लू/37, ब्लॉक 11
ट्रांसपोर्ट नगर, रावनभाटा
रायपुर - 492099 (छग)
318. केनरा बैंक
रायपुर संतोषी नगर शाखा (डी पी कूट 5778)
मेन रोड, पुरानी धमतरी रोड मोती नगर,
सुंदर नगर
तह : खरसिया, जिला : रायगढ़
रायपुर - 492013 (छग)
319. केनरा बैंक
रसमेडा शाखा (डी पी कूट 4043)
745, संजय चौक तह एवं जिला : दुर्ग
रसमेडा - 491001 (छग)
320. केनरा बैंक
सारंगढ शाखा (डी पी कूट 5308)
प्रताप गंज, गढ चौक
तह : सारंगढ , जिला : रायगढ़
सारंगढ - 496445 (छग)
321. केनरा बैंक
शेर फी शाखा (डी पी कूट 5995)
सामुदायिक भवन गाँव : शेर, पोस्ट : कनेकेना
- तह एवं जिला : महासमुंद
शेर - 493445 (छग)
322. केनरा बैंक
सरायपाली शाखा (डी पी कूट 5423)
पद्मपुर रोड
पोस्ट / गाँव / तहसील : सरायपाली
जिला : महसमुंद
सरायपाली - 493558 (छग)
323. केनरा बैंक
तिल्दा नेवरा शाखा (डी पी कूट 5424)
किसान वस्त्रालय के सामने
मेन रोड, तिल्दा कैप
जिला : रायपुर
तिल्दा - 493114 (छग)
324. केनरा बैंक
सिमरिया शाखा (डी पी कूट 5380)
पंचायत भवन
ग्राम : सिमरिया, ब्लॉक धमधा जिला : दुर्ग
सिमरिया - 491332 (छग)
- अंचल कार्यालय : दिल्ली (18)**
325. केनरा बैंक
मोती नगर शाखा (डी पी कूट 5155)
प्लाट नं 1, डी एल एफ इंडस्ट्रीयल एरिया
मोती नगर
नई दिल्ली - 110015
326. केनरा बैंक
विश्वास नगर शाखा (डी पी कूट 5421)
26-23 गली नं 11, 60 फीट मेन रोड
विश्वास नगर, शाहदरा
नई दिल्ली - 110032
327. केनरा बैंक
लाडो सराय शाखा (डी पी कूट 5422)
एफ 213 ए/1, पुराना एम बी रोड
लाडो सराय
नई दिल्ली - 110030
328. केनरा बैंक
बधु सराय शाखा (डी पी कूट 5627)
के एच संचया 200 (2-4) गाँव बधु सराय

	तहसील कपासहेडा नई दिल्ली - 110071		आदर्श नगर नई दिल्ली - 110033
329.	केनरा बैंक बदरपुर शाखा (डी पी कूट 5799) 351, 352 एवं 353, बाँके लाल मार्केट तुलसी गंगा प्लाजा स्तंभ संख्या 24 के सामने बदरपुर नई दिल्ली - 110044	337.	केनरा बैंक जहाँगीरपुरी शाखा (डी पी कूट 5914) ए 28, रामगढ़ जहाँगीरपुरी नई दिल्ली - 110033
330.	केनरा बैंक मदीपुर शाखा (डी पी कूट 5799) डब्ल्यू जेड 663, मदीपुर नई दिल्ली - 110063	338.	केनरा बैंक मोहन गार्डन शाखा (डी पी कूट 6060) के 2/4, मोहन गार्डन उत्तम नगर नई दिल्ली - 110059
331.	केनरा बैंक मुलतान नगर शाखा (डी पी कूट 5801) बी 18 न्यू मुलतान नगर नई दिल्ली - 110056	339.	केनरा बैंक राणा प्रताप बाग शाखा (डी पी कूट 6061) डी 9 राणा प्रताप बाग (जी टी रोड) नई दिल्ली - 110007
332.	केनरा बैंक कोंडली शाखा (डी पी कूट 5866) इन्दल कॉम्प्लेक्स खसरा संख्या 207 मेन रोड कोंडली नई दिल्ली - 110096	340.	केनरा बैंक सी आर पार्क शाखा (डी पी कूट 6062) 1-1805 सी आर पार्क नई दिल्ली - 110019
333.	केनरा बैंक मित्राव शाखा (डी पी कूट 5867) खसरा संख्या 115, गांव एवं पोस्ट आफिस मित्राव नई दिल्ली - 110043	341.	केनरा बैंक राजनगर पालम शाखा (डी पी कूट 6063) आर जेड 12/ए मेन रेलवे स्टेशन रोड राजनगर 1, पालम कॉलोनी नई दिल्ली - 110077
334.	केनरा बैंक रोहिणी सेक्टर 24 शाखा (डी पी कूट 5868) प्लॉट संख्या 110 सेक्टर 24 पॉकेट 27 रोहिणी नई दिल्ली	342.	केनरा बैंक सेंट्रल मार्केट (लाजपत नगर) शाखा (डी पी कूट 6064) 1-87 लाजपत नगर नई दिल्ली - 110024
335.	केनरा बैंक महावीर एन्क्लेव शाखा (डी पी कूट 5869) आर जेड डी 2/65, हमफूल सिंह मार्केट महावीर एन्क्लेव नई दिल्ली - 110030	अंचल कार्यालय : गुलबर्गा (38)	
336.	केनरा बैंक आदर्श नगर शाखा (डी पी कूट 5913) ए 7 जी टी रोड	343.	केनरा बैंक अफलपुर शाखा (डी पी कूट 4714) मल्लिकार्जुन मंदिर के सामने जिला - बीदर राज्य - कर्नाटक - 585417
		344.	केनरा बैंक आलमेल शाखा (डी पी कूट 4658) भसमें कॉम्प्लेक्स, ग्राम पंचायत भवन के सामने जिला - बीजापुर राज्य - कर्नाटक - 586202

345. केनरा बैंक
औरद शाखा (डी पी कूट 3868)
बसवेश्वर सर्कल के पास, मेन रोड
जिला - बीदर
राज्य - कर्नाटक - 585326
346. केनरा बैंक
बागलकोट (एसबीईसी) शाखा
(डी पी कूट 8684)
श्री बश्वेश्वर इंजनीरिंग कॉलेज, विद्यानगर,
बागलकोट
जिला - बागलकोट
राज्य - कर्नाटक
347. केनरा बैंक
भीमनहळली शाखा (डी पी कूट 5348)
श्री सरणबवसवेश्वर निलय, एस वी मंदिर के पास
जिला - गुलबर्गा
राज्य - कर्नाटक - 585222
348. केनरा बैंक
ओल्ड सिटी शाखा (डी पी कूट 5344)
ओल्ड सिटी
जिला - बीदर
राज्य - कर्नाटक - 585401
349. केनरा बैंक
बीजापुर (एसएमई) शाखा (डी पी कूट 5046)
1280 / 1ए / 1ए, स्टेशन के पीछे का रोड
जिला - बीजापुर
राज्य - कर्नाटक - 586101
350. केनरा बैंक
बिळगी शाखा (डी पी कूट 4715)
मोदी कॉम्प्लेक्स, कनका सर्कल
जिला - बागलकोट
राज्य - कर्नाटक - 587116
351. केनरा बैंक
बोप्पुर शाखा (डी पी कूट 5349)
बोप्पुर, तालुका - सिंधनूर
जिला - रायचुर
राज्य - कर्नाटक
352. केनरा बैंक
चितागोप्पा शाखा (डी पी कूट 4660)
1/95, पहली मंजिल मेन रोड, चितागोप्पा
- जिला - बीदर
राज्य - कर्नाटक - 585412
353. केनरा बैंक
राम मंदिर, गुलबर्गा शाखा (डी पी कूट 6050)
राम मंदिर रोड मुकता टाकीज के सामने
जिला - गुलबर्गा
राज्य - कर्नाटक - 585103
354. केनरा बैंक
आदर्श नगर, गुलबर्गा शाखा (डी पी कूट 3245)
सीएमसी 4-601/14/आईसी / 5 मेन रोड
आदर्श नगर
जिला - गुलबर्गा
राज्य - कर्नाटक - 585105
355. केनरा बैंक
गंज रोड शाखा (डी पी कूट 5783)
मेन रोड, नेहरू गंज, गुलबर्गा
जिला - गुलबर्गा
राज्य - कर्नाटक - 585103
356. केनरा बैंक
पी डी ए इंजनीरिंग कॉलेज शाखा
(डी पी कूट 8683)
पी डी ए इंजनीरिंग कॉलेज, एवन-इ-शाही
जिला - गुलबर्गा
राज्य - कर्नाटक - 585103
357. केनरा बैंक
हुमनाबाद शाखा (डी पी कूट 3410)
हुमनाबाद
जिला - बीदर
राज्य - कर्नाटक
358. केनरा बैंक
हुनसगी शाखा (डी पी कूट 4661)
भवन नं 11-74/2 ग्रामपंचायत बिल्डिंग,
हुनसगी
जिला - यादगिर
राज्य - कर्नाटक - 585215
359. केनरा बैंक
हुन्नूर शाखा (डी पी कूट 3163)
हुन्नूर
जिला - बागलकोट
राज्य - कर्नाटक

360. केनरा बैंक
खडगंची शाखा (डी पी कूट 5109)
केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर
अलंद रोड, खडगंची
जिला - गुलबर्गा
राज्य - कर्नाटक - 585311
361. केनरा बैंक
केमभावी शाखा (डी पी कूट 4659)
सेल्लर सोनड कॉम्प्लेक्स, सोनड पेट्रोल बंक के
सामने
जिला - यादगिर
राज्य - कर्नाटक - 585216
362. केनरा बैंक
खणदाळ शाखा (डी पी कूट 8923)
खणदाळ, गुलबर्गा
जिला - गुलबर्गा
राज्य - कर्नाटक
363. केनरा बैंक
कुनिकेरा (गफ आई) शाखा (डी पी कूट 4025)
ग्राम पंचायत भवन मेन रोड, कुनिकेरा, तालुका -
कोप्पाल
जिला - कोप्पाल
राज्य - कर्नाटक - 583228
364. केनरा बैंक
लिंगसुगुर शाखा (डी पी कूट 4210)
02-13-127, बसवानगर
जिला - रायचुर
राज्य - कर्नाटक - 584112
365. केनरा बैंक
मानवी शाखा (डी पी कूट 5782)
रायचुर रोड, मानवी
जिला - रायचुर
राज्य - कर्नाटक - 584123
366. केनरा बैंक
मसाबिनाल शाखा (डी पी कूट 4024)
ग्राम पंचायत भवन पोस्ट मसबिनाल,
तालुका - बसवन
जिला - बीजापुर
राज्य - कर्नाटक - 586203
367. केनरा बैंक
मट्टिहाल शाखा (डी पी कूट 4716)
वीपीओ, मट्टिहाल
जिला - बीजापुर
राज्य - कर्नाटक - 586210
368. केनरा बैंक
मेडिकिन्हाल शाखा (डी पी कूट 5350)
मेडिकिन्हाल, रायचुर
जिला - रायचुर
राज्य - कर्नाटक
369. केनरा बैंक
मुद्देबिहाल शाखा (डी पी कूट 4713)
पहली मंजिल सीटीएस 2616, मेन रोड
को-ओ सोसायटी भवन मुद्देबिहाल
जिला - बीजापुर
राज्य - कर्नाटक - 585417
370. केनरा बैंक
मुढोल शाखा (डी पी कूट 5045)
सीटीएस न 4035/74ए महाराज कॉलोनी,
लोकापुर रोड
जिला - बगलकोट
राज्य - कर्नाटक - 587313
371. केनरा बैंक
मुगनूर (एफ आई) शाखा (डी पी कूट 5346)
मुगनूर
जिला - बागलकोट
राज्य - कर्नाटक
372. केनरा बैंक
नंदीकूर (एफ आई) शाखा (डी पी कूट 8830)
मेन रोड, नंदीकूर
जिला - गुलबर्गा
राज्य - कर्नाटक - 585102
373. केनरा बैंक
नंदीनगर शाखा (डी पी कूट 3158)
नंदीनगर, विश्वविद्यालय नंदीनगर
जिला - बीदर
राज्य - कर्नाटक - 585401
374. केनरा बैंक
नवानगर शाखा (डी पी कूट 4211)

- प्लाट नं डी 33 व 34 डी मॉडल, सेक्टर नं 25
नवानगर, बागलकोट
जिला - बागलकोट
राज्य - कर्नाटक - 587103
375. केनरा बैंक
पट्टण शाखा (डी पी कूट 8708)
मेन रोड, पट्टण
जिला - गुलबर्गा
राज्य - कर्नाटक - 585311
376. केनरा बैंक
रायचुर मुद्रा तिजोरी शाखा (डी पी कूट 8038)
गांधी चौक, रायचुर
जिला - रायचुर
राज्य - कर्नाटक - 584102
377. केनरा बैंक
रायचुर हैदराबाद रोड शाखा (डी पी कूट 3321)
ओ एफ कम्पाउंड, हैदराबाद रोड
जिला - रायचुर
राज्य - कर्नाटक - 584102
378. केनरा बैंक
रायचुर स्टेशन रोड शाखा (डी पी कूट 3062)
अम्बेडकर सर्कल के पास महात्मा गाँधी खेल
मैदान के सामने
जिला - रायचुर
राज्य - कर्नाटक - 584101
379. केनरा बैंक
संगम (एफ आई) शाखा (डी पी कूट 5347)
218, संगम क्रास, संगम, औरद तालुक
जिला - बीदर
राज्य - कर्नाटक - 585417
380. केनरा बैंक
सिरवाल (एफ आई) शाखा (डी पी कूट 3844)
मेन रोड, ग्राम सिरवाल, तालुका - शाहापुर
जिला - यादगिर
राज्य - कर्नाटक - 585223
- अंचल कार्यालय : इंदौर (11)**
381. केनरा बैंक
अंचल कार्यालय, इन्दौर (डी पी कूट 7934)
ओमेगा टॉवर, चतुर्थ तल
- 32, मेकेनिक नगर एक्सटेंशन, भमोरी
इन्दौर - 452010
382. केनरा बैंक
अलीराजपुर शाखा (डी पी कूट 4144)
126, सुभाष मार्ग, सोरबा रोड
अलीराजपुर
मध्य प्रदेश - 457887
383. केनरा बैंक
इन्दौर एयरपोर्ट रोड शाखा (डी पी कूट 5272)
सं 5, वेकेशनगर, एयरपोर्ट रोड
इन्दौर जिला
मध्य प्रदेश - 452005
384. केनरा बैंक
सोनकच शाखा (डी पी कूट 5559)
ओल्ड बेगम पम्प, एमजी रोड
सोनकच, जिला - देवास
मध्य प्रदेश - 455118
385. केनरा बैंक
तिमरनी शाखा (डी पी कूट 5560)
वार्ड नं 5, स्टेशन बस्ती रोड
तिमरनी, जिला - हरदा
मध्य प्रदेश - 461228
386. केनरा बैंक
ब्यावरा शाखा (डी पी कूट 5562)
41, डालचन्द टॉवर, पीपल चौराहा के पास
राजगढ़ रोड, जिला - राजगढ़
मध्य प्रदेश - 465674
387. केनरा बैंक
जावरा शाखा (डी पी कूट 5563)
मकान सं 37/1, सुतरीपुरा, जावरा
जिला - रतलाम
मध्य प्रदेश - 457226
388. केनरा बैंक
नागदा शाखा (डी पी कूट 5564)
रूपसुरी कॉम्प्लेक्स, महावीर भवन के पास
जवाहर मार्ग,
नागदा जिला - नागदा
मध्य प्रदेश - 465335

389. केनरा बैंक
इन्दौर राजेन्द्र नगर शाखा (डी पी कूट 5565)
572 व 573 दत्त नगर, राजेन्द्र नगर इन्दौर
मध्य प्रदेश - 452012
390. केनरा बैंक
इन्दौर एम आर 10 विजयनगर शाखा
(डी पी कूट 5566)
प्लॉट सं 4ईए, स्कीम सं 54, एम आर 10
स्पर्श अपार्टमेंट, इन्दौर
मध्य प्रदेश - 452010
391. केनरा बैंक
सुनेरा शाखा (डी पी कूट 5625)
खसरा सं 1066 व 1067
वार्ड सं 7, बुधवारिया बज़ार, सुनेरा
जिला - शाजापुर
मध्य प्रदेश - 465001
- अंचल कार्यालय : रॉन्ची (60)**
392. केनरा बैंक
कुजु शाखा (डी पी कूट 4217)
मेन रोड, कुजु, पो ऑ कुजु जिला - रामगढ़
झारखण्ड - 825316
393. केनरा बैंक
साहेबगंज शाखा (डी पी कूट 4324)
निचला तल्ला, जे एन रॉय रोड जिला - साहेबगंज
झारखण्ड - 816109
394. केनरा बैंक
गोड्डा शाखा (डी पी कूट 4325)
मेन रोड, कुजु, पो ऑ कुजु जिला - रामगढ़
झारखण्ड - 825316
395. केनरा बैंक
पाकुड़ शाखा (डी पी कूट 4326)
तीन बंगला, हरिडंगा बाज़ार मेन रोड
जिला - पाकुड़
झारखण्ड - 816107
396. केनरा बैंक
जामतारा शाखा (डी पी कूट 4327)
बस स्टैंड के समीप, दुमका रोड जिला - जामतारा
झारखण्ड - 815351

397. केनरा बैंक
एस एम ई चाईबासा शाखा (डी पी कूट 4515)
जैन मार्केट, चाईबासा जिला - पश्चिम सिंहभूम
झारखण्ड - 833201
398. केनरा बैंक
कोल्हण विश्वविद्यालय शाखा (डी पी कूट 4516)
चाईबासा
जिला - पश्चिम सिंहभूम
झारखण्ड - 833201
399. केनरा बैंक
राधानगर शाखा (डी पी कूट 4614)
वी पी ओ, राधानगर
जिला - बोकारो
झारखण्ड - 827010
400. केनरा बैंक
रामपुर शाखा (डी पी कूट 4615)
पो ऑ - मालहारा, रामपुर जिला - देवघर
झारखण्ड - 814157
401. केनरा बैंक
कुमारजुरी शाखा (डी पी कूट 4616)
पो ऑ मालकेरा, कुमारजुरी
जिला - धनबाद
झारखण्ड - 828304
402. केनरा बैंक
पारसबनिया शाखा (डी पी कूट 4617)
पो ऑ खासजीना गोरा, पारसबनिया
जिला - धनबाद
झारखण्ड - 828115
403. केनरा बैंक
सकरा शाखा (डी पी कूट 4618)
पो ऑ बाहरागोरा, सकरा
जिला - पूर्वी सिंहभूम
झारखण्ड - 832101
404. केनरा बैंक
सरौनीकालन शाखा (डी पी कूट 4619)
पो ऑ - हमारीबाग, सरौनीकालन
जिला - हजारीबाग
झारखण्ड - 825301

405. केनरा बैंक
मानहो शाखा (डी पी कूट 4620)
पो ऑ - हिरही, मानहो
जिला - लोहरदग्गा
झारखण्ड - 835302
406. केनरा बैंक
चेतर शाखा (डी पी कूट 4621)
चेतर, पो ऑ - रामगढ़
जिला - रामगढ़
झारखण्ड - 829122
407. केनरा बैंक
बनहारा शाखा (डी पी कूट 4622)
बनहारा, पो ऑ कॉके
जिला - राँची
झारखण्ड - 835222
408. केनरा बैंक
मालश्रृंग शाखा (डी पी कूट 4623)
वी पो ऑ मालश्रृंग
जिला - राँची
झारखण्ड - 835222
409. केनरा बैंक
कोरांजो शाखा (डी पी कूट 4624)
थेटायटानगर, कोरांजो
जिला - सिमडेगा
झारखण्ड - 835226
410. केनरा बैंक
कमारहातु शाखा (डी पी कूट 4625)
पो ऑ चाईबासा, कमरहातु
जिला - पश्चिम सिंहभूम
झारखण्ड - 833201
411. केनरा बैंक
बोकारो एस एम ई शाखा (डी पी कूट 4655)
सेक्टर IV सिटी सेंटर, प्लॉट सं बी 5
जिला - बोकारो
झारखण्ड - 827004
412. केनरा बैंक
नवाडीह शाखा (डी पी कूट 4656)
चीरा चास, मेन रोड, हरि मंदिर के समीप
नवाडीह
- जिला - बोकारो
झारखण्ड - 829144
413. केनरा बैंक
बेड़ो शाखा (डी पी कूट 4695)
जाम टोली रोड, बाज़ार समिति के सामने, बेड़ो
जिला - राँची
झारखण्ड - 835202
414. केनरा बैंक
बुंदु शाखा (डी पी कूट 4696)
सुभाष चौक, मेन मार्केट, बुंदु सी डी ब्लॉक, बुंदु
जिला - राँची
झारखण्ड - 835204
415. केनरा बैंक
डिगवाडीह शाखा (डी पी कूट 4897)
नानक निवास, पो ऑ - पोचारी, डिगवाडीह
जिला - धनबाद
झारखण्ड - 828306
416. केनरा बैंक
घाटशीला शाखा (डी पी कूट 4898)
गोयल कम्प्लेक्स, मेन रोड, घाटशीला
जिला - पूर्वी सिंहभूम
झारखण्ड - 832303
417. केनरा बैंक
गुमला शाखा (डी पी कूट 4899)
जाशपुर रोड, गुमला सी डी ब्लॉक
जिला - गुमला
झारखण्ड - 835207
418. केनरा बैंक
कतरास शाखा (डी पी कूट 4900)
प्रेम टॉवर, स्टेशन रोड, कतरास,
राघमारी सी डी ब्लॉक
जिला - धनबाद
झारखण्ड - 828113
419. केनरा बैंक
लतेहार शाखा (डी पी कूट 4901)
बस स्टैंड रोड, धरमपुर
जिला - लतेहार
झारखण्ड - 829206

420. केनरा बैंक
मधुपुर शाखा (डी पी कूट 4902)
सुभाष चौक, राजबारी रोड, मधुपुर
जिला - देवघर
झारखण्ड - 815353
421. केनरा बैंक
पतरातू शाखा (डी पी कूट 4903)
मेन रोड, पतरातू, पो ऑ - पतरातू
जिला - रामगढ़
झारखण्ड - 829118
422. केनरा बैंक
ब्राम्बे शाखा (डी पी कूट 4904)
वी पी ओ ब्राम्बे, मनडार सी डी ब्लॉक
जिला - राँची
झारखण्ड - 835205
423. केनरा बैंक
काँदरा शाखा (डी पी कूट 4905)
शैन इंटरनेशनल स्कूल, पेट्रोल पम्प के समीप मेन
हाईवे, काँदरा
जिला - सरायकेला खरसावाँ
झारखण्ड - 832402
424. केनरा बैंक
दंगुवापसी शाखा (डी पी कूट 4906)
बाज़ार मोहल्ला, दंगुवापसी जगन्नाथपुर
सी डी ब्लॉक
जिला - पश्चिम सिंहभूम
झारखण्ड - 833213
425. केनरा बैंक
गोला शाखा (डी पी कूट 4907)
मेन रोड गोला, गोला
जिला - रामगढ़
झारखण्ड - 829100
426. केनरा बैंक
हीरापुर शाखा (डी पी कूट 4908)
श्याम सरोवर, अभय सुंदरी स्कूल रोड, हीरापुर
जिला - धनबाद
झारखण्ड - 836001
427. केनरा बैंक
कदमा शाखा (डी पी कूट 4909)
- 1378, मित्तल बिल्डिंग, मेन रोड, कदमा,
जमशेदपुर
जिला - पूर्वी सिंहभूम
झारखण्ड - 831005
428. केनरा बैंक
सिमडेगा शाखा (डी पी कूट 5228)
शांति भवन अस्पताल, पो ऑ - ब्रीरु
जिला - सिमडेगा
झारखण्ड - 835228
429. केनरा बैंक
तुपुदाना शाखा (डी पी कूट 5229)
तुपुदाना चौक, पो ऑ हटिया
जिला - राँची
झारखण्ड - 834003
430. केनरा बैंक
चतरा शाखा (डी पी कूट 5230)
मारवाड़ी मोहल्ला, जैन मंदिर के समीप, चतरा
जिला - चतरा
झारखण्ड - 825401
431. केनरा बैंक
गढ़वा शाखा (डी पी कूट 5231)
साही जाना मोहल्ला, चिनमिया मोड़ के समीप
पुलिस स्टेशन के सामने
जिला - गढ़वा
झारखण्ड - 822114
432. केनरा बैंक
सेक्टर IV बोकारो शाखा (डी पी कूट 5313)
बी 5, सेक्टर IV सिटी सेंटर
जिला - बोकारो
झारखण्ड - 827004
433. केनरा बैंक
पदमपुर शाखा (डी पी कूट 5355)
ग्राम - पदमपुर, पो ऑ - जामिद
जिला - पश्चिम सिंहभूम
झारखण्ड - 833102
434. केनरा बैंक
टोकलो शाखा (डी पी कूट 5356)
पो ऑ - टोकलो, तेहसिल - चक्रधरपुर

- जिला - पश्चिम सिंहभूम
झारखण्ड - 833102
435. केनरा बैंक
धीपा शाखा (डी पी कूट 5357)
पो ऑ - बारपोश, तेहसिल - मनोहरपुर
जिला - पश्चिम सिंहभूम
झारखण्ड - 833104
436. केनरा बैंक
मासनजोर शाखा (डी पी कूट 5358)
पो ऑ - मासनजोर
जिला - दुमका
झारखण्ड - 814144
437. केनरा बैंक
समलापुर शाखा (डी पी कूट 5359)
बलियापुर प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर, सिंदरी,
पो ऑ समलापुर
जिला - धनबाद
झारखण्ड - 828122
438. केनरा बैंक
बेलडंगा शाखा (डी पी कूट 5360)
प्लॉट सं 1839, पाँदरा मोड़, बेलडंगा
पो ऑ - पोडडारडीह
जिला - धनबाद
झारखण्ड - 828205
439. केनरा बैंक
गोरतोप्पा शाखा (डी पी कूट 5361)
पो ऑ - गोरतोप्पा, गोविंदपुर
जिला - धनबाद
झारखण्ड - 828109
440. केनरा बैंक
बिरसा चौक शाखा (डी पी कूट 5362)
बिरसा चौक, पो ऑ हटिया
जिला - राँची
झारखण्ड - 834003
441. केनरा बैंक
जे एन कॉलेज शाखा (डी पी कूट 5365)
जे एन कॉलेज, चक्रधरपुर कॉलेज परिसर
जिला - पश्चिम सिंहभूम
झारखण्ड - 833102
442. केनरा बैंक
मालुका शाखा (डी पी कूट 5532)
निश्चिंतपुर, मालुका, पो ऑ - मालुका
जिला - पश्चिम सिंहभूम
झारखण्ड - 833203
443. केनरा बैंक
बाराखिड़ी शाखा (डी पी कूट 5585)
बाराखिड़ी, पो ऑ गोविन्दपुर
जिला - सरायकेला खरसावाँ
झारखण्ड - 831002
444. केनरा बैंक
सिनिसिदमा शाखा (डी पी कूट 5586)
सिनिसिदमा, थाना नं 331, पो ऑ तबलापुर
जिला - सरायकेला खरसावाँ
झारखण्ड - 833219
445. केनरा बैंक
बुढमु शाखा (डी पी कूट 5706)
ग्राम - बुढमु, पो ऑ बुढमु
जिला - राँची
झारखण्ड - 835214
446. केनरा बैंक
ओरमॉझी शाखा (डी पी कूट 5708)
ग्राम पो - ओरमॉझी
जिला - राँची
झारखण्ड - 835129
447. केनरा बैंक
छोटा गोविंदपुर शाखा (डी पी कूट 5795)
मेन रोड, छोटा गोविंदपुर, जमशेदपुर
जिला - पूर्वी सिंहभूम
झारखण्ड - 831015
448. केनरा बैंक
बरघुदुआ शाखा (डी पी कूट 5821)
मेन रोड, बरघुदुआ पतरातू पोस्ट
जिला - रामगढ़
झारखण्ड - 829118
449. केनरा बैंक
टी एम एच शाखा (डी पी कूट 8631)
टाटा मेमोरियल अस्पताल बिल्डिंग, बिष्टुपुर,
जमशेदपुर

जिला - पूर्वी सिंहभूम झारखण्ड - 831001	जिला - पुणे महाराष्ट्र - 412401
450. केनरा बैंक हरिहरगंज शाखा (डी पी कूट 5707) डाक बंगला रोड, सतगावाँ, पो ऑ - हरिहरगंज जिला - पलामू झारखण्ड - 822131	457. केनरा बैंक इगतपुरी शाखा (डी पी कूट 5606) एस आर नं 777 बार 1, रावत प्लाजा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वारचे पेठ, इगतपुरी जिला - नाशिक महाराष्ट्र - 422403
451. केनरा बैंक मिहिजाम शाखा (डी पी कूट 5709) स्टेशन रोड जामतारा, पो ऑ - मिहिजाम जिला - मिहिजाम झारखण्ड - 815354	458. केनरा बैंक सिन्नर शाखा (डी पी कूट 5607) महालक्ष्मी हाईट्स दामोदर निवास शॉप नं 1 से 5 लाल चौक, पोस्ट ऑफिस सिन्नर जिला - नाशिक महाराष्ट्र - 422103
अंचल कार्यालय : पुणे (20)	
452. केनरा बैंक घोडेगांव शाखा (डी पी कूट 5411) पोस्ट ऑफिस तहसील - शिरदगांव जिला - अहमदनगर महाराष्ट्र - 413701	459. केनरा बैंक पिंपलगांव बसवंत शाखा (डी पी कूट 5608) उद्योग भवन, देना बैंक के पास नेशनल हाईवे तालुका - निफाड, पिंपलगांव बसवंत जिला - नाशिक महाराष्ट्र - 422209
453. केनरा बैंक औरंगाबाद बीड बाई पास शाखा (डी पी कूट 5434) प्लॉट नं 31, रुतुपर्णा यशवंत नगर दत्ता मन्दिर के सामने गेट सं. 130, सातारा जिला - औरंगाबाद महाराष्ट्र - 431002	460. केनरा बैंक तुलजापुर शाखा (डी पी कूट 5613) एच नं 1305 बार 4, शुभमकरोती नलदुर्ग रोड भवानी लॉज के पास, तुलजापुर जिला - उस्मानाबाद महाराष्ट्र - 413601
454. केनरा बैंक चिखली शाखा (डी पी कूट 5435) पोस्ट ऑफिस - कारौली तहसील - इंदापुर जिला - पुणे महाराष्ट्र - 413104	461. केनरा बैंक गुडाघर शाखा (डी पी कूट 5638) श्री राजेन्द्र सीताराम अरिकर सीताराम कॉम्प्लेक्स पहली मंजिल, बाज़ार रोड, गुहाघर जिला - रत्नगिरि महाराष्ट्र - 415703
455. केनरा बैंक सिल्लोड शाखा (डी पी कूट 5462) विक्रांत कार्डस योगसिद्धि प्लाजा सर्राफा मार्केट जिला - औरंगाबाद महाराष्ट्र - 431112	462. केनरा बैंक खेड शाखा (डी पी कूट 5643) श्री दिलीप गांधी, एसआर नं 1726 बार 27 हुआत्मा अन्नत कनहेरे चौक मैन जिला - रत्नगिरि महाराष्ट्र - 415709
456. केनरा बैंक निमदरी शाखा (डी पी कूट 5463) विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी पोस्ट आफिस निमदरी, तहसील - जुन्नर	

463. केनरा बैंक
संगमेश्वर शाखा (डी पी कूट 5646)
श्री समर्थ कृपा निवास, मुंबई गोवा हाईवे
जिला - रत्नगिरी
महाराष्ट्र - 415611
464. केनरा बैंक
डिंदोरी शाखा (डी पी कूट 5658)
श्री स्वामी समर्थ ओल्ड बिल्डिंग नाशिक कलवाण
मैन रोड मार्केट
जिला - नाशिक
महाराष्ट्र - 422202
465. केनरा बैंक
अंबड शाखा (डी पी कूट 5759)
श्रीकृष्णा कॉम्प्लेक्स अंबड बस स्टेण्ड
जालना बीड रोड के सामने
जिला - जालना
महाराष्ट्र - 415611
466. केनरा बैंक
जामखेड शाखा (डी पी कूट 5760)
बस स्टेण्ड के सामने, आदर्श कॉम्प्लेक्स
अहमदनगर रोड
जिला - अहमदनगर
महाराष्ट्र - 413201
467. केनरा बैंक
तलेगांव दाभाडे शाखा (डी पी कूट 5938)
शांताई सिटी कॉम्प्लेक्स, नगर परिषद के पास
तालुका - मावल, जिला - पुणे
महाराष्ट्र - 410506
468. केनरा बैंक
परतुर शाखा (डी पी कूट 6002)
मैन रोड परतुर, तालुका परतुर, जिला जालना
जिला - परतुर
महाराष्ट्र - 431501
469. केनरा बैंक
वडाला महादेव शाखा (डी पी कूट 8755)
पोस्ट - श्रीरामपुर, तालुका - अहमदाबाद
जिला - अहमदनगर
महाराष्ट्र - 413739
470. केनरा बैंक
बदनापुर शाखा (डी पी कूट 5665)
- फुले नगर, जिला जालना, बदनापुर
जिला - जालना
महाराष्ट्र - 431202
471. केनरा बैंक
परभणी शाखा (डी पी कूट 5939)
दुर्गेश्वरी कॉम्प्लेक्स, सूर्या होस्पिटल के सामने
महारानी लक्ष्मीबाई रोड
जिला - परभणी
महाराष्ट्र - 431401
- अंचल कार्यालय : जालंधर (24)**
472. केनरा बैंक
अमृतसर रंजीत एवेन्यु शाखा (डी पी कूट 3143)
एससीओ 110, राज टावर्स, डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग
कॉम्प्लेक्स पासपोर्ट ऑफिस के नीचे, रंजीत एवेन्यु
जिला - अमृतसर
राज्य - पंजाब - 143001
473. केनरा बैंक
अजनाला शाखा (डी पी कूट 3145)
मेन बाज़ार, अमृतसर रोड पुलिस स्टेशन के पास,
अजनाला
जिला - अमृतसर
राज्य - पंजाब - 143102
474. केनरा बैंक
अमृतसर सूक्ष्म वित्त शाखा (डी पी कूट 3272)
गोपाल नगर
जिला - अमृतसर
राज्य - पंजाब - 143001
475. केनरा बैंक
अमृतसर वेरका शाखा (डी पी कूट 3300)
ठक्कर पैलेस के सामने
बटाला रोड, वेरका
जिला - अमृतसर
राज्य - पंजाब - 143501
476. केनरा बैंक
नांगली शाखा (डी पी कूट 3433)
जिला - अमृतसर
राज्य - पंजाब
477. केनरा बैंक
फतेहगढ़ चुडिआं शाखा (डी पी कूट 3549)
अजनाला रोड, बस स्टैंड के पास

- फतेहगढ़ चुडिआं, गुरदासपुर
राज्य - पंजाब - 143602
478. केनरा बैंक
एसएमई अमृतसर शाखा (डी पी कूट 3550)
ए 10/2, फोकल पाइंट
चौक जीटी रोड
जिला - अमृतसर
राज्य - पंजाब - 143001
479. केनरा बैंक
सूफी पिंड शाखा (डी पी कूट 3610)
मार्केट रोड
जिला - जालंधर गांव एवं पोस्ट - सूफी पिंड
राज्य - पंजाब - 144024
480. केनरा बैंक
गुरका शाखा (डी पी कूट 3611)
वीपीओ गुरका
जिला - जालंधर, राज्य - पंजाब - 144632
481. केनरा बैंक
गढ़शंकर शाखा (डी पी कूट 4196)
एलआईसी ऑफिस के पास
होशियारपुर रोड, गढ़शंकर
राज्य - पंजाब - 144527
482. केनरा बैंक
दीनानगर शाखा (डी पी कूट 4244)
केसर सिनेमा के समाने, दीनानगर
राज्य - पंजाब - 143531
483. केनरा बैंक
माहिलपुर शाखा (डी पी कूट 4245)
बिल्डिंग नं 340, बॉर्ड नं 5 चंडीगढ़ -
गढ़शंकर रोड
राज्य - पंजाब - 146105
484. केनरा बैंक
धारीवाल शाखा (डी पी कूट 4597)
गुरुद्वारे के पास, गोल्डन होटल
जी टी रोड, धारीवाल
राज्य - पंजाब - 143519
485. केनरा बैंक
बालाचौर शाखा (डी पी कूट 4601)
बॉर्ड नं 13, जी टी रोड टू होशियारपुर
- बालाचौर
राज्य - पंजाब - 144521
486. केनरा बैंक
मजीठा शाखा (डी पी कूट 4602)
होंडा एजेंसी के पास, मेन रोड
मजीठा
राज्य - पंजाब - 143601
487. केनरा बैंक
सुल्तानपुर शाखा (डी पी कूट 4604)
ढींगरा फर्नीचर हाउस के पास
कपूरथला रोड, सुल्तानपुर
राज्य - पंजाब - 144626
488. केनरा बैंक
मवाई शाखा (डी पी कूट 5386)
नूरमहल रोड, वीपीओ मवाई
राज्य - पंजाब - 144036
489. केनरा बैंक
भगवानपुर शाखा (डी पी कूट 5839)
जिला - जालंधर
राज्य - पंजाब
490. केनरा बैंक
काहलों शाखा (डी पी कूट 5840)
जिला - नवांशहर
राज्य - पंजाब
491. केनरा बैंक
आदमपुर शाखा (डी पी कूट 6034)
जिला - जालंधर
राज्य - पंजाब - 144102
492. केनरा बैंक
मुकेरियां शाखा (डी पी कूट 6035)
जिला - होशियारपुर
राज्य - पंजाब - 144211
493. केनरा बैंक
अंचल कार्यालय जालंधर (डी पी कूट 7931)
362-363, तृतीय तल
शक्ति मॉल, लाजपत नगर जालंधर
राज्य - पंजाब - 144001

494. केनरा बैंक
कपूरथला सुल्तानपुर रोड शाखा
(डी पी कूट 8586)
न्यू कैटोनमेंट, शॉप नं 18, 19, 20
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, केंद्रीय विद्यालय के पास
कपूरथला
राज्य - पंजाब - 144601

495. केनरा बैंक
लखनकलां शाखा (डी पी कूट 9037)
शेखों मार्केट, कपूरथला हमुई रोड
लखनकलां
राज्य - पंजाब

अंचल कार्यालय : चंडीगढ़ (16)

496. केनरा बैंक
मुथानवाली शाखा (डी पी कूट 5383)
कॉम्युनिटी हॉल, ग्राम पंचायत बिल्डिंग
आज़मवाला पी ओ मुथानवाली फ़ाज़िल्का तहसील
जिला - फ़ाज़िल्का
राज्य - पंजाब - 152121

497. केनरा बैंक
संधवान वाला उर्फ चुपकिति शाखा
(डी पी कूट 5385)
मलिनवाला रोड, बुध सिंह वाला पीओ
संधवान वाला उर्फ चुपकिति
मोगा तहसील
जिला - मोगा
राज्य - पंजाब - 142002

498. केनरा बैंक
गुरुहरसहाय शाखा (डी पी कूट 5539)
राम चौक, पुरानी अनाज मंडी गुरुहरसहाय
जलालबाद तहसील
जिला - फ़िरोज़पुर
राज्य - पंजाब - 152022

499. केनरा बैंक
बडसन शाखा (डी पी कूट 5540)
पटियाला रोड, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने
नाभा तहसील
जिला - पटियाला
राज्य - पंजाब - 147202

500. केनरा बैंक
जलालाबाद शाखा (डी पी कूट 5668)
न्यू पावर हाउस के सामने
सोनिया पम्प के पास
जिला - फ़ाज़िल्का
राज्य - पंजाब - 152024

501. केनरा बैंक
लालरु शाखा (डी पी कूट 5884)
राणा मार्केट, लालरु मंडी डेरी बस्सी तहसील
जिला - एस ए एस नगर
राज्य - पंजाब - 140501

502. केनरा बैंक
अम्लोड शाखा (डी पी कूट 5885)
बाई पास रोड, वार्ड नं 10 अम्लोह तहसील
जिला - फतेहगढ़ साहिब
राज्य - पंजाब - 147203

503. केनरा बैंक
जैतु शाखा (डी पी कूट 5886)
बाजा रोड, मेन बाज़ार जैतु तहसील
जिला - फरीदकोट
राज्य - पंजाब - 151202

504. केनरा बैंक
निहाल सिंहवाल शाखा (डी पी कूट 5887)
बरनाला रोड शरमन जैन स्वीट्स के सामने
निहाल सिंहवाल तहसील
जिला - मोगा
राज्य - पंजाब - 142055

505. केनरा बैंक
मौर शाखा (डी पी कूट 5888)
सद्दावना हाल के सामने, तलवंडी साबो तहसील
जिला - भटिंडा
राज्य - पंजाब - 151509

506. केनरा बैंक
बागा पुराना शाखा (डी पी कूट 5905)
मोगा रोड
बागा पुराना तहसील
जिला - मोगा
राज्य - पंजाब - 142038

507. केनरा बैंक
हसन भट्टी शाखा (डी पी कूट 6066)
फरीदकोट पीओ, फरीदकोट तहसील
जिला - फरीदकोट
राज्य - पंजाब - 151203
508. केनरा बैंक
अजितवाल शाखा (डी पी कूट 6067)
मुक्त शीदगुंज गुरुद्वारा के सामने रेलवे स्टेशन रोड
मोगा तहसील
जिला - मोगा
राज्य - पंजाब - 142053
509. केनरा बैंक
सुधार शाखा (डी पी कूट 6068)
गुरुसर सुधार कॉलेज के पास रायकोट तहसील
जिला - लुधियाना
राज्य - पंजाब - 141104
510. केनरा बैंक
मोहाली फोर्ज़ VI शाखा (डी पी कूट 8428)
मोहाली शिवालिक पब्लिक स्कूल
मोहाली, चंडीगढ़
राज्य - पंजाब
511. केनरा बैंक
काले बंदर शाखा (डी पी कूट 8749)
मुख्य गुरुद्वारा के सामने काले बंदर भगवान गढ़
जिला - भटिंडा
राज्य - पंजाब - 151001
- अंचल कार्यालय : हैदराबाद (11)**
512. केनरा बैंक
ईसिल एक्स रोड शाखा (डी पी कूट 5666)
285/6, सर्वे सं 285 ईसिल एक्स रोड
जिला - हैदराबाद
राज्य - तेलंगाना - 500062
513. केनरा बैंक
दम्मयगुडा शाखा (डी पी कूट 5901)
12 13 रघुराम रेड्डी नगर, दम्मयगुडा एक्स रोड्स
जिला - रंगा रेड्डी
राज्य - तेलंगाना - 500083
514. केनरा बैंक
जे एन टी यु कुक्कटपल्ली शाखा
(डी पी कूट 6026)
- एम ए जे 74, डी आर कॉलनी, रामायलेम मंदिर
के सामने जिला - हैदराबाद
राज्य - तेलंगाना - 500085
515. केनरा बैंक
जिल्ललगुडा शाखा (डी पी कूट 5489)
एच सं 96, गायत्री नगर, नागार्जुना स्कूल के
सामने, सागर रिंग रोड, जिल्ललगुडा
जिला - हैदराबाद
राज्य - तेलंगाना - 500097
516. केनरा बैंक
कर्मनघाट शाखा (डी पी कूट 5488)
कर्मनघाट एक्स रोड, कर्मनघाट मेन रोड,
हैदराबाद जिला - रंगा रेड्डी
राज्य - तेलंगाना - 500079
517. केनरा बैंक
ओल्ड बोवनपल्ली शाखा (डी पी कूट 5667)
1-10-317 बापुजी नगर, अशोक गार्डन के पास
बोवनपल्ली
जिला - हैदराबाद
राज्य - तेलंगाना - 500011
518. केनरा बैंक
पूलपल्ली शाखा (डी पी कूट 5903)
1-81 नारगुडा पूलपल्ली ग्राम पंचायत
नवाबपेट मंडल
जिला - रंगा रेड्डी
राज्य - तेलंगाना - 501101
519. केनरा बैंक
प्रगति नगर शाखा (डी पी कूट 4173)
प्लोट सं 1983 जी तल
श्रीकृष्णा मारेज हॉल के पास, इनकोईस सर्किल,
प्रगति नगर, जिला - हैदराबाद
राज्य - तेलंगाना - 500071
520. केनरा बैंक
शामिपेट शाखा (डी पी कूट 4171)
सब रजिस्ट्रार के कार्यालय के पास
शामिपेट
जिला - रंगा रेड्डी
राज्य - तेलंगाना - 500078

521. केनरा बैंक
शंकरपल्ली शाखा (डी पी कूट 4172)
89 रंगारेड्डी रोड, शंकरपल्ली
जिला – रंगा रेड्डी
राज्य - तेलंगाना - 501203
522. केनरा बैंक
टोलीचौकी शाखा (डी पी कूट 3459)
एच सं 9-4-76/2 सलीम मसूद कॉपलेक्स
बस स्टॉप के पीछे, टोलीचौकी
जिला – हैदराबाद
राज्य - तेलंगाना - 500080
- अंचल कार्यालय : कोलकाता (73)**
523. केनरा बैंक
बिधान नगर शाखा (डी पी कूट 4978)
एसी 4, सॉल्ट लेक सिटी सेक्टर – 1 भूतल
कोलकाता
जिला – कोलकाता
राज्य - पश्चिम बंगाल - 700064
524. केनरा बैंक
बाघाजतिन नगर शाखा (डी पी कूट 4984)
48, तालपुकुर बाघाजतिन स्टेशन रोड
बड़ेमसूर मौजा
जिला – 24 परगानास (दक्षिण)
राज्य - पश्चिम बंगाल - 700086
525. केनरा बैंक
डन्लप ब्रिज शाखा (डी पी कूट 4988)
डन्लप मोड, 157-2ए – जीएलटी रोड कोलकाता
जिला – कोलकाता
राज्य - पश्चिम बंगाल - 700108
526. केनरा बैंक
न्यू अलिपूर शाखा (डी पी कूट 4992)
100, सोमनाथ लाहिरी सरणी
जिला – कोलकाता
राज्य - पश्चिम बंगाल - 700053
527. केनरा बैंक
दक्षिणेश्वर शाखा (डी पी कूट 4999)
भूतल, 14 टी एन विश्वास रोड
जिला – कोलकाता
राज्य - पश्चिम बंगाल - 700035

528. केनरा बैंक
मिड् कॉर्पोरेट शाखा (डी पी कूट 5004)
7 किड स्ट्रीट, चौरिंधी जिला – कोलकाता
राज्य - पश्चिम बंगाल - 700016
529. केनरा बैंक
डायमंड हार्बर शाखा (डी पी कूट 4078)
केर ऑफ तापस कुमार हाल्दर न्यू टाऊन,
कापाताट पीओ, डायमंड हार्बर
जिला – 24 परगानास (दक्षिण)
राज्य - पश्चिम बंगाल
530. केनरा बैंक
आमतला शाखा (डी पी कूट 4079)
स्वागत बेडा, डायमंड हार्बर रोड
आमतला, ग्राम – उदयरामपुर पी ओ
जिला – 24 परगानास (दक्षिण)
राज्य - पश्चिम बंगाल - 743398
531. केनरा बैंक
माथाभांगा शाखा (डी पी कूट 4097)
पिश्चमपाडा, वार्ड सं 08, पीओ माथाभांगा
जिला – कूचबिहार
राज्य - पश्चिम बंगाल - 736146
532. केनरा बैंक
मेखलीगंज शाखा (डी पी कूट 4099)
वार्ड सं 7, पीडब्ल्यूडी रोड मेखलीगंज, जिला
कूचबिहार
जिला – कूचबिहार
राज्य - पश्चिम बंगाल - 735304
533. केनरा बैंक
मालबज़ार शाखा (डी पी कूट 4101)
होलिंडिंग सं 2/63, भूतल, काल्टक्स मोड पीओ
माल
जिला – जल्पाईगुडी
राज्य - पश्चिम बंगाल - 735221
534. केनरा बैंक
इस्लामपुर शाखा (डी पी कूट 4402)
न्यू टाऊन भवन, न्यू टाऊन रोड
इस्लामपुर देशबंधुपुरा पीओ, इस्लामपुर
जिला – उत्तर दिनाजपुर
राज्य - पश्चिम बंगाल - 733202

535. केनरा बैंक
काकद्वीप शाखा (डी पी कूट 4395)
अद्वैतकुमार मंडल, ग्राम गणेशपुर,
जीसरी घेरी पीओ
जिला - 24 परगानास (पूर्व)
राज्य - पश्चिम बंगाल -743347
536. केनरा बैंक
गंगारामपुर शाखा (डी पी कूट 4407)
वार्ड सं 16, राजीवपुर, गंगारामपुर
जिला - दक्षिण दिनाजपुर
राज्य - पश्चिम बंगाल - 733124
537. केनरा बैंक
अलिपूरद्वार शाखा (डी पी कूट 4100)
श्रीकृष्ण मार्केट कॉम्प्लेक्स, वार्ड सं 18
मारवाडीपल्ली, अलिपुरद्वार
जिला - अलिपूरद्वार
राज्य - पश्चिम बंगाल - 736121
538. केनरा बैंक
तूफानगंज शाखा (डी पी कूट 4098)
सुप्रितिक मांडु, वार्ड सं 2, मेईन रोड न्यू टाऊन,
होल्लिंग सं 596, पी ओ तूफानगंज
जिला - कूचबिहार
राज्य - पश्चिम बंगाल - 736160
539. केनरा बैंक
दिनहाटा शाखा (डी पी कूट 4096)
श्री बिमल साहा और श्री रतन साहा
ग्राम - गोसानी रोड, पोस्ट दिनहाटा
जिला - कूचबिहार
राज्य - पश्चिम बंगाल - 736135
540. केनरा बैंक
कालिंपोंग शाखा (डी पी कूट 4411)
9 वां मील शर्मा बिल्डिंग थानापाड़ा डायरी,
कालिंपोंग जिला - दार्जीलिंग
राज्य - पश्चिम बंगाल -734301
541. केनरा बैंक
चांचल शाखा (डी पी कूट 4408)
ग्राम व पीओ - चांचल (चांचल कॉलेज रोड)
जिला - मालदा
राज्य - पश्चिम बंगाल - 732123
542. केनरा बैंक
चांदमणी - 1 शाखा (डी पी कूट 5176)
ग्राम व पीओ - बतना, ब्लाक रातुआ - 1
डिविज़न चांचल, जिला - मालदा
राज्य - पश्चिम बंगाल - 732139
543. केनरा बैंक
पूतिमारी फूलेश्वरी शाखा (डी पी कूट 5179)
ग्राम व पीओ - पूतिमारी फूलेश्वरी,
ब्लॉक - कूचबिहार-1, सब डिव - कूचबिहार
जिला - कूचबिहार
राज्य - पश्चिम बंगाल - 736157
544. केनरा बैंक
भानुकुमारी - 2 शाखा (डी पी कूट 5178)
ग्राम - छट लालकुटी, पी ओ - नगर खाना
ब्लॉक - तूफानगंज - 2, सब डिव - तूफानगंज
जिला - कूचबिहार
राज्य - पश्चिम बंगाल - 736131
545. केनरा बैंक
सिलीगुडी एसएमई शाखा (डी पी कूट 5006)
इन्फिनिटी स्कॉयर, प्रथम तल
दूसरी मील, सेवक रोड
जिला - जलपाईगुडी
राज्य - पश्चिम बंगाल - 734401
546. केनरा बैंक
हाबड़ा शाखा (डी पी कूट 4980)
प्रथम तल, हाबड़ा बज़ार, वार्ड सं 3, जेसोर रोड
ग्राम - कामार्थुबा, पीओ हाबड़ा
जिला - 24 पारगानास (उत्तर)
राज्य - पश्चिम बंगाल - 743263
547. केनरा बैंक
बशीरहाट शाखा (डी पी कूट 4977)
भूतल ग्रम - मैत्रबाबान, पीओ - बशीरहाट कॉलेज
जिला - 24 परगानास (उत्तर)
राज्य - पश्चिम बंगाल - 743412
548. केनरा बैंक
बारासात छापाडाली मोड़ शाखा
(डी पी कूट 4976)

- भूतल 27/11, जेसोर रोड, बनमालीपुर, बारासात
जिला - बारासात
राज्य - पश्चिम बंगाल -700124
549. केनरा बैंक
मोआमारी शाखा (डी पी कूट 5180)
ग्राम - मोआमारी, पी ओ - दोमुख नायरहाट
पीएस - कोटावाली
जिला - कूचबिहार
राज्य - पश्चिम बंगाल - 736157
550. केनरा बैंक
अंबाड़ी शाखा (डी पी कूट 5181)
ग्र व पीओ - बाकालीर्माता, पीएस - कोटवाली
जिला - कूचबिहार
राज्य - पश्चिम बंगाल - 736133
551. केनरा बैंक
चिलखाना 2 शाखा (डी पी कूट 5182)
ग्राम व पी ओ - घँगाकोटी, ब्लॉक तूफानगंज 1
जिला - कूचबिहार
राज्य - पश्चिम बंगाल - 736159
552. केनरा बैंक
जालघर शाखा (डी पी कूट 5183)
ग्राम - चक्कासी, पीओ - बालूरघाट
ब्लॉक व सब डिव - बालूरघाट
जिला - दक्षिण दिनाजपुर
राज्य - पश्चिम बंगाल - 733101
553. केनरा बैंक
अशोकग्राम शाखा (डी पी कूट 5184)
ग्र व पीओ - अशोकग्राम, पीएस - गंगारामपुर
जिला - दक्षिण दिनाजपुर
राज्य - पश्चिम बंगाल - 733141
554. केनरा बैंक
बाधुन शाखा (डी पी कूट 5186)
ग्राम व पीओ - बाधुन ब्लॉक कुमारगंज
जिला - दक्षिण दिनाजपुर
राज्य - पश्चिम बंगाल - 733133
555. केनरा बैंक
पांजुल शाखा (डी पी कूट 5187)
- ग्रा व पीओ - फतेपुर पीएस - हिल्ली,
ब्लॉक - हिल्ली
जिला - दक्षिण दिनाजपुर
राज्य - पश्चिम बंगाल - 733126
556. केनरा बैंक
बापुजी शाखा (डी पी कूट 5188)
बपुजी ग्राम पंचायत 13, चांदीपुर बज़ार
पीओ - मणिक नगर, काकद्वीप
जिला - 24 परगानास (दक्षिण)
राज्य - पश्चिम बंगाल - 743374
557. केनरा बैंक
गाराचर्मा शाखा (डी पी कूट 5214)
सर्वे सं 1053 व 1054, अंदमान ट्रंक रोड,
गाराचर्मा
जिला - अंदमान व निकोबार द्वीप समूह
राज्य - पश्चिम बंगाल - 744105
558. केनरा बैंक
सोनारपुर शाखा (डी पी कूट 5764)
श्री श्री शारदा शिशु विद्यापीठ
श्री रामकृष्ण पल्ली, पीओ सोनारपुर
जिला - कोलकाता
राज्य - पश्चिम बंगाल - 700150
559. केनरा बैंक
मजिदबाड़ी शाखा (डी पी कूट 5771)
जीपी कार्यालय, ग्रा व पीओ - मजीदबाड़ी
पीएस - बसंती जिला - 24 परगानास (दक्षिण)
राज्य - पश्चिम बंगाल - 743312
560. केनरा बैंक
नाफरगंज शाखा (डी पी कूट 5715)
जीपी कार्यालय - ग्रा व पीओ - नाफरगंज,
पीएस बसंती
जिला - 24 परगानास (दक्षिण)
राज्य - पश्चिम बंगाल - 743312
561. केनरा बैंक
भाषिला शाखा (डी पी कूट 5773)
जीपी कार्यालय, भाषिला, पीएस - देगंगा
जिला - 24 परगानास (उत्तर)
राज्य - पश्चिम बंगाल - 743423

562. केनरा बैंक
पाईकपाड़ा शाखा (डी पी कूट 5816)
जीपी कार्यालय, पीओ - घाटबाऊर पीएस - बोंगा
जिला - 24 परगानास (उत्तर)
राज्य - पश्चिम बंगाल - 743235
563. केनरा बैंक
ज्योतिशपुर शाखा (डी पी कूट 5815)
जीपी कार्यालय, ग्राम - ज्योतिशपुर नूतुन हाट,
पीएस - बसंती
जिला - 24 परगानास (दक्षिण)
राज्य - पश्चिम बंगाल
564. केनरा बैंक
घाटबकुलतला शाखा (डी पी कूट 5817)
जीपी कार्यालय, ग्राम व पीओ - शरतनगर
जिला - 24 परगानास (दक्षिण)
राज्य - पश्चिम बंगाल - 743354
565. केनरा बैंक
हरिनबाड़ी शाखा (डी पी कूट 5806)
रामकरचार जीपी कार्यालय,
ग्राम व पीओ - हरिनबाड़ी पीएस - सागर
जिला - 24 परगानास (दक्षिण)
राज्य - पश्चिम बंगाल
566. केनरा बैंक
शंकरपुर शाखा (डी पी कूट 5812)
जीपी कार्यालय, ग्राम - दक्षिण बिरामपुर
पीओ उत्तर बिरामपुर वया धोलाहाट
जिला - 24 परगानास (दक्षिण)
राज्य - पश्चिम बंगाल - 743399
567. केनरा बैंक
उत्तर दुर्गापुर शाखा (डी पी कूट 5810)
जीपी कार्यालय, ग्राम - मथुरापुर
स्टेशन रोड, पीओ - मथुरापुर
जिला - 24 परगानास (दक्षिण)
राज्य - पश्चिम बंगाल - 743354
568. केनरा बैंक
उत्तर लक्ष्मीनारायणपुर शाखा
(डी पी कूट 5811)
- जीपी कार्यालय,
ग्रा. व पीओ - उत्तर लक्ष्मीनारायणपुर
जिला - 24 परगानास (दक्षिण)
राज्य - पश्चिम बंगाल - 743354
569. केनरा बैंक
नालुआ शाखा (डी पी कूट 5717)
जीपी कार्यालय नालुआ पीओ - नालुआ,
पीएस मथुरापुर
जिला - 24 परगानास (दक्षिण)
राज्य - पश्चिम बंगाल - 743354
570. केनरा बैंक
घोरादल शाखा (डी पी कूट 5772)
जीपी कार्यालय, माझेरघोरादल,
पीओ - घोरादल, पीएस - मथुरापुर
जिला - 24 परगानास (दक्षिण)
राज्य - पश्चिम बंगाल - 743354
571. केनरा बैंक
मंडलेरहाट शाखा (डी पी कूट 5769)
जीपी कार्यालय, 36 मंडलेरहाट, पीएस - कुलतली
जिला - 24 परगानास (दक्षिण)
राज्य - पश्चिम बंगाल
572. केनरा बैंक
काटामारी शाखा (डी पी कूट 5770)
जीपी कार्यालय, ग्राम व पीओ - कांतामारी
जिला - 24 परगानास (दक्षिण)
राज्य - पश्चिम बंगाल - 743349
573. केनरा बैंक
रामगोपालपुर शाखा (डी पी कूट 5716)
रामगोपालपुर जीपी कार्यालय, रामगोपालपुर
पीओ - हरेन्द्रनगर, पीएस धोलाहाट
जिला - 24 परगानास (दक्षिण)
राज्य - पश्चिम बंगाल
574. केनरा बैंक
चास्पाड़ा शाखा (डी पी कूट 5766)
गायेशबाड़ी जीपी कार्यालय, चास्पाड़ा,
वया कालीचाक
जिला - मालदा
राज्य - पश्चिम बंगाल - 732206

575. केनरा बैंक
पोपड़ा शाखा (डी पी कूट 5807)
जीपी कार्यालय, ग्राम व पीओ – पोपड़ा मालदा
जिला – मालदा
राज्य - पश्चिम बंगाल - 732141
576. केनरा बैंक
बामनग्राम शाखा (डी पी कूट 5768)
जीपी कार्यालय – बामनग्राम – पीओ, बामनग्राम
जिला – मालदा
राज्य - पश्चिम बंगाल - 732206
577. केनरा बैंक
श्रीरामपुर शाखा (डी पी कूट 5767)
श्रीरामपुर जीपी कार्यालय, पीओ – गाँधीनगर,
हबीबपुर
जिला – मालदा
राज्य - पश्चिम बंगाल - 732121
578. केनरा बैंक
हेमकुमारी शाखा (डी पी कूट 5718)
जीपी कार्यालय, हेमकुमारी, पीओ – हेमकुमारी
जिला – कूचबिहार
राज्य - पश्चिम बंगाल - 735122
579. केनरा बैंक
रामपुर शाखा (डी पी कूट 5719)
रामपुर जीपी, पीओ – लोहानंदा,
पीएस – रायगंज
जिला – उत्तर दिनाजपुर
राज्य - पश्चिम बंगाल - 733134
580. केनरा बैंक
बोआलदर शाखा (डी पी कूट 5720)
बोआलदर जीपी कार्यालय, पीओ खासपुर
बालूरघाट ब्लॉक
जिला – दक्षिण दिनाजपुर
राज्य - पश्चिम बंगाल - 733102
581. केनरा बैंक
सप्तीवाडी शाखा (डी पी कूट 5721)
गायेशवाडी जीपी कार्यालय, चास्पाड़ा,
वया कालीचाक जिला – मालदा
राज्य - पश्चिम बंगाल - 732206
582. केनरा बैंक
हबीबपुर शाखा (डी पी कूट 5722)
हबीबपुर जीपी कार्यालय, पीओ – हबीबपुर
जिला – मालदा
राज्य - पश्चिम बंगाल - 732122
583. केनरा बैंक
हटिंडा शाखा (डी पी कूट 5765)
अलीहांडा जीपी कार्यालय, पीओ – हटिंडा,
वया चांचल
जिला – मालदा
राज्य - पश्चिम बंगाल - 732122
584. केनरा बैंक
उत्तर बक्षीगंज शाखा (डी पी कूट 5805)
जीपी कार्यालय, ग्राम व पीओ – बक्षीगंजवया
हल्दीबाड़ी
जिला – कूचबिहार
राज्य - पश्चिम बंगाल - 735122
585. केनरा बैंक
देवनवास शाखा (डी पी कूट 5762)
जीपी कार्यालय, ग्राम- देवनवास,
पीओ – गीतालदाह, ब्लॉक – दिनहाटा 1
जिला – कूचबिहार
राज्य - पश्चिम बंगाल - 736175
586. केनरा बैंक
बारोसोलमारी शाखा (डी पी कूट 5763)
जीपी कार्यालय, ग्राम – बारोसोलमारी,
पीओ – सुवाचामिरपता
जिला – कूचबिहार
राज्य - पश्चिम बंगाल - 736135
587. केनरा बैंक
हेलपाकड़ी शाखा (डी पी कूट 5761)
जीपी कार्यालय, ग्राम व पीओ – हेलपाकड़ी
जिला – जलपाईगुडी
राज्य - पश्चिम बंगाल - 735306
588. केनरा बैंक
पश्चिम मगौरमाड़ी शाखा (डी पी कूट 5694)
जीपी कार्यालय, ग्राम-पश्चिम मगौरमाड़ी,
पीओ – कालीरहाट वया छूपगुडी

- जिला - जलपाईगुडी
राज्य - पश्चिम बंगाल -735210
589. केनरा बैंक
घनशहर शाखा (डी पी कूट 5814)
मझडा जीपी कार्यालय, घनशहर,
पीओ - बागसरैव वया - गजल
जिला - मालदा
राज्य - पश्चिम बंगाल - 732124
590. केनरा बैंक
गोरदौनी शाखा (डी पी कूट 5813)
जीपी कार्यालय, पीओ - बोकुलतलाहाट,
पीएस - जयनगर
जिला - 24 परगानास (दक्षिण)
राज्य - पश्चिम बंगाल - 743338
591. केनरा बैंक
चार विद्यारबाद शाखा (डी पी कूट 5809)
जीपी कार्यालय - चारविद्या पीओ - चारविद्या,
पीएस बसंती
जिला - 24 परगानास (दक्षिण)
राज्य - पश्चिम बंगाल - 743329
592. केनरा बैंक
फूलमलांचा शाखा (डी पी कूट 5808)
जीपी कार्यालय - पानिखाली,
पीओ - खालीसखली, पीएस - बसंती
जिला - 24 परगानास (दक्षिण)
राज्य - पश्चिम बंगाल - 743329
593. केनरा बैंक
जहांगीरपुर शाखा (डी पी कूट 5185)
ग्राम - रामदेवपुर, पीओ - जहांगीरपुर,
ब्लॉक - गंगारामपुर
जिला - दक्षिण दिनाजपुर
राज्य - पश्चिम बंगाल - 733124
594. केनरा बैंक
महेशतला एसएमई शाखा (डी पी कूट 5005)
ब्लॉक 91, न्यू बीरेन रॉय रोड, वार्ड सं 15
गनिपुर मूसा, पीएस - महेशतला
जिला - 24 परगानास (दक्षिण)
राज्य - पश्चिम बंगाल - 700141

595. केनरा बैंक
बनगांव शाखा (डी पी कूट 4975)
269/265/ए स्टेशन रोड, शिव मंदिर के समीप
पीएस - बनगांव, वार्ड सं 20 (14) बनगांव मौजा
जिला - 24 परगानास (उत्तर)
राज्य - पश्चिम बंगाल - 743235

अंचल कार्यालय : विशाखपट्टणम (35)

596. केनरा बैंक
एस एम ई विशाखपट्टणम शाखा
(डी पी कूट 4488)
49-52-5/4 श्रीकन्या टवर्स,
शांतिपुरम शंकरमठम रोड, अक्कय्यपालेम
विशाखपट्टणम
राज्य - आंध्र प्रदेश - 530016
597. केनरा बैंक
एस एम ई काकिनाडा शाखा (डी पी कूट 4487)
27-9-7 श्रीलक्ष्मी टवर्स, पुलवर्तिवारी स्ट्रीट
काकिनाडा
राज्य - आंध्र प्रदेश - 533001
598. केनरा बैंक
जे बी पुरम शाखा (डी पी कूट 4468)
2-8 पीओ चुक्कपल्ले, जे बी पुरम
राज्य - आंध्र प्रदेश - 531036
599. केनरा बैंक
टेक्कली शाखा (डी पी कूट 4563)
2-67 पुराना रा.मा. 5,
आरटीसी कॉम्प्लेक्स के सामने, टेक्कली
राज्य - आंध्र प्रदेश - 532201
600. केनरा बैंक
मंडपेटा शाखा (डी पी कूट 4477)
30-3-1, नगरपालिका कार्यालय रोड
मंडपेटा
राज्य - आंध्र प्रदेश - 533308
601. केनरा बैंक
अनपर्ती शाखा (डी पी कूट 4476)
6-248, शेषगिरिराव पेट
अनपर्ती
राज्य - आंध्र प्रदेश - 533342

602. केनरा बैंक
पेन्दुर्ती शाखा (डी पी कूट 4474)
17-90/13, भूतल, प्रधान रोड पेन्दुर्ती
राज्य - आंध्र प्रदेश - 531173
603. केनरा बैंक
नरसन्नपेटा शाखा (डी पी कूट 4472)
23-564 प्रथम तल, पल्लिपेट जंक्शन
नरसन्नपेटा
राज्य - आंध्र प्रदेश - 532421
604. केनरा बैंक
तुनी शाखा (डी पी कूट 4475)
नं 6-1-14, बेल्लपु वीधी
तुनी, पू गोदावरी जिला
राज्य - आंध्र प्रदेश - 533401
605. केनरा बैंक
गजपतिनगरम शाखा (डी पी कूट 4471)
6-896/1 मुख्य रस्ता गंगराजू
कलामंदिर के सामने
गजपतिनगरम
राज्य - आंध्र प्रदेश - 535270
606. केनरा बैंक
अच्युतापुरम शाखा (डी पी कूट 4930)
डो नं 3-254 प्रथम तल
पुराना एलमंचिलि रोड अच्युतपुरम
राज्य - आंध्र प्रदेश - 531011
607. केनरा बैंक
मधुरवाडा विशाखपट्टणम शाखा
(डी पी कूट 5211)
डो नं 3-73/1, एचआईजी 5,
मिथिलापुरिवाडा कॉलानी
मधुरवाडा विशाखपट्टणम
राज्य - आंध्र प्रदेश - 530041
608. केनरा बैंक
नविरि शाखा (डी पी कूट 5325)
1-1, जी एफ नविरि न्यू कॉलानी
कोत्तवलसा (पी ओ)
नविरि, विजयनगरम जिला
राज्य - आंध्र प्रदेश - 535501
609. केनरा बैंक
आर भीवरम शाखा (डी पी कूट 5326)
1/97 मुख्य रस्ता
रामालयम के पास
आर भीवरम
राज्य - आंध्र प्रदेश - 531032
610. केनरा बैंक
रामचन्द्रापुरम शाखा (डी पी कूट 5516)
भूतल, 26-01-35 ए, काकिनाडा रोड
रामचन्द्रापुरम, पू गोदावरी जिला
राज्य - आंध्र प्रदेश - 533255
611. केनरा बैंक
उंडूरु शाखा (डी पी कूट 8875)
भूतल, कोआपरेटिव सोसाइटी बिल्डिंग के पास
मुख्य रस्ता उंडूरु, पू गोदावरी जिला
राज्य - आंध्र प्रदेश
612. केनरा बैंक
मल्लवरम शाखा (डी पी कूट 9203)
डो नं 2-99, मुख्य रस्ता ए क मल्लवरम
राज्य - आंध्र प्रदेश - 533449
613. केनरा बैंक
गोकिवाडा शाखा (डी पी कूट 8877)
डो नं 6-48, मुख्य रस्ता गोकिवाडा पोस्ट
रमबिल्लि मंडल
राज्य - आंध्र प्रदेश - 531061
614. केनरा बैंक
शृंगवरपुकोटा शाखा (डी पी कूट 5599)
डो नं 12-138, भूतल, मुख्य रस्ता
शृंगवरपुकोटा एस कोटा पी ओ
राज्य - आंध्र प्रदेश - 535145
615. केनरा बैंक
सीतम्मधारा शाखा (डी पी कूट 5659)
डो नं 49-52 5/4, श्रीकन्या टवर्स
शंकरमठम रोड, अक्कय्यपालेम पोस्ट
विशाखपट्टणम तालूक
राज्य - आंध्र प्रदेश - 530016
616. केनरा बैंक
लासंसवे कॉलनी विशाखपट्टणम शाखा
(डी पी कूट 5660)

- डो नं 1-83-43 प्लाट नं 204/4, डबल रोड,
एलबी कॉलनी
विशाखपट्टणम तालूक
राज्य - आंध्र प्रदेश - 530017
617. केनरा बैंक
दोंडपर्ती विशाखपट्टणम शाखा
(डी पी कूट 5661)
डो नं 48-14-44 भूतल रामाटाकीस रोड
दोंडपर्ती पोस्ट, विशाखपट्टणम तालूक
राज्य - आंध्र प्रदेश - 530016
618. केनरा बैंक
पलासा काशीबुग्गा शाखा (डी पी कूट 5581)
भूतल डो नं 1-5-695, इंदिरा चौक, के टी रोड
पलासा
राज्य - आंध्र प्रदेश - 532221
619. केनरा बैंक
कोत्तवलसा शाखा (डी पी कूट 5736)
प्रथम तल, मुरुकूरि मानशन
मूड्स कार्यालय के सामने
मुख्य रस्ता, कोत्तवलसा
राज्य - आंध्र प्रदेश - 535183
620. केनरा बैंक
पालकॉंडा शाखा (डी पी कूट 5735)
2-47, श्रीनिवास कल्याण मंडपम कॉम्प्लेक्स
मूड्स कार्यालय के सामने
राजाम मुख्य रस्ता, पालकॉंडा
राज्य - आंध्र प्रदेश - 532440
621. केनरा बैंक
सोंपेटा शाखा (डी पी कूट 5737)
डो नं 15-78, भूतल चर्च स्ट्रीट, सोंपेटा
राज्य - आंध्र प्रदेश - 532284
622. केनरा बैंक
पिठापुरम शाखा (डी पी कूट 5935)
14-2-36, वी वी एस ग्रांड, वनपु वीधी
पार्क सेंटर, पिठापुरम
राज्य - आंध्र प्रदेश - 533450
623. केनरा बैंक
अनकापल्ली शाखा (डी पी कूट 6086)
- 9-20-1धू16 एन टी आर मार्केट यार्ड रिंग रोड
अनकापल्ली जिला, विशाखापट्टणम
राज्य - आंध्र प्रदेश
624. केनरा बैंक
सब्वरम शाखा (डी पी कूट 6028)
266/1, सब्वरम पंचायती, सब्वरम मंडल
विशाखपट्टणम जिला
राज्य - आंध्र प्रदेश
625. केनरा बैंक
नर्सीपट्टणम शाखा (डी पी कूट 6087)
1/173, अनकापल्ली रोड, नर्सीपट्टणम
विशाखपट्टणम जिला
राज्य - आंध्र प्रदेश
626. केनरा बैंक
आमुदालवलसा शाखा (डी पी कूट 5598)
90/3, भूतल वरदावारी बिल्डिंग, मुख्य रस्ता
आमुदालवलसा
राज्य - आंध्र प्रदेश - 532185
627. केनरा बैंक
विशालाक्षीनगर शाखा (डी पी कूट 6027)
डो नं 10-23, कैलासगिरि पोलिस क्वार्टर्स
जंक्शन विशालाक्षी नगर एरिया, विशाखपट्टणम
राज्य - आंध्र प्रदेश - 530043
628. केनरा बैंक
आदर्शनगर शाखा (डी पी कूट 6038)
5-569 रवीन्द्रनगर बस स्टाप,
पुराना डेयरी फार्म
आदर्शनगर विशाखपट्टणम
राज्य - आंध्र प्रदेश - 533040
629. केनरा बैंक
काकानीनगर शाखा (डी पी कूट 6085)
डो नं 21-212 एन ए डी पोस्ट, काकानी नगर
विशाखपट्टणम
राज्य - आंध्र प्रदेश - 530009
630. केनरा बैंक
मरिपालेम शाखा (डी पी कूट 6089)
साईलीला जगन्नाथ टावर्स, डो नं 58-14-
50/2/1&2
मरिपालेम, उडा लेआउट, प्लाट नं 19 व 20

विशाखपट्टणम

राज्य - आंध्र प्रदेश - 530009

अंचल कार्यालय : हुबबल्ली (14)

631. केनरा बैंक

नवलगुन्द शाखा (डी पी कूट 3039)

श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, गदग रोड, नवलगुन्द

जिला - धारवाड

राज्य - कर्नाटक - 582208

632. केनरा बैंक

हिरिमोराबा शाखा (डी पी कूट 5332)

मेन रोड, हिरिमोराबा जिला - हावेरी

राज्य - कर्नाटक - 581210

633. केनरा बैंक

अरलिमट्टि शाखा (डी पी कूट 5335)

मेन रोड अरलिमट्टि जिला - बेलगाम

राज्य - कर्नाटक - 591227

634. केनरा बैंक

मल्लापुर एस ए शाखा (डी पी कूट 5336)

मेन रोड मल्लापुर एस ए जिला - बेलगाम

राज्य - कर्नाटक - 591101

635. केनरा बैंक

कलघटगी शाखा (डी पी कूट 5339)

हुबबल्ली कारवाड रोड, कलघटगी

जिला - धारवाड

राज्य - कर्नाटक - 581204

636. केनरा बैंक

चिकोडी शाखा (डी पी कूट 5340)

प्लॉट नं 6703/1/पी 13, एस के कावातगीमठ

रोड जिला - बेलगाम

राज्य - कर्नाटक - 591201

637. केनरा बैंक

न्यामति शाखा (डी पी कूट 5341)

निचली मंजिल, ताडा कचेरी के विपरीत,

नेहरु रोड जिला - दावणगेरे

राज्य - कर्नाटक - 577223

638. केनरा बैंक

खानापुर शाखा (डी पी कूट 5752)

एस वार्ड नं 95ए, बेलगाम रोड, खानापुर

जिला - बेलगाम

राज्य - कर्नाटक - 591302

639. केनरा बैंक

हरिहर ओल्ड पी बी रोड शाखा

(डी पी कूट 5847)

के जी एन टावर, ओल्ड पी बी रोड, हरिहर

जिला - दावणगेरे

राज्य - कर्नाटक - 577601

640. केनरा बैंक

हनगल शाखा (डी पी कूट 5849)

3641/3641/4-1 जे एक एफ सी कोर्ट के नज़दीक

टी जी रोड, हनगल जिला - हावेरी

राज्य - कर्नाटक - 581104

641. केनरा बैंक

हनगवाडी शाखा (डी पी कूट 8701)

करिबसप्पा बिल्डिंग, हनगवाडी

जिला - दावणगेरे

राज्य - कर्नाटक - 577603

642. केनरा बैंक

बेलगाम वाडगॉव शाखा (डी पी कूट 5299)

एफएफ सिटी सर्वे नं 461, प्रथम तल दाता गल्ली,

वाडगॉव, बेलगाम जिला - बेलगाम

राज्य - कर्नाटक - 590005

643. केनरा बैंक

हुकेरी शाखा (डी पी कूट 5342)

सी टी एस नं 2399/1, कमल कॉम्प्लेक्स

जिला - बेलगाम

राज्य - कर्नाटक - 591309

644. केनरा बैंक

कगवाड शाखा (डी पी कूट 5848)

चिकोडी मिराज रोड मरिमहाराज रोड के नज़दीक

जिला - बेलगाम

राज्य - कर्नाटक - 591223

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Financial Services)**New Delhi, the 21st April, 2016

S.O. 751.— In pursuance of sub-rule(4) of rule 10 of the Official Languages(use for official purpose of the union) Rules, 1976,the Central Government, hereby notified the listed branches/offices of the following banks in the attached annexure,more than 80% of the staff whereof have acquired the working knowledge of hindi.

Serial No.	Name of the Banks	Number of Branches/offices
1.	Canara Bank	644
	Total	644

[F.No.11016/1/2015-OL(Noti.)]

Dr. VED PRAKASH DUBEY, Jt.Director(OL)

Circle Office : Shimoga (16)

1. Canara Bank
ARASALU BRANCH (D P Code 5387)
Main Road
Arasalu
Taluk - Hosanagar
Dist. - Shimoga
State - Karnataka
2. Canara Bank
ARALAPURA BRANCH
(D P Code 5390)
Main Road
Hodla – Aralapura
Taluk - Thirthahalli
Dist. Shimoga
State - Karnataka
3. Canara Bank
B BEERANAHALLI BRANCH
(D P Code 5396)
B Beeranahalli
Taluk – Shimoga
Dist. – Shimoga
State - Karnataka - 577227
4. Canara Bank
BHADRAVATHI HOSAMANE EXT.
BRANCH (DP Code 5945)
Bhadravathi
Taluk – Bhadravathi
Dist. Shimoga
State - Karnataka - 577301
5. Canara Bank
GODDANAKOPPA BRANCH
(DP Code 5388)
Goddanakoppa
Taluk – Shikaripura
Dist. Shimoga
State - Karnataka – 577427

6. Canara Bank
HITHLA BRANCH (DP Code 8857)
Hithla
Taluk – Shikaripura
Dist. Shimoga
State - Karnataka – 577123
7. Canara Bank
KAMMARADI BRANCH
(DP Code 5571)
Main Road, Kammaradi
Taluk – Koppa
Dist. Shimoga
State - Karnataka – 577123
8. Canara Bank
SHIMOGA KASHIPURA BRANCH
(DP Code 5237)
Aishwaryapada Archade
Kashipura Circle
Taluk – Shimoga
Dist. Shimoga
State - Karnataka – 577204
9. Canara Bank
S R ROAD BRANCH (DP Code 5236)
Subhadra Nilaya
Sangolli Rayanna Road
Taluk – Shimoga
Dist. Shimoga
State - Karnataka – 577201
10. Canara Bank
SHIMOGA GOPALA BRANCH
(DP Code 5946)
Gopala
Taluk – Shimoga
Dist. Shimoga
State - Karnataka – 577201
11. Canara Bank
BANNURU BRANCH
(DP Code 5391)
Bannuru
Taluk – N R Pura
Dist. Chickmagalur
State - Karnataka – 577172
12. Canara Bank
GUBBIGA BRANCH (DP Code 5393)
Gubbiga
Taluk – N R Pura
Dist. Chickmagalur
State - Karnataka – 577134
13. Canara Bank
INDAVARA BRANCH
(DP Code 5389)
Indavara
Taluk – Chickmagalur
Dist. Chickmagalur
State - Karnataka – 577101

- | | |
|--|--|
| <p>14. Canara Bank
JOGANNANAKERE BRANCH
(DP Code 5536)
Joggannanakere
Taluk – Mudigere
Dist. Chickmagalur
State - Karnataka – 577132</p> <p>15. Canara Bank
KELAGOOOR BRANCH (DP Code 5392)
Kelagoor
Taluk – Chickmagalur
Dist. Chickmagalur
State - Karnataka – 577111</p> <p>16. Canara Bank
PATTANAGERE BRANCH
(DP Code 5394)
Pattanagere
Taluk – Kadur
Dist. Chickmagalur
State - Karnataka – 577548</p> | <p>21. Canara Bank
MANJERI GOVT. MEDICAL COLLEGE BRANCH
(DP Code 5010)
Govt. Medical College Manjeri
PO Manjeri
Dist. - Malappuram
State - Kerala – 676121</p> <p>22. Canara Bank
EDAPATTA BRANCH
(DP Code 5417)
Near Edapatta Village Office
Edapatta, Perinthalmanna
Dist. - Malappuram
State - Kerala – 679326</p> <p>23. Canara Bank
THARUVANA BRANCH
(DP Code 5011)
Manathavady Road
Tharuvana
Dist. - Waynad
State - Kerala – 670645</p> |
| <u>Circle Office : Calicut (13)</u> | |
| <p>17. Canara Bank
PERALASSERY BRANCH
(DP Code 4752)
Bldg. No. PP IX-185/C,
Opp. Panchayath Office
Near Peralassery Temple,
High School Road
Peralassery
Dist. - Kannur
State - Kerala – 670622</p> <p>18. Canara Bank
KADIRUR BRANCH (DP Code 4699)
KP XIII – 812, 813,
Vrindavan Complex
Kadirur P O Kadirur
Thalassery
Dist. - Kannur
State - Kerala – 670642</p> <p>19. Canara Bank
PARAPPANANGADI BRANCH
(DP Code 4701)
PP V/567 ABC TO V, Beach Road
Parappanangadi
Dist. - Malappuram
State - Kerala – 676303</p> <p>20. Canara Bank
KARAPARAMBA BRANCH
(DP Code 4885)
2/163, Samam Complex,
Near Homeo Medical College
Karaparamba
Dist. - Calicut
State - Kerala – 673010</p> | <p>24. Canara Bank
CHORODE BRANCH
(DP Code 5418)
Kasthuri Buildings, Kainatty Badagara
Dist. - Calicut
State - Kerala – 673106</p> <p>25. Canara Bank
KOZHICHENA BRANCH
(DP Code 5419)
Door No.1484, Mundassery Tower
Thazhe Kozhichena
Dist. - Malappuram
State - Kerala – 676508</p> <p>26. Canara Bank
NALLALAM BRANCH
(DP Code 5420)
M T Tower, Jayanthi Road Jn.
Nallalam
Dist. - Kozhikode
State - Kerala – 673027</p> <p>27. Canara Bank
PONMALA BRANCH
(DP Code 5626)
Varikkodan Building
Pallipady, P O Ponmala
Dist. - Malappuram
State - Kerala – 676528</p> <p>28. Canara Bank
MELATTUR BRANCH
(DP Code 5542)
Varikkonden Arcade, Nearly Rly. Gate
Melattur
Dist. - Malappuram
State - Kerala – 679326</p> |

29. Canara Bank
PARAMBIL BAZAR BRANCH
(DP Code 4884)
P K Building, Palethe Paramba
Near Prabhatam Vayanasala
Parambil Post
Dist. - Kozhikode
State - Kerala - 673012
36. Canara Bank
MURTIJAPUR BRANCH
(DP Code 5818)
Ashirwad Height, Near Baban Hospital,
Plot No.1
Murtijapur, Akola
Dist. - Akola
State - Maharashtra - 444501

Circle Office : Meerut (05)

30. Canara Bank
KHATAULI BRANCH
(DP Code 5027)
Main Gate Road
Near Indra Murti Holi Chowk
Dist. - Muzaffarnagar
State - Uttar Pradesh - 251201
31. Canara Bank
SARDHANA BRANCH
(DP Code 5026)
Near Prabhat Nagar
Binauli Road
Sardhana
Dist. - Meerut
State - Uttar Pradesh - 250342
32. Canara Bank
BHANGEL BRANCH
(DP Code 5548)
R C Market, Main Road
Bhangel, Noida
Dist. - G B Nagar
State - Uttar Pradesh - 201305
33. Canara Bank
KANTH BRANCH (DP Code 5028)
Vishanpura Estate Building
Kanth
Dist. - Moradabad
State - Uttar Pradesh - 244501
34. Canara Bank
BHOPURA BRANCH
(DP Code 5550)
Main Road Bhopura
Sri Sai Jyoti Automobiles
Dist. - Ghaziabad
State - Uttar Pradesh - 201001
37. Canara Bank
NAGPUR BALAJI NAGAR BRANCH
(DP Code 5846)
Radke Layout, Plot No.1, Beside
Bharat Petroleum
Hingan Ghat Road, Balaji Nagar,
Nagpur
Dist. - Nagpur
State - Maharashtra - 440016
38. Canara Bank
NAGPUR SOMALWADA BRANCH
(DP Code 5991)
47, Ujjwal Nagar, Somalwada
Wardha Road, Nagpur
Dist. - Nagpur
State - Maharashtra - 440023
39. Canara Bank
KARANJA BRANCH (DP Code 5998)
Old Shashikant Talkies Road
Karanja, Washim
Dist. - Washim
State - Maharashtra - 444105
40. Canara Bank
WANI BRANCH (DP Code 5820)
Venkatesh Temple, Main Road
Tehsil Wani, Yavatmal
Dist. - Yavatmal
State - Maharashtra - 445304
41. Canara Bank
WARUD BRANCH (DP Code 5819)
Jagruti Vidyalay, Indira Chowk
Ring Road, Warud, Amravati
Dist. - Amravati
State - Maharashtra - 444906
42. Canara Bank
AKOLA JATHARPETH BRANCH
(DP Code 5498)
Shubh Mangal, Jatharpeth Road
Akola
Dist. - Akola
State - Maharashtra - 444005

Circle Office : NAGPUR (18)

35. Canara Bank
PATUR BRANCH (DP Code 5257)
Janashree, Plot No.23, Ward No.1
Near Rathore Complex, Washim Road
43. Canara Bank
DEOLI BRANCH (DP Code 5500)

- M M Kirana Store, Thakre Chowk
Near Bank of Baroda, Deoli Wardha
Dist. - Wardha
State -Maharashtra - 442101
44. Canara Bank
NAGPUR HUDKESHWAR BRANCH
(DP Code 5499)
Plot No.9, Chandrakiran Nagar,
Hudkeshwar Road
Nagpur
Dist. - Nagpur
State -Maharashtra - 440034
45. Canara Bank
MAJITPUR BRANCH
(DP Code 5379)
Village & Tehsil Majitpur Gondia
Dist. - Gondia
State -Maharashtra - 441603
46. Canara Bank
SAKOLI BRANCH (DP Code 5533)
Near Bus Stop, Nursery Colony
Main Road, Sakoli, Bhandara
Dist. - Bhandara
State -Maharashtra - 441802
47. Canara Bank
AKOT BRANCH (DP Code 5497)
Sai Residency, Plot No.15
Street 10, Wakaria, Akot, Akola
Dist. - Akola
State -Maharashtra - 444101
48. Canara Bank
AMGAON BRANCH (DP Code 5534)
H.No.702/34, Main Road, Ward No.2
Amgaon, Gondia
Dist. - Gondia
State -Maharashtra - 441902
49. Canara Bank
THANA JAWAHAR NAGAR BRANCH (DP
Code 5623)
Near Thana Petrol Pump
Thana Jawahar Nagar, Bhandara
Dist. - Bhandara
State -Maharashtra - 441906
50. Canara Bank
DEORI BRANCH (DP Code 5501)
Plot No.65, N H No.6,
Opp. Tehsil Office
Deori
Dist. - Gondia
State -Maharashtra - 441901
51. Canara Bank
MOUDA BRANCH (DP Code 6069)
In Front of M.S.E.B. Office,
Bhandara Road
Mouda
- Dist. - Nagpur
State -Maharashtra - 441104
52. Canara Bank
TIRODA BRANCH (DP Code 6077)
Diamond Tower, Sahakar Nagar
Shaheed Mishra Ward, GTT Road
Dist. - Gondia
State -Maharashtra - 441911
- Circle Office : Karnal (07)**
53. Canara Bank
HISSAR SEC-14 BRANCH
(DP Code 5525)
SCO - 11, Sec.14 Hissar
Hissar
Dist. - Hissar
State -Haryana - 125001
54. Canara Bank
ISMAILABAD BRANCH
(DP Code 5825)
Near SBI, Ismailabad
Kurukshetra
Dist. - Kurukshetra
State -Haryana - 136129
55. Canara Bank
KARNAL HANSI ROAD BRANCH
(DP Code 5845)
No.32/7 (Old No.6), Hansi Road
Opp. Nirankari Bhavan, Karnal
Dist. - Karnal
State -Haryana - 132001
56. Canara Bank
PUNDRI BRANCH (DP Code 5859)
SCO 51, Huda Market
Pundri
Dist. - Kaithal
State -Haryana - 136026
57. Canara Bank
PANCHKULA SEC-19 BRANCH
(DP Code 5824)
SCO-69, SEC-19
Panchkula
Dist. - Panchkula
State -Haryana - 134109
58. Canara Bank
PINJORE BRANCH (DP Code 6021)
1584/B-1, Abdullapur,
Adjacent Easy Day
Kalka, Shimla Highway
Dist. - Panchkula
State -Haryana - 134102
59. Canara Bank
MANSA DEVI COMPLEX SECTOR-5
BRANCH (DP Code 6022)

S.C.O – 128, Sector-5,
Mansa Devi Complex
Panchkula
Dist. - Panchkula
State –Haryana – 134114

Circle Office : AHMEDABAD (16)

60. Canara Bank
C G BRANCH (DP Code 4826)
Chaitanya Tower Ground Floor,
Opp. Maradia Tower
Besides Jasubhai Jewellers,
C G Road, Ahmedabad
Dist. - Ahmedabad
State –Gujarat – 380009

61. Canara Bank
NEW RANIP BRANCH
(DP Code 4820)
No.12A to 19, Home Town 3,
Opp. Alok Bungalows
NR GST Crossing, New Ranip
Dist. - Ahmedabad
State –Gujarat – 382470

62. Canara Bank
MOTERA BRANCH (DP Code 4819)
Ground Floor, Opp. Shruti Arcade
NR HP Petrol Pump,
Motera, Ahmedabad
Dist. - Ahmedabad
State –Gujarat – 380005

63. Canara Bank
GODHRA BRANCH (DP Code 4824)
Ground Floor, Opp. HDFC Bank
LIC Road Godhra, Ahmedabad
Dist. - Ahmedabad
State –Gujarat – 389001

64. Canara Bank
UNJHA BRANCH (DP Code 3810)
Saralisa Complex, Station Road
Near SBI Unja, Ahmedabad
Dist. - Mehsana
State –Gujarat – 384001

65. Canara Bank
GANDHI ASHRAM BRANCH
(DP Code 5691)
Opp. Gandhi Ashram, Sabarmati
Harijan Ashram, Ahmedabad
Dist. - Ahmedabad
State –Gujarat – 380007

66. Canara Bank
SIDHHPUR BRANCH
(DP Code 5690)
Tirupati Plaza, Ground Floor,
No.120-124
Sidhhpur GIDC Road, Ahmedabad
Dist. - Patan
State –Gujarat – 384151

67. Canara Bank
PETLAD BRANCH (DP Code 4542)
Ground Floor, Hast Sharan Complex
Opp. Hast Complex, Station Road,
Petlad, Ahmedabad
Dist. - Anand
State –Gujarat – 388450

68. Canara Bank
GORWA BRANCH (DP Code 4828)
Ground Floor, Shop No.467
Trinity Complex
New IPCL Road, Gorwa, Vadodara
Dist. - Vadodara
State –Gujarat – 390016

69. Canara Bank
VASTRAL BRANCH (DP Code 4822)
Sarovar 4, Near Galaxy Township
RAF Camp, S P Ring Road,
Vastral, Ahmedabad
Dist. - Ahmedabad
State –Gujarat – 390123

70. Canara Bank
LAMBHA BRANCH (DP Code 4533)
Rudra Greens, Lambha Road,
Near Old Narol Court
Lambha Dis, Ahmedabad
Dist. – Lambha Ahmedabad
State –Gujarat – 382405

71. Canara Bank
KATHWADA BRANCH
(DP Code 4534)
Opp. Pashupatinath Mahadev Temple
Kathwada Road, Ahmedabad
Dist. –Ahmedabad
State –Gujarat – 382430

72. Canara Bank
VAPI BRANCH (DP Code 4543)
Shop No.12 13 14, Fortune SQR,
Srvy No.110/A/2
Chala, Nr. Primary School,
Vapi, Ahmedabad
Dist. –Valsad
State –Gujarat – 396191

73. Canara Bank
BAYAD BRANCH (DP Code 4536)
Shop No. 1 to 5, Pawan Plaza
Modasa Road, Dist. Sabarkantha, Bayad
Dist. – Aravalli
State –Gujarat – 382470

74. Canara Bank
PRAHLADNAGAR BRANCH
(DP Code 4821)
Ground Floor, Parshwanath Esquare
Corporate Road Prahladnagar, Ahmedabad
Dist. – Ahmedabad
State –Gujarat – 380015

75. Canara Bank
VERAVAL BRANCH
(DP Code 4829)
Amrutdeep Rajmahal Road
Dist., Junagadh Veraval, Ahmedabad
Dist. – Gir Somnath
State –Gujarat – 362265

Circle Office : BANGALORE METRO (09)

76. Canara Bank
BIAL BRANCH (DP Code 3025)
Airline Landside Offices
BIAL Campus, Devanahalli
Dist. – Bangalore
State – Karnataka – 560300

77. Canara Bank
DOMMASANDRA BRANCH
(DP Code 4789)
No.79/1, Opp. R K Complex
Dommasandra Circle,
Dommasandra Post
Dist. – Bangalore
State – Karnataka – 562125

78. Canara Bank
SHIVAKOTE BRANCH
(DP Code 5370)
S G S Building, Hesarghatta Road
Shivakote
Dist. – Bangalore North
State – Karnataka – 560089

79. Canara Bank
CHIKKABANAVARA BRANCH
(DP Code 5597)
No.1052, 80 Feet Road
3rd Stage AGB
(Aatmiya Geleyara Balaga) Layout
Hesaraghatta Main Road
Dist. – Bangalore
State – Karnataka – 560090

80. Canara Bank
YADAVANAHALLI BRANCH
(DP Code 5911)
The Oxford Medical College Hospital
& Research Centre
Yadavanahalli Post
Dist. – Bangalore
State – Karnataka – 562107

81. Canara Bank
KALKERE BRANCH
(DP Code 5910)
K. S. Muniyappa Building
K Channasandra Main Road
399/1, Kalkere, Horamavu Post
Dist. – Bangalore
State – Karnataka – 560043

82. Canara Bank
KUMBALAGODU SME BRANCH
(DP Code 4799)
Survey No.24/12, No.236, II Block
Kumbalagodu, Kengri Hobli
Dist. – Bangalore
State – Karnataka – 560074

83. Canara Bank
YELACHANAHALLI SME BRANCH
(DP Code 4798)
No.25/5B/3, Shree Madeswari Complex
Yelachanahalli Kanakapura Main Road
Dist. – Bangalore
State – Karnataka – 560078

84. Canara Bank
SINGASANDRA BRANCH
(DP Code 4785)
37/1, Singasandra
Hosur Main Road
Dist. – Bangalore
State – Karnataka – 560068

Circle Office : Patna (45)

85. Canara Bank
RAJGIR Branch (D P Code 4569)
Dharamshala Road
Post & P S - Rajgir
Dist : Nalanda
State : Bihar - 803116

86. Canara Bank
SABOUR Branch (D P Code 4948)
N H 80 Main Road
Post & P S - Sabour
Dist : Bhagalapur
State : Bihar - 813210

87. Canara Bank
SME Branch HAJIPUR
(D P Code 4960)
Devanti Complex Paswan Chowk
Post & P S - Hajipur
Dist : Vaishali
State : Bihar - 844101

88. Canara Bank
KANTI Branch (D P Code 4189)
Hospital Road, Nagar Panchayat
Post & P S - Kanti
Dist : Muzaffarpur
State : Bihar - 843109

89. Canara Bank
MAHADAPUR Branch
(D P Code 4575)
Post Mahadapur
P S - Singhoul
Dist : Begusarai
State : Bihar - 851134

- | | |
|---|---|
| <p>90. Canara Bank
BAIRGACHHI Branch
(D P Code 4577)
Post - Gachhpara
P S - Kishanganj
Dist : Kishanganj
State : Bihar - 855107</p> <p>91. Canara Bank
HARNOUT Branch (D P Code 4953)
Chandi More, Near Kalisthan
Post & P S - Harnout
Dist : Nalanda
State : Bihar - 803110</p> <p>92. Canara Bank
SAGUNA MORE Branch
(D P Code 4955)
Shashidhar Kunj
Post & P S - Danapur
Dist : Patna
State : Bihar - 801503</p> <p>93. Canara Bank
AGAMKUAN Branch
(D P Code 4956)
Station Road
Post – Guljarbagh
P S - Alamganj
Dist : Patna
State : Bihar - 800007</p> <p>94. Canara Bank
GERABARI Branch (D P Code 5243)
Prithiwi Market
Post & P S - Korha
Dist : Katihar
State : Bihar - 854108</p> <p>95. Canara Bank
SONALI Branch (D P Code 5244)
Main Road
Post - Sonali
P S - Kadwan
Dist : Katihar
State : Bihar - 855114</p> <p>96. Canara Bank
MAHNAR BAZAR Branch
(D P Code 5245)
Main Road
Post & P S - Danapur
Dist : Patna
State : Bihar - 801503</p> <p>97. Canara Bank
BANMAKHI BAZAR Branch
(D P Code 5246)
Dr. Muktinath Market
Nehru Chowk
Post & P S - Banmakhi
Dist : Purnea
State : Bihar - 845202</p> | <p>98. Canara Bank
SHYAMPUR Branch (D P Code 9206)
Post & P S - Shymapur
Dist : Sheohar
State : Bihar - 843329</p> <p>99. Canara Bank
SANDALAPUR PATNA Branch
(D P Code 5467)
K P Mehata Building
Post – Mahendru
P S - Bahadurpur
Dist : Patna
State : Bihar - 800006</p> <p>100. Canara Bank
BHUTNATH ROAD Branch
(D P Code 5466)
4H/51 Bhutnath Road
Near Hanuman Mandir
Post - Bhutnath Road
P S - Agamkuan
Dist : Patna
State : Bihar - 800026</p> <p>101. Canara Bank
MITHAPUR BUS STAND Branch
(D P Code 5487)
Krishna Baikunth Complex
Indra Nagar More,
Near Mithapur Bus Stand
Post – Postalparks
P S - Jakkampur
Dist : Patna
State : Bihar - 801503</p> <p>102. Canara Bank
DARIYAPUR Branch (D P Code 9021)
Village : Dariyapur
Post - Newra
P S - Shahpur
Dist : Patna
State : Bihar - 801113</p> <p>103. Canara Bank
SHREEMATPUR Branch
(D P Code 4578)
Village : Sujawalpur
Post - Shankarpur
P S - Munger
Dist : Munger
State : Bihar - 811301</p> <p>104. Canara Bank
PADRI Branch (D P Code 4586)
Village + Post - Padri
P S - Shivsagar
Dist : Rohtas
State : Bihar - 801503</p> <p>105. Canara Bank
BALBHADRAPUR KHAJURI BRANCH</p> |
|---|---|

- (D P Code 4587)
Post – Khajuri
P.S. - Kalyanpur
District - Samastipur
State – Bihar - 848301
106. Canara Bank
SIYANAI BRANCH
(D P Code 8813)
Village – Siyanai Post – Belchhi
P.S. - Karende
District - Shekhpura
State – Bihar - 811304
107. Canara Bank
FARIDPUR SHEKHPURA BRANCH
(D P Code 5469)
NH 30, Post – Oudhe Faridpur
P.S. - Shekhpura
District - Shekhpura
State – Bihar - 811105
108. Canara Bank
KOHBARA PURNEA BRANCH
(D P Code 5471)
Post – Banalli
P.S. – K Nagar
District - Purnea
State – Bihar - 854201
109. Canara Bank
OLAPUR GANGOUR BRANCH
(D P Code 3120)
Post – Olapur Gangour
P.S. – Olapur Gangour
District - Khagaria
State – Bihar - 851204
110. Canara Bank
MANPUR GAYA BRANCH
(D P Code 5622)
Mahadipur Commercial Complex
Gourchhani Chowk
Post + P.S. – Manpur Gaya
District - Gaya
State – Bihar - 823003
111. Canara Bank
DIGHAGHAAT PATNA BRANCH
(D P Code 5740)
Near Railway Crossing
Post + P.S. – Digha Patna
District - Patna
State – Bihar - 800011
112. Canara Bank
SARAIYAGANJ MUZAFFARPUR
BRANCH (D P Code 5741)
Sita Complex
Post + P.S. - Saraiyaganj
District - Muzaffarpur
State – Bihar - 842001
113. Canara Bank
AGHORIA BAZAR MUZAFFARPUR
BRANCH (D P Code 5742)
SriRam and Shyam Market
Post - Ramna
P.S. – Kazi Mohammadpur
District - Muzaffarpur
State – Bihar - 842002
114. Canara Bank
SULTANPUR BRANCH
(D P Code 5748)
Infront of Nagar Parishad Main Road
Sultanganj
Post + P.S. – Sultanganj
District - Bhagalpur
State – Bihar - 813213
115. Canara Bank
JALALGARH PURNEA BRANCH
(D P Code 5746)
Main Bazar, Main Road
Post + P.S. – Purnea
District - Purnea
State – Bihar - 854327
116. Canara Bank
PURNEA LINE BAZAR BRANCH
(D P Code 5745)
1st Floor, N H 31
Post + P.S. – Line Bazar Purnea
District - Purnea
State – Bihar - 854301
117. Canara Bank
ASHOK RAJPATH PATNA
BRANCH (D P Code 4957)
Opp. Allahabad Bank
Post - Mahendru Patna
P.S. – Pirbahor Patna
District - Patna
State – Bihar - 800004
118. Canara Bank
BOUNSI BRANCH (D P Code 5738)
Village - Bounsi
Post - Bounsi
P.S. – Bounsi
District - Bounsi
State – Bihar - 813104
119. Canara Bank
BHAGWANPUR MUZAFFARPUR
BRANCH (D P Code 5751)
Near Bhagwanpur Chowk
Post - Kampany Bag
P.S. – Bhagwanpur Sadar
District - Muzaffarpur
State – Bihar - 843120
120. Canara Bank
RAMNAGRI PATNA BRANCH

- (D P Code 5860)
Shri Hanuman Dham,
Ramnagri Asiyana Digha Road
Post - Asiyana Nagar
P.S. - Rajeev Nagar
District - Patna
State - Bihar - 800025
121. Canara Bank
SIMRI BRANCH (D P Code 5861)
1st Floor, Simri Bakhtiyarpur Bazar
Post - Simri Bakhtiyarpur
P.S. - Simri Bakhtiyarpur
District - Saharsa
State - Bihar - 852127
122. Canara Bank
BAHADURPUR PATNA BRANCH
(D P Code 5465)
1ST Floor, Paylon House
Bazar Samiti Road
Opposite Old Bahadurpur Colony
Post + P.S. - Bahadurpur Patna
District - Patna
State - Bihar - 800016
123. Canara Bank
SHRIKRISHNANAGAR PATNA
BRANCH (D P Code 4958)
House No. 134
Post + P.S. - Shrikrishnapuri
District - Patna
State - Bihar - 800001
124. Canara Bank
GURGWAN PATNA BRANCH
(D P Code 5468)
Village - Gurgawan
Post - Khagoul
P.S. - Shahpur
District - Patna
State - Bihar - 801105
125. Canara Bank
SOHSARAI BRANCH
(D P Code 6048)
Patna - Ranchi Road
Post - Sohsarai, Biharsharif
P.S. - Sohsarai Biharsharif
District - Nalanda
State - Bihar - 803101
126. Canara Bank
CHOURIA BRANCH
(D P Code 6049)
Village + Post - Chouria
P.S. - Phesar
District - Aurangabad
State - Bihar - 824102
127. Canara Bank
SARISTABAD PATNA BRANCH
(D P Code 6110)
At - Pachhiyaritola
Post - Anisabad Patna
P.S. - Gardanibagh Patna
District - Patna
State - Bihar - 800001
128. Canara Bank
SAMPATCHAK BRANCH
(D P Code 4952)
1st Floor, Patna-Gaya Road
Near Gopalpur Police Station
Post + P.S. - Gardanibagh Patna
District - Patna
State - Bihar - 800001
129. Canara Bank
CIRCLE OFFICE PURNEA
(D P Code 7942)
Purnea, Captain Para
Post + P.S. - Purnea
District - Purnea
State - Bihar - 854326
- Circle Office : Thiruvananthapuram (23)**
130. Canara Bank
BUDHANOOR Branch
(D P Code 5965)
BP 11/405 (A-G), Madapally Junction
Kadempoor, Budhanoor P O
Dist : Alleppey
State : Kerala - 689510
131. Canara Bank
MULAKUZHA Branch
(D P Code 5966)
Door No.614 (A-B)
Ward No.4, Mulakuzha PO
Dist : Alleppey
State : Kerala - 689505
132. Canara Bank
VEEYAPURAM Branch
(D P Code 5841)
VP XII/206, Elanjikkal,
Veeyapuram P O
Dist : Alleppey
State : Kerala - 690514
133. Canara Bank
PULIYANNOOR Branch
(D P Code 5636)
Chennattu Building
Mutholy Junction
Dist : Kottayam
State : Kerala - 686573
134. Canara Bank
MUTHOOR Branch (D P Code 5635)
Manimangalam Building
Building No.27/239, Muthoor PO

- | | | | |
|------|--|------|---|
| | Dist : Pathananthitta
State : Kerala - 689107 | | Dist : Kollam
State : Kerala - 691003 |
| 135. | Canara Bank
PERUNTHANNI Branch
(D P Code 5114)
TC 36/1025 (1-4)
Aarattu Road, Near Enjakkal Junction,
Perunthanni
Dist : Trivandrum
State : Kerala - 695008 | 143. | Canara Bank
MANNAR Branch (D P Code 3534)
M P XIV / 500K, Thiruvonam
Building, Kurattysery, Mannar
Dist : Alleppey
State : Kerala - 689622 |
| 136. | Canara Bank
MYLOM Branch (D P Code 5836)
MP 18/618, Pooja Building, M C Road
Inchakkattu, Mylom PO, Kottarakkara
Dist : Kollam
State : Kerala - 691560 | 144. | Canara Bank
BHARANANGANAM Branch
(D P Code 4672)
Jeevan Books Buildings
Opp. Holy Shrine, Pala Road,
Bharananganam
Dist : Kottayam
State : Kerala - 686578 |
| 137. | Canara Bank
UZHAVOOR Branch (D P Code 4674)
Velikettil Buildings, Opp. Uzhavoor PO
Dist : Kottayam
State : Kerala - 686634 | 145. | Canara Bank
KADUTHURUTHI Branch
(D P Code 4671)
1/298, T R Arcade, Palai Road
Kaduthuruthy
Dist : Kottayam
State : Kerala - 686604 |
| 138. | Canara Bank
VEROOR INDUSTRIAL ESTATE
Branch (D P Code 5511)
Sy. No.599/10, Kumily Road,
Chethipuzha
Village, Veroor Industrial Estate,
Changanassery
Dist : Kottayam
State : Kerala - 686106 | 146. | Canara Bank
ERICAUD Branch (D P Code 2779)
524 B, Narimattathil Building
Vettathukavala, Puthuppally
Dist : Kottayam
State : Kerala - 686011 |
| 139. | Canara Bank
OYUR Branch (D P Code 4668)
Badarudeen Memorial Building
Payyacode, Oyur
Dist : Kollam
State : Kerala - 691510 | 147. | Canara Bank
KIDANGOOR Branch
(D P Code 4675)
Building No.465, Near Highway Junction
A P Road, Kidangoor
Dist : Kottayam
State : Kerala - 686572 |
| 140. | Canara Bank
NILAMEL Branch (D P Code 5515)
Bldg. No.8/124 F, M C Road
Near Nilamel Junction
Dist : Kollam
State : Kerala - 691535 | 148. | Canara Bank
VAIKOM Branch (D P Code 4670)
Sy. No.187, Near Valiyakavala Bus Stand
Kottayam Road
Dist : Kottayam
State : Kerala - 686141 |
| 141. | Canara Bank
PUTHOOR Branch (D P Code 4669)
Sy. No.660/3, Mullikkattu Towers,
Main Road
Puthoor
Dist : Kollam
State : Kerala - 691507 | 149. | Canara Bank
VELOOR Branch (D P Code 4004)
House No.26/217, Cherikkal House
Veloar P O
Dist : Kottayam
State : Kerala - 686003 |
| 142. | Canara Bank
RAMANKULANGARA Branch
(D P Code 1511)
House No.36/57, Opp. Mathrubhumi N H
47, Ramankulangara | 150. | Canara Bank
PODIYADI Branch (D P Code 5519)
Manimangalam Towers
Podiyadi P O, Thiruvalla |

- Dist : Pathanamthitta
State : Kerala - 689104
151. Canara Bank
CHETTIKULANGARA Branch
(D P Code 5637)
Building No. IX/40C,
Aadhyasree Building
Erezha South, Chettikulangara PO
Mavelikkara
Dist : Alleppey
State : Kerala - 690106
152. Canara Bank
NALANCHIRA Branch
(D P Code 5837)
TC 11/26 (2), Malencheruvil Hills
Hill Garden, Steps Junction,
Nalanchira PO
Dist : Trivandrum
State : Kerala - 695015
- Circle Office : Dehradun (13)**
153. Canara Bank
KAKKARKHET Branch
(D P Code 5870)
Near Naihana Temple,
Block-Chakhutiya
PO Narbara
Dist : Alomora
State : Uttarakhand - 263660
154. Canara Bank
NANITAL Branch (D P Code 5871)
New Deoars, Sukhatal
Malital, Nainital
Dist : Nainital
State : Uttarakhand - 263001
155. Canara Bank
PIPALI Branch (D P Code 5872)
Village Pipali
PO Devilkhat, The Ranikhet
Dist : Alomora
State : Uttarakhand - 263664
156. Canara Bank
BALBHADRAPUR Branch
(D P Code 5873)
Village Ratanpur
Sukhrau Bel, Road Kotdwar
Dist : Pori Garhwal
State : Uttarakhand - 246149
157. Canara Bank
BARKINDA Branch (D P Code 5874)
Village Barkinda, PO Kunhil
Block Salt, Tehil - Bhikiasen
Dist : Alomora
State : Uttarakhand - 263667
158. Canara Bank
FARSADI Branch (D P Code 5876)
Village Panchrad PO Farsari
Dist : Puri Garwal
State : Uttarakhand - 246271
159. Canara Bank
BHAROLI Branch (D P Code 5896)
Village – Bharolli, PO - Kadolla
Via Vedikhal Block, Bironkhal
Dist : Pauri Garhwal
State : Uttarakhand - 243177
160. Canara Bank
KICHHA Branch (D P Code 5908)
C/O Chawla Steel Industries
Near Power House, Rudrapur Road
Dist : Uddham Singh Nagar
State : Uttarakhand - 263148
161. Canara Bank
RAIPUR Branch (D P Code 5909)
KHASRA nO.530/9
Raipur
Dist : Dehradun
State : Uttarakhand - 248008
162. Canara Bank
HARIDWAR SME Branch
(D P Code 5994)
Prem Nagar Ashram
Near Ranipur More
Haridwar
Dist : Haridwar
State : Uttarakhand - 249407
163. Canara Bank
RUDRAPRAYAG Branch
(D P Code 5875)
Alaknada Palace
Near New Bus Stand, Next to IDBI
Dist : Rudra Prayag
State : Uttarakhand - 246171
164. Canara Bank
GOPESWER Branch (D P Code 6033)
K H No.308
Near Petrol Pump
Dist : Gopeshwar
State : Uttarakhand - 246401
165. Canara Bank
KASHIPUR BRANCH
(D P Code 6101)
Near Kukku Tyre House
Opp. Lavanya Hospita
Moradabad Road, Kashipur
State : Uttarkhand - 244713

Circle Office : Goa (08)

166. Canara Bank
SIOLIM Branch (D P Code 5239)
Shop No.981/B&C, Torchi Bhatt, Siolim
Bardez,
North Goa - 403517
167. Canara Bank
BETIM Branch (D P Code 5293)
H. No. B 175C, Betim
Bardez
North Goa - 403101
168. Canara Bank
CORGAO Branch (D P Code 5461)
Village Panchayat Building
Corgao Pernem
Goa - 403512
169. Canara Bank
MADEL Branch (D P Code 5612)
H.No.1141/1, Madel
Chodan
Goa - 403103
170. Canara Bank
CHICALIM Branch (D P Code 5656)
Shop No.5&6, Ambience Bella Vista
Beside Chicalim Ice Factory
Chicalim Church Bus Stop, Chicalim
Goa - 403711
171. Canara Bank
MAJORDA Branch (D P Code 5947)
H.No.47/1, Godinho Vaddo,
Near Oscar's Junction
Calata, Majorda
Goa - 403713
172. Canara Bank
MAPA Branch (D P Code 5948)
H.No.178, Mapa, Panchawadi
Goa - 403706
173. Canara Bank
PERNEM Branch (D P Code 5972)
Desh Prabhu Building
Pernem
Goa - 403512

Circle Office : ERNAKULAM (38)

174. Canara Bank
ERNAKULAM SME Branch
(D P Code 3539)
I Floor, Kodai Tower,
Near Changampuzha Park
Devankulangara, Edapally, Kochi
District : Ernakulam
State : Kerala - 682024

175. Canara Bank
KOCHI EDAPALLI Branch
(D P Code 3566)
Building No.50/390 (CI)
Madhushila Chambers
Palace Road Junction, N H 47, Edapally
District : Ernakulam
State : Kerala - 682024
176. Canara Bank
VYTILA Branch (D P Code 3567)
I Floor, Rozy Bazaar, S A Road
Vytilla
District : Ernakulam
State : Kerala - 682019
177. Canara Bank
VAZHAKULAM Branch
(D P Code 3588)
Manco Buildings, Manjalloor Village
Muvattupuzha
District : Ernakulam
State : Kerala - 686670
178. Canara Bank
KOTTOPADAM Branch
(D P Code 3785)
Shop 9720 / 16 / 804, 805, 806, 807,
Opp. Homes Dispensary
P O Thiruvizhamkunnu, Kottopadam
District : Palakkad
State : Kerala - 678601
179. Canara Bank
THONOORKARA Branch
(D P Code 4003)
18/204, Kailasam Building, Main Road
Thonnurkkara PO
District : Thrissur
State : Kerala - 680586
180. Canara Bank
MULLOORKARA Branch
(D P Code 4213)
Rose Complex, Main Road
Mulloorkara P O
District : Thrissur
State : Kerala - 680583
181. Canara Bank
KALAMASSERY Branch
(D P Code 4663)
Kottupurath Arcade, Church Road
North Kalamaserry
District : Ernakulam
State : Kerala - 683104
182. Canara Bank
PARAVUR Branch (D P Code 4665)
Survey No.291/4A, Thaqib Complex
North Paravur
District : Ernakulam
State : Kerala - 683513

- | | |
|---|--|
| <p>183. Canara Bank
ADIMALY Branch (D P Code 4666)
Kannattu Building, Near Panchayat Office
Kallarkutty Road, Adimaly
District : Idikki
State : Kerala – 685561</p> <p>184. Canara Bank
PAZHAYANNUR Branch
(D P Code 4667)
4593/A, K B Plaza, Trichur Road
Pazhayannur
District : Thrissur
State : Kerala – 680587</p> <p>185. Canara Bank
GURUVAYOOR THAIKKAD Branch
(D P Code 4676)
Vyapara Bhawan,
Chowaloorpady, Thaikad
District : Thrissur
State : Kerala – 680104</p> <p>186. Canara Bank
THRISSUR KOORKKANCHERY Branch
(D P Code 5113)
ABA Plaza, Room No.239/IV,
Main Road
Koorkkanchery
District : Thrissur
State : Kerala – 680007</p> <p>187. Canara Bank
PUTHENCROUZ Branch
(D P Code 5291)
Jai Nivas Complex, Near Petrol Pump
Puthencruz
District : Ernakulam
State : Kerala – 682308</p> <p>188. Canara Bank
PERINGOTTUKARA Branch
(D P Code 5507)
Nelliparambil Building,
Opp. Petrol Pump
4 Way Junction
District : Thrissur
State : Kerala – 680565</p> <p>189. Canara Bank
KARAKURISSI Branch
(D P Code 5508)
#14/457, Karakurissi Grama
Panchayat Bldg.
Karakurissi
District : Palakkad
State : Kerala – 678595</p> <p>190. Canara Bank
PUDUR Branch (D P Code 5509)
153/VII, Pudur Road
Pudur</p> | <p>191. Canara Bank
MURICKASSERI Branch
(D P Code 5510)
Thottathil Building
Murickasseri
District : Idikki
State : Kerala – 685604</p> <p>192. Canara Bank
POOTHOTA Branch
(D P Code 5632)
Shop No.114/E F G, S N Junction,
Puthenkavu
Poothootta
District : Ernakulam
State : Kerala – 682307</p> <p>193. Canara Bank
CHUNANGAMVELI Branch
(D P Code 5653)
8/569 B Naissery Building
Chunangamveli
Erumathala Post
District : Ernakulam
State : Kerala – 683112</p> <p>194. Canara Bank
KUREEKKAD Branch
(D P Code 5654)
No.1/125M, Madathiparambil Building
Kureekad Post
District : Ernakulam
State : Kerala – 682305</p> <p>195. Canara Bank
VELLIKULANGARA Branch
(D P Code 5655)
7/5A, Chiramel Building, Main Road
Vellikulangara Post
District : Thrissur
State : Kerala – 680699</p> <p>196. Canara Bank
PALAKKAD OLAVAKODE Branch
(D P Code 5779)
Building No.36/1 (8),
Mangaly Building
Main Road, Olavakode
District : Palakkad
State : Kerala – 678002</p> <p>197. Canara Bank
ARAYANKAVU Branch
(D P Code 5780)
Mariyan Shopping Centre,
Opp. Aryanakavu Market
Kulayettikara PO Arayankavu
District : Ernakulam
State : Kerala – 682315</p> |
|---|--|

- | | |
|---|--|
| <p>198. Canara Bank
PALAKKAD RETAIL ASSET HUB
(D P Code 5631)
Sreepadmam Auditorium
Nedungadi Complex
Palakkad
District : Palakkad
State : Kerala – 678001</p> <p>199. Canara Bank
KARALAM Branch (D P Code 5899)
Building No.101, Ward 2,
Karalayil Building
N R Mavili Store, Karalam PO
District : Thrissur
State : Kerala – 680711</p> <p>200. Canara Bank
ELAVANCHERRY Branch
(D P Code 5781)
J Sankar Complex,
Karimkulam Junction
Elavancherry
District : Palakkad
State : Kerala – 678508</p> <p>201. Canara Bank
THRISSUR EAST FORT Branch
(D P Code 5898)
23/113, Jesway Building, East Fort
Thrissur
District : Thrissur
State : Kerala – 680005202.</p> <p>202. Canara Bank
MARADU Branch (D P Code 4664)
Kuriyapilly Towers Near P S Hospital
Maradu PO
District : Ernakulam
State : Kerala – 682304</p> <p>203. Canara Bank
KOMBODIJAMAKKAL Branch
(D P Code 5897)
Building No.157, Ward 14,
Kombodinjamakkal
Thazhakkad P O
District : Thrissur
State : Kerala – 680697</p> <p>204. Canara Bank
CIRCLE OFFICE ERNAKULAM
(D P Code 7938)
Pukalakkat Lakshmbai Tower,
T D Road North End
Ernakulam, District : Ernakulam
State : Kerala – 682035</p> <p>205. Canara Bank
MALA Branch (D P Code 8555)
AL Khamis Complex,
Nr. Pvt. Bus Stand</p> | <p>K K Road, Mala
District : Thrissur
State : Kerala – 680732</p> <p>206. Canara Bank
THRISSUR RETAIL ASSET HUB
(D P Code 5630)
Sree Krishna Building,
West Palace Road
Thrissur
District : Thrissur
State : Kerala – 680022</p> <p>207. Canara Bank
ERNAKULAM RETAIL ASSET HUB
(D P Code 3924)
Shenoy Chambers
Shanmugham Road
District : Ernakulam
State : Kerala – 682031</p> <p>208. Canara Bank
ELANAD Branch (D P Code 5900)
17/60, 61, 62, Ground Floor,
Purakkulam Towers
Banglow Padi, Elanad
District : Thrissur
State : Kerala – 680586</p> <p>209. Canara Bank
KOONAMMAVU Branch
(D P Code 6009)
IV/86, Kongorpilly Road
Near Chavara I T Institute,
Koonammavu
District : Ernakulam
State : Kerala – 683518</p> <p>210. Canara Bank
PALLASSANA Branch
(D P Code 6010)
572/F, V S K Complex
Cherakode, Pallassana Village
District : Palakkad
State : Kerala – 678505</p> <p>211. Canara Bank
VALLAPUZHA Branch
(D P Code 6011)
14/475 E, Fathima Complex Main Road
Vallapuzha
District : Palakkad
State : Kerala – 679366</p> <p><u>Circle Office : GURGAON (09)</u></p> <p>212. Canara Bank
SUKHRALI Branch (D P Code 5479)
Sun Tower, Main Mehrauli Road
District : Gurgaon
State : Haryana – 122001</p> |
|---|--|

213. Canara Bank
BHONDSI Branch (D P Code 5693)
Shop No. 10, Gurgaon Sohna Road
District : Gurgaon
State : Haryana – 122012
214. Canara Bank
GULAWAD Branch (D P Code 9006)
Korali Gulawad Road
Gulawad Ka Nangla, Hodal Tehsil
District : Palwal
State : Haryana – 121102
215. Canara Bank
PRITHLA Branch (D P Code 5592)
Main Prithla Chhaprola Road, Prithla
District : Palwal
State : Haryana – 121102
216. Canara Bank
GURGAON SECTOR 51 Branch
(D P Code 5662)
Unit 10, Block B, Nirwana Country
South City II
District : Gurgaon
State : Haryana – 121001
217. Canara Bank
BHIWANI SABJI MANDI Branch
(D P Code 5692)
Near Indrajeet Hospital &
Sabji Rohtak Gate
District : Bhiwani
State : Haryana – 127021
218. Canara Bank
SOHNA Branch (D P Code 4166)
Delhi Alwar Road
Near Pooja Service Centre,
Rajoriya Colony
District : Gurgaon
State : Haryana – 122103
219. Canara Bank
FARIDABAD Sector 15 Branch
(D P Code 5844)
SCF 56, Huda Market
Faridabad
District : Faridabad
State : Haryana – 121007
220. Canara Bank
SIKRI Branch (D P Code 5941)
959, Delhi Mathura Road
42km Stone, Sikri
District : Faridabad
State : Haryana – 121004
- Circle Office : SHIMLA (03)**
221. Canara Bank
SALOH Branch (D P Code 5382)
- VPO Saloh, District : Kangra
State : Himachal Pradesh – 176102
222. Canara Bank
KAJLOT Branch (D P Code 5384)
P O Sudher
District : Kangra
State : Himachal Pradesh – 176215
223. Canara Bank
KEYLONG Branch (D P Code 5883)
P O Keylong
District : Lahaul Spiti
State : Himachal Pradesh – 175132
- Circle Office : BHOPAL (31)**
224. Canara Bank
DHANGAWAN Branch
(D P Code 4320)
Village Dhangawan
Manjholi Taluka
District : Jabalpur
State : Madhya Pradesh – 483225
225. Canara Bank
JIWAJIPUR Branch (D P Code 5698)
Jiwajipur Village
Post Lashkarpur
District : Vidisha
State : Madhya Pradesh – 464001
226. Canara Bank
MENDKI Branch (D P Code 5699)
Village Mendki
Raisen District
District : Raisen
State : Madhya Pradesh – 464661
227. Canara Bank
ICCHAWAR Branch (D P Code 4728)
Near Bus Stand
Nasrullaganj Road
District : Sehore
State : Madhya Pradesh – 466115
228. Canara Bank
PANDHURNA Branch
(D P Code 5486)
Shasti Ward, Ward No.20
Near Bus Stand, Pandhurna
District : Chhindwara
State : Madhya Pradesh – 480334
229. Canara Bank
NASRULLAGANJ Branch
(D P Code 5919)
Talai Mohall, Indore Road
Near Masjid, Nasrullaganj
District : Sehore
State : Madhya Pradesh – 466331
230. Canara Bank
SAUSAR Branch (D P Code 5920)
Pulse Plaza, Ward No.15

	Nagpur Chhindwara Highway District : Chhindwara State : Madhya Pradesh – 480106		Panagar Taluka District : Jabalpur State : Madhya Pradesh – 482004
231.	Canara Bank NIWARI Branch (D P Code 5921) Khasra No.1837/1/4 Ward No.5 Infront of Police Thana District : Tikamgarh State : Madhya Pradesh – 472442	239.	Canara Bank SOHAGPUR Branch (D P Code 6075) Near Denwa Lodge Railway Station Road District : Hoshangabad State : Madhya Pradesh – 461771
232.	Canara Bank RAHATGARH Branch (D P Code 5973) Ward No.13 Near Vidisha Tigadda District : Saugor State : Madhya Pradesh – 470119	240.	Canara Bank OBEDULLAGANJ Branch (D P Code 6076) Ward No.5, Opp. Chandrika Warehouse Hoshangabad Road Goharganj Taluka District : Raisen State : Madhya Pradesh – 464993
233.	Canara Bank DEORI Branch (D P Code 5974) Jhunku Ward Kachahri Tiraha District : Saugor State : Madhya Pradesh – 470226	241.	Canara Bank SIRONJ Branch (D P Code 6088) In front of Galla Mandi Begum Bag Road District : Vidisha State : Madhya Pradesh – 464228
234.	Canara Bank MUNGAOLI Branch (D P Code 5975) In Front of Public Health Engineering Office Station Road District : Ashoknagar State : Madhya Pradesh – 473443	242.	Canara Bank GWALIOR SME Branch (D P Code 3910) 26, Parvati Bhavan, Opp Shastri Nagar Gate No.3, Gandhi Road, Thatipur District : Gwalior State : Madhya Pradesh – 474011
235.	Canara Bank JABALPUR AADHARTAL Branch (D P Code 5976) 107/7, Raddhi Chowk Opp. Petrol Pump District : Jabalpur State : Madhya Pradesh – 482004	243.	Canara Bank MANDLA Branch (D P Code 4115) Ashirwad Bhavan Tilak Ward, Nehru Smarak District : Mandla State : Madhya Pradesh – 481661
236.	Canara Bank KOLARAS Branch (D P Code 5977) A B Road, Jagatpur Kolaras District : Shivpuri State : Madhya Pradesh – 473774	244.	Canara Bank BHOJPUR (D P Code 4323) 78, Near Jain Temple Jain Temple Road District : Raisen State : Madhya Pradesh – 464993
237.	Canara Bank JABALPUR NAGPUR ROAD Branch (D P Code 6072) Opp Devtal Ramayan Mandir Nagpur Road District : Jabalpur State : Madhya Pradesh – 482003	245.	Canara Bank CHANDERI (D P Code 4731) Pinchhor Road Near Pragati Petrol Pump District : Ashoknagar State : Madhya Pradesh – 473446
238.	Canara Bank JABALPUR MAHARAJPUR Branch (D P Code 6073) 257, Main Road Maharajpur (Bavali)	246.	Canara Bank MAKARONIA BUZURG (D P Code 4730) Near OM Petrol Pump

Jabalpur Road
District : Sagar
State : Madhya Pradesh – 470004

District : Bhopal
State : Madhya Pradesh – 462011

Circle Office : JAIPUR (12)

- | | |
|--|--|
| <p>247. Canara Bank
BHOPAL SHAHPURA
(D P Code 5084)
AS/7-8 Mahakali
H S Bawadiya Kalan
District : Bhopal
State : Madhya Pradesh – 462039</p> <p>248. Canara Bank
BHOPAL T T NAGAR
(D P Code 5443)
Hall D, Centre Point Commercial Complex
New Market, District : Bhopal
State : Madhya Pradesh – 462003</p> <p>249. Canara Bank
GWALIOR CITY CENTRE
(D P Code 5446)
Rajkamal, F-20
City Centre, Site No.1
District : Gwalior
State : Madhya Pradesh – 474011</p> <p>250. Canara Bank
MULTAI (D P Code 5538)
Bhagat Singh Ward
Betul Highway
District : Betul
State : Madhya Pradesh – 460661</p> <p>251. Canara Bank
GWALIOR SHINDE KI CHHAVNI
(D P Code 5555)
Adarsh Colony Chouraha
Gende Wali Sadak
District : Gwalior
State : Madhya Pradesh – 474001</p> <p>252. Canara Bank
GANJ BASODA (D P Code 5676)
Pachwati Mangalik Bhawan
Ward No.8, Bareth Road
Opp. Gayathri Mandir
District : Vidisha
State : Madhya Pradesh – 464221</p> <p>253. Canara Bank
GWALIOR MORAR (D P Code 5677)
Baradari Chouraha
Jhansi Loop Road, Morar
District : Gwalior
State : Madhya Pradesh – 474006</p> <p>254. Canara Bank
RETAIL ASSETS HUB
(D P Code 3991)
M P NAGAR
Zone – 2, Bank Street</p> | <p>255. Canara Bank
BAYANA Branch (D P Code 5785)
Station Road, Near Dr. Ramkumar ki Gali
Bayana Post
State : Rajasthan</p> <p>256. Canara Bank
BIJAI NAGAR Branch
(D P Code 5786)
Shop No.6,7,8, Sancheti Colony-A
Meel Road, Bijai Nagar, Tehsil Masuda
District : Ajmer
State : Rajasthan – 305623</p> <p>257. Canara Bank
UDAIPUR SECTOR-14 Branch
(D P Code 5802)
3/12, Rajasthan Housing Board (RHB)
Colony
Goverdhan Vilas, Sector 14
District : Udaipur
State : Rajasthan – 313004</p> <p>258. Canara Bank
ORBIT MALL Branch
(D P Code 4851)
1-2 Orbit Mall, Amjer Road
Civil Lines, Jaipur
District : Jaipur
State : Rajasthan – 302006</p> <p>259. Canara Bank
SHYAM NAGAR Branch
(D P Code 4852)
6-Teerath Nagar, Near Shyam Nagar
Metro Station, New Sanganer Road
District : Jaipur
State : Rajasthan – 302019</p> <p>260. Canara Bank
AMER ROAD Branch
(D P Code 4853)
S-10&11, Golimar Garden Scheme
Amer Road
District : Jaipur
State : Rajasthan – 305623</p> <p>261. Canara Bank
LALKOTHI Branch (D P Code 5917)
5/1, Friends Colony, Lalkothi
Behind New Vidhan Sabha Road,
Tonk Road
District : Jaipur
State : Rajasthan – 305623</p> <p>262. Canara Bank
SAPOLI FI Branch (D P Code 3816)</p> |
|--|--|

- Village & Post- Sapol
Tehsil Rajsamand Dist.
District : Rajsamand
State : Rajasthan – 313334
- (D P Code 5477)
AT – Basantapur, PO - Jilinda
PS/Block - Narasinghpur
District : Cuttack
State : Odisha – 754032
263. Canara Bank
BHILWARA SME Branch
(D P Code 6042)
P-19, Ground Floor
C/o Peerl Enterprises
Industrial Estate, Pur Road
BHILWARA
271. Canara Bank
JAJPUR Branch (D P Code 4923)
AT/PO Jajati Nagar
Unit No. 8, Jageswarpur, Jajpur Town
District : Jajpur
State : Odisha – 755001
264. Canara Bank
BHARATPUR SME Branch
(D P Code 6043)
C/O M/s Kumar Amit Traders
Ranjeet Nagar Road, Nayi Mandi
BHARATPUR – 321001
272. Canara Bank
KASANDA Branch (D P Code 5473)
AT/PO Kasanda, Block - Ranpur
District : Nayagarh
State : Odisha – 752065
265. Canara Bank
NOHAR Branch (D P Code 6102)
Plot No.265, Opp. Panchayat Samiti
Sec-5, Tehsil - Nohar
NOHAR – 335523
273. Canara Bank
SINKULIPADAR Branch
(D P Code 5475)
AT/PO – Sinkulipadar, Block - Mohana
District : Gajapati
State : Odisha – 751015
266. Canara Bank
ANOOPGARH Branch
(D P Code 6103)
No.44-B, New Dhan Mandi
Tehsil Anoopgarh
District : Ganganagar
State : Rajasthan – 335701
274. Canara Bank
GOUDASAHU Branch
(D P Code 5614)
AT-Goudasahi, PO - Masada
Block - Binjharpur
District : Jajpur
State : Odisha – 755012
- Circle Office : BHUBANESHWAR (32)**
267. Canara Bank
BRAHMESWARPATNA Branch
(D P Code 4912)
Plot No.3/799, Basuaghai
Tankapani Road
District : Khurda
State : Odisha – 751018
275. Canara Bank
BADAPANDUSAR Branch
(D P Code 5615)
AT/PO – Badapandusar
Block - Nayagarh
District : Nayagarh
State : Odisha – 752068
268. Canara Bank
DELTA SQUARE Branch
(D P Code 4913)
Sub Plot No.16, Rabindra Garden
Soubhagya Nagar, Bhubaneswar
District : Khurda
State : Odisha – 751003
276. Canara Bank
BUDHARAJA Branch
(D P Code 4917)
Guru Bhawan, Main Road
AT/PO - Sambalpur
District : Sambalpur
State : Odisha – 768004
269. Canara Bank
GOBIBANDHA Branch
(D P Code 5474)
PO-Gobibandha Block
Narasinghpur, PS - Kanpur
District : Cuttack
State : Odisha – 754037
277. Canara Bank
DHAMNAGAR Branch
(D P Code 4922)
AT – Main Road
Medical Square Dhamnagar
District : Bhadrak
State : Odisha – 756117
270. Canara Bank
BASANTAPUR Branch
278. Canara Bank
KOTHAR Branch (D P Code 4924)

	AT/PO – Kothar Main Road District : Bhadrak State : Odisha – 756118	287.	Canara Bank ASTARANGA Branch (D P Code 6015) Plot No.2267, AT/PO Astaranga District : Puri State : Odisha – 752109
279.	Canara Bank BALIAPAL Branch (D P Code 4925) AT/PO – Baliapal District : Balasore State : Odisha – 756026	288.	Canara Bank BARI Branch (D P Code 6044) AT/PO – Ramachandrapur District : Jajpur State : Odisha – 755003
280.	Canara Bank HANDIBHANGA Branch (D P Code 5826) AT/Handibhanga GP Handibhanga, Block - Kendujhargarh District : Keonjhar State : Odisha – 758031	289.	Canara Bank CHHATIA Branch (D P Code 6047) AT/PO – Chhatia District : Jajpur State : Odisha – 754023
281.	Canara Bank MICHHAPALI Branch (D P Code 5827) AT – Michhapali, GP – Michhapalli, Block - Komana District : Nuapada State : Odisha – 766106	290.	Canara Bank KOCHINDA Branch (D P Code 6045) AT/PO – Kochinda, By pass Road District : Sambalpur State : Odisha – 766105
282.	Canara Bank KUSUMI Branch (D P Code 5857) Village Kusumi, Block - Kuchinda District : Sambalpur State : Odisha – 768225	291.	Canara Bank NUAPADA Branch (D P Code 6046) AT/PO – Nuapada District : Nuapada State : Odisha – 766105
283.	Canara Bank PATTAMUNDAI Branch (D P Code 5928) AT/PO – Pattamundai, College Road District : Kendrapara State : Odisha – 754215	292.	Canara Bank GOPALPUR Branch (D P Code 5931) AT/PO – Cuttack Gopalpur District : Gopalpur State : Odisha – 766105
284.	Canara Bank BONAIGARH Branch (D P Code 5929) Main Road, Near Post Office AT/PO – Bonaigarh District : Sundergarh State : Odisha – 770038	293.	Canara Bank BARANGA Branch (D P Code 5932) AT/PO – Baranga District : Cuttack State : Odisha – 766105
285.	Canara Bank SOMANASASAN Branch (D P Code 5930) Plot No. 1446/1447, AT/PO – Mukundadaspur, Via- Pipili District : Khurda State : Odisha – 752104	294.	Canara Bank GATEBAZAR Branch (D P Code 5933) AT/PO – Gatebazar District : Ganjam State : Odisha – 760001
286.	Canara Bank MAHAMADPUR Branch (D P Code 5934) Plot No. 905, Balihat District : Cuttack State : Odisha – 754134	295.	Canara Bank ATTABIRA BRANCH (D P Code 6104) Plot No.2170, AT/PO – Attabir Dist. District - Bargarh State – Odisha - 768027
		296.	Canara Bank BBSR KITT CAMPUS BRANCH (D P Code 4915) Plot No.215, KIIT Campus Near Campus – II

PO Patia, Bhubaneswar
District - Khurda
State – Odisha - 751024

G K Tower, Phulgaon Road
Padmanabhapur
DURG 491001 (CG)

297. Canara Bank
BIJIPUR BRANCH (D P Code 6109)
AT – Saraswati Niwash,
Bijipur Junction
Main Road, Bherampur
District - Ganjam
State – Odisha - 760003

304. Canara Bank
EARAMSAHI Branch
(D P Code 4762)
Patel Mohalla, Main Road
Post /Vill : Earamsahi
Tah : Masturi
Dist : Bilaspur – 495550 (CG)

298. Canara Bank
BASUDEVPUR BRANCH
(D P Code 6123)
AT – Basudevpur Panchayat
Samiti Market Complex
PO Basudevpur
District - Bhadrak
State – Odisha - 756125

305. Canara Bank
GEEDAM Branch (D P Code 5577)
Near Bus Stand
Geedam
Tah : Geedam
Dist : Dantewada – 494441 (CG)

306. Canara Bank
JAGADALPUR CHITRAKUT ROAD
Branch (D P Code 5986)
G/1/A & G/1/B, Binaka Mall
Chitrakut Road
JAGADALPUR – 494001 (CG)

Circle Office : RAIPUR (26)

299. Canara Bank
BAGDUMAR Branch
(D P Code 4763)
Nandani Road
Post Nandani
District : Durg
Tah : Dhamdha
Pin code – 490036 (CG)

307. Canara Bank
KANKER Branch (D P Code 3482)
Gill Chowk, Rathore Complex
KANKER – 494334 (CG)

300. Canara Bank
BHILAI RISALI Branch
(D P Code 5858)
Krishna Talkies Road
Ashish Nagar (W)
District : Durg
Tah : Bhilai
Pin code – 490006 (CG)

308. Canara Bank
KHARSIA Branch (D P Code 5535)
Near Mahatma Gandhi College
Kharsia (Tah : Kharsia)
Dist: Raigarh – 496661 (CG)

309. Canara Bank
KUMHARI Branch (D P Code 5305)
GE Road, Old Cloth Market
Tah: Dhamdha
Dist : Durg
KUMHARI – 490042 (CG)

301. Canara Bank
BILASPUR RAJKISHORE NAGAR
Branch (D P Code 5648)
A/28, Raj Kishore Nagar
Near Ganesh Sweets
BILASPUR – 495006 (CG)

310. Canara Bank
MAHENDRAGARH Branch
(D P Code 4307)
211/2, Ground Floor
Ward No.1, Ambikapur Road
MAHENDRAGARH - 497442
Dist : Koriya (CG)

302. Canara Bank
BITKULA Branch (D P Code 4262)
H/O Sri Rameshwar Pd Patanwar
Ward No.2, Main Road
Post : Santhi Tah : Masturi
District : Bilaspur
BITKULA – 495559 (CG)

311. Canara Bank
MOHNDI Branch (D P Code 5381)
Vill. &At : Mohndi
Post : Nardha, Tah : Dhamdha
Dist : Durg (CG)
MOHNDI - 490024

303. Canara Bank
DURG PADMANABHAPUR Branch
(D P Code 5731)
Besides Basana Mangalam

312. Canara Bank
NARAYANPUR Branch
(D P Code 5425)

	Near Bus Stand, Main Road NARAYANPUR - 494661 Dist : Narayanpur (CG)	321.	Canara Bank SHER FI Branch (D P Code 5995) Samudayik Bhawan Vill : Sher, Post : Kanekera Tah : & Dist. Mahasamund RAIPUR - 493445 (CG)
313.	Canara Bank RAIPUR TATIBANDH Branch (D P Code 5307) PH 103, GE Road Tatibandh RAIPUR - 492099 (CG)	322.	Canara Bank SARAIPALI Branch (D P Code 5423) Padampur Road Post / Vill / Tah : Saraipali Dist : Mahasamund SARAIPALI - 493558 (CG)
314.	Canara Bank RAIPUR RETAIL ASSET HUB (D P Code 5285) Pujari Chambers, Block No.B/1 Pachpedhi Naka RAIPUR - 492001 (CG)	323.	Canara Bank TILDA NEWRA Branch (D P Code 5424) Opp. Kisan Vashtralay Main Road, Tilda Camp Dist : Raipur TILDA - 493114 (CG)
315.	Canara Bank RAIPUR SHANKAR NAGAR Branch (D P Code 5732) Besides Chhoti Rail Line Main Road, Shankar Nagar RAIPUR - 492007 (CG)	324.	Canara Bank SEMARIYA FI Branch (D P Code 5380) Panchayat Bhawan Vill: Semariya Block Dhamdha Dist : Durg SEMARIYA - 491332 (CG)
316.	Canara Bank RAIPUR SUNDAR NAGAR Branch (D P Code 5647) Vinayak Towers Infront of Vidhya Bhawan Mahadeo Ghat Road Sunder Nagar RAIPUR - 492013 (CG)	<u>Circle Office : DELHI (18)</u>	
317.	Canara Bank RAIPUR TRANSPORT NAGAR Branch (D P Code 5306) Plot No.W/37, Block 11 Transport Nagar, Rawanbhata RAIPUR - 492099 (CG)	325.	Canara Bank MOTI NAGAR BRANCH (D P Code 5155) Plot No.1, DLF Industrial Area Moti Nagar NEW DELHI - 110015
318.	Canara Bank RAIPUR SANTHOSHI NAGAR Branch (D P Code 5778) Main Road, Old Dhamtari Road Moti Nagar, Santhoshi Nagar RAIPUR - 492013 (CG)	326.	Canara Bank VISHWAS NAGAR BRANCH (D P Code 5421) 26/23, Street No. 11, 60ft. Main Road Vishwas Nagar NEW DELHI - 110032
319.	Canara Bank RASMEDA Branch (D P Code 4043) 745, Sanjay Chowk Tah & Dist. Durg RASMEDA - 491001 (CG)	327.	Canara Bank LADO SARAI BRANCH (D P Code 5422) F 213-A/1, Old M B Road Lado Sari NEW DELHI - 110030
320.	Canara Bank SARANGARH Branch (D P Code 5308) Pratap Ganj, Garh Chowk At : Sarangarh Tah : Sarangarh Dist. Raigarh - 496445 (CG)	328.	Canara Bank BADDU SARAI BRANCH (D P Code 5627) K H No.200 (2-4) Baddu Sarai Tehsil - Kapashera NEW DELHI - 110071

- | | |
|--|---|
| <p>329. Canara Bank
BADARPUR BRANCH
(D P Code 5799)
351, 352 & 353, Bankey Lal Market
Tulsi Ganga Plaza
Opp. Pillar No.24, Badarpur
NEW DELHI – 110044</p> | <p>338. Canara Bank
MOHAN GARDEN BRANCH
(D P Code 6060)
K-2/4, Mohan Garden
Uttam Nagar
NEW DELHI – 110059</p> |
| <p>330. Canara Bank
MADIPUR BRANCH
(D P Code 5800)
WZ – 663, Madipur
NEW DELHI – 110063</p> | <p>339. Canara Bank
RANA PRATAP BAGH BRANCH
(D P Code 6061)
D-9, Rana Pratap Bagh (G T Road)
NEW DELHI – 110007</p> |
| <p>331. Canara Bank
MULTAN NAGAR BRANCH
(D P Code 5801)
B-18, New Multan Nagar
NEW DELHI – 110056</p> | <p>340. Canara Bank
C R PARK BRANCH
(D P Code 6062)
1-1805, C R Park
NEW DELHI – 110019</p> |
| <p>332. Canara Bank
KONDLI BRANCH (D P Code 5866)
Indal Complex, Khasra No.207,
Main Road
Kondli
NEW DELHI – 110096</p> | <p>341. Canara Bank
RAJNAGAR PALAM BRANCH
(D P Code 6063)
RZ-12/A, Main Railway Station Road
Raj Nagar-I, Palam Colony
NEW DELHI – 110097</p> |
| <p>333. Canara Bank
MITRAON BRANCH
(D P Code 5867)
Khasra No.115, Vill. & PO itraon
NEW DELHI – 110043</p> | <p>342. Canara Bank
CENTRAL MARKET (LAJPAT
NAGAR) BRANCH (D P Code 6064)
I-87, Lajpat Nagar - II
NEW DELHI – 110024</p> |
| <p><u>Circle Office : GULBARGA (38)</u></p> | |
| <p>334. Canara Bank
ROHINI SECTOR 24 BRANCH
(D P Code 5868)
Plot No.110, Sector 24
Pocket 27, Rohini
NEW DELHI</p> | <p>343. Canara Bank
AFZALPUR BRANCH
(D P Code 5347)
Behind Mallikarjun Temple
Mallikarjun Circle
Dist. - Bidar
State – Karnataka – 585301</p> |
| <p>335. Canara Bank
MAHAVIR ENCLAVE BRANCH
(D P Code 5869)
RZ-D-2/65, Ch. Harphool Sing Market
Mahavir Enclave, Main Road
NEW DELHI – 110045</p> | <p>344. Canara Bank
ALMEL BRANCH (D P Code 4658)
Bhasme Complex
Opp. Gram Panchayat Bldg., Almel
Dist. - Bijapur
State – Karnataka – 586202</p> |
| <p>336. Canara Bank
ADARSH NAGAR BRANCH
(D P Code 5913)
A-7, G T Road, Adharsh Nagar
Tulsi Ganga Plaza
NEW DELHI – 110033</p> | <p>345. Canara Bank
AURAD BRANCH (D P Code 3868)
Near Basaveshwara Circle Main Road
Aurad
Dist. - Bidar
State – Karnataka – 585326</p> |
| <p>337. Canara Bank
JAHANGIRPURI BRANCH
(D P Code 5914)
A-28, Ramgarh
Jahangirpuri
NEW DELHI – 110059</p> | <p>346. Canara Bank
BAGALKOT BRANCH
(D P Code 8684)
Sri Basaveshwara Engg. College
Vidyagiri, Bagalkot</p> |

347.	Dist. - Bagalkot State – Karnataka Canara Bank BHEEMANAHALLI BRANCH (D P Code 5348) Sri Sharanbasveshwara Nilaya Near S B Temple, Bheemanahalli Dist. - Gulbarga State – Karnataka – 585222	355.	Canara Bank GANJ ROAD BRANCH (D P Code 5783) Main Road, Nehru Ganj Gulbarga Dist. - Gulbarga State – Karnataka - 585103
348.	Canara Bank OLD CITY BIDAR BRANCH (D P Code 5344) Old City Dist. - Bidar State – Karnataka - 585401	356.	Canara Bank GULBARGA PDA EG. COLLEGE BRANCH (D P Code 8683) PDA College of Engg., Aiswan-E-Shahi Gulbarga, Dist. - Gulbarga State – Karnataka - 585103
349.	Canara Bank BIJAPUR (SME) BRANCH (D P Code 5046) Sy. No. 1280/1A/1A, Station Back Road Bijapur Dist. - Bijapur State – Karnataka - 586101	357.	Canara Bank HUMNABAD BRANCH (D P Code 3410) Humnabad, Dist. - Bidar State – Karnataka
350.	Canara Bank BILGI BRANCH (D P Code 4715) Modi Complex Kanaka Circle, Bilgi Dist. - Bagalkot State – Karnataka – 587116	358.	Canara Bank HUNASAGI BRANCH (D P Code 4661) Bldg. No.11-74/2, Gram Panchayat Bldg. Hunasagi Dist. - Yadgir State – Karnataka – 585215
351.	Canara Bank BOPPUR BRANCH (D P Code 5349) Boppur, Tq. Sindhnur Dist. - Raichur State – Karnataka	359.	Canara Bank HUNNUR BRANCH (D P Code 3163) Hunnur, Bagalkot Dist. Dist. - Bagalkot State – Karnataka
352.	Canara Bank CHITGOPPA BRANCH (D P Code 4660) 1/95, I Floor Main Road Chitgoppa Dist. - Bidar State – Karnataka - 585412	360.	Canara Bank KADAGANCHI BRANCH (D P Code 5109) Central University Campus Aland Road, Kadaganchi, Aland Taluk Dist. - Gulbarga State – Karnataka – 585311
353.	Canara Bank GULBARGA BRANCH (D P Code 6050) Ram Mandir Road Opp. Mukta Talkies Dist. - Gulbarga State – Karnataka - 585103	361.	Canara Bank KEMBHAVI BRANCH (D P Code 4659) Cellar Sonnad Complex Beside Sonnad Petrol Pump, Kembhavi Dist. - Yadgir State – Karnataka – 585216
354.	Canara Bank ADARSH NAGAR BRANCH (D P Code 3245) Cmc 4-601/14/IC/5 Main Road Adarsh Nagar Dist. - Gulbarga State – Karnataka - 585105	362.	Canara Bank KHANADAL BRANCH (D P Code 8923) Khanadal, Gulbarga Dist. – Gulbarga State – Karnataka
		363.	Canara Bank KUNIKERA BRANCH (D P Code 4025)

	Gram Panchayat Bldg. Main Road Kunikera, Koppal Tq. Dist. - Koppal State – Karnataka – 583228		Muganur Dist. Dist. - Bagalkot State – Karnataka
364.	Canara Bank LINGASUGUR BRANCH (D P Code 4210) 02-13-127, Basavanagar Lingasugur Dist. - Raichur State – Karnataka – 584122	372.	Canara Bank NANDIKUR BRANCH (D P Code 8830) Main Road, Nandikur Dist. - Gulbarga State – Karnataka – 585102
365.	Canara Bank MANVI BRANCH (D P Code 5782) Raichur Road, Manvi Dist. - Manvi State – Karnataka – 584123	373.	Canara Bank NANDINAGAR BRANCH (D P Code 3158) Nandinagar, Karnataka Veterinary & Fisheries Sciences, University Nandinagar Dist. - Bidar State – Karnataka – 585401
366.	Canara Bank MASABINAL BRANCH (D P Code 4024) Gram Panchayat Bldg., Masabinal Post, Basavana Bagewadi Tq. Dist. - Bijapur State – Karnataka – 586203	374.	Canara Bank NAVANAGAR BRANCH (D P Code 4211) Plot No.D 33 & D34 Model Sector No.25, Navanagar Dist. - Bagalkot State – Karnataka – 587103
367.	Canara Bank MATTIHAL BRANCH (D P Code 4716) VPO Mattihal Dist. - Bijapur State – Karnataka – 585210	375.	Canara Bank PATTAN BRANCH (D P Code 8708) Main Road, Pattan Dist. - Gulbarga State – Karnataka – 585311
368.	Canara Bank MEDIKINHAL BRANCH (D P Code 5350) Medikinhall, Raichur Dist. Dist. - Raichur State – Karnataka	376.	Canara Bank RAICHUR CC BRANCH (D P Code 3321) Gandhi Chowk, Raichur Dist. - Raichur State – Karnataka – 584102
369.	Canara Bank MUDDEBIHAL BRANCH (D P Code 4713) I Floor, CTS 2616, Main Road Adj. to Sangameswar Co-op. Society Bldg. Dist. - Bijapur State – Karnataka – 586212	377.	Canara Bank RAICHUR HYD ROAD BRANCH (D P Code 3321) O F Compound, Hyderabad Road Dist. - Raichur State – Karnataka – 584102
370.	Canara Bank MUDHOL BRANCH (D P Code 5045) CTS No.4035/74A, Maharaj Colony Lokapur Road, Mudhol Dist. - Bagalkot State – Karnataka – 5857313	378.	Canara Bank RAICHUR STN. ROAD BRANCH (D P Code 3062) Near Ambedkar Circle Opp. Mahatma Gandhi Sports Stadium Dist. - Raichur State – Karnataka – 584101
371.	Canara Bank MUGANUR BRANCH (D P Code 5346)	379.	Canara Bank SANGAM (FI) BRANCH (D P Code 5347) #218, Sangam Cross, Sangam Aurad Taluk Dist. - Bidar State – Karnataka – 585417

380. Canara Bank
SIRWAR (FI) BRANCH
(D P Code 3844)
Main Road, Sirwar Village,
Shahapur Taluk
Dist. - Yadgir
State - Karnataka - 585223

Circle Office : INDORE (11)

381. Canara Bank
CIRCLE OFFICE (D P Code 7934)
Omega Towers, 4th Floor
32, Mechanic Nagar Extension
Dhamori
Indore - 452010
382. Canara Bank
ALIRAJPUR BRANCH
(D P Code 4144)
126 Subhash Nagar
Sorba Road, Alirajpur
MADHYA PRADESH - 457887
383. Canara Bank
INDORE AIRPORT ROAD BRANCH
(D P Code 5272)
No.5, Venkatesh Nagar
Airport Road, Indore Dist.
MADHYA PRADESH - 452005
384. Canara Bank
SONKATCH BRANCH
(D P Code 5559)
Old Baghel Pump, M G Road
Sonkatch, Dist. Dewas
MADHYA PRADESH - 455118
385. Canara Bank
TIMARNI BRANCH (D P Code 5560)
Ward No.5, Station Basti Road
Timarni, Dist., Harda
MADHYA PRADESH - 461228
386. Canara Bank
BIORA BRANCH (D P Code 5562)
41, Dalchand Tower,
Near Pipal Chouraha
Rajgarh Road
Biora, Dist. - Rajgarh
MADHYA PRADESH - 456574
387. Canara Bank
JAORA BRANCH (D P Code 5563)
House No.37/1, Sutaripura
Jaora, Dist. - Ratlam
MADHYA PRADESH - 457226
388. Canara Bank
NAGDA BRANCH (D P Code 5564)
Rupsuri Complex,
Near Mahavir Bhavan
Jawahar Marg, Nagda, Dist. Nagda
MADHYA PRADESH - 465335

389. Canara Bank
INDORE RAJENDRA NAGAR
BRANCH (D P Code 5565)
572 & 573, Dutta Nagar
Rajendra Nagar, Indore
MADHYA PRADESH - 452012

390. Canara Bank
INDORE MR-10, VIJAY NAGAR
BRANCH (D P Code 5566)
Plot No.4EA, Scheme No.54
MR-10, Suparsh Apartment, Indore
MADHYA PRADESH - 452010

391. Canara Bank
SUNERA BRANCH (D P Code 5625)
Khasara No.1066 & 1067, Ward No.7
Budhwaria Bazar, Sunera
Dist. Shajapur
MADHYA PRADESH - 465001

Circle Office : RANCHI (60)

392. Canara Bank
KUJU BRANCH (D P Code 4217)
Main Road, Kaju
Dist. Ramgarh
State : Jharkhand - 825316
393. Canara Bank
SAHEBGANJ BRANCH
(D P Code 4324)
Ground Floor, JN. Roy Road,
Sahebganj
Dist. Sahebganj
State : Jharkhand - 816109
394. Canara Bank
GODDA BRANCH (D P Code 4325)
Nahar Complex, Dumka Road
Dist. Godda
State : Jharkhand - 814133
395. Canara Bank
PAKUR BRANCH (D P Code 4326)
Tin Bungla,
Haridanga Bazar Main Road
Dist. Pakur
State : Jharkhand - 816107
396. Canara Bank
JAMTARA BRANCH
(D P Code 4327)
Near Bus Stand, Dumka Road
Dist. Jamtara
State : Jharkhand - 815351
397. Canara Bank
SME CHAIBASA BRANCH
(D P Code 4515)
Jain Market, Chaibasa
Dist. Paschim Singhbhum
State : Jharkhand - 833201

- | | |
|---|---|
| <p>398. Canara Bank
KOLHAN UNIVERSITY BRANCH
(D P Code 4516)
Chaibasa
Dist. Paschim Singhbhum
State : Jharkhand – 833201</p> <p>399. Canara Bank
RADHANAGAR BRANCH
(D P Code 4614)
VPO, Radhanagar
Dist. Bokaro
State : Jharkhand – 827010</p> <p>400. Canara Bank
RAMPUR BRANCH (D P Code 4615)
PO : Malhara, Rampur
Dist. Deoghar
State : Jharkhand – 814157</p> <p>401. Canara Bank
KUMARJURI BRANCH
(D P Code 4616)
PO : Malkera, Kumarjuri
Dist. Dhanbad
State : Jharkhand – 828304</p> <p>402. Canara Bank
PARASBANIA BRANCH
(D P Code 4617)
PO : Khasjeena Gora, Parasbania
Dist. Dhanbad
State : Jharkhand – 828115</p> <p>403. Canara Bank
SAKRA BRANCH (D P Code 4618)
PO : Baharagora, Sakra
Dist. Purbi Singhbhum
State : Jharkhand – 832101</p> <p>404. Canara Bank
SARAUNIKALAN BRANCH
(D P Code 4619)
PO : Hazaribagh, Saraunikalan
Dist. Hazaribagh
State : Jharkhand – 825301</p> <p>405. Canara Bank
MANHO BRANCH (D P Code 4620)
PO : Hirhi, Manho
Dist. Lohardagga
State : Jharkhand - 835302</p> <p>406. Canara Bank
CHETAR BRANCH (D P Code 4621)
PO : Ramagarh, Chetar
Dist. Ramgarh
State : Jharkhand – 829122</p> <p>407. Canara Bank
BANHARA BRANCH
(D P Code 4622)
Banhara, P O Kake</p> | <p>Dist. - Ranchi
State : Jharkhand - 835222</p> <p>408. Canara Bank
MALSIRING BRANCH
(D P Code 4623)
PO : VPO Malsiring
Dist. Ranchi
State : Jharkhand – 835222</p> <p>409. Canara Bank
KORANJO BRANCH
(D P Code 4624)
PO : Thetaitanagar, Koranjo
Dist. Simdega
State : Jharkhand – 835226</p> <p>410. Canara Bank
KAMARHATU BRANCH
(D P Code 4625)
PO : Chaibasa, Kamarhatu
Dist. Paschim Singhbhum
State : Jharkhand - 833201</p> <p>411. Canara Bank
BOKARO SME BRANCH
(D P Code 4655)
Sector IV, City Centre
Plot No. B5
Dist. Bokaro
State : Jharkhand – 827004</p> <p>412. Canara Bank
NAWADIH BRANCH
(D P Code 4656)
Chira Chas, Main Road
Near Hari Mandir, Nawadih
Dist. Bokaro
State : Jharkhand – 829144</p> <p>413. Canara Bank
BERO BRANCH (D P Code 4695)
Jamtoli Road, Opp. Bazar Samiti, Bero
Dist. Ranchi
State : Jharkhand – 835202</p> <p>414. Canara Bank
BUNDU BRANCH (D P Code 4696)
Subhash Chowk, Main Market
Bundu CD Block, Bundu
Dist. Ranchi
State : Jharkhand – 835204</p> <p>415. Canara Bank
DIGWADIH BRANCH
(D P Code 4897)
Nanak Niwas, PO : Pochari, Digwadiah
Dist. Ranchi
State : Jharkhand – 828306</p> <p>416. Canara Bank
GHATSHILA BRANCH
(D P Code 4898)</p> |
|---|---|

	Goel Complex, Main Road, Ghatshila Dist. Purbi Singhbhum State : Jharkhand – 832303	425.	Canara Bank GOLA BRANCH (D P Code 4907) Main Road Gola, Gola Dist. Ramgarh State : Jharkhand – 829100
417.	Canara Bank GUMLA BRANCH (D P Code 4899) Jashpur Road, Gumla C D Block Dist. Gumla State : Jharkhand – 835207	426.	Canara Bank HIRAPUR BRANCH (D P Code 4908) Shyam Sarovar, Abhay Sundari School, Hirapur Dist. Dhanbad State : Jharkhand – 826001
418.	Canara Bank KATRAS BRANCH (D P Code 4900) Prem Towers, Station Road, Katras Raghmara CD Block Dist. Dhanbad State : Jharkhand – 828113	427.	Canara Bank KADMA BRANCH (D P Code 4909) 1378, Mittal Building, Main Road Kadma, Jamshedpur Dist. East Singhbhum State : Jharkhand – 831005
419.	Canara Bank LATEHAR BRANCH (D P Code 4901) Bus Stand Road, Dharampur Dist. Latehar State : Jharkhand – 829206	428.	Canara Bank SIMDEGA BRANCH (D P Code 5228) Shanti Bhawan Hospital, PO Biru Dist. Simdega State : Jharkhand – 835228
420.	Canara Bank MADHUPUR BRANCH (D P Code 4902) Subhash Chowk, Rajbari Road, Madhupur Dist. Deoghar State : Jharkhand – 815353	429.	Canara Bank TUPUDANA BRANCH (D P Code 5229) AT – Tupudana Chowk, PO - Hatia Dist. Ranchi State : Jharkhand – 834003
421.	Canara Bank PATRATU BRANCH (D P Code 4903) Main Road Patratu, PO - Patratu Dist. Ramgarh State : Jharkhand – 829118	430.	Canara Bank CHATRA BRANCH (D P Code 5230) Marwari Mohall, Near Jain Mandir, Chatra Dist. Chatra State : Jharkhand – 825401
422.	Canara Bank BRAMBE BRANCH (D P Code 4904) VPO Barambe, Manadar CD Block Dist. Ranchi State : Jharkhand – 835205	431.	Canara Bank GARHWA BRANCH (D P Code 5231) Sahi Jana Mohalla, Near Chinmiya More Opp. Police Station Dist. Garhwa State : Jharkhand – 822114
423.	Canara Bank KANDRA BRANCH (D P Code 4905) Sheyn Internation School, Near Petrol Pump Main Highway, Kandra Dist. Saraikela Kharsawan State : Jharkhand – 832402	432.	Canara Bank SECTOR IV BOKARO BRANCH (D P Code 5313) B-5, Sector IV, City Centre Dist. Bokaro State : Jharkhand – 827004
424.	Canara Bank DANGUWAPASI BRANCH (D P Code 4906) Bazar Mohall, Danguwapasi C D Block Dist. Paschim Singhbhum State : Jharkhand – 833213	433.	Canara Bank PADAMPUR BRANCH (D P Code 5355) VIII – Padampur, PO - Jamid Dist. West Singhbhum State : Jharkhand – 833102

- | | |
|---|---|
| <p>434. Canara Bank
TOKLO BRANCH (D P Code 5356)
PO – Toklo, Tehsil - Chakradharpur
Dist. West Singhbhum
State : Jharkhand – 833102</p> <p>435. Canara Bank
DHIPA BRANCH (D P Code 5357)
PO – Barposh, Tehsil - Manoharpur
Dist. West Singhbhum
State : Jharkhand – 833104</p> <p>436. Canara Bank
MASANJORE BRANCH
(D P Code 5358)
PO - Masanjore
Dist. Dumka
State : Jharkhand – 814144</p> <p>437. Canara Bank
SAMLAPUR BRANCH
(D P Code 5359)
Baliapur Institute of Technology Campus
Sindri, PO - Saharpura
Dist. Dhanbad
State : Jharkhand – 828122</p> <p>438. Canara Bank
BELDANGA BRANCH
(D P Code 5360)
Plot No.1839, Pandra More, Beldanga
PO Poddardih
Dist. Dhanbad
State : Jharkhand – 828205</p> <p>439. Canara Bank
GORTOPPA BRANCH
(D P Code 5361)
PO – Gortoppa, Govindpur
Dist. Dhanbad
State : Jharkhand – 828109</p> <p>440. Canara Bank
BIRSA CHOWK BRANCH
(D P Code 5362)
Birsa Chowk, PO Hatia
Dist. Ranchi
State : Jharkhand – 834003</p> <p>441. Canara Bank
J N COLLEGE BRANCH
(D P Code 5368)
J N College,
Chakradarpur College Campus
Dist. West Singhbhum
State : Jharkhand – 833102</p> <p>442. Canara Bank
MALUKA BRANCH
(D P Code 5532)
Nischintapur, Maluka PO - Maluka
Dist. West Singhbhum
State : Jharkhand – 833203</p> | <p>443. Canara Bank
BARAKHIRI BRANCH
(D P Code 5585)
Barakhiri, PO – Govindpur
Dist. Seraikela Kharsawan
State : Jharkhand – 831002</p> <p>444. Canara Bank
SINISIDMA BRANCH
(D P Code 5586)
Vill – Sinisidma, Thana No.331
PO - Tablapur
Dist. Saraikela Kharsawan
State : Jharkhand – 833219</p> <p>445. Canara Bank
BURMU BRANCH (D P Code 5706)
Vill - Burmu
Dist. Ranchi
State : Jharkhand – 835214</p> <p>446. Canara Bank
ORMANJHI BRANCH
(D P Code 5708)
VILL + PO - Ormanjhi
Dist. Ranchi
State : Jharkhand – 835219</p> <p>447. Canara Bank
CHHOTA GOVINDPUR BRANCH
(D P Code 5795)
Main Road, Chhota Govindpur
Jamshedpur
Dist. East Singhbhum
State : Jharkhand – 831015</p> <p>448. Canara Bank
BARGHUTUA BRANCH
(D P Code 5821)
Main Road, Barghutua, Patartu Post
Dist. Ramgarh
State : Jharkhand – 829118</p> <p>449. Canara Bank
TMH BRANCH (D P Code 8631)
Tata Memorial Hospital Building
Bishtupur, Jamshedpur
Dist. East Singhbhum
State : Jharkhand – 831001</p> <p>450. Canara Bank
HARIHARGANJ BRANCH
(D P Code 5707)
Dak Bungalow Road, Satgawan,
PO - Hariharganj
Dist. Palamu
State : Jharkhand – 822131</p> <p>451. Canara Bank
MIHIJAM BRANCH
(D P Code 5709)
Station Road, Jamtara PO - Mihijam</p> |
|---|---|

Dist. Jamtara
State : Jharkhand – 815354

Udyog Bhavan Near Dena Bank
National Highway Taluk Niphad
Dist. Nashik
State : Maharashtra – 422209

Circle Office : PUNE (20)

- | | |
|--|--|
| <p>452. Canara Bank
GHODEGAON BRANCH
(D P Code 5411)
PO Shiradgaon Tah Shirugonda Dist.
Dist. Ahmednagar
State : Maharashtra – 413701</p> | <p>460. Canara Bank
TULJAPUR BRANCH
(D P Code 5613)
H No.1305 Bar 4,
Shubhankaroti Naldurg Road
Near Bhavani Lodge Tuljapur
Dist. Osmanabad
State : Maharashtra – 413601</p> |
| <p>453. Canara Bank
AURANGABAD BRANCH
(D P Code 5434)
Plot No.31, Rutuparna Yashwant Nagar
Opp. Datta Mandir Gut No.130 Satara
Dist. Aurangabad
State : Maharashtra – 431002</p> | <p>461. Canara Bank
GUHAGAR BRANCH
(D P Code 5638)
Sri Rajendra Sitaram Arekar
Sitaram Complex, 1st Floor Bazar Peth
Dist. Ratnagiri
State : Maharashtra – 415703</p> |
| <p>454. Canara Bank
CHIKHALI BRANCH
(D P Code 5435)
PO Karauli Tal Indapur
Dist. Pune Chikhali
Dist. Pune
State : Maharashtra – 413104</p> | <p>462. Canara Bank
KHED BRANCH (D P Code 5643)
Sri Dilip Gandhi Sr No. 1726 Bar 27
Huhatma Anant Kanhere Chowk
Dist. Ratnagiri
State : Maharashtra – 415709</p> |
| <p>455. Canara Bank
SILLOD BRANCH (D P Code 5462)
Vikrant Cards Yogasidhi Plaza
Sarafa Market
Dist. Aurangabad
State : Maharashtra – 431112</p> | <p>463. Canara Bank
SANGAMESHWAR BRANCH
(D P Code 5646)
Shri Samarth Krupa Nivas Mumbai
Goa Highway
Dist. Ratnagiri
State : Maharashtra – 415611</p> |
| <p>456. Canara Bank
NIMDHARI BRANCH
(D P Code 5463)
Vividh Karyakari Sahakari Society
PO Nimdhari
Dist. Nimdhari
State : Maharashtra – 412401</p> | <p>464. Canara Bank
DINDORI BRANCH (D P Code 5658)
Shri Swami Samarth Building
Old Nasik Kalwan Road Main Market
Dist. Nasik
State : Maharashtra – 422202</p> |
| <p>457. Canara Bank
IGATPURI BRANCH
(D P Code 5606)
SR No.777 Bar 1 Rawat Plaza
Near State Bank of India,
Warche Peth Igatpuri
Dist. Nashik
State : Maharashtra – 422403</p> | <p>465. Canara Bank
AMBAD BRANCH (D P Code 5759)
Sri Krishna Complex
Opp. Ambad Bus Stand
Jaina Beed Road , Ambad Jaina
Dist. Jalana
State : Maharashtra – 431204</p> |
| <p>458. Canara Bank
SINNAR BRANCH (D P Code 5607)
Mahalaxmi Heights Damodar Niwas
Shop No.1 to 5, Lal Chowk PO Sinnar
Dist. Nashik
State : Maharashtra – 422103</p> | <p>466. Canara Bank
JAMKHED BRANCH
(D P Code 5760)
Opp. Bus stand Adharsh Complex.
Dist. Ahmednagar
State : Maharashtra – 413201</p> |
| <p>459. Canara Bank
PIMPALGAON BASWANT BRANCH
(D P Code 5608)</p> | <p>467. Canara Bank
TALEGAON DABHADE BRANCH
(D P Code 5938)
Shantai City Complex</p> |

- Near Nagar Parishad Tal
Mawal Dist. Pune
Dist. Pune
State : Maharashtra – 410506
468. Canara Bank
PARTUR BRANCH (D P Code 6002)
Main Road, Partur Taluka Partur
Dist. Jalna
Dist. Jalna
State : Maharashtra – 431501
469. Canara Bank
WADLA MAHADEO BRANCH
(D P Code 8755)
Wadala Mahadeo Post
Shrirampur Taluk
Dist. Wadala Mahadeo
State : Maharashtra – 413739
470. Canara Bank
BADNAPUR BRANCH
(D P Code 5665)
Phule Nagar Jalna Badnapur
Dist. Jalana
State : Maharashtra – 431202
471. Canara Bank
PARBHANI BRANCH
(D P Code 5939)
Durgeshwari Complex,
Opp. Surya Hospital
Maharani Laxmibai Road, Gawhane
Dist. Parbhani
State : Maharashtra – 431401
- Circle Office : JALANDHAR (24)**
472. Canara Bank
AMRITSAR RANJIT AVENUE
BRANCH (D P Code 3143)
SCO 110 Raj Towers,
District Shopping Complex
Below Passport Office Ranjit
Dist. Amritsar
State : Punjab – 143001
473. Canara Bank
AJNALA BRANCH (D P Code 3145)
Main Bazar, Amritsar Road
Near Police Station, Ajnala
Dist. Amritsar
State : Punjab – 143102
474. Canara Bank
AMRITSAR MICRO FINANCE
BRANCH (D P Code 3272)
Gopal Nagar
Dist. Amritsar
State : Punjab – 143001
475. Canara Bank
AMRITSAR VERKA BRANCH
(D P Code 3300)
Opp: Thakar Palace, Batala
- Road Verka
Dist. Amritsar
State : Punjab – 143501
476. Canara Bank
NANGALI BRANCH
(D P Code 3550)
Dist. Amritsar
State : Punjab
477. Canara Bank
FATEHGAR CHURIAN BRANCH
(D P Code 3549)
Ajnala Road, Near Bus Stand
Fatehgarh Churian
Dist. Gurdaspur
State : Punjab – 143602
478. Canara Bank
AMRITSAR SME BRANCH
(D P Code 3550)
A-10/2, Focal Point, Chowk G T Road
Dist. Amritsar
State : Punjab – 143001
479. Canara Bank
SUFI PIND BRANCH
(D P Code 3610)
Dist. Punjab, Village & Post Sufi Pind
State : Punjab – 144024
480. Canara Bank
GURKA BRANCH (D P Code 3611)
V P O Gurka, Jalandhar
Dist. Jalandhar
State : Punjab – 144632
481. Canara Bank
GARHSHANKAR BRANCH
(D P Code 4196)
Near LIC Office, Hoshiarpur
RPAD, Garhshankar
State : Punjab – 144527
482. Canara Bank
DINANAGAR BRANCH
(D P Code 4244)
Opp. Kears Cinema
Dinanagar
State : Punjab – 146105
483. Canara Bank
MAHILPUR BRANCH
(D P Code 4245)
Bldg. No.340, W. No.5
Chandigarh – Garhshankar Road
Dist. Mahilpur
State : Punjab – 146105
484. Canara Bank
DHARIWAL BRANCH
(D P Code 4597)

- Near Gurudwara, Golden Hotel,
G T Road
State : Punjab – 143519
485. Canara Bank
BALACHAUR BRANCH
(D P Code 4601)
Ward No.13, G T Road to Hoshiarpur
State : Punjab – 144521
486. Canara Bank
MAJITHA BRANCH
(D P Code 4602)
Near Honda Agency
Main Road, Majitha
State : Punjab – 143601
487. Canara Bank
SULTANPUR BRANCH
(D P Code 4604)
Near Dhingra Furniture House
Kapurthala Road, Sultanpur
State : Punjab – 144626
488. Canara Bank
MAWAI BRANCH (D P Code 5386)
Nurmahal Road, VPO Mawai
State : Punjab – 1434036
489. Canara Bank
BHAGWANPUR BRANCH
(D P Code 5839)
Dist. Jalandhar
State : Punjab
490. Canara Bank
KAHLON BRANCH (D P Code 5840)
Dist. Nawanshahar
State : Punjab
491. Canara Bank
ADAMPUR BRANCH
(D P Code 6034)
Dist. Jalandhar
State : Punjab – 143001
492. Canara Bank
MUKHERIAN BRANCH
(D P Code 6035)
Dist. Hoshiarpur
State : Punjab – 144211
493. Canara Bank
CIRCLE OFFICE, JALANDHAR
(D P Code 7931)
362-363, 3rd Floor
Shakti Mall, Lajpat Nagar
Dist. Jalandhar
State : Punjab – 144001
494. Canara Bank
KAPURTHALA SULTANPUR ROAD
BRANCH (D P Code 8586)
- New Cantonment, Shop No.18, 19, 20
Shopping Comp,
Near Kendirya Vidyalaya
Dist. Kapurthala
State : Punjab – 144601
495. Canara Bank
LAKHAN KALAN BRANCH
(D P Code 9037)
Sekhon Market, Kapurthala
Hamui Road, Lakhan Kalan
State : Punjab
- Circle Office : CHANDIGARH (16)**
496. Canara Bank
MUTHIANWALI BRANCH
(D P Code 5383)
Community Hall, Gram Panchayat Bldg
Azamwala PO
Muthianwali
Fazilka Tehsil
District : Fazilka
State – Punjab – 152121
497. Canara Bank
SANDHWAN WALA URF CHUPKITI
BRANCH (D P Code 5385)
Malianwala Road
Budh Singh Wala PO
Sandhwan Wala urf Chupkiti
Moga Tehsil
District : Moga
State – Punjab – 142002
498. Canara Bank
GURUHARSAHAL BRANCH
(D P Code 5539)
Ram Chowk, Old Grain Market
Guruharsahai
Jalalabad Tehsil
District : Ferozepur
State – Punjab – 152022
499. Canara Bank
BHADSON BRANCH
(D P Code 5540)
Patiala Road, Opp. Sr. Sec. School
Bhadson, Nabha Tehsil
District : Patiala
State – Punjab – 147202
500. Canara Bank
JALALABAD BRANCH
(D P Code 5668)
Opp. New Power House
Near Sonia Pump
Fazilka – Ferozepur Road
District : Fazilka
State – Punjab – 152024

- | | |
|--|---|
| <p>501. Canara Bank
LALRU BRANCH (D P Code 5884)
Rana Market
Lalru Mandi
Dera Bassi Tehsil
District : S A S Nagar
State – Punjab – 140501</p> <p>502. Canara Bank
AMLOH BRANCH (D P Code 5885)
Bye Pass Road, Ward No.10
Amloh
Amloh Tehsil
District : Fatehgarh Sahib
State – Punjab – 147203</p> <p>503. Canara Bank
JAITU BRANCH (D P Code 5886)
Baja Road, Main Bazaar
Jaitu
Jaitu Tehsil
District : Faridkot
State – Punjab – 151202</p> <p>504. Canara Bank
NIHAL SINGHWALA BRANCH
(D P Code 5887)
Barnala Road,
Opp. Sharman Jain Sweets
Nihal Singhwala Tehsil
District : Moga
State – Punjab – 142055</p> <p>505. Canara Bank
MAUR BRANCH (D P Code 5888)
Opp. Sadbhavna Hall
Maur Mandi
Talwandi Sabo Tehsil
District : Bathinda
State – Punjab – 142038</p> <p>506. Canara Bank
BHAGHA PURANA BRANCH
(D P Code 5905)
Moga Road
Bhagha Purana Tehsil
District : Moga
State – Punjab – 142038</p> <p>507. Canara Bank
HASSAN BHATTI BRANCH
(D P Code 6066)
Faridkot PO
Faridkot Tehsil
District : Faridkot
State – Punjab – 151203</p> <p>508. Canara Bank
AJITWAL BRANCH
(D P Code 6067)
Opp. Mukat Sheedgunj Gurudwara
Railway Station Road</p> | <p>Moga Tehsil
District : Moga
State – Punjab – 142053</p> <p>509. Canara Bank
SUDHAR BRANCH
(D P Code 6068)
Adj. Gurusar Sudhar College,
Main Bazar
Rajkot Purana Tehsil
District : Ludhiana
State – Punjab – 141104</p> <p>510. Canara Bank
MOHALI PHASE VI BRANCH
(D P Code 8428)
Mohali Shivalik Public School
State – Punjab</p> <p>511. Canara Bank
KAILE BANDER BRANCH
(D P Code 8749)
Opp. Main Gurudwara
Kaile Bander Bhagwan Garh
District : Bhatinda
State – Punjab – 151001</p> <p><u>Circle Office : HYDERABAD (11)</u></p> <p>512. Canara Bank
EXCIL X ROADS BRANCH
(D P Code 5666)
285/6, Survey No.285
ECIL X ROADS
District : Hyderabad
State – Telangana – 500062</p> <p>513. Canara Bank
DAMMAIGUDA BRANCH
(D P Code 5901)
13 Raghuram Reddy Nagar
Dammaiguda X ROADS
District : Ranga Reddy
State – Telangana – 500083</p> <p>514. Canara Bank
JNTU KUKATPALLY BRANCH
(D P Code 6026)
MIG 74, D R Colony
Phase I, Opp. To Ramayalen Temple,
Kukatpally
District : Hyderabad
State – Telangana – 500085</p> <p>515. Canara Bank
JILLALGUDA BRANCH
(D P Code 5489)
H. NO. 96, Gayatri Nagar
Opp. to Nagarjuna School
Sagar Ring Road
District : Hyderabad
State – Telangana – 500097</p> |
|--|---|

- | | |
|---|---|
| <p>516. Canara Bank
KARMANGHAT BRANCH
(D P Code 5488)
Karman Ghat X Road
Karman Ghat Main Road
District : Ranga Reddy
State – Telangana – 500079</p> <p>517. Canara Bank
OLD BOWENPALLY BRANCH
(D P Code 5667)
1-10-317 Bapujinagar
Near Ashok Garden Bowenpally
District : Hyderabad
State – Telangana – 500011</p> <p>518. Canara Bank
POOLAPALLE BRANCH
(D P Code 5903)
1-81 Naraguda
Poolapalle Grama Panchayath
Nawabpet Mandal
District : Ranga Reddy
State – Telangana – 501101</p> <p>519. Canara Bank
PRAGATHI NAGAR BRANCH
(D P Code 4173)
Plot No.1983, G Floor
Near SriKrishna Marriage Hall
INCOIS Circle, Pragati Nagar
District : Hyderabad
State – Telangana – 500071</p> <p>520. Canara Bank
SHAMIRPET BRANCH
(D P Code 4171)
89 Near Sub Registrar Office
Shamirpet
District : Ranga Reddy
State – Telangana – 501203</p> <p>521. Canara Bank
SHANKARAPALLY BRANCH
(D P Code 4172)
89 Sangareddy Road
Shankarapally
District : Ranga Reddy
State – Telangana – 501203</p> <p>522. Canara Bank
TOLICHOWKI BRANCH
(D P Code 3459)
9-4-76/2, Saleem Masood Complex
Behind Bus Stop, Tolichowki
District : Hyderabad
State – Telangana – 500008</p> | <p>(D P Code 4978)
AC 4, Salt Lake City Sector-1
Ground Floor
District : Kolkata
State – West Bengal – 700064</p> <p>524. Canara Bank
BAGHAJATIN BRANCH
(D P Code 4984)
48, Talpukur, Baghajatin Station Road
Bademasur Mouja
District : South 24 Parganas
State – West Bengal – 700086</p> <p>525. Canara Bank
DUNLUP BRIDGE BRANCH
(D P Code 4988)
Dunlup More, 157-2A-Glt Road
District : Kolkata
State – West Bengal – 700018</p> <p>526. Canara Bank
NEW ALIPORE BRANCH
(D P Code 4992)
100, Somnath Lahiri Sarini
District : Kolkata
State – West Bengal – 700053</p> <p>527. Canara Bank
DAKSHINESHWAR BRANCH
(D P Code 4999)
Ground Floor, 14, TN Biswas Road
District : Kolkata
State – West Bengal – 700035</p> <p>528. Canara Bank
MID CORPORATE BRANCH
(D P Code 5004)
7 KYD Street, Chowringhee
District : Kolkata
State – West Bengal – 700016</p> <p>529. Canara Bank
DIAMOND HARBOUR BRANCH
(D P Code 4078)
C/O Sri Tapash Kumar Halder
New Town, Kapathat P.O & P.S.
District : 24 Parganas (South)
State – West Bengal</p> <p>530. Canara Bank
AMTALA BRANCH
(D P Code 4079)
Swagat Bera, Diamond Harbour Road
Amtala Village, Udayrampur PO,
Kanyanagar
District : 24 Parganas (South)
State – West Bengal – 743398</p> <p>531. Canara Bank
MATHABHANGA BRANCH
(D P Code 4097)</p> |
|---|---|
- Circle Office : KOLKATA (73)**
523. Canara Bank
BIDHAN NAGAR BRANCH

- PO & PS, Mathabhanga Dt.
District : Coochbehar
State – West Bengal – 736146
532. Canara Bank
MEKHLIGANJ BRANCH
(D P Code 4099)
Ward No.7, PWD Road, Mekhliganj Dt.
District : Coochbihar
State – West Bengal – 735304
533. Canara Bank
MALBAZAR BRANCH
(D P Code 4101)
Holding NNo. 2/63, Ground Floor
Caltex More, PO Mal
District : Jalpaiguri
State – West Bengal – 735221
534. Canara Bank
ISLAMPUR BRANCH
(D P Code 4402)
New Town Bhawan, New Town Road
Islampur Deshbandhupura
District : Uttardinajpur
State – West Bengal – 733202
535. Canara Bank
KAKDWIP BRANCH
(D P Code 4395)
Adwaita Kumar Mondal
V Ganespur, 3rd Gheri PO &
PS Kakdwip
District : 24 Parganas (West)
State – West Bengal – 743347
536. Canara Bank
GANGARAMPUR BRANCH
(D P Code 4407)
Ward No.16, Rajibpur, Gangarampur
District : Dakshin Dinajpur
State – West Bengal – 733124
537. Canara Bank
ALIPURDUAR BRANCH
(D P Code 4100)
Sree Krishna Market Complex,
Ward No.18
Marwaripally, Alipurduar
District : Alipurduar
State – West Bengal – 736121
538. Canara Bank
TUFANGANJ BRANCH
(D P Code 4098)
Supritik Mantu, Ward No.2, Main Road
New Town, Holding No.596,
PO Tufanganj
District : Coochbihar
State – West Bengal – 736160
539. Canara Bank
- DINHATA BRANCH
(D P Code 4096)
Mr. Bimal Saha and Mr. Ratan Saha
Village – Gosani Road, Post Dinhata
District : Coochbihar
State – West Bengal – 736135
540. Canara Bank
KALIMPONG BRANCH
(D P Code 4411)
9th Mile Sharma Building
Thanapara Dairy, Kalimpong
District : Darjeeling
State – West Bengal – 734301
541. Canara Bank
CHANCHAL BRANCH
(D P Code 4408)
V & PO Chanchal
(Chanchal College Road)
Maldah
District : Maldah
State – West Bengal – 732123
542. Canara Bank
CHANDMONI I BRANCH
(D P Code 5176)
V&PO Batna, Block Ratua-1
Sub Division - Chanchal
District : Maldah
State – West Bengal – 732139
543. Canara Bank
PUTIMARI PHULESHWARI BRANCH
(D P Code 5179)
V & PO Putimari Fuleswar,
Block – Coochbehari-1
Sub Division – Coochbehar Sarad
District : Coochbihar
State – West Bengal – 736157
544. Canara Bank
BHANUKUMARI II BRANCH
(D P Code 5178)
Vill – Chat Lalkuthi, PO – Nakar Khana
Block –Tufanganj II,
Sub-Div. Tufanganj
District : Coochbihar
State – West Bengal – 736131
545. Canara Bank
SILIGURI SME BRANCH
(D P Code 5006)
Infinity Square, 1st Floor,
2nd Mile Sevok Road
Jalpaiguri
District : Jalpaiguri
State – West Bengal – 734401
546. Canara Bank
HABRA BRANCH (D P Code 4980)
1st Floor, Habra Bazar, Ward No.3,

	Jessore Road, V-Kamarthuba District : 24 Paragnas (North) State – West Bengal – 743263		Balurghat District : South Dinajpur State – West Bengal – 733133
547.	Canara Bank BASIRHAT BRANCH (D P Code 4977) Ground Floor V- Maitrabagan PO – Basirhat College District : 24 Paragnas (North) State – West Bengal – 743412	555.	Canara Bank PANJUL BRANCH (D P Code 5187) V + PO – Fatepur, PS - Hilli Block – Hilli, Balurghat District : South Dinajpur State – West Bengal – 733126
548.	Canara Bank BARASAT CHAPADALI MORE BRANCH (D P Code 4976) Ground Floor, 27/11 Jessore Road Banamalipur, Barasat District : Barasat State – West Bengal – 700124	556.	Canara Bank BAPUJI BRANCH (D P Code 5188) Bapuji Gram Panchayat 13, Chandipur Bazar, PO – Manik Nagar District : 24 Paragnas (South) State – West Bengal – 743374
549.	Canara Bank MOAMARI BRANCH (D P Code 5180) V-Moamari PO – Domukha Nayarhat PS - Kotowali District : Coochbihar State – West Bengal – 736157	557.	Canara Bank GARACHARMA BRANCH (D P Code 5214) Survey No.1053 & 1054, Andaman Trunk Road District : South Andaman State – Andaman & Nicobar Islands – UT – 744105
550.	Canara Bank AMBARI BRANCH (D P Code 5181) V + PO – Bokalirmath PS - Kotwali District : Coochbihar State – West Bengal – 736133	558.	Canara Bank SONARPUR BRANCH (D P Code 5764) Sri Sri Sarada Sishu Vidyapith Sri Ramakrishna Palli, PO Sonarpur District : Kolkata State – West Bengal – 700150
551.	Canara Bank CHILKHANA II BRANCH (D P Code 5182) V + PO – Ghongrakothi, Block Tufanganj - I District : Coochbihar State – West Bengal – 736159	559.	Canara Bank MASJIDBARI BRANCH (D P Code 5771) GP Office, V + PO – Masjidbari, PS - Basanti District : 24 Parganas (South) State – West Bengal – 743312
552.	Canara Bank JALGHAR BRANCH (D P Code 5183) V-Chakkasi, PO – Balurghat Block & Sub Div - Balurghat District : South Dinajpur State – West Bengal – 733101	560.	Canara Bank NAFARGANJ BRANCH (D P Code 5715) GP Office, V + PO – Nafarganj, PS - Basanti District : 24 Parganas (South) State – West Bengal – 743312
553.	Canara Bank ASHOKGRAM BRANCH (D P Code 5184) V + PO Ashokgram PS – Gangarampur, Gangarampur District : South Dinajpur State – West Bengal – 733141	561.	Canara Bank BHASILA BRANCH (D P Code 5773) GP Office, Bhasila, PS - Deganga District : 24 Parganas (North) State – West Bengal – 743423
554.	Canara Bank BATUN BRANCH (D P Code 5186) V + PO – Batun Block – Kumarganj,	562.	Canara Bank PAIKPARA BRANCH (D P Code 5816)

- GP Office, V + PO – Ghatbaor,
PS - Bonga
District : 24 Parganas (North)
State – West Bengal – 743235
563. Canara Bank
JYOTISHPUR BRANCH
(D P Code 5815)
GP Office, V- Jyothishpur Nutun Hat
PS - Basanti
District : 24 Paraganas (South)
State – West Bengal
564. Canara Bank
GHATBAKULTALA BRANCH
(D P Code 5817)
GP Office, V & PO – Saratnagar,
Mathurapur
District : 24 Paraganas (South)
State – West Bengal – 743354
565. Canara Bank
HARINBARI BRANCH
(D P Code 5806)
Ramkarchar G P Office,
V + PO - Harinbari
PS - Sagar
District : 24 Paraganas (South)
State – West Bengal
566. Canara Bank
SANKARPUR BRANCH
(D P Code 5812)
GP Office – V – Dakhin Birampur
PO – Uttar Birampur, Via - Dholahat
District : 24 Paraganas (South)
State – West Bengal – 743399
567. Canara Bank
UTTAR DURGAPUR BRANCH
(D P Code 5810)
GPOffice – V – Mathurapur,
Station Road
PO - Mathurapur
District : 24 Paraganas (South)
State – West Bengal - 743354
568. Canara Bank
UTTAR LAKSHMINARAYANPUR
BRANCH (D P Code 5811)
GP Office,
Vill + PO – Uttar Lakshminarayanpur
PS - Mathurapur
District : 24 Paraganas (South)
State – West Bengal - 743354
569. Canara Bank
NALUA BRANCH (D P Code 5717)
GP Office – Nalua] PO – N Balua
PS - Mathurapur
District : 24 Paraganas (South)
State – West Bengal – 743354
570. Canara Bank
GHORADAL BRANCH (D P Code 5772)
GPOffice Majherghoradal, PO - Ghoradal
PS - Mathurapur
District : 24 Paraganas (South)
State – West Bengal – 743354
571. Canara Bank
MANDALERHAT BRANCH
(D P Code 5769)
GPOffice, 36, Mandalerhat
PS - Kultali
District : 24 Paraganas (South)
State – West Bengal
572. Canara Bank
KATAMARI BRANCH (D P Code 5770)
GPOffice V + PO + Kantamari
District : 24 Paraganas (North)
State – West Bengal - 743349
573. Canara Bank
RAMGOPALPUR BRANCH
(D P Code 5716)
Ramgopalpur G P Office,
Ramgopalpur PO
PS - Dholahat
District : 24 Paraganas (South)
State – West Bengal
574. Canara Bank
CHASPARA BRANCH
(D P Code 5766)
Gayeshbari G P Office, Chaspara,
Via Kalichak
District : Maldah
State – West Bengal - 732206
575. Canara Bank
POPRA BRANCH (D P Code 5807)
GP Office, Vil + PO - Popra
PS - Maldah
District : Maldah
State – West Bengal - 732141
576. Canara Bank
BAMONGRAM - MOSHIMPUR
BRANCH (D P Code 5768)
GP Office, Bamongram,
PO - Bamongram
District : Maldah
State – West Bengal - 732206
577. Canara Bank
SREERAMPUR BRANCH
(D P Code 5767)
GP Office - Sreerampur,
PO – Gandhinagar, Habibpur
District : Maldah
State – West Bengal - 732121

- | | |
|--|--|
| <p>578. Canara Bank
HEMKUMARI BRANCH (D P Code 5718)
GP Office- Hemkumari , PO - Hemkumari
District : Coochbehar
State – West Bengal - 735122</p> | <p>587. Canara Bank
HELAPAKRI BRANCH (D P Code 5761)
GP Office Vill + PO - Helapakri
District : Jalpaiguri
State – West Bengal - 735306</p> |
| <p>579. Canara Bank
RAMPUR BRANCH (D P Code 5719)
GP Office - Rampur, PO – Lohananda
PS - Raiganj
District : Uttar Dinajpur
State – West Bengal - 733134</p> | <p>588. Canara Bank
PASCHIM MAGURMARI BRANCH
(D P Code 5694)
GP Office Vill – Paschim Magurmari
PO – Kalirhat, Via - Dhupguri
District : Jalpaiguri
State – West Bengal - 735201</p> |
| <p>580. Canara Bank
BOALDAR BRANCH (D P Code 5720)
GP Office - Boaldar, PO – Khaspur
Balurghat Block
District : Dakshin Dinajpur
State – West Bengal - 733102</p> | <p>589. Canara Bank
GHANSAHAR BRANCH (D P Code 5814)
Majhra GP Office, Ghansahar
PO – Bagsaraiv Via- Gajal
District : Maldah
State – West Bengal - 732124</p> |
| <p>581. Canara Bank
SAPTIBARI - I BRANCH (D P Code 5721)
GP Office, Vill: Saptibari via Mayanaguri
District : Jalpaiguri
State – West Bengal - 735224</p> | <p>590. Canara Bank
GORDOANI BRANCH (D P Code 5813)
GP Office , PO Bokultalahat, PS - Joynagar
District : 24 Pargnas (South)
State – West Bengal - 743338</p> |
| <p>582. Canara Bank
HABIBPUR BRANCH (D P Code 5722)
GP Office - Habibpur, PO - Habibpur
District : Maldah
State – West Bengal - 732122</p> | <p>591. Canara Bank
CHAR BIDYARABAD BRANCH
(D P Code 5809)
GP Office Charavidya, PO – Charavidya
PO - Basanti
District : 24 Pargnas (South)
State – West Bengal - 743329</p> |
| <p>583. Canara Bank
HATINDA BRANCH (D P Code 5765)
GP Office - Hatinda, PO - Hatinda
District : Maldah
State – West Bengal - 732122</p> | <p>592. Canara Bank
FULMALANCH A BRANCH
(D P Code 5808)
GP Office Panikhali, PO – Khalisakhali
PS - Basanti
District : 24 Parganas (South)
State – West Bengal - 743329</p> |
| <p>584. Canara Bank
UTTAR BOXIGANJ BRANCH
(D P Code 5805)
GP Office, Vill + PO – Boxiganj,
Via - Haldibari
District : Coochbehar
State – West Bengal - 735122</p> | <p>593. Canara Bank
JAHANGIRPUR BRANCH (D P Code 5185)
Vill : Ramdevpur, PO – Jahangirpur
Block - Gangarampur
District : South Dinajpur
State – West Bengal - 733124</p> |
| <p>585. Canara Bank
DEWANBAS BRANCH (D P Code 5762)
GP Office V – Dewanbas, PO - Gitaldah
Block – Dinhata - I
District : Coochbehar
State – West Bengal - 736175</p> | <p>594. Canara Bank
MAHESHTALA SME BRANCH
(D P Code 5005)
B1-91, New Biren Roy Road, Ward No.15
Ganipur Mouza, PS - Maheshtala
District : 24 Parganas (South)
State – West Bengal - 700141</p> |
| <p>586. Canara Bank
BARASOULMARI BRANCH
(D P Code 5763)
GP Office , Vill – Barasoulmari
PO - Subachamirpata
District : Coochbehar
State – West Bengal - 736135</p> | <p>595. Canara Bank
BANGAON BRANCH (D P Code 4975)
269/265/A, Station Road, Near Shib Mandir
PO Bongaon</p> |

PS Bongaon
District : 24 Parganas (North)
State – West Bengal - 743235

Circle Office : VISAKHAPATNAM (35)

- | | |
|---|---|
| <p>596. Canara Bank
SME VISAKHAPATNAM BRANCH
(D P Code 4488)
49-52-5/4 Sree Kanya Towers, Santhipuram
Sankaramatham Road, Akkayypalem
Visakhapatnam
State – Andhra Pradesh - 530016</p> <p>597. Canara Bank
SME KAKINADA BRANCH
(D P Code 4487)
27-9-7 Sri Lakshmi Towers,
Pulavarthivari Street
Kakinada
State – Andhra Pradesh - 533001</p> <p>598. Canara Bank
J B PURAM BRANCH (D P Code 4468)
2-8, P.O. Chukkapalle, J B Puram
State – Andhra Pradesh - 531036</p> <p>599. Canara Bank
TEKKALI BRANCH (D P Code 4563)
2-67, Old NH 5, Opp. RTC Complex
Tekkali
State – Andhra Pradesh - 532201</p> <p>600. Canara Bank
MANDAPET BRANCH (D P Code 4477)
30-3-1, Municipal Office Street
Mandapeta
State – Andhra Pradesh - 533308</p> <p>601. Canara Bank
ANAPARTHI BRANCH (D P Code 4476)
6-248, Seshagiriraopet, Anaparthi
State – Andhra Pradesh - 533342</p> <p>602. Canara Bank
PENDURTHI BRANCH (D P Code 4474)
17-90/13, Ground Floor, Main Road
Pendurthi
State – Andhra Pradesh - 531173</p> <p>603. Canara Bank
NARASANNAPET BRANCH
(D P Code 4472)
23-564, I Floor, Pallipet Junction
Narasannapet
State – Andhra Pradesh - 532421</p> <p>604. Canara Bank
TUNI BRANCH (D P Code 4475)
No.6-1-14, Bellapu Veedhi
Tuni, East Godavari Dist.
State – Andhra Pradesh - 533401</p> | <p>605. Canara Bank
GAJAPATHINAGARAM BRANCH
(D P Code 4471)
6-896/1 Main Road,
Opp. Gangaraju Kalamandri
Gajapathinagaram
State – Andhra Pradesh - 535270</p> <p>606. Canara Bank
ACHUTAPURAM BRANCH
(D P Code 4930)
D.No. 3-254, 1st Floor
Old Elamanchili Road, Achutapuram
State – Andhra Pradesh - 531011</p> <p>607. Canara Bank
MADHURAVADA BRANCH
(D P Code 5211)
D.No.3-73/1, HIG-5, Midhilapuri Vuda Colony
Visakhapatnam
State – Andhra Pradesh - 530041</p> <p>608. Canara Bank
NAVIRI BRANCH (D P Code 5325)
1-1 GF, Naviri New Colony
Kothavalasa (PO), Navri, Garugubilli Mandal
Vizianagaram Dist.
State – Andhra Pradesh - 535501</p> <p>609. Canara Bank
R BHEEMAVARAM BRANCH
(D P Code 5326)
1/97 Main Road, Near Ramalayam
R Bheemavaram
State – Andhra Pradesh - 531032</p> <p>610. Canara Bank
RAMACHANDRAPURAM BRANCH
(D P Code 5516)
Ground Floor, 26-1-35A, Kakinada Road
Ramachandrapuram, East Godavari Dist.
State – Andhra Pradesh - 533255</p> <p>611. Canara Bank
UNDURU BRANCH (D P Code 8875)
GF, Near Co-op. Society Building Main Road
Unduru, East Godavari Dist.
State – Andhra Pradesh</p> <p>612. Canara Bank
MALLAVARAM BRANCH
(D P Code 9203)
D No.2-99, G F Main Road
A K Mallaram
State – Andhra Pradesh - 533449</p> <p>613. Canara Bank
GOKIVADA BRANCH (D P Code 8877)
D. No.6-48, Main Street, Gokivada Post
Rambilli Mandal
State – Andhra Pradesh - 531061</p> |
|---|---|

- | | |
|--|---|
| <p>614. Canara Bank
SRUNGAVARAPU KOTA BRANCH
(D P Code 5599)
D.No.12-138, Ground Floor, Main Road
Srugavarapukota, S Kota PO
State – Andhra Pradesh - 535145</p> <p>615. Canara Bank
VISAKHAPATNAM SEETAMMADHARA
BRANCH (D P Code 5659)
D No.49-52 5/4 Sree Kanya Towers
Sankaramatham Road, Akkayyapalem Post
Visakhapatnam Taluk
State – Andhra Pradesh - 530016</p> <p>616. Canara Bank
VISAKHAPATNAM LAWSONSBAY
COLONY BRANCH (D P Code 5660)
D.No.1-83-43, Plot No.204/4, Double Road
LB Colony Post, Visakhapatnam (Urban) Taluk
State – Andhra Pradesh - 530017</p> <p>617. Canara Bank
VISAKHAPATNAM DONDAPARTHI
BRANCH (D P Code 5661)
D.NO. 48-14-44, Ground Floor,
Rama Talkies Road
Dondaparthi Post, Visakhapatnam Taluk
State – Andhra Pradesh - 530016</p> <p>618. Canara Bank
PALASA KASIBUGGA BRANCH
(D P Code 5581)
Ground Floor, D No.1-5-695, Indira Chowk
K T Road, Palasa
State – Andhra Pradesh - 532221</p> <p>619. Canara Bank
KOTHAVALASA BRANCH
(D P Code 5736)
I Floor, Moorkuri Mansions
Opp. MOD's Office Main Road, Kothavalasa
State – Andhra Pradesh - 535183</p> <p>620. Canara Bank
PALAKONDA BRANCH (D P Code 5735)
2-47, Srinivasa Kalyana, Mandapam Complex
Opp MDO's Office, Rajam Main Road,
Palakonda
State – Andhra Pradesh - 532440</p> <p>621. Canara Bank
SOMPETA BRANCH (D P Code 5737)
15-78, Ground Floor, Church Street
Sompeta
State – Andhra Pradesh - 532284</p> <p>622. Canara Bank
PITHAPURAM BRANCH (D P Code 5935)
14-2-36, V V S Grand, Vanapu Veedhi
Park Centre, Pithapuram
State – Andhra Pradesh - 533450</p> | <p>623. Canara Bank
ANAKAPALLE BRANCH (D P Code 6086)
9-20-1/16 N T R Market Yard Ring Road
Anakapalle Dist. Visakhapatnam
State – Andhra Pradesh</p> <p>624. Canara Bank
SABBAVARAM BRANCH (D P Code 6028)
Sy. No.266/1, Sabbavaram Village &
Grama Panchayat
Sabbavaram Mandal, Dist. Visakhapatnam
State – Andhra Pradesh</p> <p>625. Canara Bank
NARSIPATNAM BRANCH
(D P Code 6087)
#1/173, Anakapalli Road, Narsipatnam
Visakhapatnam Dist.
State – Andhra Pradesh</p> <p>626. Canara Bank
AMUDALAVALASA BRANCH
(D P Code 5598)
Sy. No.90/3, Ground Floor,
Varadavari Building
Main Road,
State – Andhra Pradesh - 532185</p> <p>627. Canara Bank
VISALAKSHI NAGAR BRANCH
(D P Code 6027)
2-47, Srinivasa Kalyana, Mandapam Complex
Opp MDO's Office, Rajam Main Road,
Palakonda
State – Andhra Pradesh - 532440</p> <p>628. Canara Bank
ADARSHNAGAR BRANCH
(D P Code 6038)
5-569 Sig Nagar, Ravindra Nagar Last Bus Stop
Old Dairy Farm, Adarshnagar, Visakhapatnam
State – Andhra Pradesh - 533040</p> <p>629. Canara Bank
KAKANI NAGAR BRANCH
(D P Code 6085)
D No.21-212 Nad (Post) Kakaninagar,
Visakhapatnam
State – Andhra Pradesh - 530009</p> <p>630. Canara Bank
MARRI PALEM BRANCH (D P Code 6089)
Saileela Jagannadh Towers
Door No.58-14-50/2/1 & 2 Maripalem
Vudalayout, Plot No.19 & 20, Visakhapatnam
State – Andhra Pradesh - 530009</p> <p><u>Circle Office : HUBBALI (14)</u></p> <p>631. Canara Bank
NAVALGUND BRANCH (D P Code 3039)</p> |
|--|---|

- Sri Balaji Complex, Gadaj Road
District - Dharwad
State – Karnataka - 582208
632. Canara Bank
HIEMORABA BRANCH (D P Code 5332)
Main Road, Hiremoraba
District - Haveri
State – Karnataka - 581210
633. Canara Bank
ARALIMATTI BRANCH (D P Code 5335)
Main Road, Aralimatti
District - Belgaum
State – Karnataka - 591227
634. Canara Bank
MALLAPUR S A BRANCH (D P Code 5336)
Main Road, Mallapur S A
District - Belgaum
State – Karnataka - 591101
635. Canara Bank
KALGHATGI BRANCH (D P Code 5339)
Hubli Karwad Road
District - Dharwad
State – Karnataka - 581204
636. Canara Bank
CHIKODI BRANCH (D P Code 5340)
Plot No.6703/1/P-3 M K Kavatagimath Road
District - Belgaum
State – Karnataka - 591201
637. Canara Bank
NYAMATI BRANCH (D P Code 5341)
Ground Floor, Opposite Nada Kacheri
Nehru Road
District - Davangere
State – Karnataka - 577223
638. Canara Bank
KHANAPUR BRANCH (D P Code 5752)
Sy. No.95A, Belgaum Goa Road, Khanapur
District - Belgaum
State – Karnataka - 591302
639. Canara Bank
HARIHAR OLD P B ROAD BRANCH
(D P Code 5847)
K G N Towers, Old P B Road, Harihar
District - Davangere
State – Karnataka - 577601

640. Canara Bank
HANGAL BRANCH (D P Code 5849)
3641/3641/4-1, Near JMFC Court
T G Road, Hangal
District - Haveri
State – Karnataka - 581104
641. Canara Bank
HANAGAWADI BRANCH (D P Code 8701)
Karibassappa Building, Hanagawadi
District - Davangere
State – Karnataka - 577603
642. Canara Bank
BELGAUM VADGAON BRANCH
(D P Code 5299)
FF City Survey No.461, First Floor
Datta Galli, Vadgaon
District - Belgaum
State – Karnataka - 590005
643. Canara Bank
HUKERI BRANCH (D P Code 5342)
CTS No.2399/1, Karnal Complex, Main Road
District - Belgaum
State – Karnataka - 591309
644. Canara Bank
KAGAWAD BRANCH (D P Code 5848)
Chikodi Miraj Road, Near Marimaharaj Road
District – Belgaum
State – Karnataka - 591223

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2016

का.आ. 752.— केंद्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में संलग्न अनुबंध में उल्लिखित निम्नलिखित बैंकों की सूचीबद्ध शाखाओं/ कार्यालयों को, जिनके 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

क्र.सं.	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
1.	इंडियन ओवरसीज बैंक	250
2.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	91
3.	पंजाब नैशनल बैंक	211
	कुल	552

[फा.सं. 11016/1/2015-हिंदी (अधि.)]

डॉ. वेद प्रकाश दूबे, संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

**राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के तहत
शाखाओं को अधिसूचित करना**

'क' क्षेत्र

आगरा क्षेत्र

क्र. सं.	शाखा का नाम एवं कोड नं.	शाखा का पूरा पता पिन कोड सहित			
1.	अकबरा (3051)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, ग्राम: अकबरा, पोस्ट: अरतोनी, तहसील- किरावली जिला -आगरा- 282007	9.	शोप (3391)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ग्राम तथा पोस्ट - शोप पिन : 304023 जिला : टोंक
2.	एटा (2997)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, होटल शिखर, आगरा रोड, न्यू बस स्टैंड के पास, एटा- 207001(उ.प्र.)	10.	भूगौर (3600)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक खसरा संख्या : 81, ग्राम-भूगौर, पोस्ट - उमरैन, पिन : 301001 जिला अलवर
3.	फिरोज़ा-बाद (3011)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, मुख्य डाकघर के सामने, आवास विकास कालोनी, सुहाग नगर, फिरोज़ाबाद -283201	11.	लाड़नू (3688)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक डॉ. टण्डन बिल्डिंग एलआईसी ऑफिस के पास स्टेशन रोड, लाड़नू जिला नागौर- 341306
4.	धनौली (3492)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, खादी ग्रामोद्योग भवन के पास, जगनेर रोड, धनौली - 262001 जिला -आगरा	12.	मौलासर (3666)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक सोमानी ट्रस्ट बिल्डिंग सत्यनारायण मंदिर के पास मौलासर, जिला नागौर -341506
5.	औरैया (3638)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, मोहल्ला - बनारसीदास, जिला न्यायालय के पास, औरैया - 206122 (उ.प्र.)	13.	गंगापुर सिटी (3747)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक 178-179 हिण्डौन करौली रोड गंगापुर सिटी पिन: 322201 जिला - सवाई माधोपुर
6.	शिकोहा-बाद (3660)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, 128 बी, नगला कुंवर प्रसाद, एटा चौराहे के पास, आगरा इटावा रोड, एन.एच.-12, शिकोहाबाद - 283135	14.	रूपवास (3100)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक एस 42-45, वनस्थली मोड पोस्ट ऑफिस - निवाई औद्योगिक क्षेत्र, 11 डी सेंटर ग्राम : रूपवास पिन : 304022 जिला : टोंक
जयपुर क्षेत्र			15.	मांचवा (3223)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक 96-97 वृन्दावन कॉलोनी कलवाड़ रोड, पंचायत समिति के पास ग्राम +पोस्ट : मांचवा पिन : 303706 जिला - जयपुर
7.	टोकसी (3443)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ग्राम पंचायत भवन ग्राम तथा पोस्ट - टोकसी पिन -322202 जिला : सवाई माधोपुर			
8.	खैरथल (3618)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक खसरा संख्या : 2882 सर्वोदय माध्यमिक विद्यालय के पास 40 फीट रोड, खैरथल पिन : 301404 जिला - अलवर			

16	आरआरसी (3352)	इण्डियन ओवरसीज बैंक एसबी-57 रिद्धि टावर, प्रथम तल बापू नगर, टोंक रोड, जयपुर पिन : 302015 जिला : जयपुर	23.	ओरई (3280)	इण्डियन ओवरसीज बैंक 729 जगमानपुर हाउस पटेल नगर, ओरई पिन: 285001 जिला : जालौन, उत्तर प्रदेश
लखनऊ क्षेत्र			24.	खागा (3281)	इण्डियन ओवरसीज बैंक मानू का पुरवा, जी टी रोड खागा पिन : 212655 जिला : फतेहपुर, उत्तर प्रदेश
17.	भूएमऊ (3071)	इण्डियन ओवरसीज बैंक ग्राम व पोस्ट - भूएमऊ मजरा मुलिहा मऊ, राय बरेली, पिन : 229001 जिला : राय बरेली, उत्तर प्रदेश	25.	झोखन बाग (3332)	इण्डियन ओवरसीज बैंक 208/4वीं झोखन बाग, झांसी पिन : 284001 जिला : झांसी, उत्तर प्रदेश
18.	अहमामऊ (3072)	इण्डियन ओवरसीज बैंक पृथ्वी गेस्ट हाउस के सामने सुलतानपुर रोड, अहमामऊ, लखनऊ, पिन : 226002 जिला: लखनऊ, उत्तर प्रदेश	26.	बक्कास (3358)	इण्डियन ओवरसीज बैंक खसरा नं. 88 खुरदई बाजार बक्कास, सुलतानपुर रोड, पिन : 226002 जिला : लखनऊ, उत्तर प्रदेश
19.	सिधौली (3195)	इण्डियन ओवरसीज बैंक टीचर कोलोनी, बहादुरपुर, गाँधी विद्यालय इंटर कॉलेज के सामने सिधौली, पिन : 261303 जिला : सीतापुर , उत्तर प्रदेश	27.	माल (3366)	इण्डियन ओवरसीज बैंक खसरा नं. 298 माल - भरावन रोड माल, लखनऊ पिन : 226104 जिला : लखनऊ, उत्तर प्रदेश
20.	बंथरा (3232)	इण्डियन ओवरसीज बैंक खसरा नं. 947 राजपूत नर्सिंग होम ग्राम व पोस्ट बंथरा सिकन्दरपुर पिन : 227101 जिला : लखनऊ, उत्तर प्रदेश	28.	तमनपुर (3392)	इण्डियन ओवरसीज बैंक पोस्ट - सेहगोन तहसील - महाराजगंज तमनपुर पिन: 229311 जिला : राय बरेली, उत्तर प्रदेश
21.	लाल बंगला (3233)	इण्डियन ओवरसीज बैंक 53 ए (बी) चन्द्र नगर लाल बंगला कानपुर पिन : 208007 जिला : कानपुर नगर , उत्तर प्रदेश	29.	बलई (3407)	इण्डियन ओवरसीज बैंक खसरा नं. 92 मौजा - लोहचा पोस्ट - हरहा , अचलगंज पिन : 209801 जिला : उन्नाव, उत्तर प्रदेश
22.	मेथी टिकुर (3247)	इण्डियन ओवरसीज बैंक प्लॉट नं. 2627 चकलवाँसी संडीला रोड, ग्राम मेथी टिकुर, पोस्ट एटवा पिन : 209871 जिला : उन्नाव, उत्तर प्रदेश	30.	संडीला (3408)	इण्डियन ओवरसीज बैंक गृह सं. 18 प्रताप भवन , सुम्बा बाग , लखनऊ रोड, संडीला, पिन : 241204 जिला : हरदोई, उत्तर प्रदेश

31.	हैदरगढ़ (3419)	इण्डियन ओवरसीज बैंक डाक घर के पास, लखनऊ - सुलतानपुर रोड, हैदरगढ़, पिन : 225124 जिला : बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	मेरठ क्षेत्र 37. मिर्जापुर (3244)	इण्डियन ओवरसीज बैंक पो.आ.मिर्जापुर, बुलंदशहर. पिन-203201, जिला-बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश
32.	देवा (3464)	इण्डियन ओवरसीज बैंक गृह सं. -143 मोहल्ला हुज्जाजी-3 तहसील - नवाबगंज, देवा शरीफ, पिन : 225301 जिला : बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	38. अम्हेड़ा आदिपुर (3310)	इण्डियन ओवरसीज बैंक ग्राम-अम्हेड़ा आदिपुर, पोआ -सिखेरा, जिला-मेरठ पिन - 250001 (उ.प्र.)
33.	बलरामपुर (3575)	इण्डियन ओवरसीज बैंक गृह सं. 51, मोहल्ला - भगवतीगंज, गोंडा रोड, बलरामपुर, पिन : 271201 जिला : बलरामपुर, उत्तर प्रदेश	39. हापुड़ (3311)	इण्डियन ओवरसीज बैंक एन के एस विला, गौंधी गंज गढ़ रोड, हापुड़-पिन- 245101 उत्तर प्रदेश
34.	धूता (3614)	इण्डियन ओवरसीज बैंक पं.राम शरण मिश्र इंटर कॉलेज मिश्रापुर, पोस्ट - गुलरीहा, धूता, पिन : 229401 जिला : राय बरेली, उत्तर प्रदेश	40. मुदिया अहमद नगर (3369)	इण्डियन ओवरसीज बैंक ग्राम- मुदिया अहमद नगर, तहसील-बरेली, जिला - बरेली - 243122 (उ.प्र.)
35.	पाईला (3645)	इण्डियन ओवरसीज बैंक प्लॉट नं. 758/3 ग्राम व पोस्ट बेहजम कस्ता रोड, पाईला पिन : 261501 जिला : खिरी, उत्तर प्रदेश	41. घाट (3568)	इण्डियन ओवरसीज बैंक ग्राम- घाट, पोस्ट-पाँचली जिला-मेरठ पिन-25002 उत्तर प्रदेश
36.	तेलीबाग (3673)	इण्डियन ओवरसीज बैंक 590 / एच - 90 साई टावर, हैवतमऊ मवैया राय बरेली रोड पिन : 226025 जिला : लखनऊ, उत्तर प्रदेश	42. बंतीखेड़ा (3569)	इण्डियन ओवरसीज बैंक ग्राम व पोस्ट-बंतीखेड़ा जिला-शामली, उत्तर प्रदेश
			43. नजीबाबाद (3686)	इण्डियन ओवरसीज बैंक एनएच-74, मुरादाबाद रोड, ऑल इण्डिया रेडियो के सामने, नजीबाबाद पिन-246763, जिला -बिजनौर
			44. खतौली (3755)	इण्डियन ओवरसीज बैंक जी टी रोड, खतौली पिन-251201 जिला-मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
			45. नीमखेड़ा शाखा (3085)	इण्डियन ओवरसीज बैंक नीमखेड़ा शाखा ग्राम- नीमखेड़ा, मामन रोड पोस्ट- बुलंदशहर जिला-बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश पिन-203001

46.	बन्धुखेड़ी शाखा (3083)	इण्डियन ओवरसीज बैंक बन्धुखेड़ी शाखा ग्राम- बन्धुखेड़ी पोस्ट -फाडपुरी,ताल्लुक- नाकुड जिला- सहारनपुर (उ.प्र.), पिन- 247001	54.	शिवहर (3398)	इण्डियन ओवरसीज बैंक वार्ड सं. 15, शिवहर जिला- शिवहर पिन : 843329
47.	जगतपुर अलियास सुल्तानपुर शाखा (3084)	इण्डियन ओवरसीज बैंक जगतपुर अलियास सुल्तानपुर शाखा ग्राम-जगतपुर अलियास सुल्तानपुर पोस्ट-चोला रेलवे स्टेशन जिला-बुलंदशहर, (उ.प्र.), पिन- 203203	55.	फारबिसगंज (3399)	इण्डियन ओवरसीज बैंक माधवी कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल रोड फारबिसगंज, पिन : 854318
48.	चौड़ा खुर्द शाखा (3243)	इण्डियन ओवरसीज बैंक चौड़ा खुर्द शाखा ग्राम-चौड़ा खुर्द पोस्ट-चौड़ा देव जिला- सहारनपुर (उ.प्र.) पिन- 247669	56.	आदमपुर (3415)	जिला : अररिया इण्डियन ओवरसीज बैंक ग्राम - आदमपुर पोस्ट - आदमपुर गिरियक पिन : 803109
पटना क्षेत्र			57.	खगडिया (3433)	पिन : नालन्दा इण्डियन ओवरसीज बैंक सागरमल चौक मिल रोड, खगडिया जिला: खगडिया पिन : 851204
49.	सासाराम (3167)	इण्डियन ओवरसीज बैंक श्री श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स जी.टी. रोड, सासाराम पिन - 821115 जिला - रोहतास	58.	सीतामढी (3442)	इण्डियन ओवरसीज बैंक प्रथम तल्ला सेन्ट्रल मार्केट, मेन रोड सीतामढी, पिन: 843302
50.	बेतिया (3168)	इण्डियन ओवरसीज बैंक मारुति मेकर बिल्डिंग सुप्रिया रोड, बेतिया पिन- 845438 जिला- पश्चिमी चम्पारण	59.	छेदी सिंह टोला (3483)	जिला : सीतामढी इण्डियन ओवरसीज बैंक ग्राम- छेदी सिंह टोला छेदी सिंह टोला, जिला : पटना पिन : 803211
51.	दुल्लीपट्टी (3206)	इण्डियन ओवरसीज बैंक ग्राम एवं पो. दुल्लीपट्टी पी.एस. जयनगर पिन: 847226 जिला : मधुबनी	60.	बोध गया (3522)	इण्डियन ओवरसीज बैंक दोमुहॉन बोधगया पिन : 824231 जिला : गया
52.	मोहनबरियम (3207)	इण्डियन ओवरसीज बैंक गाम - मोहनबरियम कन्हौली, बाया - सकरी पिन : 847239 जिला : मधुबनी	61.	जहानाबाद (3523)	इण्डियन ओवरसीज बैंक पी.जी. रोड जहानाबाद पिन : 804408 जिला : जहानाबाद
53.	अनिसाबाद (3271)	इण्डियन ओवरसीज बैंक मगध प्लाजा, बलमी चक मोड, खगौल रोड, अनिसाबाद, जिला - पटना, पिन - 800002	62.	कोथवाँ (3524)	इण्डियन ओवरसीज बैंक कैलाशपुरी आर. पी. एस. इंजिनियरिंग कॉलेज के निकट, कोथवाँ पिन : 801503 जिला : पटना

63.	तियारपाड़ा (3590)	इण्डियन ओवरसीज बैंक चन्द्रमा चौक के निकट पो.-बेलवाँ, तियारपाड़ा पिन: 854105 जिला : कटिहार	72.	खगौल (3701)	इण्डियन ओवरसीज बैंक देव भवन, गाँधी विद्यालय रोड मोती चौक के निकट, खगौल जिला - पटना
64.	सगुना मोड़ (3606)	इण्डियन ओवरसीज बैंक प्रथम तल्ला, देवेन्द्र लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स बेली रोड़, सगुना मोड़ पटना, पिन : 801503 जिला : पटना	एनसीआर क्षेत्र		
65.	असनी (3611)	इण्डियन ओवरसीज बैंक ग्राम - असनी, पो. असनी जैतपुर, पिन : 802210 जिला : भोजपुर	73.	सैनिक कालोनी, फरीदाबाद, (3349)	इण्डियन ओवरसीज बैंक एससीएफ 66 सैनिक कालोनी, सैक्टर-49, कमर्शियल मार्केट, अपोजिट डीएवी स्कूल, फरीदाबाद-121001
66.	चौरहर (3646)	इण्डियन ओवरसीज बैंक ग्राम - चौरहर, पो. गया एयरपोर्ट, जिला-गया, पिन- 823004	74.	सैक्टर-8, फरीदाबाद, (3376)	इण्डियन ओवरसीज बैंक एससीएफ 203, सैक्टर-8, हुडा मार्केट, फरीदाबाद
67.	दावथ (3656)	इण्डियन ओवरसीज बैंक ग्राम एवं पो. दावथ जिला : रोहतास दावथ, पिन : 802226 जिला : रोहतास	75.	आर.आर.सी, गुड़गाँव, (3343)	इण्डियन ओवरसीज बैंक प्रथम तल, यादव भवन, ओल्ड रेलवे रोड, गुड़गाँव-122001
68.	बकरी बाजार (3657)	इण्डियन ओवरसीज बैंक गाम - बकरी बाजार वाया - रामनगर बकरी बाजार, पिन : 845106 जिला : पश्चिमी चम्पारण	76.	सैक्टर-5, गुड़गाँव, (3374)	इण्डियन ओवरसीज बैंक दुकान नं. 2, शीतला असोसिएट्स के पास, शीतला माता मंदिर रोड, अपोजिट सैक्टर-5, गुड़गाँव
69.	गोला रोड (3658)	इण्डियन ओवरसीज बैंक राम सहाय मार्केट, कृष्णा मार्केट गोला रोड, पो. दानापुर पटना, पिन : 801503 जिला : पटना	77.	छजारसी, नोएडा, (3178)	इण्डियन ओवरसीज बैंक सीएच ब्लॉक गाँव, छजारसी, अपोजिट सैक्टर- 63, नोएडा-201307
70.	बिहटा (3685)	इण्डियन ओवरसीज बैंक कांटी कॉम्प्लेक्स भागवत मार्केट, मेन रोड बिहटा, पिन : 801103 जिला : पटना	78.	शरफाबाद, नोएडा, (3315)	इण्डियन ओवरसीज बैंक सैक्टर-73, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, शरफाबाद, नोएडा-201301
71.	अरवल (3689)	इण्डियन ओवरसीज बैंक अरवल जहानाबाद रोड, एन.एच. 110, रोजापर अरवल अरवल पिन: 804401, जिला : अरवल	79.	जलपुरा, हलदोनी, (3364)	इण्डियन ओवरसीज बैंक खसरा नं.-689, चौधरी बिबारी सिंह मार्केट, जलपुरा हलदोनी मोड़, पोस्ट कुलेशरा-201306
			80.	सैक्टर-22, नोएडा, (3375)	इण्डियन ओवरसीज बैंक अपोजिट जे-55, गाँव चौरा, सैक्टर-22, नोएडा-201301
			81.	राजनगर, गाज़ियाबाद, (3406)	इण्डियन ओवरसीज बैंक सी-46, आरडीसी राजनगर, गाज़ियाबाद-201001
			82.	दादरी, नोएडा, (3519)	इण्डियन ओवरसीज बैंक नाईदर गंज, नगरपालिका कार्यालय के पास, जी.टी रोड, दादरी, जिला-गौतम बुद्ध नगर-203207

83.	खेड़ीकलान, फरीदाबाद, (3659)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक प्लॉट नं. 19/1, भारत कालोनी, खेड़ी रोड, फरीदाबाद-121002	94.	बाजपुर (3504)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक रानपुर रोड, चक्रपुर रोड के सामने, बाजपुर उधम सिंह, पिन- 262401
84.	वज़ीराबाद, गुड़गाँव, (3714)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक प्लॉट नं. 40 श्याम चौक, गर्ल्स गवर्नमेंट हाई स्कूल के पास, वज़ीराबाद, गुड़गाँव -122003	95.	किच्छा (3505)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक स्टील इण्डस्ट्रीज, रूद्रपुर रोड, निकट पावर हाऊस, किच्छा, उधम सिंह नगर - 263148
देहरादून क्षेत्र			96.	ऐचोली (3506)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक टनकपुर रोड, चंद्राबाग अंचोली, पितौरागढ़ - 262530
85.	क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून (2952)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक 595, इंदिरा नगर, मलिक चौक देहरादून, उत्तरांचल पिन : 248006	97.	सिटी बैंक ऑफिस	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक 32 को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियर एरिया पटेल नगर, देहरादून पिन : 248002
86.	भारूवाला ग्रांट (3113)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक लाईन- 4, टर्नर रोड, बिल्डिंग न. -37/2, क्लेमेन्ट टाऊन भारूवाला ग्रांट, देहरादून	98.	रायपुर-भगवानपुर (3635)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक गोदरेज फैक्ट्री के सामने, देहरादून रोड, ग्राम रायपुर भगवानपुर परगना भगवानपुर, तहसील रूडकी, जिला हरिद्वार
87.	बहादुरपुरजट (3211)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक गांव बहादुरपुरजट, थाना पथरी बलौक बहादुराबाद जिला हरिद्वार- 249404	99.	अल्मोड़ा (3654)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक पंत निवास मौहल्ला पनीउडीमार लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा, 263601
88.	सराई (3212)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक गांव और पो. बो. सराई इण्डा चौक, जिला हरिद्वार, पिन-636004	100.	दहियाकि (3724)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक राष्ट्रीय राजमार्ग गांव दहियाकि, पो.बो. गुरुकुल नारसन, जिला दरिद्वार, उत्तराखण्ड - 247670
89.	मालसी (3213)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक निकट आर्यन स्कूल मसूरी रोड, मालसी	101.	जोशीमठ (3718)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक नरसिंह मंदिर रोड अपर बजार जोशीमठ, जिला चमोली- 246443
90.	नथनपुर (3214)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक एकता विहार, डाकघर के आगे, नेहरू ग्राम, रिंगरोड नथनपुर देहरादून	102.	भुड्डी (3738)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक गांव भुड्डी, तहसील विकास नगर जिला- देहरादून, उत्तराखण्ड- 240007
91.	मोथरोवाला (3215)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ठाकुरचौक के पास, दूधली रोड, गांव और पो. बो. सिसोना ब्लॉक सितारगंज, उधमसिंह नगर पिन- 262405	भोपाल क्षेत्र		
92.	सिसोना (3256)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक गांव सिसोना, पो.बो. सिसोना ब्लॉक सितारगंज उधम सिंह नगर पिन- 262405	103.	भवरसला (3130)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक प्लाट नं. 40,41, शाकंबरी, एवेन्यू कालोनी, पोस्ट- श्री अरविंदो एस ओ, ग्राम - भवरसला पिन - 453555, जिला - इन्दौर
93.	आदर्श टेहरी नगर (3372)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक आदर्श टेहरी नगर, पोस्ट अम्बुवाला, निकट थाना पथरी, हरिद्वार पिन- 249405			

104.	पिपलिया बाजखान (3133)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक प्लॉट नं 3,4, 5 चित्रकूट गांव पिपलिया बाजखान पिन : जिला : भोपाल	112.	डवरा (3482)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक क्रमांक . 17/1/1 ग्वालियर झांसी मेन रोड डवरा पिन : 475110 जिला : ग्वालियर
105.	सतना (3188)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक खसरा नं० 252, सतना बिल्डिंग, रीवा रोड, सतना पिन -485001, जिला- सतना	113.	लांबाखेड़ा (3627)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक शॉप नं 1,2,3 कोमल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बेरसिया मेन रोड, पी ओ इस्लाम नगर लांबाखेड़ा-भोपाल पिन : 462038 जिला भोपाल
106.	पुरासनी (3132)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक भवन सं. 3733, ए ब्लॉक, सिथौली रेलवे स्टेशन के पास, रेलवे स्प्रिंग फैक्टरी के सामने, ग्राम पुरसनी, पोस्ट - आई.टी. एम. कालेज, पिन - 474001, जिला -ग्वालियर	114.	कटारा (3536)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक शॉप सं. 12-14 प्रथम तल, स्प्रिंग वेली आरकेड ग्राम कटारा भोपाल पिन : 462043 जिला : भोपाल
107.	सिटी सेंटर (3283)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक 75 कैलाश बिहार सिटी सेंटर ग्वालियर पिन : 474011 जिला : ग्वालियर	115.	अरेरा कॉलोनी (3728)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक प्लॉट सं: आर-4, ई-6, अरेरा कॉलोनी साई बाबा रोड के पास भोपाल पिन : 462016 जिला : भोपाल
108.	कोलार रोड (3338)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक 1,2,3,6,7,8 विंडसर मध्य मंदाकिनी सोसाइटी, कोलार रोड भोपाल, पिन : 462042 जिला : भोपाल	116.	लिम्बोदी (3404)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक 270 दिलपसंद इंकलेव रानीबाग कॉलोनी लिम्बोदी-इंदौर पिन : 452020 जिला : इंदौर
109.	नैनौद (3131)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक प्लॉट नं० 139, गांधीनगर, ग्राम- नैनौद, पिन - 453112, जिला इंदौर	रायपुर क्षेत्र		
110.	वीरपुर (3189)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक इमली नाका, वीरपुर पिन - 474001, जिला ग्वालियर	117.	वि. कृ. ऋ. शा. बेमेतरा (3092)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक घस्ती चौक, दुर्ग रोड, धर्मा आरा मिल के निकट, पो - बेमेतरा, पिन- 491335, जिला- दुर्ग
111.	बोरदा (3209)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक आल्टीमेट इंगलिश विला, मेन कोलार रोड, ग्राम- बोरदा पिन - 462042, जिला - भोपाल	118.	वि. कृ. ऋ. शा. सरायपली (3094)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक बस्ती सरायपली चौक, पो- सरायपली पिन - 493558, जिला - महासमुंद
			119.	वि. कृ. ऋ. शा. कवर्धा (3121)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक बस स्टैंड के निकट पो- कवर्धा, पिन : 491995 जिला : रायपुर

120.	वि. कृ. ऋ. शा. करही (3122)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक एलआईजी -6, करही कॉलोनी कलेक्टोरेट के निकट, पो- मुंगेली, करही पिन :495334 जिला : बिलासपुर	130.	वि. कृ. ऋ. शा. सांकरा (3337)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक सांकरा, स्कूल पारा पो- सांकरा, पिन - 493778 जिला- धमतरी
121.	छुरिकलान (3162)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक मेन रोड छुरिकलान, पो- छुरिकलान पिन : 495450 जिला : कोरबा	131.	वि. कृ. ऋ. शा. राजिम (3357)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक रायपुर रोड राजिम पो- राजिम, पिन - 493885 जिला - गौतम बुद्धा नगर
122.	वि. कृ. ऋ. शा. आम्दी (3224)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक पो-आम्दी, जिला धमतरी , पिन -493773	132.	वि. कृ. ऋ. शा. गुरुर (3370)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक बोदरा चौक, पिन : 491227 जिला : रायपुर
123.	हिरी (3227)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक बिल्हा मोड के निकट पो- हिरी, पिन -495222 जिला बिलासपुर	133.	वि. कृ. ऋ. शा. अंवागढ चौकी (3371)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक वार्ड नं- 14, गंज लेन अंवागढ पिन : 491665 जिला : राजनंदगाँव
124.	दीन दयाल उपाध्याय नगर, रायपुर (3237)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक साई कृपा, एचआईजी -5, सेक्टर-3, पो- रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर , पिन 492010 जिला : रायपुर	134.	वि. कृ. ऋ. शा. बागबहारा (2240)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक मेन रोड, पो- बागबहारा पिन- 493449 जिला- महासमुन्द्र
125.	गौरव पथ (3238)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक रिंग रोड, गीतांजली एनक्लेव पो- बिलासपुर पिन - 495001 जिला- बिलासपुर	135.	भोरिंग (3388)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक मेन रोड, भोरिंग पिन- 493445 जिला- महासमुन्द्र
126.	कापन (3239)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक पो- कापन, पिन : 495552 जिला- जांजगिर-चांपा	136.	कोरबा - जमनीपली (3389)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक एनटीपीसी नगर - क्षेत्र के निकट, मेन रोड, जमीनीपीली पिन - 495450 जिला - कोरबा
127.	चिखलपट्टी (3277)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक हस्त शिल्प ग्राम चिखलपट्टी चिखलपट्टी, पो. कोंडागाँव पिन- 494226 जिला- कवर्धा	137.	रायपुर - टाटीबंध (3479)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक दुकान संख्या : 2,3,4,39 और 40 आर - एमीनेंस कॉम्प्लेक्स, जी. ई. रोड टाटीबंध, रायपुर, पिन-492001 जिला रायपुर
128.	जांजगिरी (3335)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक पो-बीएमवाई चरौदा, पिन-490025, जिला - दुर्ग	138.	रायपुर - घड़ी चौक (3480)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक हॉल संख्या - 3 प्रथम तल नागदेव प्लाज़ा, कचहरी चौक, रायपुर पिन-492001 जिला - रायपुर
129.	मंदिर हसौद (3336)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक एयरपोर्ट रोड, पो- मंदिर हसौद, पिन : 492101 जिला : रायपुर	139.	मुली (3545)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक बाज़ारपारा, ग्राम मुली पिन : 494222 जिला -बस्तर

140. भिलाई दुर्ग - (3651)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक वार्ड संख्या- 5, इंदिरा नगर, लक्ष्मी नगर मार्केट, कोहका रोड, मौजा सुपेला, भिलाई दुर्ग, छत्तीसगढ़ पिन - 490023	147. बहादुरपुर (3383)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक गाँव- बहादुरपुर, पोस्ट- नारायनपुर, जिला- बोकारो बहादुरपुर पिन : 827013 जिला : बोकारो
राँची क्षेत्र		148. हंडुर (3468)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक फातमा शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज, दुबलिया के पास, चन्दवे हंडुर पिन : 835217, जिला- राँची
141. डलतोनगंज (3021)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक सुरज नगर, बेलवातिकर चौक (मेदनी नगर), डलतोनगंज, पिन - 822101 जिला- पलामू	149. महिलौंग (3576)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक सरला बिरला पब्लिक स्कूल के विपरित सेनटोरियम महिलौंग पिन- 835103 जिला- राँची
142. चक्रधरपुर (3141)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक पूराना राँची रोड रानी सती एनक्लेव चक्रधरपुर पिन-8333102, जिला- पश्चिम सिंहभूम	150. किशोरगंज (3584)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक हरमू रोड हुंडई शो रूम के विपरित राँची, पिन- 834001 जिला- राँची
143. डुमरदगा (3152)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ग्राउंड फ्लोर राजस्थानी ईनक्लेव पी.एस.सदर पी.ओ. नेवरी, ग्राम- डुमरदगा, पिन- 835217 जिला -राँची	151. हरमू रोड (3607)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक सावित्री कॉलोनी अरगोरा बाई पॉस रोड राँची पिन- 834002, जिला- राँची
144. ओरमांझी (3170)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ममता मार्केट, थाना- ओरमांझी ग्राम- दरदंग (ओरमांझी) पी.ओ. ओरमांझी पिन- 835219, जिला- राँची	152. नगड़ी (3711)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक गाँव & पोस्ट - नगड़ी, पी.एस. नगड़ी जिला- राँची झारखंड पिन- 835303
145. लालगंज (3321)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक पतंजलि आरोग्यम के पास खेलगावँ, पी.ओ.- सुगनु लालगंज, पिन- 835103, जिला- राँची	153. आर.आर.सी (3589)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक सावित्री कॉलोनी अरगोरा बाई पॉस रोड राँची, पिन- 834002 जिला- राँची
146. वेदवारी (3382)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक वेदवारी, पोस्ट- चिलदाग, जिला- राँची, वेदवारी, पिन- 835103, जिला- राँची	वाराणसी क्षेत्र 154. भिखीपुर (3709)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक 16 केएचए शर्मा टावर्स भिखीपुर, पो. - मिर्जामुराद पिन - 221307 जिला - वाराणसी

155. अनपरा (3123)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक 234 / 4 अनपरा बाज़ार सिनेमा रोड, पो - अनपरा पिन - 231225 जिला - सोनभद्र	164. सिकरीगंज (3571)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक सिकरीगंज मार्केट, गोरखपुर पिन - 273213 जिला - गोरखपुर
156. रॉबर्ट्सगंज (3124)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक प्लॉट संख्या - 336, देवदेप कॉम्प्लेक्स चांदी तिराहा के पास रॉबर्ट्सगंज, पिन - 231216	165. भरौली (3612)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ग्राम - गोपालगढ़ / भरौली ब्लॉक - कशिया, भरौली पिन- 274402 जिला - कुशीनगर
157. खलीलाबाद (3326)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक हाउस नं 136, वार्ड नं 24, गोला बाज़ार नॉर्थ नेहरू चौक के पास खलीलाबाद, पिन - 272175 जिला - चंदौली	166. नारेपार उपरवार (3613)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक नारेपार उपरवार, धनतुलसी सीतामढ़ी रोड पिन - 221309 जिला - संत रविदास नगर
158. धानापुर (3446)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ग्राम एवं पोस्ट - धानापुर जिला - चंदौली धानापुर, पिन - 232105	167. भगवानपुर (3653)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक प्लॉट संख्या 114, बालाजी नगर कॉलोनी सामने घाट रोड, भगवानपुर पिन - 221005 जिला - वाराणसी
159. सकलडीहा (3447)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ग्राम एवं पोस्ट - सकलडीहा सकलडीहा, जिला - चंदौली पिन - 232109	168. वाराणसी - एलआईसी मण्डल कार्यालय (3748)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक बी - 12/ 120, एलआईसी मण्डल कार्यालय गौरीगंज, भेलुपूर पिन - 221001 जिला - वाराणसी
160. कंचनपुर (3465)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक किसान पेट्रोल पम्प के पास, अभिनंदन वाटिका, कंचनपुर, डीएलडब्ल्यू पिन - 221004 जिला - वाराणसी	ख क्षेत्र अहमदाबाद क्षेत्र	
161. कोईराजपुर (3466)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक कमांडो निवास, कोईराजपुर, हरहुआ पिन - 221105 जिला - वाराणसी	169. राणीप शाखा (3741)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक राणीप शाखा, बंगलो नम्बर 115 न्यू विद्या विहार सोसाईटी रामजी मंदिर रोड राणीप अहमदाबाद- 382480
162. परमानंदपुर (3467)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक जीवनदीप इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलोजी सिंदोरा रोड, परमानंदपुर पिन - 221007, जिला - वाराणसी	170. नरोड़ा शाखा (3740)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक नरोड़ा शाखा शॉप सं. 1,2,3,4 ग्राउंड फ्लोर, आस्था एवन्यू, सीएम - 24/25, बीएसएनएल, एकचेंज नरोड़ा - 382330
163. खजनी (3570)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ईस्ट मार्केट साइड, मेन हाईवे, खजनी पिन - 273212 जिला - वाराणसी		

171. जासपुर शाखा (3720)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक जासपुर शाखा शॉप सं. 491/1,491/2 ग्राउंड फ्लोर, उंडोवास, गाँव-जासपुर-382721, तालुका कलोल, जिला-गांधीनगर, गुजरात	178. बिलीमोरा (336)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक दुकान नम्बर 1 और 2 तल मंजिल, रमीबा कॉम्प्लेक्स, गौहरबाग, बिलीमोरा -396 321
172. एआरएम (2581)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक हैण्डलूम हाऊस के सामने, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380009 जिला-अहमदाबाद	179. समरोली (2241)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक देवऋषि अपार्टमेंट, समरोलीतालुका चिखलीम, समरोली - 396521
173. बृहद कॉर्पोरेट (2933)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक चिनुभाई टॉवर, हैण्डलूम हाऊस के सामने, आश्रम रोड, अहमदाबाद- 380 009 जिला-अहमदाबाद	180. बारडोली (2393)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक माँ बिल्डिंग, रेलवे क्रॉसिंग के पास, एम जी रोड, बारडोली-394 601
174. आरआरसी (3355)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक पहली मंजिल, मुखी हाऊस, जवेरी पार्क, सनसेट रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380009 जिला-अहमदाबाद	181. व्यारा (2507)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक तल मंजिल, आदर्श गुट हाऊस बिल्डिंग, स्टेशन रोड, पोस्ट व्यारा- 394650
175. एमएसएमई (3354)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक पहली मंजिल, मुखी हाऊस, जवेरी पार्क, सनसेट रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380009 जिला-अहमदाबाद	182. कतारगाम (2884)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक प्लॉट नंबर 4 तथा 5, बाबरीक इन्डस्ट्रियल एस्टेट, प्राईम कोपोरेटिव बैंक के पास, जी आई दी सी के पास, कतारगाम, तालुका सूरत
176. मिड कॉर्पोरेट (2934)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक 3 सुख विला, श्रेयस कॉलोनी, स्टेडियम मार्ग, नवरंगपुरा, अहमदाबाद -380009	183. पाल (3017)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक दुकान नंबर 3 तथा 4, गेलेक्सी इम्परियल, एल.पी.सावनी रोड, सी.एन.जी पेट्रोल पंप के पास, पाल केनल रोड, सूरत -395 009
बड़ौदा क्षेत्र		184. अटकपाड़ी (3074)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक बी.जी.पोईट, सी.एन.जी. पेट्रोल पंप के पास, कृष्ण होटल धर्मपुरा रोड क्रॉसिंग के सामने, एन.एच.8, अटकपाड़ी गाँव, जिला वलसाड, पिन-396 007
177. दहेज (3381)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अनामिका कॉम्प्लेक्स, पहली मंजिल, आई.पी.सी.एल. मेन रोड, दहेज चौकड़ी के पास, दहेज-392130		

185. मंजीपुरा (3174)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक दुकान नंबर 1, कृष्ण विहार रेसिडेंसी, नवबंधु पार्क के सामने, एकता नगर के पास, पोस्ट मंजीपुरा, तालुका नडियाद -387 320	192. रांधेर (3473)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक दुकान नंबर 101, पहली मंजिल, रीजेंट सेंटर, रांधेर रोड, सूरत -395 009
186. जोल (3304)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक प्लॉट नंबर - 22, राधास्वामी सोसाईटी, पोस्ट जोल, जिला आणंद पिन - 388315	193. कालियावाड़ी (3734)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक पहली मंजिल, श्री यमुनाजी हार्डवेयर, श्रीनाथ हाउस, सी.टी.टावर के पास, पवन अपार्टमेंट के सामने, कालियावाड़ी मेन रोड, कालियावाड़ी, जिला नवसारी - 396 427
187. छापरा (3305)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक बिल्डिंग नंबर 1928, पहली मंजिल, सूरी किरण अपार्टमेंट, पोस्ट छापरा, नवसारी - 396445	लुधियाना क्षेत्र	
188. अंचेली (3381)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक देसाई फालिया, पोस्ट अंचेली, पिन - 396 310	194. सिविल लाईंस (446)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक फव्वारा चौक, सिविल लाईंस लुधियाना
189. अकोटा (3470)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक 6-ए, अंचेली प्लाज़ा, गाय सर्कल के पास, शारेनिक पार्क चार रास्ता, अकोटा बड़ौदा -390 0206,	195. पटियाला (922)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक एस.सी.ओ : 102-103, नज़दीक सी.बी.आई कोर्ट, छोटी बरादरी, पटियाला - 147001 ज़िला : पटियाला
190. मंजीपुरा (3174)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक दुकान नंबर 4 से 9, मारुति अपार्टमेंट, लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने, रणछोड नगर के पास, टेनसिल स्टील रोड, बड़ौदा-390 011	196. राजपुरा (515)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक प्लॉट सं. 280 से 289, पटियाला-राजपुरा रोड, राजपुरा -140401 ज़िला : पटियाला
191. सुभानपुरा (3472)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक पहली मंजिल, दुकान नंबर 22, कीर्ति स्क्वायर, विठालेश कॉम्प्लेक्स, सुभानपुरा, बड़ौदा -390 023	197. एम.एस.एम.ई (3292)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक प्रथम तल, सैनिक गेस्ट हाऊस नज़दीक घंटा घर, लुधियाना पिनकोड : 141001 ज़िला : लुधियाना
		198. आर.आर.पी.सी (3362)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक प्रथम तल, सैनिक गेस्ट हाऊस नज़दीक घंटा घर, लुधियाना पिनकोड : 141001 ज़िला : लुधियाना
		चण्डीगढ़ क्षेत्र	
		199. अंबाला शहर (1630)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक 3 एवं 4 नज़दीक पुलिस लाईन, सिविल लाईन, अंबाला शहर, पिनकोड : 134003 ज़िला : अंबाला

200.	अंबाला आर्मी पब्लिक स्कूल (6842) एक्सटेंशर काउंटर	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक नंबर 90, आर्मी पब्लिक स्कूल एलैक्ज़नडर रोड, अंबाला छावनी, अंबाला पिनकोड : 133001 (हरियाणा)	209.	पानीपत एस एम ई शाखा (2864)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक नज़दीक संजय चौक जी.टी.रोड, पानीपत पिनकोड : 132103 ज़िला : पानीपत
201.	बरवाला (3532)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक मेन बाज़ार, डेराबस्सी रोड, बरवाला पिनकोड : 134118 ज़िला : पंचकुला	210.	पंचकुला सैक्टर – 20 (3484)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक एस सी ओ – 230, पंचकुला, सैक्टर – 20, पंचकुला पिनकोड : 134116 ज़िला : पंचकुला
202.	बाथू (3674)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ग्राम एवं डाकखाना : बाथू, हरौली, ऊना पिनकोड : 174301 ज़िला : ऊना	211.	रोहतक गोहाना रोड (3293)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक नज़दीक पी डब्ल्यू डी कॉलोनी, रोहतक गोहाना रोड रोहतक, पिनकोड : 124001 ज़िला : रोहतक
203.	जरद भुट्टी (3628)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ग्राम - जरद भुट्टी कॉलोनी पोस्ट : शम्शी पिनकोड : 175126 ज़िला : कुल्लू	212.	रेपिड रिटेल सेंटर (3309)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक प्रथम तल, एस सी ओ – 26, मध्य मार्ग, सैक्टर – 7 सी, चंडीगढ़ पिनकोड-160019 ज़िला : चंडीगढ़
204.	कैथल एसएमई शाखा (2722)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक एस सी ओ -321, सैक्टर – 20 अर्बन एस्टेट, हुड्डा कैथल, पिन कोड -136027 ज़िला : कैथल	213.	समलखा (3620)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक पंचल भवन, समलखा मंडी, रेलवे रोड, पानीपत पिनकोड- 132101 ज़िला : पानीपत
205.	कबरी (3636)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ग्राम : कबरी नज़दीक पानीपत अर्बन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी पानीपत पिनकोड : 132103 ज़िला – पानीपत	214.	झज्जर (3619)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक देशवाल कॉम्प्लेक्स, सामने बस स्टैंड, झज्जर पिनकोड -124103 ज़िला : झज्जर
206.	एम एस एम ई प्रसंस्करण केन्द्र (3348)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक एस सी ओ – 26, मध्य मार्ग, सैक्टर –7 सी, चंडीगढ़ पिनकोड-160019 ज़िला : चंडीगढ़	जालंधर क्षेत्र		
207.	नादौन (3516)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक नज़दीक बस स्टैंड, जवाला जी रोड, नादौन पिनकोड : 177033 ज़िला : हमीरपुर	215.	कोट फतूही (3560)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ग्राम- कोट फतूही फगवाड़ा, महीलपुर रोड कोट फतूही, ज़िला- होशियारपुर पिन-144519
208.	नर चौक (3639)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ग्राम एवं डाकखाना : नर चौक नज़दीक पोस्ट ऑफिस, नर पिनकोड : 175008 ज़िला : मंडी	216.	मलोट (3562)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक नज़दीक जसवंत सिनेमा जी.टी.रोड, मलोट ज़िला-मुक्तसर पिन-152107
			217.	बिशनाह (3563)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक वार्ड संख्या 6 नज़दीक पुराना बस अड्डा बिशनाह, जिला-जम्मू पिन – 181132

218.	बाघा पुराना (3642)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक एक्सिस बैंक के सामने मुड़की रोड, बाघा पुराना ज़िला-मोगा, पिन – 142038	226.	बीटा (3669)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक शॉप नं. 561-ब/2 रामाबाई रानडे इंग्लिश मिडियम स्कूल ताल्लुका खानपुर बीटा पिन : 415311 ज़िला सांगली, महाराष्ट्र
219.	कपूरथला रोड (3643)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के.के. टॉवर नजदीक पंजाब एंड सिंध बैंक जालंधर, ज़िला – जालंधर पिन – 144001	227.	फलटन (3713)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक प्लॉट नं. 18 & 19 सीटीएस न. 3320, सुनील कॉम्प्लेक्स गांधी हॉस्पिटल के पीछे सन्मति नगर, रिंग रोड पिन : 415523 ज़िला सातारा, महाराष्ट्र
220.	जे.पी.नगर (3664)	संख्या – 461,462 जे.पी.नगर, जालंधर ज़िला- जालंधर पिन- 144002			इण्डियन ओवरसीज़ बैंक एआरएम शाखा 43/21 एरंडवाणे कर्वे रोड, पिन कोड-461213, ज़िला पुणे, महाराष्ट्र
पुणे क्षेत्र					
221.	शेंडी (884)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक प्रथम तल प्रॉपर्टी न. 766, गेट नं. 2512 नगर-औरंगबाद हाईवे गाँव और पोस्ट शेंडी पिन कोड-414601 ज़िला अहमदनगर, महाराष्ट्र	228.	एआरएम (2584)	
222.	पांगरी (3218)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक सिटी शॉप नं. 304 गेट नं. 53, सिन्नर-शिर्डी रोड पांगरी गांव ग्राम पंचायत ताल्लुका सिन्नर पिन कोड-422013 ज़िला नासिक, महाराष्ट्र	राजकोट क्षेत्र		
223.	आलेफाटा (3219)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक वार्ड न. 5 पुणे रोड, नियर जनसेवा पेट्रोल पम्प, ताल्लुका जुन्नर आलेफाटा पिन-412411 ज़िला पुणे, महाराष्ट्र	229.	अंजार (3525)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक दुकान नं. 1 मानव इंटरप्राइजेज, होटल मानव रेजीडेंसी के सामने, अंजार पिन: 370110 ज़िला: कच्छ
224.	सोरतापवाडी (3324)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक सोरतापवाडी फाटा पोस्ट सोरतापवाडी, तालुका हवेली पिन-412110 ज़िला पुणे, महाराष्ट्र	230.	अमरेली (3693)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ग्राउण्ड फ्लोर, नागनाथ मंदिर के पीछे, एल आई सी ऑफिस के पास, अमरेली पिन: 365601 ज़िला : अमरेली
225.	बोरीपार्धी धायगुडेवाडी (3629)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक बोरीपार्धी (चौफुला) पुणे – सोलापुर हाईवे पिन-412203 ज़िला पुणे, महाराष्ट्र	231.	आनंदपर (0663)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक हरकेश कृपा, बी.ओ. आनंदपर नवागम आनंदपर पिन: 360003 ज़िला: राजकोट
			232.	भुज (0466)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक भगत कॉम्प्लेक्स, बी एस एन एल मेन ऑफिस के पास, लाल टेकरी भुज पिन : 370001 ज़िला : कच्छ

233. गोंडल (3498)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक बस स्टैंड के पास, जेतपुर रोड, गोंडल पिन:360311 जिला : राजकोट	241. त्राजपर (3581)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक दुकान 55 से 57,89 से 92 , ग्राउंड फ्लोर, शक्ति चैम्बर्स, नेशनल हाईवे नं. 8 ए, गाँव – त्राजपर, पिन: 363642 जिला : राजकोट
234. जसदन (3394)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक न्याय मंदिर के पास, अत्कोट रोड, पीओ जसदन पिन:360050 जिला:राजकोट	242. साधु वासवानी (3739)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक प्रथम तल, नंदनवन, श्रीनाथ जी पार्क, साधु वासवानी मेन रोड, राजकोट पिन: 360005 जिला: राजकोट
235. कागदडी (3225)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक मोरवी रोड, गांव- कागदडी पिन:360003 जिला: राजकोट	नागपुर क्षेत्र	
236. एम वी एम सी- राजकोट (0373)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक काशिहरी एल आई सी बिल्डिंग के सामने, कालावड रोड, राजकोट पिन:360002 जिला: राजकोट	243. क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर (2920)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक क्षेत्रीय कार्यालय 4-सी, निर्मला अपार्टमेंट, नवाब लेआउट, अमरावती रोड, नागपुर पिन: 440010
237. पोरबंदर (0459)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक खादी भवन (अंनेक्से), भावसिंह जी पार्क रोड, पोरबंदर पिन:360575 जिला: पोरबंदर	244. वरुड शाखा (3543)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक एन. पी. पी. नं. 269, वार्ड नं. 1, आर टी ओ कार्यालय के पास, मुल्ताई रोड वरुड पिन: 444906 जिला : अमरावती
238. आर.एम.सी. राजकोट (1743)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अतुल बिल्डिंग, मेहुता पेट्रोल पम्प के सामने, ढेवर रोड, राजकोट पिन:360002 जिला: राजकोट	245. तुमसर शाखा (3544)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक नए बस स्टैंड के पास, श्रीराम नगर, तुमसर - भंडारा स्टेट हाईवे , तुमसर पिन : 441912 जिला : भंडारा
239. सारू सेक्शन (3331)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक तन्ना हाउस, प्रथम तल, एम पी साह इंडस्ट्रियल एस्टेट के सामने, सारू सेक्शन रोड, जामनगर पिन:361008 जिला: जामनगर	246. काटोल शाखा (3552)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक वार्ड नं. 3, जैन मंदिर के पास, नेहरू बाज़ार, काटोल पिन : 441302, जिला : नागपुर
240. सुरेंद्र नगर (2899)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक दुकान नं. 6 मेगा मॉल -11 मिलन सिनेमा के पास, एस टी बस स्टैंड रोड के पास, सुरेंद्र नगर, पिन:363001 जिला: सुरेंद्र नगर	247. सावनेर शाखा (3553)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक म. नं. 25, भादेराव हाई स्कूल के सामने, सावनेर-नागपुर मेन रोड, सावनेर पिन: 441107, जिला: नागपुर

248.	वरोरा शाखा (3698)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक नेरकर भवन, खांजी वाई वरोरा, जिला - चंद्रपुर महाराष्ट्र, पिन: 442907 जिला : चंद्रपुर	255.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा: कपासन एस एस प्लाजा स्टेशन रोड पेट्रोल पंप के पास, पोस्ट- कपासन जिला- चित्तौड़गढ़ राजस्थान -312202
249.	सदर शाखा (3717)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक म. नं. - 670 गड्डी गोदाम, कांपटी रोड, एन एच-1, नागपुर पिन : 440001 जिला : नागपुर	256.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा: भीनमाल पावर हाउस - स्टेशन रोड, जे जे स्टोर के पास पोस्ट- भीनमाल, जिला- जालोर राजस्थान- 343029
250.	पिपला किंखेड़े शाखा (3722)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक सर्वे नं. ग्राम : पिपला किंखेड़े, कलमेश्वर नागपुर पिन: 441502 जिला : नागपुर	257.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा: प्रतापगढ़ श्री जी टावर के सामने नगर पालिका बाज़ार, हायर सेकेंडरी स्कूल रोड जिला -प्रतापगढ़ राजस्थान-312605
क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली उत्तर				यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा:सांचोर मेहता बाज़ार, एसबीआई के सामने, पोस्ट- सांचोर, जिला- जालोर राजस्थान-343041
251.		यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाबी बाग ईस्ट शाखा डब्ल्यू जेड 15 मनोहर पार्क पंजाबी बाग ईस्ट अशोका पार्क मेन मेट्रो स्टेशन के पास नई दिल्ली-110026	258.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा: सोजत प्लॉट नं.7, हैंड पम्प के पास, इंडेन गैस ऐजन्सी के सामने पाली -रोड सोजत शहर, जिला-पाली, राजस्थान -306104
क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर				यूनियन बैंक इंडिया शाखा : भीम सदर बाज़ार, ओल्ड एसएसबीजे भवन के पास, भीम जिला-राजसमंद राजस्थान-305921
252.		यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, निवाई शाखा झिल्लाई रोड, तहसील निवाई जिला टोंक, राजस्थान- 304021	259.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा:यूनियन लोन पॉइंट, जोधपुर तकिया चौद शाह बाजार सोजती गेट के बाहर जिला-जोधपुर, राजस्थान-342001
253.		यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मानसरोवर जयपुर शाखा द्वारका पथ, द्वारका दास गार्डन के पास मानसरोवर जयपुर, राजस्थान	260.	
क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर				
254.		यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा: बी.एन. कॉलेज प्रशासनिक ब्लॉक, बी.एन. कॉलेज परिसर के अंदर सेवाश्रम रोड, जिला- उदयपुर राजस्थान-313001	261.	

क्षेत्रीय कार्यालय पटना

262. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
एस.के.नगर, पटना शाखा
सूर्या क्लीनिक के सामने
रोड नं.-26, श्रीकृष्णा
नगर, पटना
जिला- पटना
बिहार-800001
263. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
निफ्ट (मीठापुर) पटना
शाखा
जानकी सदन, न्यू बस स्टैंड
रोड,
न्यू बंगाली टोला, बैंक
कॉलोनी के पास
जिला- पटना
बिहार-800001
264. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
डेहरी ऑन सोन शाखा
मेहरा हाउस,
पाली रोड, डेहरी ऑन
सोन
पो.- डेहरी ऑन सोन
जिला- रोहतास, बिहार-
821311
265. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बोरिंग केनाल रोड, पटना
शाखा
टिंकूज केड़ी विहार
काम्प्लेक्स
ईस्ट बोरिंग केनाल रोड,
पटना
जिला पटना, बिहार-
800013
266. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अनिसाबाद शाखा
पुलिस कालोनी के सामने
चित्रगुप्त समाज के
नजदीक,
अनिसाबाद, पटना
जिला पटना बिहार-
800002
267. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अशोक राजपथ पटना
शाखा
द्रोपदी भवन, पीएमसीएच
के सामने
अशोक राजपथ, पटना
जिला पटना, बिहार-
800001

268.

क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद

269.

270.

271.

क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर

272.

क्षेत्रीय कार्यालय, करनाल

273.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
आंचलिक लेखापरीक्षा
कार्यालय, पटना
अभय भवन, फ्रेज़र रोड
मजह्रूलहक पाठ, पटना
जिला, पटना, बिहार-
800001

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बहरी शाखा
ग्राम- बहरी, कंधिया
फाटक, धनापुर,
ब्लॉक & तहसील- भदोही
जिला- संत रविदास नगर
उत्तर प्रदेश
पिन- 221402
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
रामापुर शाखा
ग्राम: अहिमनपुर, पोस्ट:
खमरिया
ब्लॉक & तहसील: औराई
जिला: संतरविदासनगर
(भदोही)
उत्तरप्रदेश - 221306
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
मेदनीपुर शाखा
मेन जी टी रोड,
ग्राम & पोस्ट : बाबूसराय
ब्लॉक & तहसील : औराई
जिला : संतरविदासनगर
(भदोही)
उत्तर प्रदेश – 221314

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
जिला एवं सत्र न्यायालय
झिझरी शाखा
ग्राम एवं पोस्ट - झिझरी
तहसील + जिला कटनी
मध्य प्रदेश-483501

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
मिड कॉर्पोरेट शाखा
एम सी ओ सं.225 अर्बन
एस्टेटहुड्डा सेक्टर-12,
करनाल,
हरियाणा-132001

274.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आर्य पी जी कालेज पानीपत शाखा जी टी रोड, पानीपत हरियाणा-132103	282.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गोमाड़ी शाखा ग्राम रसूलपुर बाजबहादुर गोसाई की बाज़ार, पोस्ट गोमाड़ी तहसील लालगंज उत्तर प्रदेश-276202
क्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़		क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	
275.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ग्राम व पोस्ट मधुवन थाना कंधरापुर तहसील सगड़ी आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, पिन-276135	283.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय यूनियन बैंक भवन मंत्री आवास के पास विभूति खंड, गोंतिनगर लखनऊ-226010
276.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया चेवार पश्चिम शाखा ग्राम व पोस्ट कंझहीत बाज़ार वाराणसी रोड, तहसील लालगंज आजमगढ़, उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा	
277.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रामनगर महुवारे शाखा ग्राम बभनपुर पोस्ट रामनगर, तहसील आलापुर अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश पिन-224181	284.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया खेरिया मोड शाखा 58/174बी/2ए सी/पी- 28 बी, आदर्श नगर अर्जुन नगर, खेरिया मोड आगरा, उत्तरप्रदेश- 282001
278.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अशरफपुर किछौचा ग्राम अशरफपुर किछौचा तहसील टांडा बाया बसखारी, अंबेडकर नगर पिन-224155	285.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डी कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर अकबरपुर, अकबरपुर, तहसील छाता मथुरा उत्तर प्रदेश- 281406
279.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कटोखर शाखा ग्राम कटोखर, पोस्ट हंसवार तहसील आलापुर, अंबेडकर नगर, पिन-224143	286.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया छाता शाखा छाता तहसील के पास तहसील छाता मथुरा उत्तर प्रदेश-281401
280.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बदसरा खालसा शाखा ग्राम व पोस्ट बदसरा खालसा वासदेव नगर, तहसील निजामाबाद उत्तर प्रदेश-276141	287.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाहाबाद शाखा बिजली घर के पास, बाबू जमील अहमद मार्केट, मोहल्ला कानून गोयान बिलारी, रामपुर रोड -244922
281.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मंदे शाखा ग्राम मंदे, पोस्ट जहानागंज तहसील सदर उत्तर प्रदेश – 276141	क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर	
		288.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सिसवा बाज़ार शाखा लोहा मंडी, सिसवा बाज़ार वार्ड नं. 05, स्टेशन रोड सिसवा बाज़ार, तहसील- निचलौल, जिला-महाराजगंज पिन- 273163

289.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया राप्ती नगर फेज -4 शाखा अराजी नं. 108, खजांची चौराहा, बरगदवा मार्ग राप्ती नगर फेज-4 गोरखपुर-273003	क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर 296.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अलीराजपुर शाखा 26 तिलक मार्ग, 3 अमला लाईन वार्ड नं 8, अलीराजपुर -457887
290.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आनंद नगर-फरेंदा विष्णु मंदिर चौराहा सोनौली मार्ग फरेंदा जिला-महाराजगंज पिन -273155	क्षेत्रीय कार्यालय, गाजीपुर 297.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया धावा मुहबबतपुर शाखा ब्लाक मनीहरी, तहसील जाखानिया जिला गाज़ीपुर, उत्तर प्रदेश - 233310
291.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तेतरी बाज़ार शाखा म. नं. 155 बांसी नौगढ़ रोड अनूप नगर, तेतरी बाज़ार, सिद्धार्थ नगर-272207	298.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कुतुबपुर शाखा ग्राम बारा, ब्लाक भादौरा तहसील जमानिया जिला गाज़ीपुर, उत्तर प्रदेश - 232327
292.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सूरजकुंड शाखा 9 इ, सूर्या विहार चौक, सूरजकुंड गोरखपुर-273003	299.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विशुनपुरा शाखा, ग्राम रघुवारगंज ब्लाक और तहसील मोहम्मदाबाद जिला गाज़ीपुर, उत्तर प्रदेश - 233227
293.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मोहदीपुर शाखा काव्यांजली हाइट्स, मेन देवरिया रोड, निकट तिमोनीर हॉस्टिल मोहदीपुर गोरखपुर-273008	300.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सराई मुबारक शाखा ग्राम सराई मुबारक ब्लाक मरधा, तहसील गाज़ीपुर जिला गाज़ीपुर, उत्तर प्रदेश - 233226
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ		301.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शेखपुर शाखा ग्राम शेखपुर, ब्लाक बिरणों तहसील गाज़ीपुर जिला गाज़ीपुर, उत्तर प्रदेश - 233305
294.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया खेकरा शाखा जैन कालेज रोड, गांव व डा खेकरा फैला बागपत 245205, उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद 302.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बोपल शाखा शॉप नं 6 एवं 7 गाला मार्ट, सोबों सेंटर के पास साउथ बोपाल, बोपाल जिला अहमदाबाद 380059, गुजरात
295.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गगोल शाखा 7/10, गगोल रोड आदर्श धर्मकांटा के पीछे मेरठ -250103, उत्तर प्रदेश		

303.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जी आई डी सी वटवा शाखा श्रीनाथ काम्प्लेक्स, प्रथम मंजिल रामोल पुलिस चौकी क्रॉस रोड फेज 4, जी आई डी सी वटवा अहमदाबाद -382445 गुजरात	310.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 1327/ए, ज्ञानराज बिल्डिंग, सदाशिवपेठ, पुणे पिन-411030 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सर्वे नंबर 142/1 शिवनेरी प्लाजा, शिवाजी चौक के पास, हिंजेवाडी, पुणे -411057
क्षेत्रीय कार्यालय, मेहसाणा		क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई (उत्तर)	
304.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कुडासान शाखा, 7-8-9, तल मंजिल प्रमुख एक्सोटिका, कुडासान-पोर-स्क्रायर कुडासान, पिन -382421 जिला गांधीनगर (गुजरात)	312.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यू.एल.पी चेंबूर स्वस्तिक प्राइड, पहली मंजिल डी.के.सांडू मार्ग, चेंबूर (प) मुंबई -400071
क्षेत्रीय कार्यालय, राजकोट		313.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिड कार्पोरेट वाशी दी बिजनेस सेंटर, कमोडिटी एक्सचेंज प्लॉट नं 2,3,4, सेक्टर 19 वाशी, नवी मुंबई -400705
305.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एस के वी कच्छ यूनिवर्सिटी शाखा मुंदरा रोड, भुज जिला कच्छ - 370001	क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर	
306.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यू एल पी कृष्णनगर- भावनगर शाखा 1274- सी कृष्णनगर घोघा सर्कल, भावनगर पिन -364001	314.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सावनेर शाखा टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, पोस्ट सावनेर -, जिला - नागपूर, महाराष्ट्र- 441107
क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे		315.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अंजनगांव सुर्जी शाखा गोपाल नगर, वार्ड न. 2 पोस्ट अंजनगाँव सुर्जी - जिल्हा - अमरावती - 444705
307.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, म. न. 104, पुणे-सोलापुर रोड, अंबिका नगर, इंदोपुर जिला पुणे पिन-413106	316.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शेगांव शाखा सिद्धिविनायक कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन रोड इंडियन पेट्रोल पंप के सामने, शेगाव, जिला-बुलडाणा, महाराष्ट्र -444203
308.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पोस्ट-कालुस, तालुका-खेड जिला-		
309.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सर्वे क्र 30, नित्यानन्द सोसाइटी, धनकवडी कॉर्नर धनकवडी पुणे, पिन-411043		

317.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मिड कापरेटि शाखा अनुसया तात्या टोपे नगर, नागपुर - 440015	क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद 324.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्लॉट नं 1 पार्ट एवं 8 पार्ट सर्वे नं 433/ए, 433/2ए व 433/3ई पेरकिट गांव, आरमूर 503224 आरमूर मण्डल, निजामाबाद जिला तेलंगाना राज्य
318.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रामटेक शाखा साई मंदिर के सामने, तहसील ऑफिस रोड, रामटेक जिलानागपुर -, महाराष्ट्र - 441106	क्षेत्रीय कार्यालय, हावड़ा 325.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय - हावड़ा 263, जी.टी. रोड (दक्षिण), प्रथम तल, जिला - हावड़ा, पिन- 11102
319.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया काटोल शाखा प्लॉट नं .17, खोजा लेआउट,, सरस्वती गेट केई पास, काटोल, जिल्हा नागपुर	326.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया चन्दननगर शाखा वीणा कॉम्प्लेक्स, भूतल, खालीसानी डीच रोड, पो + पु.स्टे. - चन्दननगर जिला - हुगली, पिन - 712136
क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर 320.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जंडु सिंघा शाखा पट्टी डल्ला जैतवाली रोड वी पी ओ जंडु सिंघा, जिला जालंधर 144001	327.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया श्रीरामपुर शाखा आनन्द निकेतन, प्रथम तल, 541, जी.टी. रोड, मानिकतला, पो.- महेश, पु.स्टे.- श्रीरामपुर जिला - हुगली, पिन - 712202
क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक 321.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई नाका शाखा तोरने अस्पताल बिल्डिंग अहिल्याबाई होल्कर रोड, तिडके कालनी मुंबई नाका, नासिक 422002	328.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया धोबावेरिया शाखा ग्राम - केन्दुआ, ब्लॉक - देशप्राण कंटाई - II, पो.- सोफिआबाद जिला - पूर्व मेदिनीपुर, पिन - 721442
322.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया धमणगांव शाखा एसएमवीटी आयुर्वेद कालेज नंदी हिल धमणगांव , तालूका ईगतपुरी जिला नासिक 422403		
क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा 323.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पेदकूरापाडु शाखा डोर क्र 5-100/1, पहला ताल कचेरी सेंटर के निकट, पेदकूरापाडु (मण्डल व डाक) गुंदूर जिला 522 402	क्षेत्रीय कार्यालय, एर्णाकुलम 329.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नेडुगाप्रा शाखा माथा बिल्डिंग, नेडुगाप्रा पोस्ट ऑफिस एर्णाकुलम 545

330.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसएसयू कालड़ी, श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी कैंपस, कालड़ी -574	337.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यू एल पी मंगलूर जी-2 मौरिष्का टावर्स बेंदुर रोड, मल्लिकट्टे, मंगलूर जिला दक्षिण कन्नड कर्नाटक -575002
331.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एडवनक्काड शाखा पीवीएमएम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एडवनक्काड, जिला एर्णाकुलम	338.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बोगादी शाखा 4 60 फिट रोड, विजयनगर चतुर्थ शृंखला बोगादी मैसूर, कर्नाटक -570026
332.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कोलेनचेरी शाखा, सेंट पीटर्स कॉलेज ट्रस्ट बिल्डिंग वाईएमसीए के पास कोलेनचेरी -682311	क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर	
333.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जवाहर नगर शाखा बिल्डिंग नं 54/3106ए ग्रेस कार्नर, कलूर कडवंत्रा रोड जवाहर नगर कोचीन -20	339.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिड कार्पोरेट शाखा प्रथम ताल, 95, ईपीआईपी जॉन-1 वैदेही अस्पताल के सामने, व्हाइट फील्ड, बेंगलूर- 560066
क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलूर		340.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आस्ति वसूली शाखा दूसरा ताल, 583/584, पूजा काम्प्लेक्स, अवेन्यू रोड बेंगलूर पिन 560002
334.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलूर पहली मंजिल, कात्यायनी महामाये, अन्नपूर्णेश्वरी काम्प्लेक्स, कलाकुंज सर्कल, कोडियाल बैल, मंगलूर जिला - दक्षिण कन्नड , कर्नाटक - 575003	क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा	
335.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कुंदापुर शाखा श्रीनिवास प्रसन्ना, नारायणी चैंबर्स के पीछे, पी.बी.नं 17, न्यू बस स्टैंड के पास, कुंदापुर, जिला उडुपी, कर्नाटक -576201	341.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कुडाल शाखा पुण्य श्लोक बापुसाहेब महाराज सभागृह एम आई डी सी रोड कुडाल हाई स्कूल के सामने तालुका सिंधुदुर्ग , राज्य - महाराष्ट्र पिन -416520
336.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बी.सी.रोड शाखा सैम प्लाज़ा, बी.सी.रोड, मंगलूर जिला - दक्षिण कन्नड , कर्नाटक - 574219	"क" क्षेत्र मंडल कार्यालय- कानपुर	
		342.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: जैनपुर बी-11 एच जिला: जैनपुर कानपुर देहात यूपी- 209311
		343.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: रनिया राष्ट्रीय राजमार्ग -2, रनिया कानपुर देहात यूपी-209304

344.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: सईदपुर सीकरी सईदपुर सीकरी रोड, कन्नौज, कानपुर यूपी-209727	354.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: अछलदा नाहर बाज़ार के पास कोतवाली पोस्ट अछलदा -206241 उत्तर प्रदेश
345.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: उदैतपुर उदैतपुर रोड जिला: कन्नौज, कानपुर यूपी- 209727	मंडल कार्यालय-गया	
346.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: अमोली शांति नगर, खाहुजा, बिन्दकी रोड फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) -212,631	355.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: भुसुन्दा विशिष्ट संख्या: 5860 ब्लाक- मानपुर तहसील एवं जिला -गया, बिहार, पिन -823002
347.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: बाबरपुर 27 गांधीनगर एसबीआई अजीतमल बाबरपुर जिला: औरैया यूपी	356.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: कुजप विशिष्ट संख्या: 5860 ब्लाक- सदर गया तहसील एवं जिला -ब्लाक, बिहार पिन- 823002
348.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: कुदरकोट भरताना रोड, कुदरकोट जिला: औरैया यूपी	मंडल कार्यालय-भरतपुर	
349.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: मालवान ग्राम / पोस्ट- मालवान फतेहपुर यूपी-212664	357.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: ब्रज औद्योगिक क्षेत्र डी 7569 सं. तहसील एवं जिला -भरतपुर राजस्थान पिन -321001
350.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: मौरावान बस स्टैंड के पास, मौरावान ब्लॉक हल्लौली तहसील-पुरवान, जिला: उन्नाव उत्तर प्रदेश	358.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: खेड़ा सरणी डी 9815 संख्या - तहसील और जिला - धौलपुर पिन -328030
351.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: पुरवान दमियानी रोड, पुरवान जिला: उन्नाव उत्तर प्रदेश	359.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: रिक्को औद्योगिक क्षेत्र विशिष्ट संख्या: 9814 तहसील - बयाना जिला - भरतपुर पिन- 321401
352.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: सकाहन मुसलमानन पेरियार रोड जिला: उन्नाव, उत्तर प्रदेश	360.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: रिक्को हिंदुस्तान शहर विशिष्ट संख्या: 7564 जिंदल स्टोन, रिक्को, हिंदुस्तान शहर के पास तहसील और जिला - करौली (राजस्थान) पिन -322230
353.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: अलीपुर चिबरामाऊ सौरिख बिधूना जिला: उन्नाव पोस्ट सौरिख-209728		

361.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: कैलाश नगर हिंदुस्तान सिटी विशिष्ट संख्या: 5346 कैलाश नगर, नई मंडी तहसील- हिंदुस्तान सिटी एवं जिला - करौली पिन -322230	368.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: सरस चौराहा विशिष्ट संख्या: 7849 सरस चौराहा तहसील और जिला - भरतपुर पिन -321001
362.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: शेरपुर विशिष्ट संख्या: 7738 बस स्टैंड, शेरपुर के पास जिला - करौली पिन 322236	मंडल कार्यालय- गोरखपुर	
363.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: लाछौल कला विशिष्ट संख्या: 7844 झील बस स्टैंड के पास लाछौल कला, तहसील- बयाना जिला -भरतपुर पिन -321401	369.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: बरहज, ब्लाक- बरहज तहसील और जिला - देवरिया (उत्तर प्रदेश) पिन- 274606
364.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: कुम्भेर रोड भरतपुर विशिष्ट संख्या: 7571 कुम्भेर रोड जिला - भरतपुर पिन 321001	370.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: भटहट पोस्ट: भटहट तहसील एवं जिला - गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) पिन- 273306
365.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: कैला देवी विशिष्ट संख्या: 7572 करौली, जिला - करौली पिन -322243	371	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: भटपर रानी पोस्ट: भाटपार रानी तहसील और जिला - देवरिया (उत्तर प्रदेश) पिन- 274702
366.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: गुदाचंद्र विशिष्ट संख्या: 7846 गुदाचान्द्रजी, सीएचसी के सामने तहसील -नादोती, जिला- करौली (राज) पिन -322213	372.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: चौमुखा पोस्ट: कम्पिअरगंज तहसील और जिला - गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) पिन- 273151
367.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: लुधावाई विशिष्ट संख्या: 7843 एनएच 11, लुधावाई तहसील एवं जिला - भरतपुर पिन- 321303	373.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: चौरी चौरा पोस्ट: चौरी चौरा तहसील और जिला - गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) पिन- 273405
		374.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: गजपुर पोस्ट: गजपुर तहसील और जिला - गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) पिन- 273413
		375.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: हठ, पोस्ट: हठ तहसील और जिला - कुशीनगर (उत्तर प्रदेश) पिन- 273203

376.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: खजनी पोस्ट: खजनी तहसील और जिला - गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) पिन- 273212	384.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: मझौली राज पोस्ट: मझौली राज तहसील और जिला - कुशीनगर (उत्तर प्रदेश) पिन- 274506
377.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: कोहरवालिया पोस्ट: कोहरवालिया तहसील और जिला - कुशीनगर (उत्तर प्रदेश) पिन- 274304	385.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: सलेमगढ़ पोस्ट: सलेमगढ़ तहसील और जिला - कुशीनगर (उत्तर प्रदेश) पिन- 274409
378.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: लार पोस्ट: लार तहसील और जिला - देवरिया (उत्तर प्रदेश) पिन- 273502	386.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: पादरी बाज़ार पोस्ट: पादरी बाज़ार तहसील और जिला - गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) पिन- 273002
379.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: मनीराम पोस्ट: मनीराम तहसील और जिला - गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) पिन- 273007	387.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: तारा मंडल रोड पोस्ट: सिद्धार्थ एंक्लेव तहसील और जिला - गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) पिन- 273007
380.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: पीपीगंज पोस्ट: पीपीगंज तहसील और जिला - गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) पिन- 273165	मंडल कार्यालय- मुज़फ्फरपुर	
381.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: रुद्रपुर पोस्ट: रुद्रपुर तहसील और जिला - गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) पिन- 273002	388.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: हरिया खेड़ा विशिष्ट संख्या: 5343 पता: राजपुर, छाजपुर बुढाना रोड जिला - मुज़फ्फरनगर पंजाब नैशनल बैंक शाखा: बहत विशिष्ट संख्या: 7986 पता: तहसील: बहत जिला - शामली पंजाब नैशनल बैंक शाखा: कुकरा विशिष्ट संख्या: 9859 पता: कुकरा मंडी के पास जिला - मुज़फ्फरनगर
382.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: सहजनवां पोस्ट: सहजनवां तहसील और जिला - गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) पिन- 274502	389	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: कुकरा विशिष्ट संख्या: 9859 पता: कुकरा मंडी के पास जिला - मुज़फ्फरनगर
383.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: मेहदावल पोस्ट: मेहदावल जिला - संत कबीर नगर (उत्तर प्रदेश) पिन- 27450	390	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: दुन्दुकेरा विशिष्ट संख्या: 7911 जिला - शामली पंजाब नैशनल बैंक शाखा: भेरा खुर्द विशिष्ट संख्या: 9863 जिला - सहारनपुर
		391.	
		392.	

मंडल कार्यालय- भोपाल

393.

पंजाब नैशनल बैंक
शाखा: गोदर महु
विशिष्ट संख्या: 7548
पता: आरजीपीवी
विश्वविद्यालय के पास,
हवाई अड्डे के बाईपास रोड
जिला -भोपाल
पंजाब नैशनल बैंक
शाखा: उदगावा
विशिष्ट संख्या: 7589

394.

पता: दतिया
जिला -दतिया
पंजाब नैशनल बैंक
विशिष्ट संख्या: 7731
शाखा: मंडी गहरे
इंदिरा नगर
भोपाल

395.

पंजाब नैशनल बैंक
विशिष्ट संख्या: 7790
शाखा: अरविंद विहार
पता: दुकान नं 5,6,7-
केंद्रीय प्लाजा, बगेश्वनिया,
अरविंद विहार,
भोपाल

396.

पंजाब नैशनल बैंक
विशिष्ट संख्या: 7791
शाखा: दतिया
विनय नगर
जिला: दतिया,
भोपाल

397.

पंजाब नैशनल बैंक
विशिष्ट संख्या: 7749
शाखा: सोहागपुर
पास सिविल कोर्ट
भोपाल

398.

पंजाब नैशनल बैंक
विशिष्ट संख्या: 7791
शाखा: दतिया
भंदेर
जिला: दतिया,
भोपाल

399.

पंजाब नैशनल बैंक
विशिष्ट संख्या: 9883
शाखा: मिलावाली
जिला: ग्वालियर,
भोपाल

401.

402.

मंडल कार्यालय- शिमला

403.

404.

405.

406.

मंडल कार्यालय- रोहतक

407.

पंजाब नैशनल बैंक
विशिष्ट संख्या: 9979
शाखा: नसरुल्ला गंज
मल्ला मंडी के पास
नसरुल्ला गंज,
भोपाल
पंजाब नैशनल बैंक
विशिष्ट संख्या: 5387
शाखा: साधना एंक्लेव,1
होसंगाबाद रोड,
भोपाल
पंजाब नैशनल बैंक
शाखा: मिसरवाला
वीपोस्ट- मिसरवाला मुख्य
बाज़ार,
जिला: सिरमौर
(हिमाचल प्रदेश)
पिन:-173021
पंजाब नैशनल बैंक
शाखा: गोएला
वीपोस्ट -गोएला,
जिला: सोलन
(हिमाचल प्रदेश)
पिन: -173206
पंजाब नैशनल बैंक
शाखा: मटियाना
तहसील: थिओग
जिला: - शिमला
(हिमाचल प्रदेश)
पिन: -173212
पंजाब नैशनल बैंक
शाखा: चिर गाँव
मुख्य बाज़ार चिर गाँव,
रोहड़,
जिला: शिमला
(हिमाचल प्रदेश)
पिन: -171208
पंजाब नैशनल बैंक
शाखा: बाज़ार, नारनौल
खींचो
जिला:मोहिंदरगढ़
(हरियाणा)
पिन: -123001

408.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: अकोडा खरखरा जिला: मोहिंदरगढ़ (हरियाणा) पिन: -123029	417.	पंजाब नैशनल बैंक औरंगाबाद, गांव- औरंगाबाद पुलिस औरंगाबाद तहसील-जगाधरी जिला- यमुनानगर पिन - 136002
409.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: नई अनाज मंडी जिला: भिवानी (हरियाणा) पिन: -127021	418.	पंजाब नैशनल बैंक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जींद गांव व डाकघर: जींद तहसील-जींद जिला- जींद पिन - 126102
410.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: रूरकी जिला: रोहतक (हरियाणा) पिन: -124401		
411.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: सिहमा जिला: मोहिंदरगढ़ (हरियाणा) पिन: 123028	मंडल कार्यालय: हिसार 419.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: लहरिया, जिला- फतेहाबाद हरियाणा पिन - 125051
412.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय जिला: रोहतक (हरियाणा) पिन: 124021	420.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: मोरीवाला जिला: सिरसा (हरियाणा) पिन: 125103
मंडल कार्यालय- कुरुक्षेत्र 413.	पंजाब नैशनल बैंक लक्षण कालोनी, तहसील-थानेसर जिला- कुरुक्षेत्र पिन - 136118	मंडल कार्यालय: झांसी 421.	पंजाब नैशनल बैंक विशिष्ट संख्या 989200 शाखा: हसारी जिला- हसारी, झांसी राज्य: - उत्तर प्रदेश पिन - 284001
414.	पंजाब नैशनल बैंक झनासा गांव व डाकघर - झनासा तहसील- पेहोवा जिला- कुरुक्षेत्र पिन - 136130	422.	पंजाब नैशनल बैंक विशिष्ट संख्या 594200 शाखा: जालौन जिला-जालौन राज्य: - उत्तर प्रदेश पिन - 285123
415.	पंजाब नैशनल बैंक थोल गांव व डाकघर: थोल तहसील-थानेसर जिला- कुरुक्षेत्र पिन - 136136	मंडल कार्यालय: हमीरपुर 423.	पंजाब नैशनल बैंक ब्रांच- महिला शाखा विशिष्ट संख्या -9810 बचत भवन जिला एवं तहसील- ऊना (हिमाचल प्रदेश) पिन - 177303
416.	पंजाब नैशनल बैंक गुन्दियाना गांव व डाकघर: गुन्दियाना तहसील-जगाधरी जिला- यमुनानगर पिन - 136103		

424.	पंजाब नैशनल बैंक Branch- दधूही विशिष्ट संख्या -9988 ग्राम व पोस्ट -दधूही जिला एवं तहसील- हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) पिन – 177001	431.	पंजाब नैशनल बैंक मेरठ कलेक्ट्रेट जिला पंचायत भवन कचहरी कंपाउंड कलेक्ट्रेट , मेरठ सिटी, मेरठ (उत्तर प्रदेश) - 250002
425.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा- चांदपुर विशिष्ट संख्या -9935 व्यास ने अस्पतहसील के पास ग्राम व पोस्ट - दधूही जिला एवं ताह-बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) पिन – 174004	मंडल कार्यालय: हरिद्वार 432.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: सीतापुर माज़रा विशिष्ट संख्या 5386 सीतापुर माज़रा , ब्लाक- बहादुराबाद तहसील: हरिद्वार जिला :: हरिद्वार पिन: 249407
426.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा- मलाग विशिष्ट संख्या .-9937 ग्राम व पोस्ट – नादौन जिला एवं तहसील- हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) पिन – 177040	433.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: अतमलपुर बंगोला विशिष्ट संख्या 5859 ब्लाक- बहादुराबाद तहसील: हरिद्वार जिला :: हरिद्वार पिन: 249402
427.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा- समोह विशिष्ट संख्या 9980 ग्राम व पोस्ट- झादुता जिला एवं तह-बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) पिन – 177021	434.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: नारायण बांगड़ विशिष्ट संख्या 5897 ब्लाक नारायण बांगड़ तहसील: थरली जिला :: चमोली पिन: 246,455
428.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा-करोट खास ग्राम व पोस्ट करोट तहसील- सुजानपुर जिला: हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश)	435.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: सालियाना गैरसैण विशिष्ट संख्या- 5898 ब्लॉक- एवं तहसील: गैरसैण जिला :: चमोली पिन: 246428
मंडल कार्यालय: मेरठ			
429.	पंजाब नैशनल बैंक दिल्ली-सहारनपुर रोड बसोली कार्यालय ग्राम व पोस्ट जिला: बागपत- यूपी पिन – 250623	436.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: काठगोदाम विशिष्ट संख्या -9948 मार्केट, पिरान कलिअर खास, जिला: हरिद्वार पिन: 247667
430.	पंजाब नैशनल बैंक गागुल कार्यालय ग्राम व पोस्ट ब्लॉक -मेरठ- यूपी	मंडल कार्यालय- जोधपुर 437.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: सुमेरपुर जिला: पाली पिन: 306902

438.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: बोरार जिला: नागौर पिन: 341502	447.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: काठगोदाम विशिष्ट संख्या 9949 एलआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय के पास नैनीतहसील रोड, काठगोदाम जिला: नैनीताल (उत्तराखंड) पिन: 263126
439.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: नरवा जिला: जोधपुर पिन: 342308	448.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: काठगोदाम विशिष्ट संख्या.- 9964 रानीखेत रोड, भोवली जिला: नैनीताल उत्तराखंड पिन: 263132
440.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: जसोल जिला: बाड़मेर पिन: 344024	मंडल कार्यालय: फैजाबाद	
441.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: सांचोर जिला: जालौर पिन: 344024	449.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: डूमेरियागंज विशिष्ट संख्या-7758 जिला- सिद्धार्थनगर राज्य: - उत्तर प्रदेश पिन - 272189
442.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: जायल जिला: नागौर पिन: 341520	450.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: कहोवा विशिष्ट संख्या- 7795 जिला- गोंडा राज्य: - उत्तर प्रदेश पिन - 271310
443.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: सगवर जिला: डूंगरपुर पिन: 341025	451.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: जालालपुर विशिष्ट संख्या- 7796 जिला- अम्बेडकर नगर राज्य: - उत्तर प्रदेश पिन - 224149
मंडल कार्यालय- काशीपुर		452.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: कादीपुर विशिष्ट संख्या- 7900 जिला- सुल्तानपुर राज्य: - उत्तर प्रदेश पिन - 228145
444.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: बूंगा विशिष्ट संख्या -5911 ग्राम- बूंगा टेलीफोन एक्सचेंज के पास डाकघर- मुन्सियारी जिला: पिथौरागढ़ (यूके) पिन: 262554	453.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: अशरफपुर किचौचा विशिष्ट संख्या- 7794 जिला- अम्बेडकर नगर राज्य: - उत्तर प्रदेश पिन - 224155
445.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: अवाला कोट विशिष्ट संख्या 5973 गाँव - अवाला कोट डाकघर -कोटा बाग जिला: नैनीताल (यूके) पिन: 263159		
456.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: देवाला मल्ला विशिष्ट संख्या: 5560 गाँव - देवाला मल्ला डाकघर -गोलपुर सितारगंज सड़क हल्द्वानी, जिला: नैनीताल (यूके) पिन: 263159		

454.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: हरिया विशिष्ट संख्या- 7946 जिला-बस्ती राज्य: - उत्तर प्रदेश पिन – 272155	मंडल कार्यालय: बुलंदशहर 462.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: परियावाली जिला- आगरा राज्य: - उत्तर प्रदेश पिन – 202001
455.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: कुरेभर विशिष्ट संख्या -9866 जिला- सुल्तानपुर राज्य: - उत्तर प्रदेश पिन – 228151	463.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: हरदुआ गंज अनाजमंडी के सामने जिला: अलीगढ़ राज्य: - उत्तर प्रदेश पिन – 202001
456.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: खजुराहत विशिष्ट संख्या -9865 जिला- फैजाबाद राज्य: - उत्तर प्रदेश पिन – 224206	मंडल कार्यालय: मुजफ्फरपुर 464.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा-सराय (7302) हमें जटिल मेन रोड, एच एच -77, सराय पोस्ट सराय, जिला। वैशाली पिन कोड- 844125
457.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: सोहावल विशिष्ट संख्या 9918 जिला- फैजाबाद राज्य: - उत्तर प्रदेश पिन – 244188	465.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा- महुआ (7322) महुआ सिंह राय, पोस्ट: पावर हाउस के बगल महुआ, जिला- वैशाली पिन कोड -844122
458.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: गिलुअला विशिष्ट संख्या 9920 जिला- श्रावस्ती राज्य: - उत्तर प्रदेश पिन - 271835	466.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा-शाही (7726) शिविर मंडल कार्यालय, अधोरिया बाजार, मुजफ्फरपुर पिन कोड-842002
मंडल कार्यालय: नोएडा 459.	पंजाब नैशनल बैंक विशिष्ट संख्या 9956 एस -1, ए-ब्लॉक, शालीमार गार्डन जिला-गाज़ियाबाद राज्य: - उत्तर प्रदेश	467.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा-भगवानपुर (7704) किरतपुर राजाराम एनएच 77, बस स्टॉप, पुलिस भगवानपुर, जिला- वैशाली पिन कोड- 844114
460.	पंजाब नैशनल बैंक विशिष्ट संख्या 9955 भट्टा, ग्रेटर नोएडा राज्य: - उत्तर प्रदेश	468.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा – कोल्हूआ पैगम्बरपुर (7213) पीएनबी - कोल्हूआ पैगम्बरपुर , पोस्ट- बैरिय गोलंबर, जिला.- मुजफ्फरपुर पिन कोड-843108
461.	पंजाब नैशनल बैंक विशिष्ट संख्या 9965 713, करहेरा कालोनी राज्य: - उत्तर प्रदेश		

469.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा-रामपुर सईदपुर रूनी (7958) रामपुर सईदपुर, रूनी बस स्टैंड के पास जिला सईदपुर सीतामढ़ी पिन कोड-843328	475.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: सरहली, बस स्टैंड गांव व डाकघर: सरहली जिला-जालंधर पिन: 114633
ख क्षेत्र मंडल कार्यालय- मुंबई		476.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: फोलरिवाल एजीआई-इंफ्रा, बीज रोड निकट: शहरी स्टेट, पीएचडी-2 गांव: फोलरिवाल, जिला- जालंधर पिन: 144002
470.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: कालाम्बोली विशिष्ट संख्या: 9939 दुकान संख्या - 1 और 2, पार्थ त्यागी, ज़मीन-2, सेक्टर-9E डी मार्ट के पास जिला- कालाम्बोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र- 410218	मंडल कार्यालय: अमृतसर	
471.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: ऐरोली विशिष्ट संख्या: 5894 दुकान नं 1,2,12,13,14 पंचशील आर्केड, प्लॉट नं 32, सेक्टर 5, ऐरोली, जिला- नवी मुंबई महाराष्ट्र-400708	477.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: चाविण्डा देवी गाँव- चाविण्डा देवी के पास सरकारी अस्पतहसील, पुलिस चाविण्डा देवी ब्लॉक: मजीठा जिला: अमृतसर पिन: 143,504
		मंडल कार्यालय- बठिंडा	
472.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: गोरेगांव विशिष्ट संख्या: 9938 प्रथम तल टोपीवाला सेंटर, रेलवे स्टेशन के पास, गोरेगांव (पश्चिम) जिला-मुंबई 4000067	478.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: भुच्चो मंडी तहसील: बालिया वली रोड , भुच्चो मंडी पिन: 151101
		479.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: दानेवाला तहसील: दानेवाला चौक दानेवाला मलौत पिन: 152107
मंडल कार्यालय- जालंधर		480.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: वहाब वाला तहसील: अशाखाहर जिला: फजिका पिन: 152116
473.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: मऊ तहसील: फिलौर जिला .: जालंधर पिन: 144035	मंडल कार्यालय- अहमदाबाद	
474.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: लांबा पिंड चौक तहसील: लांबा पिंड चौक जिला: जालंधर पिन: 144001	481.	पंजाब नैशनल बैंक प्लॉट नंबर के. 1/1902 सर्वेक्षण 98 / पी, जीआईडीसी ग्रीन प्ले उद्योग के पास बामनशाखार, जिला: सुरेंद्रनगर पिन: 363520

482.	पंजाब नैशनल बैंक दुकान नं 14-16 रसाला रोड, बांकांनर जिला: मोरबी, पिन: 363,321	489.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: वसना रोड 1 मंजिल, शान्तम ग्रीन वाणिज्यिक परिसर वसना रोड रानेश्वर महादेव मंदिर के पास, बरोदरा -390015
483.	पंजाब नैशनल बैंक प्लॉट नंबर 1, दुकान नंबर 3 तालुका पंचायत के पास केशव आर्केड, सीहोर जिला : भावनगर पिन: 364240	490.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: नरसिंहपुर दूध डेयरी के ऊपर तहसील: कपडवंज जिला: खेड़ा, नरशिपुर पिन: 387620
484.	पंजाब नैशनल बैंक नं 31,32,33 शिव कॉम्प्लेक्स तालुका पंचायत के सामने बस स्टेशन रोड, केशोद जिला: जूनागढ़, पिन: 362220	491.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: पूना कुम्हारिया 1 सेंट मंजिल, फ्लैट नंबर 12-13 ऑटो प्वाइंट, टाटा शोरूम के पास पूना कुम्हारिया मगोब, सूरत-392130
485.	पंजाब नैशनल बैंक दुकान नं जी 2 और 3 बालाजी स्क्वायर कलिकुंड पार्श्वनाथ जनरल हॉस्पिटल के पास, धोलका अहमदाबाद रोड जिला: अहमदाबाद पिन: 382225	492.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: दहेज परिसर शालीमार, अम्बेथा चरतास्था, तालुका-वागरा, जिला: भरूच, दहेज पिन: 392130
486.	पंजाब नैशनल बैंक 5, गणेश सोसायटी मालपुर रोड, मोडासा जिला: अरावली पिन: 383315	493.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: धर्मज आज़ाद चौक, धर्मज, गुजरात पिन: 388430
मंडल कार्यालय: सूरत			
487.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: सनिया कनाडे गाँव: सनिया- कनाडे तहसील- चोर्यासी जिला: सूरत, पिन: 394210	494.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: परदा पानी टंकी एंड टॉवर स्कूल के पास, परदा, गुजरात
488.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: वेसु रोड भूतल, बारिश सिनर्जी फ्लोरेस अस्पतहसील नीचे, वेसु रोड, सूरत पिन: 395007	495.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: वल्लभ विद्यानगर भूतल, विद्यानगर कॉम्प्लेक्स, बीबीएम इंजीनियरिंग के पीछे, इस्कोन मंदिर रोड जिला: आनंद

496.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: जीआईडीसी अंकलेश्वर दुकान नंबर 11, प्लॉट 2 / ए प्लॉट संख्या - 608-613, सरदार पार्क के पास जीआईडीसी अंकलेश्वर -393002	503.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: राजपिपला 98, अंबिका निवास, संतोष चौकड़ी के पास राजेंद्र सोसायटी, राजपिपला, जिला: नर्मदा-3936145
497.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: बरसोड दही चतुर्बगला रामनाथ सोसायटी के सामने आनंद रोड बरसोड-388540	504.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: गोधरा भूतल, गुरुकृपा कॉम्प्लेक्स एलआईसी के पास, चित्रा रोड, गोधरा जिला: पंचमहल
498.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: अहवा पुरानी कृषि कार्यालय गांधी चौक, अहवा	505.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: वृज धाम शॉपिंग सेंटर के पास जशोदानगर, सोसायटी, सावली - गुजरात-391771
499.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: चिखली मनियर स्ट्रीट, चिखली जिला: नवसारी -386521	'ग' क्षेत्र मंडल कार्यालय- हैदराबाद	
500.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: दाहोद भूतल, ड्यूरा मॉल कंपाउंड, गोविंद नगर रोड दाहोद-389151		
501.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: व्यारा, दुकान संख्या जी-5, भूतल सीएस नहीं। 2064, शांतिवन रेजीडेंसी, व्यारा- 394650	506.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: आदिलाबाद शाखा 4-5-56 / 5, गादेवर परिसर विद्यानगर, राष्ट्रीय राजमार्ग -7, आदिलाबाद (तेलंगाना) -504001
		507.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: मछलीपत्तनम हेमवती- 20/219-ए परास्पेट केंद्र, मछलीपत्तनम, जिला - कृष्णा
		508.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: नलगोंडा बोतुगुडा, नलगोंडा (तेलंगाना) -508001
502.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: पारदी, बलसाड दुकान संख्या - 4-9, जैनब जटिल, एनएच -8, किल्ली पारदी जिला: बलसाड-396125	509.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: अनाकपल्ली एच एन-12-10-03, वेदुला बारी स्ट्रीट, अनाकपल्ली- 531001

510.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: विनायक नगर हेमवती -20-21-2A, प्लॉट संख्या 4 विनायक नगर 100 फुट। रिंग रोड, विजयनगरम- 53002	515.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: रामचन्द्रनपुरम 22-3-24 और 22-2-24 / 1 डी. नं. आरएस नं 465, मेन रोड रामचन्द्रनपुरम जिला-पूर्वी गोदावरी पिन कोड 533,255
511.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: पेंजारला मकान संख्या 5-36, पेंजेराला कोटुर मंडल (महबूबनगर) तेलंगाना-508001	516.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: पितापुरा मकान संख्या 4-3-150 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पीतमपुरा पूर्वी गोदावरी जिला। पिन कोड-533450
512.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: रेल्लिवलसा 149 / ए, मेन रोड रेल्लिवलसा पूसापत्रिएगा मंडल, विजयनगरम जिला- 523204	517.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: फिल्मी नगर मकान संख्या -8-2-293 / 82 / एफ / सी -21, प्लॉट संख्या. 24सी रोड नं-8, टाइप- सी, फिल्मी नगर जुबली हिल्स, हैदराबाद
513.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: पोरनाकी विशिष्ट संख्या 15-52, ग्राउंड फ्लोर आर एस संख्या - 416/1 रुपये, प्लॉट नं 23,24,25 & 26 पोरनाकी ग्राम पंचायत कोंकिपोडू एसआरओ, विजयवाड़ा कृष्णा जिला-521137	518.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: पलाकोल्लू मकान संख्या-13-5-52 / 3, रत्नम टाकीज के पीछे रंगमन्नरपेटा, पलाकोल्लू
514.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: वनस्थलिपुरम प्लॉट संख्या- 23 & 24 दुकान नंबर 2 और 3 प्रथम तल शेपाट्रि हाइट्स, प्रशांत नगर कॉलोनी गैर सरकारी संगठनों कॉलोनी रोड वनस्थलिपुरम हैदराबाद- 500070	519.	पश्चिम गोदावरी जिला। पिन कोड-534 260 पंजाब नैशनल बैंक शाखा: कोवुर मकान संख्या -1-1-221, गांधी पार्क के सामने, मेन रोड, कोवुर एसपीएसआर, नेल्लोर जिला - 524 137

520.	पंजाब नैशनल बैंक कवाली शाखा मकान संख्या -3-6-9 से 12 विश्वालायम के पास कवाली, नेल्लोर जिला। पिन कोड-524 201	525.	पंजाब नैशनल बैंक, शा.का: विरुगाम्बक्कम, एम.जी स्वामी टावर्स, 50/100 कल्लियाम्मन कोइल स्ट्रीट विरुगाम्बक्कम चेन्नई -600092 डी.नं:-7761
521.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा : गजवेल विशिष्ट संख्या : 463, भूतल, निकट अयप्पा मंदिर, मेन रोड, गजवेल (मेडक) तेलंगाना – 502277	526.	पंजाब नैशनल बैंक, शा.का: पडप्पई 539/3 बालाजी काम्प्लेक्स वंडलूर वालझा मेन रोड हाजीर नगर चेन्नई डी.नं:-7927
522.	पंजाब नैशनल बैंक अमलापुरम शाखा मकान संख्या -6-1-12, ऑप। शिरडी साई स्वर्ण मंदिर रामकृष्ण नगर, अमलापुरम पूर्वी गोदावरी जिला -533201 201	527.	पंजाब नैशनल बैंक, शाखा: अरक्कोणम दरवाजा सं- 70, 5 वें गांधी रोड अरकोनाम वेल्लूर-631001 विशिष्ट संख्या-7926
मंडल कार्यालय- चेन्नई 523.	पंजाब नैशनल बैंक, शाखा: चितालापक्कम प्लॉट नंबर- 24, भारत एवेन्यू चितालापक्कम हाई रोड, कांचीपुरम, चेन्नई- 600064 विशिष्ट संख्या -7433	528.	पंजाब नैशनल बैंक, शाखा: शोलिंगनल्लूर संख्या -202, गांव हाई रोड, शोलिंगनल्लूर चेन्नई -600119 विशिष्ट संख्या:-7923
524	पंजाब नैशनल बैंक, शाखा: मदुरावोयल 5/5 मेत्तुकुप्पम सड़क मदुरावोयल, तिरुवल्लूर-600,095 विशिष्ट संख्या:- 7760	529.	पंजाब नैशनल बैंक, शाखा: श्रीपेरुमबुदुर पुरानी सं-24, नया नहीं। 47, कार स्ट्रीट, श्रीपेरुमबुदुर कांचीपुरम विशिष्ट संख्या:-7922

530.	पंजाब नैशनल बैंक, शाखा: अरुम्बक्कम संख्या : 26, रजाक गार्डन रोड अरुम्बक्कम, चेन्नई 600106 विशिष्ट संख्या:-7924	536.	पंजाब नैशनल बैंक शा.का: मारईमालई नगर नं.68, शिवेन गार्डन, एचआईजी-एनएच 1, अन्ना सलाई, मारईमालई नगर चेन्नई-603209
531.	पंजाब नैशनल बैंक शा.का: आरणी नं.70, मार्किट रोड, आरणी डी.नं:-7925	मंडल कार्यालय-कोलकाता	
532.	पंजाब नैशनल बैंक, शाखा: रत्तिनामंगलम टैगोर इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर रत्तिनामंगलम-600127 विशिष्ट संख्या:-9805	537.	पंजाब नैशनल बैंक, शाखा: राजरत (न्यू टाउन) मोहीसगोते, कृष्णपुर, बॉक्स ब्रिज के पास, कोलकाता जिला: 24 परगना (उत्तर) पिन: 700102 (पश्चिम बंगाल)
533.	पंजाब नैशनल बैंक, शाखा: माधवराम लेक व्यू, 11 शास्त्री नगर, 200 फीट रोड माधवराम चेन्नई-600099 विशिष्ट संख्या:-5929	538.	पंजाब नैशनल बैंक, शाखा: मध्यम मार्ग 71, सोदेपुर रोड (पश्चिम) पार्वती प्लाज़ा, श्रीपुर निकट अन्नपूर्णा मंदिर जिला: पिन: 700102 (पश्चिम बंगाल)
534.	पंजाब नैशनल बैंक शा.का: मुदलियारपेट नं.137, 100 फीट रोड मुदलियारपेट, पांडिचेरी-605004 डी.नं:-5930	मंडल कार्यालय-बर्धमान	
535.	पंजाब नैशनल बैंक शा.का: पल्लिकोंडा नं 4/4, कट्टुपुडी रोड, श्रीगणपति महल पल्लिकोंडा वेल्लोर-635809	539.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा- विश्वपुर विश्वपुर (7668 विशिष्ट संख्या) गोपालगंज, बुरोसिबतला, पोस्ट - विश्वपुर, जिला-बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल पिन- 722122
		540.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा- सुगंध्या सुगंध्या (7625 विशिष्ट संख्या) ग्राम + पुलिस सुगंध्या पुनश्च – दादपुर जिला-हुगली, पश्चिम बंगाल पिन – 712102

541.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा- सेरामपुर श्रीरामपुर (7559 विशिष्ट संख्या) श्रवानी अपार्टमेंट 538 जीटी रोड पोस्ट - श्रीरामपुर जिला-हुगली, पश्चिम बंगाल पिन - 712202	मंडल कार्यालय- कोजीकोड 547. 548.	पंजाब नैशनल बैंक मलाया हवेली, सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र के सामने, कदलुंदी रोड, (पोस्ट) चालियम - 673301 पंजाब नैशनल बैंक पी मॉल, मुख्य सड़क, पल्लिकेरे, (पोस्ट) बाकेल किला, कासरगोड - 671,316 ।
मंडल कार्यालय-त्रिची 542.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: कत्तुर (पप्पाकुरिची) -9981 12 ए, भरत एवेन्यू पप्पाकुरिची मेन रोड उत्तर कत्तुर त्रिची-620019	549.	पंजाब नैशनल बैंक निकट जेडीटी इस्लाम हाई स्कूल के गेट, मेरिकुनु (पोस्ट), वेल्लिमाडूकुनु - 673012
543.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: नीलाम्बर (5891) 1/210 ए, अविनाशी मेन रोड नीलाम्बर कोयंबटूर-641602	550.	पंजाब नैशनल बैंक सांसद सातवीं / 535, रेलवे स्टेशन रोड, पयौंकडी, कन्नूर - जिला - 670358
544.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: उदुमलैपेट (5892) 13, यशोधा रामलिंगम लेआउट उदुमलैपेट तिरुपुर-642154	551.	पंजाब नैशनल बैंक वोल्गा कॉम्प्लेक्स, पताम्बी रोड, वलान्चेरी - 676552
545.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: चेंनिमलाई (5893) संख्या 6, चोलन स्ट्रीट चेंनिमलाई इरोड-638051	552.	पंजाब नैशनल बैंक पहली मंजिल, अलंकार टावर्स, कालीकट - मैसूर रोड, चुन्गम, थमरास्सेरी
546.	पंजाब नैशनल बैंक शाखा: वीरापंडी (5381) 75, पायनियर नगर वीरापंडी मुख्य सड़क मेट्टुपालयम सड़क जोथिपुरम पोस्ट कोयंबटूर-641047		

New Delhi, the 21st April, 2016

S. O.752—In pursuance of sub-rule(4) of rule 10 of the Official Languages (use for official purpose of the union) Rules, 1976, the Central Government, hereby notified the listed branches/offices of the following banks in the attached annexure, more than 80% of the staff whereof have acquired the working knowledge of hindi.

Serial No.	Name of the Banks	Number of Branches/offices
1.	Indian Overseas Bank	250
2.	Union Bank of India	91
3.	Punjab National Bank	211
	Total	552

[F.No. 11016/1/2015-OL(Noti)]
Dr. VED PRAKASH DUBEY, Jt. Director (OL)

**Branches of Indian Overseas Bank For Notification Under Rule No. 10 (4) of O.L.Rules.
'A' Region**

Agra Region

S.No.	Name of the Branch and Code No.	Full Address With Pincode			
1.	Akbara (3051)	Indian Overseas Bank Vill. Akbaraa, Post – Artoni, Tehsil–Kiraoli, Distt. Agra – 282007(U.P.)			Near Sarvodaya Secondary School 40 Feet Road, Khairthal Pin : 301404 Dist : Alwar
2.	Etah (2997)	Indian Overseas Bank Hotel Shikhar, Agra Road, Near New Bus Stand, Etah – 207001 (U.P.)	9.	Shop (3391)	Indian Overseas Bank Village & Post : Shop Pin :304023 Dist.: Tonk
3.	Firozabad (3011)	Indian Overseas Bank In Front of Main Post Office, Avas Vikas Colony, Suhag Nagar, Firozabad – 280201	10.	Bhoogar (3600)	Indian Overseas Bank Khasra No. 81, Village-Bhoogor Post - Umrain Pin :301001 Dist. Alwar
4.	Dhanauli (3492)	Indian Overseas Bank Near Khadi Gramodyog Bhavan, Jaganer Road, Dhanauli-282001 Distt. Agra	11.	Ladnu (3688)	Indian Overseas Bank Dr. Tondon Building Near Lic Office, Station Road Ladnu Pin : 341306 Dist : Nagaur
5.	Auraiya (3638)	Indian Overseas Bank Moh. Banarasidas, Near District Court, Auraiyya - 206122 (U.P.)	12.	Maulasar (3666)	Indian Overseas Bank Somani Trust Building Near Satyanarayan Temple Maulasar Pin : 341506 Dist : Nagaur
6.	Shikohabad (3660)	Indian Overseas Bank 128-B, Nagala Kunvar Pasad, Near Etah Crossing, Agra Etawah Road, Shikohabad - 283135	13.	Gangapur City (3747)	Indian Overseas Bank 178-179 Hindaun Karauli Road Gangapur City Pin: 322201 Dist: Sawai Madhopur
7.	Toksi (3443)	Indian Overseas Bank Gram Panchayat Bhavan Village & Post : Toksi Pin: 322202 Dist: Sawai Madhopur	14.	Roopbas (3100)	Indian Overseas Bank S 42 - 45 Vanasthali Mod P O, Niwai Industrial Area, 11 D Center
8.	Khairthal (3618)	Indian Overseas Bank Khasra No. – 2882			

Jaipur Region

15.	Manchwa (3223)	Village Roopbas Pin : 304022 Dist : Tonk Indian Overseas Bank 96-97 Vrindavan Colony Kalwad Road, Near Panchyat Samiti Vill & Post - Manchwa Pin : 303706 Dist : Jaipur	23.	Orai (3280)	Vill Methi Tikur, Post Atwa Pin : 209871 Dist : Unnao, Uttar Pradesh Indian Overseas Bank 729 Jagmanpur House Patel Nagar Orai Pin : 285001 Dist : Jalaun, Uttar Pradesh
16	Rrc (3352)	Indian Overseas Bank Sb-57 , Ridhi Tower, First Floor Bapu Nagar, Tonk Road, Jaipur Pin:302015 Dist: Jaipur	24.	Khaga (3281)	Indian Overseas Bank Maanu Ka Purwa G T Road Khaga Pin : 212655 Dist : Fatehpur, Uttar Pradesh
Lucknow Region					
17.	Bhuyemau (3071)	Indian Overseas Bank Vill & Post Bhuye Mau Mazra Muliha Mau Rae Bareli Pin : 229001 Dist : Rai Bareli, Uttar Pradesh	25.	Jhokhan Bagh (3332)	Indian Overseas Bank 208/4b Jhokhan Bagh Jhansi Pin : 284001 Dist : Jhansi, Uttar Pradesh
18.	Ahmamau (3072)	Indian Overseas Bank Opp Prithvi Guest House Sultanpur Road Ahma Mau, Lucknow Pin : 226002 Dist : Lucknow, Uttar Pradesh	26.	Bakkas (3358)	Indian Overseas Bank Khasra No 88 Khurdai Bazar Bakkas, Sultanpur Road Pin : 226002 Dist : Lucknow, Uttar Pradesh
19.	Sidhauli (3195)	Indian Overseas Bank Teacher Colony, Bahadurpur, Opp Ganchi Vidhyalaya Inter College Sidhauli Pin : 261303 Dist : Sitapur, Uttar Pradesh	27.	Mall (3366)	Indian Overseas Bank Khasra No 298 Mall - Bharavan Road Mall, Lucknow Pin : 226104 Dist : Lucknow, Uttar Pradesh
20.	Banthra (3232)	Indian Overseas Bank Khasra No 947 Rajput Nursing Home Vill & Post Banthra Sikandarpur Pin : 227101 Dist : Lucknow, Uttar Pradesh	28.	Tamanpur (3392)	Indian Overseas Bank Post-Sehgon Tehsil-Maharajganj Tamanpur Pin : 229311 Dist : Rai Bareli, Uttar Pradesh
21.	Lal Bangla (3233)	Indian Overseas Bank 53 A (B) Chandra Nagar Lal Bangla Kanpur Pin : 208007 Dist : Kanpur Nagar, Uttar Pradesh	29.	Balai (3407)	Indian Overseas Bank Khasra No.92 Mauza-Lohcha Post-Haraha, Achalganj Pin : 209801 Dist : Unnao, Uttar Pradesh
22.	Methi Tikur (3247)	Indian Overseas Bank Plot No 2627 Chakalwansi Sandila Road,	30.	Sandila (3408)	Indian Overseas Bank H.No.18 Pratap Bhawan, Sumba Bagh, Lucknow

31.	Haidergarh (3419)	Road Sandila, Pin : 241204 Dist : Hardoi, Uttar Pradesh Indian Overseas Bank Near Post Office, Lucknow-Sultanpur Road Haidergarh Pin : 225124 Dist : Bara Banki, Uttar Pradesh	39.	Hapur -3311	Meerut district Pin - 250 001 (UP.) Indian Overseas Bank NKS villa, Gandhi Ganj Garh Road , Hapur – Pin -245 1019(UP)
32.	Dewa (3464)	Indian Overseas Bank H .No-143 Mohalla Hujjaee-3 Tehsil-Nawabganj Dewa Sharif Pin : 225301 Dist : Bara Banki, Uttar Pradesh	40.	Mudia Ahmednagar - 3369	Indian Overseas Bank Gram- Mudia Ahmednagar , Tehsil - Bareilly District – Bareilly - 243 122 (UP.)
33.	Balrampur (3575)	Indian Overseas Bank H.No.51, Mahalla- Bhagwatiganj, Gonda Road, Balrampur Pin : 271201 Dist : Balrampur, Uttar Pradesh	41.	Ghat-3568	Indian Overseas Bank Village -Ghat , Post- Pachali District - Meerut Pin -250 002 (UP)
34.	Dhoota (3614)	Indian Overseas Bank Pt.Ram Sharan Mishra Inter College Mishrapur, Post- Gulariha Dhoota Pin : 229401 Dist : Rai Bareli, Uttar Pradesh	42.	Bantikhera-3569	Indian Overseas Bank Village and Post - Bntikedha , District - Shamli Uttar Pradesh
35.	Paila (3645)	Indian Overseas Bank Plot No.758/3 Village & Post Behzam Kasta Road, Paila Pin : 261501 Dist : Kheri, Uttar Pradesh	43.	Najibabad -3686	Indian Overseas Bank NH -74, Moradabad Road , Towards All India Radio , Najibabad Pin -246 763 , District –Bijnaur
36.	Telibagh (3673)	Indian Overseas Bank 590 / H-90 Sai Tower, Haivatmau Mavaiya Rae Bareli Road Pin : 226025 Dist : Lucknow, Uttar Pradesh	44.	Khatauli -3755	Indian Overseas Bank GT Road , Khatauli Pin -251 201 District - Muzaffarnagar , Uttar Pradesh
			45.	Nimkhera branch - 3085	Indian Overseas Bank Nimkedha branch Village- Nimkedha, Maman Road Post- Bulandshahar Distt.Bulandshahar Uttar Pradesh, Pin 203 001
Meerut Region			46.	Bandukheri-3083	Indian Overseas Bank Village- Bandukheri P O- Fandpuri, Talluk – Nakur PIN : 247001 Dist : SAHARANPUR (U.P.)
37.	Mirzapur -3244	Indian Overseas Bank, Post Office, Mirzapur, Bulandshahar. Pin -203 201 , District - Bulandshahar , Uttar Pradesh	47.	Jagatpur Alias Sultanpur Branch - 3084	Indian Overseas Bank Jagatpur Alias Sultanpur Branch Village – Jagatpur
38.	Amheda adipur -3310	Indian Overseas Bank Village- Amheda Aadipur , P.O. -sikhera,			

	Alias Sultanpur Post – Chola Railway Station Bulandshahar District, (UP) Pin- 203203	58.	Sitamarhi,(3442)	Dist : Khagaria Indian Overseas Bank First Floor Central Market Main Road Sitamarhi Pin : 843302 Dist : Sitamarhi
48.	Chaura Khurd-3243 Indian Overseas Bank Chaura Khurd village - Chaura Khurd Post- Chaura Dev District -Saharanpur (UP .) Pin 247 669	59.	Chedi Singh Tola, (3483)	Indian Overseas Bank Vill-Chedi Singh Tola Po-Athmalgola Chedi Singh Tola,Dist:Patna Pin : 803211 Dist : Patna
Patna Region				
49.	Sasaram (3167) Indian Overseas Bank Sre Shree Balajee Complex G T Road, Sasaram Pin : 821115 Dist : Rohtas	60.	Bodh Gaya, (3522)	Indian Overseas Bank Domuhan, Bodh Gaya Pin : 824231 Dist : Gaya
50.	Bettiah, (3168) Indian Overseas Bank Maruti Maker Building Supriya Road Bettiah Pin : 845438 Dist : Paschimi Champaran	61.	Jehanabad, (3523)	Indian Overseas Bank P.G.Road Jehanabad Pin : 804408 Dist : Jehanabad
51.	Dullipatti, (3206) Indian Overseas Bank Vill & Po Dullipatti P S - Jainagar Pin : 847226 Dist : Madhubani	62.	Kothawan, (3524)	Indian Overseas Bank Kailashpuri Near R.P.S. Engineering College Kothawan, Pin : 801503 Dist : Patna
52.	Mohanbariam, (3207) Indian Overseas Bank Vill - Mohanbariam Kanhoul Via - Sakri Pin : 847239 Dist : Madhubani	63.	Tiarpara, (3590)	Indian Overseas Bank Near Chandrama Chawk Post-Belwan Tiarpara Dist. Katihar Pin : 854105
53.	Anisabad,(3271) Indian Overseas Bank Magadh Plaza, Balami Chak More, Khagaul Road, Anishabad, Patna, Pin - 800 002.	64.	Saguna More, (3606)	Indian Overseas Bank First Floor Devendra Laxmi Complex Bailey Road,Saguna More Patna Pin : 801503 Dist : Patna
54.	Sheohar, (3398) Indian Overseas Bank Ward No.15, Sheohar District Sheohar Pin : 843329	65.	Asni, (3611)	Indian Overseas Bank Village-Asni Post-Asni Jaitpur Asni Pin : 802210 Dist : Bhojpur
55.	Forbesganj, (3399) Indian Overseas Bank Madhavi Complex Hospital Road Forbesganj Pin : 854318 Dist : Araria	66.	Chaurhar, (3646)	Indian Overseas Bank Vill - Chaurahar, Po - Gaya Airport, Dist - Gaya, Pin - 823 004.
56.	Adampur, (3415) Indian Overseas Bank Village-Adampur Post- Adampur, Ps-Giriyak Adampur Pin : 803109 Dist : Nalanda	67.	Dawath, (3656)	Indian Overseas Bank Village & Post-Dawath Dist : Rohtas Dawath Pin : 802226 Dist : Rohtas
57.	Khagaria, (3433) Indian Overseas Bank Sagarmal Chawk Mill Road, Khagaria Pin : 851204	68.	Bakri Bazar, (3657)	Indian Overseas Bank Village-Bakri Bazar Via-Ram Nagar Bakri Bazar Pin : 845106 Dist : Paschimi Champaran
		69.	Gola Road, (3658)	Indian Overseas Bank Ram Sahay Market, Krishna Chawk Gola Road, Post-Danapur

70.	Bihta, (3685)	Patna Pin : 801503 Dist : Patna Indian Overseas Bank Kanti Complex Bhagwat Market, Main Road Bihta, Pin : 801103 Dist : Patna	81.	Rajnagar, Ghaziabad, (3406)	Noida-201301 Indian Overseas Bank C-46, Rdc Rajnagar, Ghaziabad-201001
71.	Arwal, (3689)	Indian Overseas Bank Arwal- Jehanabad Road, Nh-110 Rojapar, Arwal Pin : 804401 Dist : Arwal	82.	Dadri, Noida, (3519)	Indian Overseas Bank Nyder Ganj, Near Nagar Palika Office, , G.T. Road, Dadri, Dist: Gautam Buddha Nagar-203207
72.	Khagaul, (3701)	Indian Overseas Bank Dev Bhawan Gandhi Vidyalaya Road Near Moti Chawk, Khagaul Dist- Patna Pin : 801105, Dist : Patna	83.	Kherikalan, Faridabad, (3659)	Indian Overseas Bank Plot No.19/1, Bharat Colony, Kheri Road, Faridabad-121002
<u>Ncr Delhi Region</u>			84.	Wazirabad, Gurgaon, (3714)	Indian Overseas Bank Plot No.40, Shyam Chowk, Near Girls Govt. High School, Wazirabad, Gurgaon-122003
73.	Sainik Colony, (3349)	Indian Overseas Bank Scf 66 Sainik Colony, Sector-49, Commercial Market, Opp Dav School, Faridabad- 121001	<u>Dehradun Region</u>		
74.	Sector-8, Faridabad, (3376)	Indian Overseas Bank Scf.203, Sector-8, Huda Market, Faridabad	85.	Regional office Dehradun (2952)	Indian Overseas Bank 595, Indira Nagar, Malik Chowk Dehradun, UTTARANCHAL Pin : 248006
75.	Rapid Retail Centre, Gurgaon, (3343)	Indian Overseas Bank First Floor Yadav Bhavan, Old Railway Road, Gurgaon-122001	86.	Bharuwala Grant (3113)	Indian Overseas Bank Line-4, Turner road, Building No. -37/2, Clement town, Bharuwala Grant, Dehradun
76.	Sector-5, Gurgaon, (3374)	Indian Overseas Bank Shop.No.2, Near Sheetla Associates, Sheetla Mata Mandir Road, Opp Sec-5, Gurgaon	87.	Bahadurpur jat (3211)	Indian Overseas Bank Village – Bahadurpur Jat, Police Station – Pathari, Block- Bahadurabad District Haridwar- 249404
77.	Chhajarsai, (3178)	Indian Overseas Bank Ch Block Village, Chhajarsai, Opposite Sector 63, Noida-201307	88.	Sarai (3212)	Indian Overseas Bank Village & post Sarai, Jhanda Chowk, District -Haridwar, Pin-636004
78.	Sharfabad, Noida, (3315)	Indian Overseas Bank Sector-73 Lakshmi Complex, Sharfabad, Noida-201301	89.	Malsi (3213)	Indian Overseas Bank Near Aryan School, Masoori Road, Malsi
79.	Jalpura-Haldoni, (3364)	Indian Overseas Bank Khasara No.689, Chaudhary Bibari Singh Market, Jalpura Haldoni Mod, Post Kuleshra-201306	90.	Nathan pur (3214)	Indian Overseas Bank Ekta Vihar, Near Post office, Nehru Gram, Ring Road, Nathanpur, Dehradun
80.	Sector-22, Noida, (3375)	Indian Overseas Bank Opp J-55, Village Chaura, Sector-22,	91.	Motharowala (3215)	Indian Overseas Bank Near Thakur Chowk, Dudhali Road, Village & post box-

		sisona, Block			district chamoli-
		Sitarganj, Nagar			246443
92.	Sisona (3256)	Udhamsingh Nagar Pin-262405 Indian Overseas Bank Village Sisona, Post box Sisona, Block Sitarganj, Udham Singh Nagar, Pin-262405	102.	Bhuddi (3738)	Indian Overseas Bank Village bhudhi, tehsil Vikas nagar, District-dehradun, uttarakhand-240007
				Bhopal	
93.	Adarsh Tehri Nagar (3372)	Indian Overseas Bank Adarsh Tehri Nagar, Post, Ambuwala, Near police station Pathari, Haridwar pin- 249405	103.	Bhawrasla (3130)	Indian Overseas Bank Plot No 40, 41 Shakambari, Avenue Colony P O Sri Arvindo S O, Village Bhawrasla Pin : 453555 Dist : Indore
94.	Bazpur (3504)	Indian Overseas Bank Ranpur road, opposite of chakarpur Road, Udhamsingh Nagar, Pin-262401	104.	Pipliya Bajkhan (3133)	Indian Overseas Bank Plot No. 3,4,5 Chitrkoot Village Pipliya Bajkhan Pin :Dist: Bhopal
95.	KIchha (3505)	Indian Overseas Bank Steel Industries, Ruderpur road, near power house, kichha, Udhamsingh Nagar-263148	105.	Satna (3188)	Indian Overseas Bank Khasra No 252 Satna Building Rewa Road Satna Pin : 485001 Dist : Satna
96.	Aicholi (3506)	Indian Overseas Bank Tanakpur road, Chandra bag, Ancholi, Pithoragarh-262530	106.	Purasani (3132)	Indian Overseas Bank H No 3733, A Block, Near Sitholi Railway Stn Opp Railway Spring Factory Village – Purasani Po-I T M College Pin : 474001 Dist : Gwalior
97.	City back Office (3632)	Indian Overseas Bank 32 Co-Operative Industrial Area Patel Nagar, Dehradun, PIN : 248002	107.	City Centre, Gwalior (3283)	Indian Overseas Bank 75 Kailash Vihar City Centre Gwalior Pin : 474011 Dist : Gwalior
98.	Raipur Bhagwanpur (3635)	Indian Overseas Bank Opposite of Godrej factory, Dehradun Road, village Raipur bhagwanpur, pargana bhagwanpur, tehseel roorkee, district haridwar.	108.	Kolar Road, Bhopal (3338)	Indian Overseas Bank 1,2,3,6,7,8 Windsor Madhya Mandakini Society, Kolar Road Bhopal Pin : 462042 Dist : Bhopal
99.	Almorah (3654)	Indian Overseas Bank Pant nivas colony, Paniudhimar, laxmeshwer Almorah-263601	109.	Nainod (3131)	Indian Overseas Bank Plot No 139 Gandhinagar Village Nainod Nainod Pin : 453112 Dist : Indore
100.	Dahiya ki (3724)	Indian Overseas Bank National Highway, Village Dahiya ki, post box Gurukul naarsan, district haridwar, Uttarakhand-247670	110.	Virpur (3189)	Indian Overseas Bank Imli Naka Veerpur Pin : 474001 Dist : Gwalior
101.	Joshimath (3718)	Indian Overseas Bank Temple Narsingh, Road Upper bazaar, joshimath,			

111.	Borda (3209)	Indian Overseas Bank Ultimate English Villa Main Kolar Road Borda Village Pin : 462042 Dist : Bhopal	120.	Specialized Agri Credit Branch, Karhi (3122)	PIN : 491995 Dist : Raipur Indian Overseas Bank At LIG -6 Karhi Colony, Near Collectorate, PO- Mungeli, Karhi PIN : 495334 Dist : Bilaspur
112.	Dabra (3482)	Indian Overseas Bank S.No.17/1/1 Gwalior -Jhansi Main Road Dabra Pin : 475110 Dist : Gwalior	121.	Chhurrikalan (3162)	Indian Overseas Bank At main Road Chhurikalan PO- Chhurikalan Pin - 495450 Dist – Korba
113.	Lambakheda (3627)	Indian Overseas Bank Shop No.1,2,3 Komal Shopping Complex Berasia Main Road,Po- Islam Nagar Lambakheda-Bhopal Pin : 462038 Dist : Bhopal	122.	Specialized Agri Credit Branch (3224)	Indian Overseas Bank At Amdi, PO- Amdi PIN : 493773 DIST: Dhamtari
114.	Katara (3536)	Indian Overseas Bank Shop No.12,-14 First Floor, Spring Valley Arcade Village Katara Bhopal Pin : 462043 Dist : Bhopal	123.	Hirri Branch (3227)	Indian Overseas Bank Near Bilha Moae P O - Hirri, PIN : 495222 Dist : Bilaspur
115.	Arera Colony (3728)	Indian Overseas Bank Plot No:R-4,E-6 E- 6,Arera Colony Near Sai Baba Road Bhopal Pin : 462016 Dist : Bhopal	124.	Din Dayal Upadhyay Nagar, Raipur (3237)	Indian Overseas Bank At sai Kripa, HIG-5, Sector-3 PO- Ravi Shankar University, Raipur PIN :492010 Dist : Raipur
116.	Limbodi Indore (3404)	Indian Overseas Bank 270 Dilpasand Enclave Ranibag Colony Lambodi-Indore Pin : 452020 Dist : Indore	125.	Gaurav Path (3238)	Indian Overseas Bank Raing Road, Geetanjali Enclave PO- Bilaspur PIN : 495001 Dist :Bilaspur
Raipur Region			126.	kapan (3239)	Indian Overseas Bank PO- kapan, PIN : 495552 Dist : janjgir-Champa
117.	Specialized Agri Credit Branch, Bemetra (3092)	Indian Overseas Bank At Ghasti chouk, Durg Road, Near Dharam Aara Mill, P O -Bemetra PIN :491335 Dist: Raipur	127.	Chikhalputi (3277)	Indian Overseas Bank At- Hast Ship Gram, Chikhalputi, PO- Kondagaon PIN : 494226 Dist : Kawardha
118.	Specialized Agri Credit Branch, Saraipali (3094)	Indian Overseas Bank At Bastisaraipali Chouk P O- Saraipali Pin : 493558 Dist- Manasamund	128.	Janjgiri (3335)	Indian Overseas Bank At janjgiri PO- BMV Charoda PIN : 490025 Dist : Durg
119.	Specialized Agri Credit Branch, Kawardha (3121)	Indian Overseas Bank At Bus Stand, Kawardha PO- Kawardha	129.	Mandir Hasoud (3336)	Indian Overseas Bank Airport Road, PO- mandir Hasoud PIN : 492101 Dist : Raipur
			130.	Specialized Agri Credit Branch, Sankara (3337)	Indian Overseas Bank At, Sankara , School Para, PO- Sankara PIN : 493778

131.	Specialized Agri Credit Branch, Rajim (3337)	Dist : Dhamtari At, Raipur Road, PO - Bagbahara PIN- 493449			Daltonganj P O Daltonganj Pin : 822101 Dist : Palamau
132.	Specialized Agri Credit Branch, Gurur(3370)	DIST- Masamund Indian Overseas Bank Bodra Chouk, Gurur, PIN : 491227 Dist : Raipur	142.	Chakradarpur (3141)	Indian Overseas Bank Old Ranchi Road, Rani Sati Enclave, Chakradarpur Pin : 833102 Dist : Paschimi Singhbhum
133.	Specialized Agri Credit Branch, Ambagarh Chouki (3371)	Indian Overseas Bank Ward No- 14, Ganj line, Ambagarh PIN : 491665 Dist : Rajnandgaon	143.	Dumardaga (3152)	Indian Overseas Bank Ground Floor Rajasthali Enclave P. S Sadar P.O. Neori Vill - Dumardaga Pin : 835217 Dist : Ranchi
134.	Specialized Agri Credit Branch, Bagbahara (3387)	Indian Overseas Bank At, Main Road, Bhoring PIN : 493449 Dist : Mahasamund	144.	Ormanjhi (3170)	Indian Overseas Bank Mamta Market, Thana Ormanjhi Vill - Dardang (Ormanjhi) P. O. Ormanjhi Pin : 835219 Dist : Ranchi
135.	Bhoring (3388)	Indian Overseas Bank Main Road, Bhoring PIN : 493445 Dist : Mahasamund	145.	Lalganj (3321)	Indian Overseas Bank Beside Patanjali Arogyam Khelgaon, P O - Sugnu Lalganj Pin : 835103 Dist : Ranchi
136.	Korba - Jamnipali (3389)	Indian Overseas Bank Near NTPC Township, At Main Road, Jamnipali PIN : 493445 Dist : Korba	146.	Salhan Bedbari (3382)	Indian Overseas Bank At Bedbari Post-Childag, Distric Ranchi Bedbari, Pin : 835103 Dist : Ranchi
137.	Raipur Tatibandh (3479)	Indian Overseas Bank Shop No. 2,3,39 & 40 R-Eminence Complex, GE road, Tatibandh, Raipur PIN : 492001 Dist : Raipur	147.	Bahadurpur (3383)	Indian Overseas Bank Village-Bahadurpur Post-Narayanpur,, District-Bokaro Bahadurpur Pin : 827013 Dist : Bokaro
138.	Raipur Ghadi chouk (3480)	Indian Overseas Bank Hall No. 3, First Floor, Nagadev Plaza, Kutchery Chowk, Raipur PIN : 492001 Dist : Raipur	148.	Hundur (3468)	Indian Overseas Bank Fatma Teachers Training College At -Dubaliya, Chandway Hundur Pin : 835217 Dist : Ranchi
139.	Muli (3545)	Indian Overseas Bank Bazarpara, Gram- Muli PIN : 494222 Dist : Bastar	149.	Mahilong (3576)	Indian Overseas Bank Oop.Sarla Birla Public School Sanatorium Mahilong Pin : 835103 Dist : Ranchi
140.	Bhilai Durg (3651)	Indian Overseas Bank Ward no.- 5 Indira Nagar, Iaxmi Nagar Market, Kohka Road, Mauja Supela, Bhilai Dist: Durg Chhattisgarh PIN : 490023	150.	Kishoreganj (3584)	Indian Overseas Bank Opp.Hyundai Show Room Harmu Road Ranchi Pin : 834001 Dist :
<u>Ranchi Region</u>					
141.	Daltonganj (3021)	Indian Overseas Bank Suraj Nagar, Belwatikar Chowk (Medini Nagar),			

151.	Harmu Road (3607)	Ranchi Indian Overseas Bank Savitri Colony Argora Bye Pass Road Ranchi Pin : 834002 Dist : Ranchi	160.	Kanchanpur (3465)	Pin : 23109 Indian Overseas Bank Near Kissan Petrol Pump Abhinandan Vatika Kanchanpur, Dlw Pin : 221004 Dist : Varanasi
152.	Nagri (3711)	Indian Overseas Bank At-Check Post Naro, Village&Post-Nagri, Ps-Nagri Ranchi-Dist Jharkhand Pin : 835303 Dist : Ranchi	161.	Koirajpur (3466)	Indian Overseas Bank Kamando Niwas Koirajpur, Harahua Pin : 221105 Dist : Varanasi
153.	Rapid Retail Centre (3589)	Indian Overseas Bank Harmu Road, Savitri Colony Argora Bye Pass Road Ranchi Pin : 834002 Dist : Ranchi	162.	Parmanandpur (3467)	Indian Overseas Bank Jeevadeep Insti Of Management & Tech Sindhora Road Paramanandpur Pin : 221007 Dist : Varanasi
<u>Varanasi Region</u>					
154.	Bhikhipur (3079)	Indian Overseas Bank 16 Kha Shama Towers Bhikhipur P. O. Mirazamurad Pin : 221307 Dist : Varanasi	163.	Khajni (3570)	Indian Overseas Bank East Market Side Main Highway Khajni Pin : 273212 Dist : Varanasi
155.	Anpara (3123)	Indian Overseas Bank 234/4 Anpara Bazar Cinema Road Anpara P O Pin : 231225 Dist : Sonbhadra	164.	Sikariganj (3571)	Indian Overseas Bank Sikariganj Market Gorakhpur Pin : 273213 Dist : Gorakhpur
156.	Robertsganj (3124)	Indian Overseas Bank Plot No 337 Devdep Complex Near Chandi Tiraha Robertsgunj Pin : 231216 Dist : Sonbhadra	165.	Bharauli (3612)	Indian Overseas Bank Village- Gopalgarh/Bharauli Block-Kashia Bharauli Pin : 274402 Dist : Kushi Nagar
157.	Khalilabad (3326)	Indian Overseas Bank Hno 136 Ward 24 Gola Bazar North Near Nehru Chowk Khalilabad Pin : 272175 Dist : Sant Kabir Nagar	166.	Narepar Uparwar (3613)	Indian Overseas Bank Narepar Uparwar, Dhantulsi Sitamadhi Road Narepar Uparwar Pin : 221309 Dist : Sant Ravidas Nagar
158.	Dhanapur (3446)	Indian Overseas Bank Village & Post Dhanapur District Chandauli Dhanapur Pin : 232105	167.	Bhagwanpur (3653)	Indian Overseas Bank Plot No.114 Balaji Nagar Colony Samne Ghat Road Bhagwanpur Pin : 221005 Dist : Varanasi
159.	Sakaldiha(3447)	Indian Overseas Bank Village & Post Sakaldeeha Sakaldeeha, District : Chandauli	168.	Varanasi – Lic Divisional Office (3748)	Indian Overseas Bank B-12/120 Lic- Divisional Office, Gauriganj, Bhelupur Varanasi

		Pin : 221001 Dist : Varanasi			Ahmedabad – 380009
<u>B Region</u>			<u>Baroda Region</u>		
<u>Ahmedabad Region</u>			177.	AHEJ (3381)	Indian Overseas Bank Anamika Complex, 1st Floor, IPCL Main Road, Near Dahej Chowkdi, 392130
169.	Ranip Branch (3741)	Indian Overseas Bank Ranip Branch Bungalow No.115 New Vidhya Vihar Society Ramji Mandie Road, Ranip, Ahmedabad – 382480	178.	BILIMORA (2226)	Indian Overseas Bank Shop No.1&2, Ground Floor, Ramiba Complex, Gouharbaug Road, Bilimora 396 321.
170.	Naroda branch (3740)	Indian Overseas Bank Naroda branch Shop No. 1,2,3,4 Ground floor, Aastha Avenue , CM - 24/25. B/H BSNL Exchange Naroda – 382330	179.	SAMROLI (2241)	Indian Overseas Bank Devarshi apartments, Samroli 396521, Tah.Chikli, Gujarat
171.	Jaspur branch (3720)	Indian Overseas Bank Jaspur branch Shop No. 491/1, 491/2, Ground floor Undovas , Village- Jaspur– 382721 Taluka Kalol Dist- Gandhinagar Gujarat	180.	BARDOLI (2393)	Indian Overseas Bank “MAA” Building, Near Railway Crossing, M.G. Road,Bardoli – 394 601
172.	ARM (2581)	Indian Overseas Bank Opp. Handloom House, Ashram Road, Ahmedabad-380009 Dist. – Ahmedabad	181.	VYARA (2507)	Indian Overseas Bank Ground Floor, Adarsh Gunt House Blg, Station Road, Post - VYARA 394650
173.	Large Corporate (2933)	Indian Overseas Bank Chinubhai Tower, Opp. Handloom House, Ashram Road, Ahmedabad-380 009 Dist. – Ahmadabad	182.	KATARGRAM (2884)	Indian Overseas Bank Plot No.4&5, Babrik Industrial Estate, Near Prime Co-Op Bank, Opp.New GIDC, Katargram, Surat Taluk
174.	RRC (3355)	Indian Overseas Bank 1st Floor, Mukhi House, Zaveri Park, Sunset Road, Navrangpura, Ahmedabad - 380 009 Dist. – Ahmedabad	183.	PAL (3017)	Indian Overseas Bank Shop no.3&4, Galaxi Imperial L.P. Savani Road, Near CNG Petrol Pump, Pal Canal Road, Surat 395 009.
175.	MSME (3354)	Indian Overseas Bank 1st Floor, Mukhi House, Zaveri Park, Sunset Road, Navrangpura, Ahmedabad - 380 009 Dist. – Ahmedabad	184.	ATAK PARDI (3074)	Indian Overseas Bank B.G. Point, Near CNG Pump, Opp. Krishna Hotel, Dharmapura Road Crossing, NH. 8, Village Atak Pardi, Valsad District, Gujarat State. Pin-396 007.
176.	MID Corporate (2934)	Indian Overseas Bank 3 Sukh Villa, Shreyas Colony, Stadium Marg, Navrangpura,	185.	MANJIPURA (3174)	Indian Overseas Bank Shop No.1, Krishna Vihar Residency, Opp. Navbandhu Park

		Society, Near Ekta Nagar, Ai Post: Manjipura - 387 320. Taluka Nadiad Dist. Kheda			Near CT Tower, Opp. Pawan Apartments, Kaliawadi Main Road, Kaliawadi - 396 427. District - Navsari, Gujarat.
186.	JOL (3304)	Indian Overseas Bank Plot No.22, Radha Swamy Society, At Post - Jol, Anand District, Pin - 388315. Gujarat State.			
			<u>Ludhiana Region</u>		
			194.	Civil Lines (446)	Indian Overseas Bank Fountain Chowk, Civil Lines Ludhiana Pin : 141001 Distt : Ludhiana
187.	CHHAPRA (3305)	Indian Overseas Bank Building No.1928, First Floor, Suryakiran Apartment, At Post - Chhapra, Navsari District, Pin - 396445. Gujarat State.	195.	Patiala (922)	Indian Overseas Bank SCO 102-103 Near C.B.I Court, Chhoti Baradari Patiala Patiala PIN : 147001 Dist : Patiala
188.	ANCHELI (3381)	Indian Overseas Bank Desai Falia, At Post- Ancheli, Pin-396 310. Dist. Navsari Gujarat.	196.	Rajpura (515)	Indian Overseas Bank PLOT NO. 280 TO 289 Patiala Rajpura Road Rajpura PIN : 140401 Dist : Patiala
189.	AKOTA (3470)	Indian Overseas Bank 6-a, Anjali Plaza, Opp. Cow Circle, Shrenik Park Char Rasta, Akota, Vadodara - 390 020. Gujarat.	197.	MSME (3292)	Indian Overseas Bank I Floor Sainik Rest House Near Clock Tower Ludhiana PIN : 141001 Dist : Chandigarh
190.	MANJALPUR (3174)	Indian Overseas Bank Shop No.4 to 9, Maruti Complex, Opp. Laxmi Narayanan Temple, Beside Ranchhod Nagar, Tensil Steel Road, Vadodara - 390 011. Gujarat.	198.	RRPC (3362)	Indian Overseas Bank I Floor Sainik Rest House Near Clock Tower Ludhiana PIN : 141001 Dist : Chandigarh
			<u>Chandigarh Region</u>		
191.	SUBHANPURA (3472)	Indian Overseas Bank 1ST Floor, Shop No.22, Kirti Square, Opp. To Vithalesh Complex, Subhanpura, Vadodara - 390 023. Gujarat.	199.	Ambala City (1630)	Indian Overseas Bank 3 & 4 Near Police Lines Civil Lines Ambala City PIN : 134003 Dist : AMBALA
192.	RANDER (3473)	Indian Overseas Bank Shop No.101, 1st Floor, Regent Centre, Near Navyug College, Rander Road, Surat - 395 009. Gujarat .	200.	Ambala Army Public School (Extension Counter) (6842)	Indian Overseas Bank No.90 Army Public School Alexandra Road Ambala Cantt Ambala Pin : 133001 Haryana
193.	Kaliawadi (3734)	Indian Overseas Bank 1st Floor, Shree Yamunaji Hardware, Shreenath House,	201.	Barwala (3532)	Indian Overseas Bank Main Bazar Derabassi Road Barwala

202.	Bathu (3674)	PIN : 134118 Dist : Panchkula Indian Overseas Bank VPO Bathu Haroli, Una PIN : 174301 Dist : UNA	212.	Rapid Retail Centre (3309)	Dist : ROHTAK Indian Overseas Bank First Floor, SCO-26 Sector 7-C Madhya Marg, Chandigarh PIN : 160019
203.	Jarad Bhutti (3628)	Indi An Overseas Bank VILLAGE- Jaradbhuticolony Post-Shamshi SHAMSHI PIN : 175126 Dist : Kulu	213.	Samalkha (3620)	Dist : CHANDIGARH Indian Overseas Bank Panchal Bhawan, Samalkha Mandi Railway Road Panipat Pin : 132101
204.	Kaithal-SME Branch (2722)	Indian Overseas Bank SCO 321 Sector 20 Urban Estate, HUDA Kaithal PIN : 136027 Dist : KAITHAL	214.	Jhajjar (3619)	Indian Overseas Bank Deshwal Complex Opposite Bus Stand Jhajjar, Pin : 124103 Dist : Jhajjar
205.	Kabri(3636)	Indian Overseas Bank Village Kabri Near Panipat Urban Co-Op Society Panipat Pin : 132103 Dist : Panipat	<u>Jalandhar Region</u>		
206.	MSME Processing Centre (3348)	Indian Overseas Bank S C O 26 Madhya Marg, Sector 7 - C Chandigarh PIN : 160019 Dist : Chandigarh	215.	Kot Fatuhi(3560)	Indian Overseas Bank Village-Kot Fatuhi Phagwara Mahilpur Road Kot Fatuhi Dist- Hoshiarpur Pin-144519
207.	Nadaun (3516)	Indian Overseas Bank Near Bus Stand Jwalaji Road Nadaun Pin : 177033 Dist : Hamirpur	216.	Malout(3562)	Indian Overseas Bank Near Jaswant Theater G.T.Road, Malout Dist- Muktsar Pin-152107
208.	Ner Chauk (3639)	Indian Overseas Bank Vpo-Ner Chowk Near Post Office Pin : 175008 Dist : Mandi	217.	Bishna(3563)	Indian Overseas Bank Ward No.6 Near Old Bus Stand Bishna, Dist- Jammu Pin-181132
209.	Panipat – SME Branch (2864)	Indian Overseas Bank Near Sanjay Chowk G T Road Panipat Pin : 132103 Dist : Panipat	218.	Bagha Purana (3642)	Indian Overseas Bank Opposite Axis Bank Mudki Road Bagha Purana Dist- Moga Pin- 142038
210.	Panchkula Sector - 20 (3484)	Indian Overseas Bank Sco-230 Panchkula, Sector-20 Panchkula Pin : 134116 Dist : Panchkula	219.	Kapurthala Road(3643)	Indian Overseas Bank K.K.Tower Near Punjab & Sind Bank Jalandhar Dist-Jalandhar Pin- 144001
211.	Rohtak Gohana Road (3293)	Indian Overseas Bank Near PWD Colony Rohtak - Gohana Road Rohtak PIN : 124001	220.	J.P.Nagar(3664)	Indian Overseas Bank No.461,462 J.P.Nagar Road Jalandhar Dist- Jalandhar Pin- 144002

Pune Region

221. Shendi (884) Indian Overseas Bank
Ground Floor, Property
No.766,
Gate No. 2512 Nagar -
Aurangabad
Highway Shendi
Village & Post
Pin: 414601 Dist-
Ahmednagar,
Maharashtra.
222. Pangri (3218) Indian Overseas Bank
City S No 304
Gat No 53,
Sinnar- Shirdi Road
Pangri Village
Grampanchayat
Taluka-Sinnar
Pin 422013
Dist. Nasik,
Maharashtra.
223. Alephata (3219) Indian Overseas Bank
Ward No 5 Pune Road,
Near Jansewa Petrol
Pump,
Taluka Junnar
Alephata
Pin :412411 Dist.
Pune, Maharashtra.
224. Sortapwadi (3219) Indian Overseas Bank
Sortapwadi Phata
At Post Sortapwadi,
Haveli Taluk,
Sortapwadi Phata
Pin;412110, Dist:
Pune, Maharashtra.
225. Boripardhi
Dhayegudewadi
(3629) Indian Overseas Bank
Boripardhi(Choufula)
Pune-Solapur Highway
Boripardhi
Pin 412203 Dist
:Pune,
Maharashtra.
226. Vita (3669) Indian Overseas Bank
S.No. 561-B/2
Opp. Ramabal Ranade
Eng. Med School
Tauk Khanapur Vita ,
Pin 415311,
Dist. Sangli,
Maharashtra.
227. Phaltan (3713) Indian Overseas Bank
Plot N 18&19 Cts No
3320,Sunil Complex
Opposite Gandhi
Hospital
Sanmati Nagar, Ring

228. Arm (2584)

Road Phaltan
Pin 415523 Dist:
Satara, Maharashtra.Indian Overseas Bank
43/21 Erandwane,
Karve Road,
Pune,Pincode-461213,
Maharashtra.**Rajkot Region**

229. Anjar (3525)

Indian Overseas Bank
Shop No.1 Manav
Enterprises
Opp.Hotel Manav
Residency
Anjar,
Pin : 370110
Dist : Kachchh

230. Amreli (3693)

Indian Overseas Bank
Ground Floor Behind
Nagnath Temple
Near Lic Office
Amreli, Pin : 365601
Dist : Amreli

231. Anandpar (0663)

Indian Overseas Bank
Harkesh Krupa,
B.O.Anandpar
Bedipure Sub Po
Anandpar Nawagam
Anandpar
Pin : 360003
Dist : RAJKOT

232. Bhuj (0466)

Indian Overseas Bank
Bhagat Complex
Near B S N L Main
Office,
Lal Tekri Bhuj, Kutch
Pin : 370001
Dist : Kachchh

233. Gondal (3498)

Indian Overseas Bank
Near Bus Stand
Jetpur Road
Gondal, Dist:Rajkot
Pin : 360311
Dist : Rajkot

234. Jasdan (3394)

Indian Overseas Bank
Near Nyay Mandir
Atkot Road
Po-Jasdan
Pin : 360050
Dist : Rajkot

235. Kagdadi (3225)

Indian Overseas Bank
Morvi Road
Vill - Kagdadi
Pin : 360003
Dist : Rajkot

236. Mvmc- Rajkot (0373)

Indian Overseas Bank
Kashihari Opp. L I C
Bldg Kalavad Road
Rajkot
Pin : 360002
Dist : Rajkot

237.	Porbander (0459)	Indian Overseas Bank Khadi Bhavan (Annexe) Bhavsinghji Park Raod Porbandar Pin : 360575 Dist : Porbandar	245.	Tumsar Branch (3544)	Indian Overseas Bank Near New Bus Stand, Shreeram Nagar, Tumsar-Bhandra Satate High Way, Tumsar Pin : 441912 Dist : Bhandara
238.	Rmc- Rajkot (1743)	Indian Overseas Bank Atul Building Opp. Mehta Petrol Pump, Dhebar Road Rajkot Pin : 360002 Dist : Rajkot	246.	Katol Branch (3552)	Indian Overseas Bank Ward No.3, Near Jain Mandir Nehru Bazar , Katol Pin : 441302 Dist : Nagpur
239.	Saru Section (3331)	Indian Overseas Bank Tanna House, I Floor Opp M P Shah Industrial Estate Saru Section Road, Jamnagar Pin : 361008 Dist : Jamnagar	247.	Saoner Branch (3553)	Indian Overseas Bank H.No.25, In Front Of Bhaderao High School Saoner-Nagpur Main Road Saoner Pin : 441107 Dist : Nagpur
240.	Surendranagar (2899)	Indian Overseas Bank Shop No 6 Mega Mall - 11, Near Milan Talkies Near S T Bus Stand Road, Surendranagar Pin : 363001 Dist : Surendranagar	248.	Warora Branch (3698)	Indian Overseas Bank Nerkar Bhawan, Khanji Ward Warora, Dist-Chandrapur Maharashtra Pin : 442907 Dist : Chandrapur
241.	TRAJPAR (3581)	Indian Overseas Bank Shop 55 To 57 89 To92, Ground Floor Shakti Chambers, National Highway No-8a, Village Trajpar Pin : 363642 Dist : Rajkot	249.	Sadar Branch (3717)	Indian Overseas Bank H.No-670 Gaddi Godam Kamptee Road, Nh- 1, Nagpur Pin : 440001, Dist : Nagpur
242.	Sadhu Vaswani (3739)	Indian Overseas Bank 1st Floor, Nandavan, Shreenathji Park, Sadhu Vaswani, Main Road, Rajkot Pin : 360005 Dist : Rajkot	250.	Pipla Kinkhede Branch (3722)	Indian Overseas Bank Survey No 4 Village Pipla Kinkhede Kalmeshwar Nagpur Pin : 441502 Dist : Nagpur
<u>Nagpur Region</u>			Regional Office, Delhi (N)		
243.	Regional Office, Nagpur (2920)	Indian Overseas Bank Regional Office 4-c Nirmala Apartment, Nawab Layout, Amrawati Road, Nagpur, Pin:440010	251.		Union Bank of India Punjabi Bagh East Branch WZ 15 Manohar Park Panjabi Bagh East Near Ashoka Park main Station New Delhi 110026
			Regional Office Jaipur		
244.	Warud Branch (3543)	Indian Overseas Bank N.P.P.No.269, Ward No.1, Near Rto Office Multai Road Warud Pin: 444906 Dist : Amravati	252.		Union Bank of India Niwai Branch Jhilai Road, Tahsil Niwai Dist.Tonk, Rajasthan 304021

253.	Union Bank of India Mansarovar Jaipur Branch Dwarkaa Path, Near Dwarkadas Garden Mansarovar Jaipur, Rajasthan	260.	Union Bank of India Branch: Bhim Sadar Bazar, Near Old SBBJ Building, Bhim, Dist- Rajsamand Rajasthan – 305921
Regional Office, Udaipur		261.	Union Bank of India Branch: Union Loan Point, Jodhpur Takiya Chand Shah Market Outside Sojati Gate Dist- Jodhpur Rajasthan 342001
254.	Union Bank of India Branch: B N College Administrative Block , Inside B N College Premises Sevashram Road District: Udaipur Rajasthan- 313001	Regional Office, Patna	
255.	Union Bank of India Branch: Kapasan S S Plaza, Station Road Near Petrol Pump Post- Kapasan District- Chittorgarh Rajasthan- 312202	262.	Union Bank of India SK Nagar, patna Branch Opposite Surya clinic Road No- 26 Shri Krishna Nagar, Patna Dist- Patna, Bihar-800001
256.	Union Bank of India Branch: Bhinmal Power House – Station Road Near J J Store, Post- Bhinmal, District- Jalore, Rajasthan- 343029	263.	Union Bank of India NIFT (Mithapur), Patna Janki Sadan, New Bus Stand Road, New Bangali Tola, Near Bank colony Dist- Patna Bihar-800001
257.	Union Bank of India Branch: Pratapgarh Shreeji Tower, Opposite Nagar Palika Market, Higher Secondary School Road, Dist.- Pratapgarh Rajasthan-312605	264.	Union Bank of India Dehri On Sone Branch Mehra House, Pali Road, Dehri On Sone P.O- Dehri On Sone Dist- Rohtas, Bihar-821311
258.	Union Bank of India Branch: Sanchore Mehta Market, Opposite SBI, Post- Sanchore, District-Jalore Rajasthan – 343041	265.	Union Bank of India Boring Canal Road, Patna Tinku's K.D.Vihar Complex East Boring Canal Road Patna, Dist.Patna Bihar 800013
259.	Union Bank of India Branch: Sojat Plot No. 7, Near Hand Pump, Opp. Indane Gas Agency, Sojat - Pali Road, Sojat City, Dist- Pali, Rajasthan- 306104	266.	Union Bank of India Anishabad Branch Opp.Police Colony Near Chitragupt Samaj Anishabad, Patna Dist Patna Bihar 800002

267.	Union Bank of India AShok Rajpath, Patna Draupadi Bhavan, Opp.PMCH Ashok Rajpath, Patna Dist.Patna, Bihar 800001	274.	Union Bank Of India Aryaa P.G.College Panipat Branch G.T.Road, Panipat, Haryana 132103
268.	Union Bank of India, Zonal Audit Office,, Patna Abhay Bhawan, Frzer Road Mazahrul Haque Path, Patna, Dist.Patna Bihar 800001	Regional Office, Azamgarh 275.	Union Bank of India Madhuban Branch At & PO Madhuban Thana Kandharapur Tahsil Sagari Azamgarh, UP 276135
Regional Office, Allahabad 269.	Union Bank of India Bahri Branch Vill- Bahri, Kandhiya Phatak,Dhanapur Block & Tehsil- Bhadohi, Dist- Sant Ravidas Nagar, Uttar Pradesh - Pin- 221402	276.	Union Bank of India Chewar West Branch AT & PO KLANjhahit Bazar Varanasi Road, Tehsil Lalganj, Azamgarh, UP
270.	Union Bank of India Ramapur Branch Vill : Ahimanpur, Post : Khamariya Block & Tehsil : Aurai Dist : Sant Ravidas Nagar (Bhadohi), U.P.- 221306	277.	Union Bank of India Ramnagar Mahuvaare Branch At Baghaanpur Post Ranagar Tehsil Alapur Uttar Pradesh- 224181
271.	Union Bank of India Mednipur shakha Main G T Road, Vill & Post : Babusarai Block & Tehsil : Aurai Dist : Sant Ravidas Nagar (Bhadohi), U.P.-221314	278.	Union Bank of India Ashrafpur Kichaucha Branch At Ashrafpur Kichaucha PO Ashrafpur, Tehsil Tanda Via Baskhari, Ambedkar Nagar, 224155
Regional Office, Jabalpur 272.	Union Bank of India Dist.Court, Jhinhiri Branch Village & Post Jhinhiri Tahsil + Dist – Katni M. P 483501	279.	Union Bank of India Katokhar Branch At Katokhar, PO Hanswar Tehsil Aalaapur, Ambedkar Nager 224143
Regional Office, Karnal 273.	Union Bank of India Mid Corporate Branch, S.C.O. No.225, Urban Estate Huda Sector 12, Karnal Haryana 132001	280.	Union Bank of India Badsara Khalsa Branch At & Post Badsara Khalsa Basdevnagar, Tehsil Nizamabad Uttar Pradesh 276141
		281.	Union Bank of India Mande Branch At Mande, Post Jahanaganj Tehsil Sadar , Uttarpradesh 276141

282.	Union Bank of India Gomadi Branch At rasulpur Bazbahadur Gosai Ki Bazar Post Gomadi, Tahsil Lalganj Uttar Pradesh 276202	289.	Union Bank of India Rapti Nagar Phase-4 Branch Araji No.108, Khajanchi Chauraha, Bargadwa Marg Rapti Nagar Phase-4 Gorakhpur-273003
Regional Office, Lucknow			
283.	Union Bank of India Field General Manager's Office Union Bank Bhavan Near Mantri Awas Vibhuti Khand, Gomtinagar Lucknow 226010	290.	Union Bank of India Anand Nagar-Pharenda Branch Vishnu Mandir Chauraha Sonauli Marg Pharenda Dist- Mahrajganj Pin-273155
Regional Office, Agra			
284.	Union Bank of India Khediya Mod Branch 58/174B/2A, Adarsh Nagar Arjun Nagar, Kheriya Mod, Agra, Uttar Pradesh 282001	291.	Union Bank of India Tetri Bazar Branch H. No. 155 Baansi Naugadh Road, Anup Nagar, Tetri Bazar, Siddharth Nagar- 272207
285.	Union Bank of India K.D.Medical College & Research Centre, Akbarpur, Tehsil Chhata Mathura, Uttar Pradesh 281406	292.	Union Bank of India Surjakund Branch 9 E, Surya Vihar Chowk, Surajkund, Gorakhpur- 273003
286.	Union Bank of India Chhata Branch Near Chhata Tehsil, Tehsil Chhata, Mathura Uttar Pradesh 281401	293.	Union Bank of India Mohaddipur Branch Kavyanjali Heights Main Deoria Road Near Timoneer Hospital Mohaddipur Gorakhpur-273008
287.	Union Bank of India Shahabad Branch Near Bijli Ghar, Babu Jameel Ahmed Market Mohhalla Kanoon Goyan Bilari, Rampur Road, 244922	Regional Office, Meerut	
Regional Office, Gorakhpur			
288.	Union Bank of India Siswa Bazaar Branch Loha Mandi, Siswa Bazaar Ward No. 05, Station Road Siswa Bazaar, Tahsil-Nichlaul Dist- Maharajganj, Pin- 273163	294.	Union Bank of India Khekhara Branch Jain College Road Adjacent to Jain Mandir Khekhara, Dist. Baghpat 245205 Uttar Pradesh
		295.	Union Bank of india Gagaol Branch 7/10, Gagol Road Behind Aadarsh Dharamkanta Meerut 256103 Uttar Pradesh

Regional Office, Indore 296.	Union Bank of India Alirajpaur Branch 26, Tilak Marg, 3 Amla Line Ward No.8, Alirajpur, Pin 457887	303.	Union Bank of India GIDC Vatva Branch Shreenath Complex, 1 st floor Ramol Police Chowky Cross Road Phase IV, GIDC, Vatva Ahmedabad 382445, Gujrat
Regional office, Ghazipur 297.	Union Bank of India Dhava Muhabbatpur Branch Village – Dhava Muhabbatpur Block, Manihari Tahsil Jakhania Dist.Ghazipur UP 233310	Regional Office, Mehsana 304.	Union Bank of India Kudasan Branch 7-8-9 Ground Floor Pramukh Exotica, Kudasan- por-square Kudasan, Pin 382421 Dist.Gandhinagar, Gujrat
298.	Union Bank of India Kutubpur Branch Village Bara Block Bhadaura Tehsil Zamaniya Dist.Ghazipur - UP 232327	Regional Office, Rajkot 305.	Union Bank of India KSKV Kachchh University Branch Mudra Road Bhuj, Dist.Kachchh Pin 370001
299.	Union Bank of India Bishunpura Raghubarganj Branch Dist. & Tehsil Mohammadabad, Dist.Ghazipur , UP 233227	306.	Union Bank of India ULP Krishnagar Bhavnagar Branch 1274-C Krishnagar Ghogha Circle Bhavnagar Pin 364001
300.	Union Bank of India Sarai Mubarak Branch Village Sarai Mubarakk Block Mardah Tehsil Ghazipur Dist.Gazipur – UP 233226	Regional Office, Pune 307.	Union Bank Of India, H No.104,Pune Solapur Road, Ambika nagar, Indapur Dist. Pune-413106
301.	Union Bank of India Shekhpur Branch Village Shekhpur Block Birno , Tehsil ghazipur Dist.Ghazipur, UP 233305	308.	Union Bank Of India, At Post-Kalus , Taluka-Khed, Dist- Pune, Pin-410501
Regional Office, Ahmedabad 302.	Union Bank of India Bopal Branch Shop No.6 & 7 Gala Marg, Near SOBO Centre South Bopal, Bopal Dist.Ahmedabad 380059, Gujrat	309.	Union Bank Of India, S.No. 30, Nityanand Society, Dhanakavadi Corner , Dhanakavadi Pune, Pin-411043
		310.	Union Bank Of India, 1327/A Gyanraj Building, Sadashivpeth, Pune 411030

311.	Union Bank Of India, S.No.142/1 Shivneri, S Plaza, Near Shivaji Chouk, Hinjewadi, Pune - 411057	319.	Union Bank of India Katol branch Plot No. 17, Khoja layout, Near Saraswati gate Katol, Dist. Nagpur
Regional Office, Mumbai(N)		Regional Office, Jalandhar	
312.	Union Bank of India ULP, Chembur Branch 9 Swastik Pride First Floor, D.K.Sandu Marg, Chembur (W), Mumbai 400071	320.	Union Bank of India Jandusingha Branch Patti Dalla Jaitewali Road VPO Jandusingha Dist Jalandhar, 144001
Regional Office, Nagpur		Regional Office, Nasik	
313.	Union Bank of India Mid Corporate Vashi Branch The Business Centre, Commodity Exchange Plot No.2,3,4 Sector 19 Vashi, Navi Mumbai 400 705	321.	Union Bank of India Mumbai Naka Branch Torne Hospital Building Ahilyabai holkar Road Tidke Colony Mumbai Naka, Nasik 422002
314.	Union bank of india Savner branch In front of telephone exchange, Post Savner, Dist. Nagpur, Maharashtra - 441107	322.	Union Bank of India Dhamangao Branch SMBT Aayurved College Nandi hill, Dhamangao Taluka- Igatpuri Dist.Nasik 422403
Regional Office, Vijaywada		Regional Office, Hyderabad	
315.	Union bank of india Anjangaon surji branch Gopal nagar, ward No. 2, Post - Anjangaon Surji, Dist. Amravati -444705	323.	Union Bank of India Pedakurapadu Branch D-No. 5-100/1, 1 st floor Near Kacheri Centre (Mandal & Post) Pedakurapadu Guntur Dist. 522402
316.	Union bank of india Shegaon branch Siddhivinayak complex Railway station road, Opp. Indian petrol pump, Shegaon Dist. Buldhana, Maharashtra 444203	324.	Union Bank of India Armoor, Plot No.1, Part & 8 Part Survey No.433/A, 433/2A and 433/3E Perkit Village, Armoor 503224 Armoor Mandal Nizamabad Dist. Telangana State
317.	Union bank of india Mid corporate branch Anusaya Taty Tope Nagar, Nagpur – 440015	Regional Office, Howrah	
318.	Union bank of india Ramtek branch Opp. Sai Mandir, Tahsil office road, Ramtek Dist. Nagpur 441106	325.	Union Bank of India Regional Office - Howrah 263, G.T. Road (South) First Floor, Dist- Howrah, Pin – 711102

326.	Union Bank of India Chandannagar Branch Bina Complex, Ground Floor, Khalisani Ditch Road, P.O + P.S - Chandannagar Dist - Hooghly, Pin – 712136	333.	Union Bank of India Jawahar Nagar Branch Building No. 54/3106 A “Grace Corner” Kaloor Kadavanthra Road, Jawahar Nagar Ernakulam Cochin 20
327.	Union Bank of India Serampore Branch Anand Niketan, 1 ST Floor, 541, G.T. Road, Maniktala, P.O-Mahesh, P.S- Serampore Dist – Hooghly, Pin – 712202	Regional Office, Mangalore 334.	UNION BANK OF INDIA Regional Office, Mangalore 1st floor, Katayani Mahamaye Anna poorneshwari Complex, Kalakunj Circle, Kodialbail, Mangluru Dist- Dakshina Kannada Karnataka -575003
328.	Union Bank of India Dhobaberia Branch Vill – Kendua, Block – Deshpran, Contai-II, P.O- Sofiabad Dist - East Medinipur Pin – 721442	335.	Union Bank of India Kundapura Branch Srinivas Prasanna, Behind Narayani Chambers, P.B.No.17, Near New Bus Stand, Kundapura, Dist.Udupi Karnataka 576201
Regional Office, Ernakulam 329.	Union Bank of India, Nedungapra Branch Matha Building, Nedungapra P. O. Ernakulam 683545	336.	Union Bank of India B.C.road Branch Saim Plaza, B.C.road, Mangalore Dist.Dakshina Kannaadaa Karnataka 574219
330.	Union Bank of India SSU Kalady Sree Sankaracharya University Campus Kalady, Ernakulam 683574	337.	Union Bank of India ULP Mangalore G-2 Mourishkaa towers Mallikatte Baindoor Road, Mangalore Dist.Dakshina Kannada Karnataka 575002
331.	Union Bank of India Edvanakkad Branch PVMM Shopping Complex, Edvanakad, Dist. Ernakulam	338.	Union Bank of India Bogadi Branch 4,60 Feet Road, vijaynagar 4 th stage Bogadi, Mysore Karnataka 570026
332.	Union Bank of India Kolenchery Sant Peter’s College Trust Building Near YMCA, Kolenchery, Ernakulam 682311	Regional Office, Bangalore 339.	Union Bank of India Mid Corporate Branch 1 st floor, 95, EPIP, Zone I Opp.Vaidehi Hospital, Whitefiled, Bangalore 560066

340.	Union Bank of India Asset Recovery Branch 2 nd floor, 583/583 Pooja Complex, Avenue Road Bengluru pin 560002	349.	Punjab National Bank Branch :Malwan Village/Poat- Malwan Fatehpur UP-212664
Regional Office, Goa		350.	Punjab National Bank Branch :Maurawan Near Bus stand, Muarawan Block Hilauli Tahsil_Purwan, Distt: Unnao UP
341.	Union Bank of India Kudal Branch Punya shlok Bapusaheb Maharaj Sabhagruha, MIDC Road Near Kudal High School Dist.Sindhudurg, Maharashtra 416520.	351.	Punjab National Bank Branch :Purwan Damiyani Road, Purawan Distt: unnao UP
<u>A Region</u>			
<u>Circle Office Kanpur</u>			
342.	Punjab National Bank Branch : JAINPUR B-11 H Dist: Jainpur Kanpur Dehat U.P.-209311	352.	Punjab National Bank Branch : Sakahan Musalmanan Pariyar Road Distt: Unnao, UP
343.	Punjab National Bank Branch : Rania NH-2, Rania Kanpur Dehat U.P.-209304	353.	Punjab National Bank Branch :Alipur Chibaramau Saurikh Bidhuna Distt: Unnao Post- Saurikh-209728
344.	Punjab National Bank Branch :saidpur Sikari Saidpur Sikari Road Manimau, Kannauj, Kanpur U.P.-209727	354.	Punjab National Bank Branch :Achhlda Nahar Bazar, Near Kotwali Post- Achhlda-206241 UP
<u>Circle Office -Gaya</u>			
345.	Punjab National Bank Branch :Udaitapur Udaitapur Road Dist: kannauj, Kanpur U.P.- 209727	355.	Punjab National Bank Branch :Bhusunda D. No.-5860 Block- Manpur Tal & Dist –Gaya, Bihar Pin-823002
346.	Punjab National Bank Branch :Amoli Shanti nagar, Khajuha, Bindki Road Fatehpur (UP)-212631	356.	Punjab National Bank Branch :Kujap D. No. 5860 Block- Sadar gaya Tal & Dist –gaya, Bihar Pin-823002
347.	Punjab National Bank Branch :Babarpur 27 gandhinagar SBI Ajitmal Babarpur Distt: Auraiya UP	<u>Circle Office -Bharatpur</u>	
348.	Punjab National Bank Branch :Kudarkot Bhartana Road, Kudarkot Distt: Auraiya UP	357.	Punjab National Bank Branch : Brij Industrial Area D. No.- 7569 Tal & Dist –Bharatpur Rajasthan Pin-321001

358.	Punjab National Bank Branch : Kheda Sarani D. No.- 9815 Tal & Dist – Dhaulpur Pin-328030	366.	Punjab National Bank Branch : Gudachandra D. No. 7846 Gudachandrajji, Opp. CHC Tal- Nadoti, Dist – Karauli(Raj) Pin-322213
359.	Punjab National Bank Branch : Ricco Industrial Area D. No. 9814 Tal – Bayana Dist – Bharatpur Pin- 321401	367.	Punjab National Bank Branch : Ludhawai D. No. 7843 NH-11, Ludhawai Tal & Dist –Bharatpur Pin- 321303
360.	Punjab National Bank Branch : Ricco Hindaun City D. No. 7564 Near Jindal Stone, RICCO, Hindustan City Tal & Dist – Karauli(Rajasthan) Pin-322230	368.	Punjab National Bank Branch : Saras Chauraha, D. No. 7849 Saras Chauraha Tal & Dist – Bharatpur Pin-321001
361.	Punjab National Bank Branch : Kailash Nagar Hindaun City D. No. 5346 Kailash Nagar, Nai Mandi Tal- Hindaun City & Dist – Karauli Pin-322230	<u>Circle Office- Gorakhpur</u>	
362.	Punjab National Bank Branch : Sherpur D. No. 7738 Near Bus Stand, Sherpur Dist – Karauli Pin-322236	369.	Punjab National Bank Branch : Barhaj Block- Barhaj Tal & Dist – Deoria(U.P.) Pin-274606
363.	Punjab National Bank Branch : Lahchaul kala D. No. 7844 Near Jheel Bus Stand Lahchora Kala, Tal- Bayana Dist – Bharatpur Pin-321401	370.	Punjab National Bank Branch : BHATHAT PO: Bhathat Tal & Dist – Gorakhpur(U.P.) Pin- 273306
364.	Punjab National Bank Branch : Kumbher Road Bharatpur D. No. 7571 Kumbher Road Dist – Bharatpur Pin-321001	371	Punjab National Bank Branch : Bhatpar Rani PO: Bhatpar Rani Tal & Dist – Deoria(U.P.) Pin- 274702
365.	Punjab National Bank Branch : Kaila Devi D. No. 7572 Karauli Dist – Karauli Pin-322243	372.	Punjab National Bank Branch : Chaumukha PO: Campierganj Tal & Dist – Gorakhpur (U.P.) Pin- 273151
		373.	Punjab National Bank Branch : Chauri Chaura PO: Chauri Chaura Tal & Dist – Gorakhpur(U.P.) Pin- 273405

374.	Punjab National Bank Branch : Gajpur PO: Gajpur Tal & Dist – Gorakhpur(U.P.) Pin- 273413	384.	Punjab National Bank Branch : Majhauri Raj PO: Majhauri Raj Tal & Dist – Kushinagar(U.P.) Pin- 274506
375.	Punjab National Bank Branch : Hata PO: Hata Tal & Dist – Kushinagar(U.P.) Pin- 273203	385.	Punjab National Bank Branch : Salemgarh PO: Salemgarh Tal & Dist – Kushinagar(U.P.) Pin- 274409
376.	Punjab National Bank Branch : Khajani PO: Khajani Tal & Dist Gorakhpur(U.P.) Pin- 273212	386.	Punjab National Bank Branch : Padari Bazar PO: Padari Bazar Tal & Dist – Gorakhpur(U.P.) Pin- 273002
377.	Punjab National Bank Branch : Koharwalia PO: Koharwalia Tal & Dist – Kushinagar(U.P.) Pin- 274304	387.	Punjab National Bank Branch : Tara Mandal Road PO: Siddharth Enclave Tal & Dist – Gorakhpur(U.P.) Pin- 273007
378.	Punjab National Bank Branch : LAR PO: LAR Tal & Dist – Deoria(U.P.) Pin- 273502	<u>Circle Office- Muzaffarnagar</u>	
379.	Punjab National Bank Branch : Maniram PO: Maniram Tal & Dist – Gorakhpur(U.P.) Pin- 2733007	388.	Punjab National Bank Branch : Haria Khera D. No. 5343 Add: Rajpur, Chhajpur Bhudana Road Dist – Muzaffarnagar
380.	Punjab National Bank Branch : Pipiganj PO: Pipiganj Tal & Dist – Gorakhpur(U.P.) Pin- 273165	389.	Punjab National Bank Branch : Banat D. No. 7986 Add: Tehsil: Bahat Dist – Shamli
381.	Punjab National Bank Branch : Rudrapur PO: Rudrapur Tal & Dist – Gorakhpur(U.P.) Pin- 273002	390.	Punjab National Bank Branch : Kukra D. No. 9859 Add: Near Kukra mandi Dist – Muzaffarnagar
382.	Punjab National Bank Branch : Sahjanwan PO: Sahjanwan Tal & Dist – Gorakhpur(U.P.) Pin- 274502	391.	Punjab National Bank Branch : Dundukhera D. No. 7911 Dist – Shamli
383.	Punjab National Bank Branch : Mehdawal PO: Mehdawal Dist – Santkabir Nagar(U.P.) Pin- 27450	392.	Punjab National Bank Branch : Bhera Khurd D. No. 9863 Dist – Saharanpur

Circle Office- Bhopal

393. Punjab National Bank
Branch : Goder Mahu
D. No. 7548
Add:Near RGPV
University, Airport
Bypass Road
Dist –Bhopal

402.

Punjab National Bank
D. No.-5387
Branch : Sadhana
Enclave, 1
Hoshangabaad Road
Bhopal

Circle Office- Shimla

394. Punjab National Bank
Branch : Udgava
D. No. 7589
Add:Datiya
Dist –Datiya

403.

Punjab National Bank
Branch : Misarwala
VPO-Misarwala main
Bazar,
Dist: Sirmaur (H.P.)
PIN:173021

395. Punjab National Bank
D. No. 7731
Branch : Mandi deep
Indira Nagar
Bhopal

404.

Punjab National Bank
Branch : Goela
VPO-Goela,
Dist: Solan (H.P.)
PIN:173206

396. Punjab National Bank
D. No.-7790
Branch : Arvind Vihar
Add:Shop No. 5,6,7-
central Plaza,
Bagsewaniya,
Arvind Vihar, Bhopal

405.

Punjab National Bank
Branch : Matiyana
Tahsil: THEOG
Dist:- Shimla (H.P.)
PIN:173212

397. Punjab National Bank
D. No.-7791
Branch : Datia
Vinay Nagar
Dist: Datia, Bhopal

406.

Punjab National Bank
Branch : Chi Rgaon
Main Bazar
Chirgaon,
Rohru,
Dist: Shimla (H.P.)
PIN:171208

Circle Office- Rohatak

398. Punjab National Bank
D. No.-7749
Branch : Sohagpur
Near Civil Court
Bhopal

407.

Punjab National Bank
Branch : Pull Bazar,
Narnaul
Dist: Mohindragarh
(Hariyana)
PIN:123001

399. Punjab National Bank
D. No.-7791
Branch : Datia
Bhander
Dist: Datia, Bhopal

408.

Punjab National Bank
Branch : Akoda
Kharkhra
Dist: Mohindragarh
(Hariyana)
PIN:123029

400. Punjab National Bank
D. No.-9883
Branch : Milawali
Dist: Gwalior
Bhopal

409.

Punjab National Bank
Branch : New Anaj
Mandi
Dist: Bhivani
(Hariyana)
PIN:127021

401. Punjab National Bank
D. No.-9979
Branch :Nasarulla Ganj
Near Malla Mnadi
Nasarulla Ganj, Bhopal

410.	Punjab National Bank Branch : Rurki Dist: Rohatak (Haryana) PIN:124401	418.	Punjab National Bank Chaudhary Charan Singh University, Jind Village & Post Office: Jind Tehsil-Jind Distt- Jind Pin – 126102
411.	Punjab National Bank Branch : Sihma Dist: Mohindragarh (Haryana) PIN:123028	<u>Circle Office : Hisar</u>	
412.	Punjab National Bank Branch : Baba Mastnath University Dist: Rohatak (Haryana) PIN:124021	419.	Punjab National Bank BO: Lahrian, Distt- Fatehabad Haryana Pin - 125051
<u>Circle Office Kurukshetra</u>		420.	Punjab National Bank BO: Moriwala Dist: Sirsa()Haryana Pin: 125103
413.	Punjab National Bank Lakshan Colony, Tehsil-Thanesar Distt- Kurukshetra Pin – 136118	<u>Circle Office : Jhansi</u>	
414.	Punjab National Bank Jhansa Village & Post Office – Jhansa Tehsil- Pehowa Distt- Kurukshetra Pin – 136130	421.	Punjab National Bank D.No.-989200 BO: Hasari Distt- Hasari, Jhansi State:- U.P. Pin – 284001
415.	Punjab National Bank Thol Village & Post Office: Thol Tehsil-Thanesar Distt- Kurukshetra Pin – 136136	422.	Punjab National Bank D.No.-594200 BO: Jalaon Distt-Jalaon State:- U.P. Pin - 285123
		<u>Circle Office : Hamirpur</u>	
416.	Punjab National Bank Gundiana Village & Post Office: Gundiana Tehsil-Jagardhari Distt- Yamunanagar Pin - 136103	423.	Punjab National Bank Branch- Mahila branch D.No.-9810 Bachat Bhawan Distt & Tah- Una (H.P.) Pin – 177303
417.	Punjab National Bank Aurangabad Village – Aurangabad P.O.- Aurangabad Tehsil-Jagadhari Distt- Yamunanagar Pin – 136002	424.	Punjab National Bank Branch- dadhuhi D.No.-9988 Vill & post- dadhuhi Distt & Tah- Hamirpur (H.P.) Pin – 177001
		425.	Punjab National Bank Branch- Chandpur D.No.-9935 Near Vyas Hospital Vill & post- dadhuhi Distt & Tah-Bilaspur (H.P.) Pin – 174004

426.	Punjab National Bank Branch- Maalag D.No.-9937 Vill & post- naadaun Distt & Tah- Hamirpur (H.P.) Pin – 177040	434.	Punjab National Bank Branch : Narayan Bangad D.NO. 5897 Block- Narayan Bangad Tahsil: Tharali Dist.: Chamoli Pin: 246455
427.	Punjab National Bank Branch- Samoh D.No.-9980 Vill & post- Jhanduta Distt & Tah-Bilaspur (H.P.) Pin – 177021	435.	Punjab National Bank Branch : Saliyana Gairsain D.NO. 5898 Block- & Tahsil : Gairsain Dist.: Chamoli Pin: 2464428
428.	Punjab National Bank Branch-Karot Khas Vill & post- Karot Tah- Sujanpur Distt : Hamirpur (H.P.)	436.	Punjab National Bank Branch :Kathgodam D.No.- 9948 Mean Market, Piran Kaliar Distt: Haridwar Pin: 247667
<u>Circle Office : Meerut</u>			
429.	Punjab National Bank Delhi-Saharanpur Road Village & Post office- Basoli Distt: Baghpat- U.P. Pin - 250623	<u>Circle Office Jodhpur</u>	
430.	Punjab National Bank Village & Post office- Gagul Block/Th- Meerut- U.P.	437.	Punjab National Bank Branch : Sumerpur Distt:Pali Pin: 306902
431.	Punjab National Bank Meerut Collecterate Zila Panchayat Bhawan Kutchery Compound Collectrate, Meerut City, Meerut(U.P.) - 250002	438.	Punjab National Bank Branch : Borawar Distt:Nagaur Pin: 341502
<u>Circle Office : Haridwar</u>			
432.	Punjab National Bank Branch : Sitapur Mazara D.NO. 5386 Sitapur Mazara, Block- Bahadarabad Tahsil: Haridwar Dist.: Haridwar Pin: 249407	440.	Punjab National Bank Branch : Jasol Distt:Barmer Pin: 344024
		441.	Punjab National Bank Branch : Sanchor Distt:Jalore Pin: 344024
433.	Punjab National Bank Branch : Atmalpur Bongla D.NO. 5859 Block- Bahadarabad Tahsil: Haridwar Dist.: Haridwar Pin: 249402	442.	Punjab National Bank Branch : Jayal Distt:Nagaur Pin: 341520
		443.	Punjab National Bank Branch : Sagwara Distt:Dungarpur Pin: 341025

Circle Office Kashipur

444.	Punjab National Bank Branch : Bunga D.No.-5911 Vill-Bunga, Near Telephone Exchange PO.- Munsiaary Distt:Pitthoragarh (U.K.) Pin: 262554	452.	Punjab National Bank BO: kadipur D.No.-7900 Distt- sultanpur State:- U.P. Pin – 228145
445.	Punjab National Bank Branch : Awala Khot D.No.-5973 Vill- Awala Khot, PO.- Kota Bagh Distt:Nainital (U.K.) Pin: 263159	453.	Punjab National Bank BO: Asarapur Kichaucha D.No.-7794 Distt-Ambedkarnagar State:- U.P. Pin – 224155
456.	Punjab National Bank Branch :Dewala Malla D.No.-5560 Vill- Dewala Malla PO.- Golapur Sitarganj road Haldwani Distt:Nainital (U.K.) Pin: 263159	454.	Punjab National Bank BO: Harriya D.No.-7946 Distt-Basti State:- U.P. Pin – 272155
447.	Punjab National Bank Branch :Kathgodam D.No.- 9949 Near LIC Regional Office Nainital Road, Kathgodam Distt: Nainital(Uttrakand) Pin:263126	455.	Punjab National Bank BO: Kurebhar D.No.-9866 Distt- Sultanpur State:- U.P. Pin – 228151
448.	Punjab National Bank Branch :Kathgodam D.No.- 9964 Ranikhet Road, Bhowli Distt: Nainital Uttarakhand Pin: 263132	456.	Punjab National Bank BO: Khujurahat D.No.-9865 Distt- Faizabad State:- U.P. Pin – 224206
		457.	Punjab National Bank BO: Sohawal D.No.-9918 Distt- faizabad State:- U.P. Pin – 244188

Circle Office : Faizabad

449.	Punjab National Bank BO: Dumeriaganj D.No.-7758 Distt-Sidharthnagar State:- U.P. Pin – 272189	458.	Punjab National Bank BO: Gilaula D.No.-9920 Distt- Shrawasti State:- U.P. Pin - 271835
------	--	------	---

Circle Office : Noida

450.	Punjab National Bank BO: Kahova D.No.-7795 Distt- Gonda State:- U.P. Pin – 271310	459.	Punjab National Bank D.No.-9956 S-1, A-Block, Salimar Garden Distt-Gaziabad State:- U.P.
451	Punjab National Bank		

460.	Punjab National Bank D.No.-9955 Bhatta, Greater Noida State:- U.P.	<u>B Region</u> <u>Circle Office Mumbai</u> 470.	Punjab National Bank Branch : Kalamboli D. no. 9939 Shop no. 1&2, Parth Solitaire, Plot-2, Sector-9E, Near D Mart
461.	Punjab National Bank D.No.-9965 713, Karhera Colony State:- U.P.		Dist.Kalamboli, Navi Mumbai MAHARASHTRA- 410218
<u>Circle Office : Bulandshahar</u>			
462.	Punjab National Bank BO: Pariyawali Distt- Agra State:- U.P. Pin - 202001	471.	Punjab National Bank Branch : Airoli D. no. 5894 Shop No. 1,2,12,13,14 Panchsheel Arcade, Plot No. 32, Sector-5, Airoli, Dist. Navi Mumbai- 400708
463.	Punjab National Bank BO: Hardua Ganj Opposite Anaj Mandi Distt : Aligarh State:- U.P. Pin - 202001		MAHARASHTRA Punjab National Bank Branch : Goregaon D. no. 9938 First Floor Topiwala Centre, Near Railway Station, Goregaon(West) Dist.Mumbai- 4000067 MAHARASHTRA
<u>Circle Office : Muzaffarpur</u>			
464.	Branch-Sarai (7302) U.S. Complex Main Road, H.H. -77 ,Sarai Po Sarai, Distt. Vaishali Pin Code- 844125	472.	
465.	Branch-Mahuaa (7322) Mahua Singh Rae ,Beside Power House Po: Mahua, Distt. Vaishali Pin Code -844122		
466.	Branch-Rab(7726) Camp Circle Office, Aghoriya Bazar, Muzaffarpur Pin Code-842002		
467.	Branch-Bhagwanpur (7704) Kiratpur Rajaram Nh- 77, Bus Stop , Po- Bhagwanpur, Distt. Vaishali Pin Code- 844114	474.	Punjab National Bank Branch : Lamba Pind Chowk Tahsil : Lamba Pind Chowk Dist:Jalandhar Pin: 144001
468.	Branch- Kolhua Paighambarpur (7213) Pnb Kolhua Paighambarpur, Bairiya Golambar, Po- Koluha Paighambarpur , Distt.-Muzaffarpur Pin Code-843108	475.	Punjab National Bank Branch : Sarhali, Bus Stand Village & Post Office: Sarhali Dist.Jalandhar Pin:114633
469.	Branch-Rampur Saidpur Runi (7958) Pnb Rampur Saidpur Runi Near Bus Stand Saidpur, Distt. Sitamarhi Pin Code-843328	476.	Punjab National Bank Branch : Pholriwal AGI-Infra, Seed Road Near: Urban Est. Ph-2 Village: Phoriwal Dist.Jalandhar Pin:144002

Circle Office Bhatinda

477. Punjab National Bank
Branch : Bhuccho
Mandi
Tahsil: Baaliya wali
Road Bhuccho Mandi
Pin: 151101

478. Punjab National Bank
Branch : Daanewala
Tahsil : Daanewala
Chowk
Daanewala Malaut
Pin: 152107

479. Punjab National Bank
Branch : Wahabwala
Tahsil : Abohar
Distt: Fazilka
Pin: 152116

Circle Office Ahamdabad

480. Punjab National Bank
Plot no. K-1/1902
Survey 98/P, GiDC
Near Green Play
Industry
Bamanbore
Dist: Surendranagar
Pin: 363520

481. Punjab National Bank
Shop No. 14-16
Rasala Road, wankaner
Dist: Morbi
Pin: 363321

482. Punjab National Bank
Plot No.1, Shop No. 3
Beside Taluka
Panchayat
Keshav Arcade
Dist.: Bhavnagar
Pin: 364240

483. Punjab National Bank
Shop No. 31,32,33
Shiv Complex
Opposite Tauka
Panchayat
Bus Station Road,
Keshod
Dist: Junagadh
Pin: 362220

484. Punjab National Bank
Shop No. G2 & 3
Balaji Square
Near Kalikund
Parshvnath
Genral Hospita,
Dholka
Ahemdabad Road
Dist: Ahamdabad
Pin: 382225

485.

Circle Office: Amritsar

486.

Circle Office: Surat

487.

488.

489.

490.

491.

492.

Punjab National Bank
5, Ganesh Society
Malpur Road, Modasa
Dist: Aravali
Pin: 383315

Punjab National Bank
Branch : Chawinda
Devi
Vill- Chawinda Devi,
Near Govt. Hospital,
PO- Chawinda Devi
Block: Majitha
Distt: Amritsar
Pin: 143504

Punjab National Bank
Branch : Saniya
Kanade
Vill- saniya- Kanade
Tahsil- Choryasi
Distt: Surat
Pin: 394210

Punjab National Bank
Branch : Vesu Road
Ground Floor, rain
Synergy
Below Florence
Hospital,
Vesu Road, Surat
Pin: 395007

Punjab National Bank
Branch : Vasana Road
1 Floor, Shantam
Green
Commercial Complex
Vasana Road
Near Raneshwar
Mahadev, Temple,
Varodara-390015

Punjab National Bank
Branch : Narashinpur
Above The Milk dairy
Tahsil: Kapadwanj
Dist: Kheda, Narshipur
Pin: 387620

Punjab National Bank
Branch : Puna
Kumbharia
1st Floor, Flot
No. 12-13

Near Auto Point, Tata
Showroom, Puna
Kumbharia,
Magob, Surat-392130

Punjab National Bank
Branch : Dahej
Shalimar Complex,
Ambetha Chartasta,
Taluka-Vagra,
Distt: Bharuch, Dahej
Pin: 392130

493.	Punjab National Bank Branch : Dharmej Ajad Chowk, dharmej Gujarat Pin: 388430	502.	Punjab National Bank Branch :Pardi, Valsad Shop no. 4-9, Jainab complex, NH-8, Killi Pardi Distt: Valsad-396125
494.	Punjab National Bank Branch :Padra Near Pani Tanki& Tower School, Padra, Gujrat	503.	Punjab National Bank Branch :Rajpipala 98, Ambica Niwas, Nr. Santosh Chowkadi, Rajendra Society Rajpipala Distt: Narmada- 3936145
495.	Punjab National Bank Branch :Vallabh Vidhyanagar Ground Floor, Vidyabhawan Complex, Behind B.V.M. Engineering, Iskan Temple Road Dist: Anand	504.	Punjab National Bank Branch : Godhara Ground Floor, Gurukripa Complex Nr. LIC, Chitra Road, Godhara Distt: Panchamahar
496.	Punjab National Bank Branch :GIDC Ankaleshwar Shop No. 11, Com Plot 2/A Plot No-608-613, Nr. Sardar Park GIDC Ankaleshwar- 393002	505.	Punjab National Bank Branch :Brijdham Shopping Centre, Near Jashodanagar Society, Savli-Gujrat-391771
497.	Punjab National Bank Branch :Borsad Dahi Chaturbangla, Opp Ramnath Society Anand Road Barsod-388540	<u>C Region</u> <u>Circle Office Hyderabad</u>	
498.	Punjab National Bank Branch :Ahwa Old agriculture Office Gandhi Chowk Ahwa		
499.	Punjab National Bank Branch :Chikhali Maniyar Street, Chikali Distt: Navasari-386521	506.	Punjab National Bank Branch : Adilabad Branch 4-5-56/5, Gadewar Complex Vidyanagar, NH-7, Adilabad(Telangana)- 504001
500.	Punjab National Bank Branch :Dahod Ground Floor, dura Mall Compound, Govind nagar Road Dahod-389151	507.	Punjab National Bank Branch : Machalipatanam HN. 20/219-A Paraspel Centre Machalipatanam KRISHNA DIST
501.	Punjab National Bank Branch :Vyara Shop No.g-5, Ground Floor C.S. no. 2064, shantivan Residency, Vyara- 394650	508.	Punjab National Bank Branch : Nalgonda BOTUGUDA, NALGONDA (Telangana)-508001
		509.	Punjab National Bank Branch : Anakapally H.N.12-10-03, Vedula Vari Street, Anapakalli- 531001

510.	Punjab National Bank Branch : Vinayakanagar H.N. 20-21-2A, Plot no.4 Vinayak Nagar 100 ft. Ring Road, Vijaynagaram- 535002	517.	Punjab National Bank Branch: Film Nagar H.no.8-2-293/82/F/C- 21, Plot No. 24C Road No. 8, Type-C, Film Nagar Jubilee Hills, Hyderabad
511.	Punjab National Bank Branch : Penjarla H.N.5-36, PENJERLA, KOTHUR MANDAL (Mahabubnagar) Telangana-508001	518.	Punjab National Bank Branch: Palakol H.No.13-5-52/3, Backside of Ratnam Talkies Rangamannarpeta, Palakollu West Godavari Dist. Pin Code 534 260
512.	Punjab National Bank Branch : Rellivalasa 149/A, Main Road RELLIVALASA Poosapatirega Mandal, Vizianagram Dist. 523204	519.	Punjab National Bank Branch : Kovur H.No.1-1-221, Opp. to Gandhi Park, Main Road, Kovur Spsr, Nellore Dist. - 524 137
513.	Punjab National Bank Branch : Poranki D.No. 15-52, Ground floor RS no 416/1, Plot No. 23,24,25&26 Poranaki Gram Panchayat Konkipodu SRO, Vijaywada Krishna Dist-521137	520.	Punjab National Bank Kavali Branch H.No.3-6-9 to 12, Near Vishnalayam Kavali, Nellore dist. Pin Code 524 201
514.	Punjab National Bank Branch : Vanasthalipuram Plot No. 23&24 Shop No. 2&3.1 st Floor Seshadri Heights, Prashantnagar colony NGOS colony Road Vanasthalipuram Hyderabad-500070	521.	Punjab National Bank Gajwel Branch Survey No. 463, Ground Floor, Near Ayyappa Temple, Main Road, Gajwel (Medak) Telangana - 502277
515.	Punjab National Bank Branch : Ramchandranpuram D.no 22-3-24&22-2- 24/1 RS No. 465, Main Road Ramchandranpuram East Godavari Dist. Pin Code 533255	522.	Punjab National Bank Amlapuram Branch H.No.6-1-12, Opp. Shirdi Sai Swarna Mandir Ramakrishna Nagar, Amalapuram East Godavari Dist. -533 201
516.	Punjab National Bank Branch :Pithapura H.no. 4-3-150. Near SBI PITHAMPURA East Godavari Dist. Pin Code 533450	523.	<u>Circle Office Chennai</u> Punjab National Bank, Bo: Chitlapakkam Plot No. 24, Bharth Avenue Chitlapakkam High Road, Kanchipuram Chennai-600064 D.No:- 7433
		524	Punjab National Bank, Bo: Maduravoyal 5/5 Mettukuppam Road Maduravoyal Tiruvallur-600095 D.No:- 7760

525.	Punjab National Bank, Bo:Virugambakkam M.G.Samy Towers, 50/100, Kalliaman Koil Street, Virugambakkam Chennai-600092 D.No:- 7761	533.	Punjab National Bank, Bo: Madhavaram Lake View , 11 Sastri Nagar, 200 Feet Road Madhavaram Chennai-600099 D.No:-5929
526.	Punjab National Bank, Bo: Padappai 539/3 Balaji Complex Vandalur Walajabad Main Road Hajeer Nagar Chennai D.No:-7927	534.	Punjab National Bank, Bo:Mudaliarpur No.137, 100 Feet Road Mudliarpur Pondicherry-605004 D.No:-5930
527.	Punjab National Bank, Bo: Arakkonam Door No. 70, 5 th Gandhi Road Arakonnam Vellore-631001 D.No.7926	535.	Punjab National Bank, Bo:Pallikonda No 4/4, Kattupudi Road, Sri Ganapathy Mahal Pallikonda Vellore-635809
528.	Punjab National Bank, Bo:Sholinganallur No-202, Village High Road, Sholinganallur Chennai_600119 D.No:-7923	536.	Punjab National Bank, Bo: Maraimalainagar No.68, Sivane Garden, Hig-Nh 1 Anna Salai, Maraimalainagar Chennai-603209
529.	Punjab National Bank, Bo:Sriperumbudur Old No. 24, New No. 47, Car Street, Sriperumbudur Kanchipuram D.No:-7922	<u>Circle Office-Kolkata</u>	
530.	Punjab National Bank, Bo: Arumbakkam No.26, Razak Garden Road Arumbakkam, Chennai-600106 D.No:-7924	537.	Punjab National Bank, Bo: Rajarat(New Town) Mohisgote, Krishnapur, Near Box Bridge, Kolkata Dist: 24 Parganas(North) Pin: 700102(West Bengal)
531.	Punjab National Bank, Bo: Arani No.70, Market Road Arani D.No:- 7925	538.	Punjab National Bank, Bo: Madhyam Marg 71, Sodepur Road(West) Parbati Plaza, Sreepur Near Annapurna Mandir Dist: Pin: 700102(West Bengal)
532.	Punjab National Bank, Bo:Rattinamangalam Tagore Engg College Premises Ratinamangalam- 600127 D.No:-9805	<u>Circle Office-Burdhaman</u>	
		539.	Punjab National Bank Branch- Bishnupur <u>Bishnupur</u> (D.No.- 7668) GopalganjBuroSibtala, P.O.+P.S.- Bishnupur, Dist.- Bankura, West Bengal PIN- 722122

540.	Punjab National Bank Branch- Sugandhya <u>Sugandhya</u> (D.No. 7625) Vill+P.O.- Sugandhya, P.S. – Dadpur, Dist.- Hooghly, West Bengal PIN – 712102	546.	Punjab National Bank Bo:Veerapandi(5381) 75,Pioneer Nagar Mettupalayam Road To Veerapandi Main Road Jothipuram Post Coimbatore-641047
------	--	------	---

Circle Office-Kozikode

541.	Punjab National Bank Branch- Serampur <u>Serampore</u> (D.No.- 7559) Shrabani Apartment 538 G.T. Road P.O.+P.S.- Serampore Dist.- Hooghly, West Bengal PIN – 712202	547.	Punjab National Bank Malaya Mansion, Opp. Public Health Centre, Kadalundy Road, (Po) Chaliyam - 673301.
		548.	Punjab National Bank PK Mall, Main Road, Pallikere, (Po) Bakel Fort, Kasargod - 671316.

Circle Office-Trichy

542.	Punjab National Bank Bo: Kattur(Pappakurichy)- 9981 12 A,Bharath Avenue Pappakurichi Main Road North Kattur Trichy-620019	549.	Punjab National Bank Near Jdt Islam High School Gate, Merikunnu (Po), Vellimadukunnu – 673012
543.	Punjab National Bank Bo: Neelambur(5891) 1/210 A, Avinashi Main Road Neelambur Coimbatore-641602	550.	Punjab National Bank Mp Vii/535, Railway Station Road, Payangadi, Kannur – Dist. – 670358.
544.	Punjab National Bank Bo: Udumalaipet(5892) 13,Yasotha Ramalingam Layout Udumalaipet Tirupur-642154	551.	Punjab National Bank Volga Complex, Pattambi Road, Valanchery – 676552
545.	Punjab National Bank Bo: Chennimalai(5893) No.6, Cholan Street Chennimalai Erode-638051	552.	Punjab National Bank 1St Floor, Alankar Towers, Calicut - Mysore Road, Chungam, Thamarassery

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2016

का.आ. 753.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में संलग्न अनुबंध में उल्लिखित निम्नलिखित बैंकों की सूचीबद्ध शाखाओं/कार्यालयों को, जिनके 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती हैं।

क्रम सं.	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
1.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	257
2.	इंडियन बैंक	01
3.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	95
	कुल	353

[फा. सं. 11016/1/2015 हिं. (अधि.)]

डॉ. वेद प्रकाश दूबे, संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किए जाने वाले कार्यालयों / शाखाओं की सूची**शाखाओं की सूची**

- | | |
|--|--|
| <p>1. भारतीय स्टेट बैंक
जबलपुर शहर
मुख्य सड़क
राइट टाउन
जबलपुर
जिला जबलपुर
मध्य प्रदेश- 482002</p> | <p>8. भारतीय स्टेट बैंक
रांझी, जिला जबलपुर
मध्य प्रदेश - 482010</p> |
| <p>2. भारतीय स्टेट बैंक
सिहोरा
जिला जबलपुर
मध्य प्रदेश- 483225</p> | <p>9. भारतीय स्टेट बैंक
व्यक्तिगत बैंकिंग शाखा
वीआईपी रोड, दक्षिण सिविल लाइन्स
साई मंदिर के पास, जबलपुर
जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश- 482001</p> |
| <p>3. भारतीय स्टेट बैंक
तुलाराम चौक
जबलपुर
जिला जबलपुर
मध्य प्रदेश- 482002</p> | <p>10. भारतीय स्टेट बैंक
आयुध निर्माणी, खमरिया शाखा
एच 1/1 ईस्टलैंड
खमरिया, जिला जबलपुर
मध्य प्रदेश - 482005</p> |
| <p>4. भारतीय स्टेट बैंक
मेडिकल कॉलेज शाखा
जबलपुर
जिला जबलपुर
मध्य प्रदेश- 482003</p> | <p>11. भारतीय स्टेट बैंक
कृषि उपज मंडी शाखा
विजयनगर
जबलपुर
जिला जबलपुर
मध्य प्रदेश- 482002</p> |
| <p>5. भारतीय स्टेट बैंक
मिलोनीगंज शाखा चेरीताल, जबलपुर
जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश- 482002</p> | <p>12. भारतीय स्टेट बैंक
जवाहरगंज
बड़ा फुवारा
जबलपुर
जिला जबलपुर
मध्य प्रदेश- 482002</p> |
| <p>6. भारतीय स्टेट बैंक
एडीबी शाहपुरा, जिला जबलपुर
मध्य प्रदेश - 483119</p> | <p>13. भारतीय स्टेट बैंक
जीईसी जबलपुर शाखा
जीईसी परिसर
जबलपुर, जिला जबलपुर
मध्य प्रदेश- 482011</p> |
| <p>7. भारतीय स्टेट बैंक
बरगी, जिला जबलपुर
मध्य प्रदेश- 482051</p> | |

14	भारतीय स्टेट बैंक गोसलपुर ग्रामीण शाखा तहसील सिहोरा जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 483222	25	भारतीय स्टेट बैंक चौरई तहसील कुंडम डिंडोरी जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 483110
15	भारतीय स्टेट बैंक पनागर जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 483220	26	भारतीय स्टेट बैंक पोंडा ग्रामीण शाखा जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 483225
16	भारतीय स्टेट बैंक गढा शाखा आनंद कुंज तिराहा जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 482003	27	भारतीय स्टेट बैंक नया गांव रामपुर एमपीईबी कैम्पस, रामपुर, जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 482008
17	भारतीय स्टेट बैंक आई.ई. आधारताल शाखा 19-एकटनी रोड जबलपुर जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 482009	28	भारतीय स्टेट बैंक गनकैरिज फैक्टरी शाखा जबलपुर जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 482011
18	भारतीय स्टेट बैंक पाटन, जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 482056	29	भारतीय स्टेट बैंक मदन महल, नागपुररोड जबलपुर, जिला जबलपुर मध्य प्रदेश - 482001
19	भारतीय स्टेट बैंक बरगी नगर जिला जबलपुर मध्य प्रदेश - 482056	30	भारतीय स्टेट बैंक खिन्नी ग्रामीण शाखा जिला जबलपुर मध्य प्रदेश - 483222
20	भारतीय स्टेट बैंक मढाताल जबलपुर जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 482002	31	भारतीय स्टेट बैंक एसएमईशाखा, सिविललाइन्स जबलपुर, जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 482001
21	भारतीय स्टेट बैंक भेडाघाट ग्रामीण शाखा पंचवटी घाट रोड जबलपुर, जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 482002	32	भारतीय स्टेट बैंक ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर, जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 482001
22	भारतीय स्टेट बैंक रिज रोड जबलपुर जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 482001	33	भारतीय स्टेट बैंक कटंगा दीक्षित एन्क्लेव बंदरिया तिराहा, नर्मदारोड जबलपुर, जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 482001
23	भारतीय स्टेट बैंक कमला नेहरू नगर गढा रोड, जबलपुर जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 482002	34	भारतीय स्टेट बैंक 1 सिग्नल प्रशिक्षण केन्द्र परिसर जबलपुर, जिला जबलपुर मध्य प्रदेश - 482001
24	भारतीय स्टेट बैंक इमलाई ग्रामीण शाखा जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 483110		

35	भारतीय स्टेट बैंक शक्तिनगर गुप्ता होटल के पास रतन नगर, जबलपुर जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 482001	44	भारतीय स्टेट बैंक करमेता आईटीआईतिराहेकेपास जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 482002
36	भारतीय स्टेट बैंक बरेला, फ़ारेस्ट बैरिय के पास गांव और पोस्ट बरेला जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 491332	45	भारतीय स्टेट बैंक पशु चिकित्सा कॉलेज कैम्पस जबलपुर जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 482001
37	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य सड़क कटंगी जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 483105	46	भारतीय स्टेट बैंक एससीएबी मुख्य शाखा परिसर जबलपुर जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 482001
38	भारतीय स्टेट बैंक मझौली मुख्य सड़क जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 486666	47	भारतीय स्टेट बैंक बेलखाडू मोहास तहसील पनागर जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 482002
39	भारतीय स्टेट बैंक गवारी घाट रोड आकाश गंगा होटल के पास पोलीपत्थर जबलपुर जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 482008	48	भारतीय स्टेट बैंक मालवीय चौक शाखा मिन्तलकोर्ट 'बी' विंग जबलपुर जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 482002
40	भारतीय स्टेट बैंक बिलहरी मंडलारोड जबलपुर जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 482020	49	भारतीय स्टेट बैंक गोरखपुर 766, मदनमहल रोड चिमनी प्लॉट के सामने जबलपुर जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 482001
41	भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय क्षेत्र- 1, विजयनगर जबलपुर, जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 482002	50	भारतीय स्टेट बैंक मस्तानाचौक राँझी जबलपुर जिला जबलपुर मध्य प्रदेश 482010
42	भारतीय स्टेट बैंक मझगवाँ तहसील सिहोरा जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 485778	51	भारतीय स्टेट बैंक एमपीईबी रामपुर विद्युत नगर जबलपुर जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 482008
43	भारतीय स्टेट बैंक सिहोरा रेस्ट हाउस के पास जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 483225		

52	भारतीय स्टेट बैंक पीवीबी, केण्टोमेंट जबलपुर जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 482001	64	भारतीय स्टेट बैंक नैनपुर जिला मण्डला मध्य प्रदेश- 481776
53	भारतीय स्टेट बैंक बालाघाट जिला बालाघाट मध्य प्रदेश- 481001	65	भारतीय स्टेट बैंक शाहपुरा डिंडोरी (निवास) जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश- 481990
54	भारतीय स्टेट बैंक मंडला जिला मण्डला मध्य प्रदेश- 481661	66	भारतीय स्टेट बैंक मोहगाँव जिला बालाघाट मध्य प्रदेश- 481118
55	भारतीय स्टेट बैंक सिवनी जिला सिवनी मध्य प्रदेश- 480661	67	भारतीय स्टेट बैंक मलाजखंड जिला बालाघाट मध्य प्रदेश- 481116
56	भारतीय स्टेट बैंक वारासिवनी जिला बालाघाट मध्य प्रदेश- 481331	68	भारतीय स्टेट बैंक निवास जिला मण्डला मध्य प्रदेश- 481885
57	भारतीय स्टेट बैंक डिंडोरी जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश- 481880	69	भारतीय स्टेट बैंक भरवेली ग्रामीण शाखा जिला बालाघाट मध्य प्रदेश- 481102
58	भारतीय स्टेट बैंक बैहर जिला बालाघाट मध्य प्रदेश- 481111	70	भारतीय स्टेट बैंक धनोरा ग्रामीण शाखा तहसील लखनादोन जिला सिवनी मध्य प्रदेश- 480998
59	भारतीय स्टेट बैंक बरघाट जिला सिवनी मध्य प्रदेश- 480667	71	भारतीय स्टेट बैंक नारायण गंज ग्रामीण शाखा जिला मण्डला मध्य प्रदेश- 481662
60	भारतीय स्टेट बैंक छपारा जिला सिवनी मध्य प्रदेश- 480884	72	भारतीय स्टेट बैंक बीजाडांडी ग्रामीण शाखा जिला मण्डला, मध्य प्रदेश- 486674
61	भारतीय स्टेट बैंक घंसौर जिला सिवनी मध्य प्रदेश- 480997	73	भारतीय स्टेट बैंक अमरपुर ग्रामीण शाखा तहसील डिंडोरी जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश- 481666
62	भारतीय स्टेट बैंक लामटा जिला बालाघाट मध्य प्रदेश- 481551	74	भारतीय स्टेट बैंक समनापुर ग्रामीण शाखा जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश- 481778
63	भारतीय स्टेट बैंक लांजी जिला बालाघाट मध्य प्रदेश 481222	75	भारतीय स्टेट बैंक कटंगी, जिला बालाघाट मध्य प्रदेश- 481445

76	भारतीय स्टेट बैंक अंजनिया ग्रामीण शाखा ब्लॉक बिछिया जिला मण्डला मध्य प्रदेश- 481993	88	भारतीय स्टेट बैंक मंगलीपेठ शाखा सिवनी, मध्य प्रदेश- 480661
77	भारतीय स्टेट बैंक हिर्नी जिला बालाघाट मध्य प्रदेश- 481115	89	भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय क्षेत्र-2, प्रशासनिक कार्यालय भवन विजयनगर, जबलपुर मध्य प्रदेश-482002
78	भारतीय स्टेट बैंक कोचेवाही तहसील बारासिवनी जिला बालाघाट मध्य प्रदेश- 481332	90	भारतीय स्टेट बैंक परसवाड़ा राममंदिर के सामने परसवाड़ा तहसील बैहुर जिला बालाघाट मध्य प्रदेश- 481556
79	भारतीय स्टेट बैंक लिंगा ग्रामीण शाखा जिला बालाघाट मध्य प्रदेश 481001	91	भारतीय स्टेट बैंक तिरोडी ग्राम पंचायत कार्यालय के पास तिरोडी जिला बालाघाट मध्य प्रदेश- 481449
80	भारतीय स्टेट बैंक मेहूदीवाड़ा ग्रामीण शाखा तहसील बारासिवनी जिला बालाघाट मध्य प्रदेश - 481302	92	भारतीय स्टेट बैंक गड़ासराई शिशुमंदिरकेपास इंदिराबाजार, गड़ासराई तहसील डिंडोरी मध्य प्रदेश - 481882
81	भारतीय स्टेट बैंक भोरगढ़ग्रामीणशाखा तहसील बारासिवनी जिला बालाघाट मध्य प्रदेश- 481337	93	भारतीय स्टेट बैंक बम्हनी पुलिस स्टेशन के सामने बम्हनी, जिला मण्डला मध्य प्रदेश- 481771
82	भारतीय स्टेट बैंक उदयपुर (मंडला), जिला मण्डला मध्य प्रदेश- 481662	94	भारतीय स्टेट बैंक पोस्ट और गांव भुआबिछिया ब्लॉक और तहसील बिछिया जिला मण्डला मध्य प्रदेश- 481995
83	भारतीय स्टेट बैंक चिराईडोंगरी जिला मण्डला मध्य प्रदेश- 481662	95	भारतीय स्टेट बैंक महाराजपुर मंडलारायपुररोड महाराजपुर, तहसील मंडला मध्य प्रदेश- 481665
84	भारतीय स्टेट बैंक लखनादोन जिला सिवनी मध्य प्रदेश- 480886	96	भारतीय स्टेट बैंक कचहरी चौक राष्ट्रीय राजमार्ग- 7 कचहरी रोड सिवनी, मध्य प्रदेश- 480661
85	भारतीय स्टेट बैंक केवलारी मुख्य सड़क केवलारी, मध्य प्रदेश- 480994	97	भारतीय स्टेट बैंक सुभाष चौक सैक्टर 14 (एक्सटेंशन) बालाघाट, मध्य प्रदेश- 481001
86	भारतीय स्टेट बैंक लालवर्मा शाखा जिला बालाघाट मध्य प्रदेश- 481441		
87	भारतीय स्टेट बैंक पड़ावमंडला डिंडोरीरोड मंडला मध्य प्रदेश- 481661		

98	भारतीय स्टेट बैंक डिंडोरी मध्य प्रदेश- 481880	112	भारतीय स्टेट बैंक मनकहारी(सतना) प्रिज्मसीमेंट परियोजना गांव मनकहारीबाथी जिला सतना मध्य प्रदेश- 485111
99	भारतीय स्टेट बैंक मैहर, जिला सतना मध्य प्रदेश- 485771	113	भारतीय स्टेट बैंक एसएमई शाखा सतना बस स्टैंड क्षेत्र सतना, जिला -सतना मध्य प्रदेश- 485001
100	भारतीय स्टेट बैंक सतना, जिला सतना मध्य प्रदेश- 485001	114	भारतीय स्टेट बैंक रीवा शहर, जिला रीवा मध्य प्रदेश- 486001
101	भारतीय स्टेट बैंक सतना शहर जिला सतना, मध्य प्रदेश- 485001	115	भारतीय स्टेट बैंक बिरला कॉलोनी सतना, जिला -सतना मध्य प्रदेश- 485005
102	भारतीय स्टेट बैंक सीधी, जिला सीधी मध्य प्रदेश- 486661	116	भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय सतना, मध्य प्रदेश- 485001
103	भारतीय स्टेट बैंक नागौद, जिला सतना मध्य प्रदेश- 485446	117	भारतीय स्टेट बैंक अमरपाटन सिविल कोर्ट के पास राजमार्ग नंबर 7, रीवारोड अमरपाटन, मध्य प्रदेश- 485775
104	भारतीय स्टेट बैंक चाकघाट, जिला रीवा मध्य प्रदेश- 486226	118	भारतीय स्टेट बैंक झीं गुरदा जिला सीधी मध्य प्रदेश- 486889
105	भारतीय स्टेट बैंक डभौरा, जिला रीवा मध्य प्रदेश- 486556	119	भारतीय स्टेट बैंक अमिलिकी ग्रामीण शाखा तहसील हुझूर जिला रीवा मध्य प्रदेश- 486550
106	भारतीय स्टेट बैंक हनुमाना, तहसील मुंगेली जिला रीवा मध्य प्रदेश- 486335	120	भारतीय स्टेट बैंक टिवनी ग्रामीण शाखा जिला रीवा मध्य प्रदेश- 486112
107	भारतीय स्टेट बैंक जी.ई.सी. रीवा, जिला रीवा मध्य प्रदेश- 486002	121	भारतीय स्टेट बैंक माधवगढ़ ग्रामीण शाखा जिला सतना मध्य प्रदेश- 485115
108	भारतीय स्टेट बैंक मोरवा, तहसील सिंगरौली जिला सीधी मध्य प्रदेश- 486889	122	भारतीय स्टेट बैंक एडीबी चुरहाट जिला सीधी मध्य प्रदेश- 486771
109	भारतीय स्टेट बैंक वैढन, जिला सीधी मध्य प्रदेश- 486886		
110	भारतीय स्टेट बैंक जयंत पोस्ट सिंगरौली कोलियर जिला सीधी मध्य प्रदेश- 486890		
111	भारतीय स्टेट बैंक गोरबी, जिला -सीधी मध्य प्रदेश- 486892		

123	भारतीय स्टेट बैंक जैतवारा, राहुराजनाग जिला सतना, मध्य प्रदेश- 485221	134	भारतीय स्टेट बैंक एसएमई रीवा मुख्य शाखा परिसर ओल्ड खन्ना टॉकीज रीवा मध्य प्रदेश- 486001
124	भारतीय स्टेट बैंक विंध्यनगर एसटीपीएस एनटीपीसी कालोनी जिला सीधी मध्य प्रदेश- 486885	135	भारतीय स्टेट बैंक पीबीबी सतना स्ट्रीट नं०7, राजेंद्र नगर सतना मध्य प्रदेश- 485001
125	भारतीय स्टेट बैंक अमलोरी तहसील सिंगरौली जिला सीधी मध्य प्रदेश- 486886	136	भारतीय स्टेट बैंक चितरंगी ग्राम व पोस्ट चितरंगी जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश- 486882
126	भारतीय स्टेट बैंक बरेठिया, जिला सतना मध्य प्रदेश- 485441	137	भारतीय स्टेट बैंक बरगवाँ ग्राम व पोस्ट बरगवाँ जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश- 486886
127	भारतीय स्टेट बैंक रजमिलान (कोयलकूठ) तहसील सिंगरौली जिला सीधी मध्य प्रदेश- 486886	138	भारतीय स्टेट बैंक निगाही एनएससी कैम्पस ब्लॉक वैढन जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश- 486887
128	भारतीय स्टेट बैंक कलेक्ट्रेट शाखा सतना, मध्य प्रदेश- 485001	139	भारतीय स्टेट बैंक दधीचुआ सेक्टर ए गांव दधीचुआ पोस्ट जयंत जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश- 486890
129	भारतीय स्टेट बैंक देओसर मुख्य सड़क देओसर जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश- 464881	140	भारतीय स्टेट बैंक रघुराजगढ़ मुख्य सड़क तहसील मांकवा रघुराजगढ़ मध्य प्रदेश- 486111
130	भारतीय स्टेट बैंक सासन गांव सासन पोस्टतियारा जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश- 486886	141	भारतीय स्टेट बैंक मनगवां रीवारोड मनगवां मध्य प्रदेश- 486111
131	भारतीय स्टेट बैंक मऊगंज राष्ट्रीय राजमार्ग 7 मऊगंज मध्य प्रदेश- 486335	142	भारतीय स्टेट बैंक पेट्रोल पंप के पास गुड मध्य प्रदेश- 486553
132	भारतीय स्टेट बैंक रामपुर बघेलान मुख्य सड़क रामपुर बघेलान जिला सतना मध्य प्रदेश- 485115	143	भारतीय स्टेट बैंक चित्रकूट जिला सतना नेत्र अस्पताल के पास मुख्य सड़क बस स्टैंड के पास चित्रकूट मध्य प्रदेश- 485780
133	भारतीय स्टेट बैंक सीधी सिटी मार्केट क्षेत्र गोपालदास रोड सीधी मध्य प्रदेश- 486661		

144	भारतीय स्टेट बैंक मैहर शहर सरला नगर रोड सिविल कोर्ट के पास मैहर, मध्य प्रदेश- 485772	156	भारतीय स्टेट बैंक अनूपपुर, जिला शहडोल मध्य प्रदेश- 484224
145	भारतीय स्टेट बैंक कोटर, मध्य प्रदेश- 485226	157	भारतीय स्टेट बैंक कोतमा जिला शहडोल मध्य प्रदेश- 484334
146	भारतीय स्टेट बैंक मंझौली बीएसएनएल टावर के सामने मंझौली, जिला -सीधी मध्य प्रदेश-486666	158	भारतीय स्टेट बैंक निवार जिला कटनी मध्य प्रदेश- 483442
147	भारतीय स्टेट बैंक बिहारी चौक महावीर भवन सतना, मध्य प्रदेश- 485001	159	भारतीय स्टेट बैंक बरही जिला कटनी मध्य प्रदेश- 483770
148	भारतीय स्टेट बैंक दीप कॉम्प्लेक्स शाखा ममता बिल्डिंग रानीगंज, मुख्य सड़क के पास रीवा, मध्य प्रदेश- 486001	160	भारतीय स्टेट बैंक नौरोजाबाद जिला उमरिया मध्य प्रदेश- 484555
149	भारतीय स्टेट बैंक गायत्री परिसर बस स्टैंड रोड सीधी मध्य प्रदेश- 486661	161	भारतीय स्टेट बैंक धनपुरी जिला शहडोल मध्य प्रदेश- 484114
150	भारतीय स्टेट बैंक गनियारी सड़क वैठन मध्य प्रदेश- 486886	162	भारतीय स्टेट बैंक रीठी जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 483990
151	भारतीय स्टेट बैंक कटनी जिला कटनी मध्य प्रदेश- 483501	163	भारतीय स्टेट बैंक विजयराघवगढ़ ग्रामीण शाखा जिला कटनी मध्य प्रदेश- 483775
152	भारतीय स्टेट बैंक शहडोल जिला शहडोल मध्य प्रदेश- 484001	164	भारतीय स्टेट बैंक घंटाघर कटनी (इवनिंगब्रांच) जी.एम. बिल्डिंग कटाईघाट रोड कटनी, जिला कटनी मध्य प्रदेश- 409525
153	भारतीय स्टेट बैंक उमरिया जिला उमरिया मध्य प्रदेश- 484661	165	भारतीय स्टेट बैंक अमरकंटक जिला शहडोल मध्य प्रदेश- 484886
154	भारतीय स्टेट बैंक अमलाई अमलाई पेपर मिल जिला शहडोल मध्य प्रदेश- 484117	166	भारतीय स्टेट बैंक न्यूकटनी जंक्शन जिला कटनी मध्य प्रदेश- 483503
155	भारतीय स्टेट बैंक बाजार हनुमानगंज कटनी जिला कटनी मध्य प्रदेश- 483501	167	भारतीय स्टेट बैंक आयुध फैक्टरी कटनी जिला कटनी मध्य प्रदेश- 483583

168	भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय कटनी आरबीओ मकान संख्या 176 महाराणा प्रताप वार्ड पुलिस लाइन झिंझरी कटनी मध्य प्रदेश- 483501	178	भारतीय स्टेट बैंक व्यौहारी जिला शहडोल मध्य प्रदेश- 484774
169	भारतीय स्टेट बैंक कैमोर जिला कटनी मध्य प्रदेश- 483880	179	भारतीय स्टेट बैंक बड़ा गाँव ग्रामीण शाखा जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 483010
170	भारतीय स्टेट बैंक बोहरीबंद ग्रामीण शाखा तहसील सिहोरा जिला कटनी मध्य प्रदेश- 483330	180	भारतीय स्टेट बैंक जैथरी तहसील शहडोल जिला शहडोल मध्य प्रदेश- 484330
171	भारतीय स्टेट बैंक मानपुर ग्रामीण शाखा तहसील बांधवगढ़ जिला उमरिया मध्य प्रदेश- 484665	181	भारतीय स्टेट बैंक सिंगपुर ग्रामीण शाखा जिला शहडोल मध्य प्रदेश- 484010
172	भारतीय स्टेट बैंक जयसिंह नगर जिला शहडोल मध्य प्रदेश- 484771	182	भारतीय स्टेट बैंक लालपुर बुढार पोस्ट बुढार जिला शहडोल मध्य प्रदेश- 484110
173	भारतीय स्टेट बैंक उमरियापान ग्रामीण शाखा जिला कटनी मध्य प्रदेश- 483332	183	भारतीय स्टेट बैंक जमुना कोलरी वाया कोतमा जिला शहडोल मध्य प्रदेश- 484444
174	भारतीय स्टेट बैंक चंदिया ग्रामीण शाखा तहसील बांधवगढ़ जिला उमरिया मध्य प्रदेश- 484660	184	भारतीय स्टेट बैंक पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश- 495449
175	भारतीय स्टेट बैंक बाणसागर बांध देवलेंड पोस्ट देवलेंड जिला शहडोल मध्य प्रदेश- 484776	185	भारतीय स्टेट बैंक पिपरिया कलां ग्रामीण शाखा जिला कटनी मध्य प्रदेश- 483770
176	भारतीय स्टेट बैंक स्लीमनाबाद ग्रामीण शाखा जिला कटनी मध्य प्रदेश- 483440	186	भारतीय स्टेट बैंक गांव विलायत कला जिला कटनी मध्य प्रदेश- 483773
177	भारतीय स्टेट बैंक बिजूरी तहसील सोहागपुर जिला शहडोल मध्य प्रदेश- 484440	187	भारतीय स्टेट बैंक देवगाँव ग्रामीण शाखा जिला कटनी मध्य प्रदेश- 483501
		188	भारतीय स्टेट बैंक कोतमा कोलरी, जिला शहडोल मध्य प्रदेश- 484336
		189	भारतीय स्टेट बैंक कांटी, जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 483775

190	भारतीय स्टेट बैंक करेपा, जिला शहडोल मध्य प्रदेश- 484881	202	भारतीय स्टेट बैंक सिंघानिया कॉम्प्लेक्स शहडोल मध्य प्रदेश- 484001
191	भारतीय स्टेट बैंक शाहपुर ग्रामीण शाखा जिला उमरिया, मध्य प्रदेश- 484551	203	भारतीय स्टेट बैंक गाडरवारा जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश- 487551
192	भारतीय स्टेट बैंक राजेंद्र कालोनी एसईसीएल कैम्पस पोस्ट खैरा, बाया बुढार जिला शहडोल, मध्य प्रदेश- 484110	204	भारतीय स्टेट बैंक खुरई, जिला -सागर मध्य प्रदेश-470117
193	भारतीय स्टेट बैंक मार्केट क्षेत्र शाखा शहडोल मुख्य बाज़ार शहडोल, जिला शहडोल मध्य प्रदेश- 484001	205	भारतीय स्टेट बैंक नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश- 487001
194	भारतीय स्टेट बैंक मार्केट क्षेत्र उ मरिया राजीव चौक, उमरिया मध्य प्रदेश- 484661	206	भारतीय स्टेट बैंक सागर जिला सागर मध्य प्रदेश- 470002
195	भारतीय स्टेट बैंक पीवीबी कटनी समदरिया परिसर माधव नगर, कटनी मध्य प्रदेश- 483501	207	भारतीय स्टेट बैंक सागर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश- 470003
196	भारतीय स्टेट बैंक अमादंड, जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश- 495119	208	भारतीय स्टेट बैंक बीना जिला सागर मध्य प्रदेश- 470113
197	भारतीय स्टेट बैंक गैरतलाई, सेल परिसर कुटेश्वर माइंस टाउनशीप पोस्ट और तहसील बरही मध्य प्रदेश- 483770	209	भारतीय स्टेट बैंक एडीबी नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश- 487001
198	भारतीय स्टेट बैंक कलेक्ट्रेट शाखा कटनी राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कटनी, मध्य प्रदेश- 483501	210	भारतीय स्टेट बैंक चिचली जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश- 487770
199	भारतीय स्टेट बैंक कन्हवारा शाखा जिला कटनी मध्य प्रदेश- 483501	211	भारतीय स्टेट बैंक गोटेगाँव जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश- 487118
200	भारतीय स्टेट बैंक देवरीहटाई(कटनी) मध्य प्रदेश- 483501	212	भारतीय स्टेट बैंक करेली जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश 487221
201	भारतीय स्टेट बैंक मुरवारा हीरागंज मुरवारा कटनी मध्य प्रदेश- 483501	213	भारतीय स्टेट बैंक सिविल लाइंस सागर जिला सागर मध्य प्रदेश- 470001

214	भारतीय स्टेट बैंक देव,री जिला सागर मध्य प्रदेश- 470226	225	भारतीय स्टेट बैंक खमरिया (झाँसीघाट) तहसील गोटेगाँव जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश- 487118
215	भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय सागर दुकान नंबर 9-18 द्वारकाजी कॉम्प्लेक्स सिविल लाइन्स सागर, मध्य प्रदेश- 470001	226	भारतीय स्टेट बैंक बनवारी ग्रामीण शाखा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश- 487660
216	भारतीय स्टेट बैंक रेहली जिला सागर मध्य प्रदेश- 470227	227	भारतीय स्टेट बैंक खुलरी ग्रामीण शाखा जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश- 481441
217	भारतीय स्टेट बैंक जैसीनगर ग्रामीण शाखा जिला सागर मध्य प्रदेश- 470125	228	भारतीय स्टेट बैंक सेमढाना जिला सागर मध्य प्रदेश- 470120
218	भारतीय स्टेट बैंक साईखेड़ा पिपरिया रोड साईखेड़ा जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश- 487661	229	भारतीय स्टेट बैंक बड़ा बाज़ार सागर चमेली चौक जिला सागर मध्य प्रदेश- 470002
219	भारतीय स्टेट बैंक शाहगढ़ जिला सागर मध्य प्रदेश- 470339	230	भारतीय स्टेट बैंक महार रेजिमेंटल सेंटर सागर छावनी जिला सागर मध्य प्रदेश- 470001
220	भारतीय स्टेट बैंक गढ़ा कोटा तहसील रहली जिला सागर मध्य प्रदेश- 470229	231	भारतीय स्टेट बैंक बीओआरएल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आगासोद मध्य प्रदेश- 470124
221	भारतीय स्टेट बैंक बाँदरी ग्रामीण शाखा जिला सागर मध्य प्रदेश- 470442	232	भारतीय स्टेट बैंक बंडा (बेलई) जिला सागर मध्य प्रदेश- 470335
222	भारतीय स्टेट बैंक सुआतला ग्रामीण शाखा पोस्ट पजोहा जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश- 487315	233	भारतीय स्टेट बैंक मकरोनिया-सागर, जबलपुर रोड सागर मध्य प्रदेश- 470004
223	भारतीय स्टेट बैंक सिहोरा (बोहानी) ग्रामीण शाखा जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश- 487441	234	भारतीय स्टेट बैंक राहतगढ़ गैस एजेंसी के पास राहतगढ़, जिला -सागर मध्य प्रदेश- 461251
224	भारतीय स्टेट बैंक गोपाल गंज सागर जिला सागर मध्य प्रदेश- 470001	235	भारतीय स्टेट बैंक तेंदूखेड़ा मुख्य बाज़ार तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश- 487337

236	भारतीय स्टेट बैंक मेडिकल कॉलेज शाखा सागर शिवाजी वार्ड रोड सागर मध्य प्रदेश- 474002	245	भारतीय स्टेट बैंक केसली गांव एवं पोस्ट केसली जिला सागर मध्य प्रदेश- 470235
237	भारतीय स्टेट बैंक शाहपुर (गणेशगंज) सीईओ कार्यालय के पास शाहपुर जिला सागर मध्य प्रदेश- 470693	246	भारतीय स्टेट बैंक गौर झामर वार्ड नंबर 1 पुलिस थाना के पास सागर तहसील देवरी मध्य प्रदेश- 470223
238	भारतीय स्टेट बैंक धनासागर मुख्य सड़क धना जिला सागर मध्य प्रदेश- 470228	247	भारतीय स्टेट बैंक जरूआ खेड़ा बाज़ार वार्ड जैन मंदिर के पास जरूआ खेड़ा मध्य प्रदेश- 470115
239	भारतीय स्टेट बैंक मंडीबामोरा मुख्य बाज़ार मंडीबामोरा जिला सागर मध्य प्रदेश- 470111	248	भारतीय स्टेट बैंक गुजराती बाज़ार सागर मध्य प्रदेश- 470002
240	भारतीय स्टेट बैंक अस्पताल रोड गाडरवारा जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश- 487551	249	भारतीय स्टेट बैंक सिंगपुर चौराहा नरसिंहपुर शिवाजी वार्ड मुख्य सड़क कंदेली नरसिंहपुर मध्य प्रदेश- 487001
241	भारतीय स्टेट बैंक एसएमई सागर भगवानगंज भोपालरोड सागर मध्य प्रदेश- 470001	250	भारतीय स्टेट बैंक स्टेशन रोड बीना बिलगैयाँ वार्ड स्टेशन रोड बीना, जिला -सागर मध्य प्रदेश- 470113
242	भारतीय स्टेट बैंक सिरचोपी (बीपीएससीएल) ब्लॉक नंबर एफएच5/1 बीना पावर सप्लाय कंपनी सिरचोपी जिला सागर मध्य प्रदेश- 470113	251	भारतीय स्टेट बैंक आरएसीपीसी पहली मंजिल मुख्य शाखा परिसर जबलपुर मध्य प्रदेश- 482001
243	भारतीय स्टेट बैंक खिमलासा ब्लॉक खुरई जिला सागर- 470118	252	भारतीय स्टेट बैंक प्रशासनिक कार्यालय विजय नगर जबलपुर मध्य प्रदेश- 482002
244	भारतीय स्टेट बैंक एससीएबी सागर सिविल लाइन्स खेल परिसर सागर मध्य प्रदेश- 470001	253	भारतीय स्टेट बैंक सीसीपीसी दूसरी मंजिल आंचलिक कार्यालय परिसर विजयनगर जबलपुर मध्य प्रदेश- 482001

254	भारतीय स्टेट बैंक एसएमईसीसी एसबीआई मुख्य शाखा भवन सिविल लाइंस जबलपुर मध्य प्रदेश- 482001	264	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला प्लॉट नं. बी, हर्षा सिटी माल शक्ति खंड-II, इंदिरापुरम-201014
255	भारतीय स्टेट बैंक डीएसी एसबीआई मुख्य शाखा परिसर सिविल लाइन्स जबलपुर मध्य प्रदेश- 482001	265	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला डोर नं.5, पलानीअप्पा स्ट्रीट केएमसीएच स्पेक्षिटी अस्पताल के सामने इरोड-638009 जिला इरोड (तमिलनाडु)
256	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा जबलपुर सिविल लाइंस जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 482001	266	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला 14295, बर्मा अस्पताल के सामने भट्टी रोड, बठिंडा-151001 जिला बठिंडा (पंजाब)
257	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा रीवा खन्ना चौक रीवा, जिला रीवा मध्य प्रदेश-486001	267	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला गांव एवं डाकखाना पट्टा बरवाड़ी-173207 तहसील एवं जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश)
		268	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला गांव एवं डाकखाना गंगाघाट, तहसील अर्की जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) पिन-171102
		269	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला बस स्टैंड के पास, बरोटीवाला रोड, मरानवाला, डाकखाना नानकपुर-134 102 तहसील कालका, जिला पंचकुला (हरियाणा)
अंचल कार्यालय – दिल्ली		270	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला 14, राम नगर, नज़दीक इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड गांव कांसापुर, डाकखाना यमुनानगर जिला यमुनानगर (हरियाणा)
258	इंडियन बैंक यमुना विहार शाखा, बी-1/3, यमुना विहार दिल्ली – 110053	271	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला नज़दीक रिलायंस टॉवर, गांव डाकखाना खरवन-135003 तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर (हरियाणा)
259	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला देश भगत यूनिवर्सिटी, गांव साउंटी, डाकखाना अमलोह जिला फतेहगढ़ साहिब-147203	272	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला 27446, स्ट्रीट नं. 6-बी, मेन रोड बठिंडा-151001 जिला बठिंडा (पंजाब)
260	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला वार्ड नं. 14, सरकारी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल ग्राउंड के सामने बस स्टैंड रोड, बहरोड जिला अलवर (राजस्थान)-301701	273	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला डबवाली रोड, गांव एवं डाकखाना पथराला- 151401 जिला बठिंडा (पंजाब)
261	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला गांव अयाद नगर, डाकखाना बाबूगढ़ कैट-245 201 तहसील एवं जिला हापड़ (उत्तर प्रदेश)	274	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला सतगुरु ओवरसीज़, प्लॉट नं.-सी-165 नज़दीक गणपति टॉवर, पंचशील नगर, वैशाली नगर, अजमेर-305004, जिला अजमेर (राजस्थान)
262	4.स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला बंसल डिपार्टमेंट स्टोर के पास मोहाली-खरड रोड, गांव, मुंडी खरड, डाकखाना एवं तहसील खरड जिला एस.ए.एस नगर (पंजाब)	275	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला वार्ड नं. 2, मिसरवाला, देहरादून रोड गांव एवं डाकखाना डायवाला-248140 तहसील डायवाला, जिला देहरादून (उत्तराखंड)
263	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला लखनऊ-कानपुर हाईवे गांव बशीरतगंज (सराय कतियान) डाकखाना चमरौली-209831 तहसील एवं जिला उन्नाव (उत्तर प्रदेश)		

276	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला मकसूदन चौक, बाय-पास रोड(मकसूदन), जालन्धर-144008 जिला जालन्धर (पंजाब)	288	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला एस.सी.ओ.नं. 263 सैक्टर 44-सी, चंडीगढ़-160044
277	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला रॉयल फीलिंग स्टेशन के पास काला अम्ब रोड, गांव एवं डाकखाना रसूलपुर-133204 तहसील बिलासपुर, जिला यमुनानगर (हरियाणा)	289	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला #मथारो मार्किट, मलोया-चंडीगढ़-160 025
278	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला गांव एवं डाकखाना भाई रूपा-151106 जिला बठिंडा (पंजाब)	290	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला दसूआ होशियारपुर रोड गांव एवं डाकखाना भुंगा-144210 तहसील दसूआ, जिला होशियारपुर (पंजाब)
279	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला शॉप नं. 54, न्यू ग्रेन मार्किट जींद-126 102, जिला जींद (हरियाणा)	291	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला बस्ती जालन्धर-144 008 जिला जालन्धर (पंजाब)
280	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला मोहन रोड, गांव एवं डाकखाना नयालगंज-229881 तहसील हसनगंज, जिला ऊना (उत्तर प्रदेश)	292	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला गांव एवं डाकखाना झोके हरी हर-152003 तहसील एवं जिला फिरोजपुर (पंजाब)
281	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला ग्रामीण हट गुरु नानक देव गुरुद्वारा के पास जय नारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर-334001 जिला बीकानेर (राजस्थान)	293	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला गांव एवं डाकखाना पंजवा-152024 तहसील मलोटा, जिला मुक्तसर
282	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला बीर रोड, ग्राम-तल्केहर, पोस्ट-अहजु-175032, तहसील - जोगिन्दर नगर, जिला -मंडी (हिमाचल प्रदेश)	294	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला बठिंडा रोड, मुक्तसर-152026 जिला मुक्तसर (पंजाब)
283	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला डेलूअना रोड, गांव एवं डाकखाना अकनवाली-151 505 तहसील बुढलाडा, जिला मानसा (पंजाब)	295	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला गांव एवं डाकखाना बजौरा-175 125, तहसील भूतर, जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश)
284	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला बख्तू पट्टी रोड, गांव एवं डाकखाना कोट बख्तू- 151301 तहसील तलवंडी साबो, जिला बठिंडा (पंजाब)	296	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला भू-तल झौबर (उन्ने), डाकखाना टिप्परी-177112 तहसील जसवन, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)
285	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला पहली मंजिल, मिनी सचिवालय बिहोली रोड, समालखां-132 101 जिला पानीपत (हरियाणा)	297	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला गांव एवं डाकखाना तखतपुरा-142 055 तहसील निहालसिंहवाला जिला मोगा (पंजाब)
286	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला प्लॉट नं. 17, दिल्ली रोड, हसनपुर चुंगी चौक सहारनपुर-247 001, तहसील एवं जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)	298	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला गांव एवं डाकखाना कोट दूता-148 105 जिला बरनाला (पंजाब)
287	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला नज़दीक गोल पुली, मेन रोड तालाब टिला, जम्मू-180002 तहसील एवं जिला जम्मू (जे एण्ड के)	299	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला गांव करमगढ़-148 101, डाकखाना बरनाला जिला बरनाला (पंजाब)
		300	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला कृपाल टॉवर्ज़, बी 19/645 दंडी स्वामी रोड, ओल्ड डीएमसी अस्पताल के सामने सिविल लाईन्स, लुधियाना-141 001, जिला लुधियाना

301	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला 1339/7, पासी चौक, पखोवाल रोड हाऊसफीड फ्लैट्स के सामने लुधियाना-141013 जिला लुधियाना	312	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला गुरुद्वारा साहिब के नजदीक, गांव एवं डाकखाना भुरथला मंदिर तहसील मलेरकोटला, जिला संगरूर (पंजाब) 148 023
302	44.स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला बी-2/9, गांधी पथ, चित्रकूट स्कीम वैशाली नगर, जयपुर-302021 जिला जयपुर (राजस्थान)	313	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला लक्ष्मी जिंदल कम्प्लेक्स, गोयल नर्सिंग होम के सामने कैथल रोड, चीका-136 034, जिला कैथल (हरियाणा)
303	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला मै.सांखला उद्योग, ए-48 मरूधारा इंडस्ट्रीयल एरिया बसनी फेज-2, जोधपुर-342005 जिला जोधपुर (राजस्थान)	314	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला 101-बी, संदीप हाऊस, त्रिपती नगर, फेज-1 विराड़ (वैस्ट)-400 103, जिला थाने (महाराष्ट्र)
304	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला राजीव कॉलोनी समेपर रोड सैक्टर-58, फरीदाबाद-121 004 फरीदाबाद (हरियाणा)	315	57.स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला मिल गेट के सामने, जिला हिसार (हरियाणा)
305	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला प्लॉट नं.डीएसएस-1 एवं 2, पुलिस लाईन एरिया नज़दीक टाउन पार्क, हिसार-125 001 जिला हिसार (हरियाणा)	316	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला सामने, टीसीपी गेट नं. 2 डाकखाना सत रोड कलां, हिसार कैट-125 006 जिला हिसार (हरियाणा)
306	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला मलेरकोटला रोड, नज़दीक बस स्टैंड गांव एवं डाकखाना इकलाहा-141414 तहसील एवं जिला लुधियाना (पंजाब)	317	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला पिहोवा-कुरुक्षेत्र रोड, डाकखाना भोर सैदां-136 118 जिला कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
307	49.स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला ठकरवाल रोड, गांव खेड़ी, डाकखाना लटोन कलां-142 022 तहसील एवं जिला लुधियाना (पंजाब)	318	60.स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला ए-188 (ए), रोड नं. 6 डी, वीकेआई एरिया जयपुर-302013 जिला जयपुर (राजस्थान)
308	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला अहमदगढ़-खन्ना रोड, कनाल कर्मसर के सामने गांव एवं डाकखाना राड़ा साहिब-141 419 तहसील पायल जिला लुधियाना	319	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला मेन रोड, सामने गुरुद्वारा साहिब डिंग-125 055, जिला सिरसा (हरियाणा)
309	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला मेन खन्ना रोड, पुलिस स्टेशन के सामने गांव एवं डाकखाना बदलान-141114 तहसील समराला, जिला लुधियाना	320	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला बाबा कम्प्लेक्स, मीना मार्किट, डाकवैल,फेज-11, बगरू-303 007 तहसील एवं जिला जयपुर (राजस्थान)
310	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला सैनी मार्किट, सैनी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल बराड़ा रोड, बबेन-136156 जिला कुरुक्षेत्र (हरियाणा)	321	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला 24 नं. फाटक, पटियाला कैट के पास रेलवे स्टेशन, प्रताप नगर, पटियाला-147 001 जिला पटियाला (पंजाब)
311	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला मेन रोड, गांव एवं डाकखाना सरगथल तहसील गोहाना, जिला सोनीपत (हरियाणा)-131 305	322	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला गांव एवं डाकखाना थुआ-140 417 तहसील राजपुरा, जिला पटियाला (पंजाब)

323	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला मनी शॉपी, नजाम प्लेस, ए.सी.बोस रोड कोलकाता-700020 (वैस्ट बंगाल)	335	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला नं.28 देवराज उर्स रोड मैसूर-570001, जिला मैसूर (कर्नाटक)
324	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला मनी शॉपी, 6, ज्ञान नगर, जालन्धर-144 001 जिला जालन्धर (पंजाब)	336	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला जय दुर्गा कॉमर्शियल प्लाजा के पास मेन मार्केट, सेलाक्वी-248011 तहसील विकास नगर, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड)
325	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ईश्वर कम्प्लैक्स, प्लॉट नं. 3ए-1 ऑफ जीगानी इंडस्ट्रीयल एरिया फेज़-II, अनेकल तालुक, बेंगलूर-560 106	337	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ग्रा.पो.संग्रह-173023 तहसील संग्रह, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश)
326	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एस.सी.ओ.9, नज़दीक बैरियर, पीर मच्चला, जीरकपुर-140 603 तहसील डेरा बस्सी, जिला एसएस नगर (पंजाब)	338	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ग्रा. भरवाली खुर्द, डाकखाना खुमानो तहसील खुमानो, जिला फतेहगढ़ साहिब (पंजाब)-141801
327	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला सामने सैनी आटा चक्की, गांव एवं डाकखाना रायपुर कलां-160102 चंडीगढ़ (यूटी)	339	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ग्र. दुराना (टिका बथेड) पो.डोले, तहसील जवाली जिला कांगड़ा-176210
328	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एस-75, इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रीयल एरिया (आरआईआईसीओ) भमसा मंडी कोटा-324 005 (राजस्थान)	340	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला मेन बाजार सनहेट कांगड़ा रोड वी.,भगीन (सनहेट), डाकखाना सनहेट-177 101 तहसील डेहर गोपीपुर, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)
329	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बीएनएम कम्प्लैक्स, बी.बी.रोड ओल्ड आरटीओ आफिस के पास दिवानहली-562110	341	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला गांव एवं डाकखाना खुड़ा-144305 तहसील दसूहा, जिला होशियारपुर (पंजाब)
330	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला हॉल नं. 2, अरिहंत कम्प्लैक्स पटालिवा हनुमान रोड, पडरा-391 440	342	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला गेट नं.2, न्यू ग्रेन मार्किट, केबीडी रोड, कुरुक्षेत्र-136 119, जिला कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
331	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला अपर ग्राउन्ड फ्लोर गली नं. 3,4, आदर्श संकुल एनएच-4 खेड़ (सतारा)-415003 जिला सतारा (महाराष्ट्र)	343	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला द्वारका एक्सप्रेस वे, पटौदी रोड गद्दी हसारू, जिला गुड़गांव (हरियाणा)
332	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला मिनी सचिवालय, सोनीपत रोड गोहाना-131301, जिला सोनीपत हरियाणा	344	86.स्टेट बैंक ऑफ पटियाला 13-ए, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति गुरु नानक पथ, कैलगिरी रोड, मालवीय नगर जिला जयपुर (राजस्थान)
333	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला रिको फेज-111, खेड़ रोड बालोतरा-344022, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर (राजस्थान)	345	87.स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शॉप नं. 4,5,6, कांता स्वर्ण प्लेस भेल जुबली गेट टू अयोध्या बायपास रोड निजामुद्दीन रोड, जिला भोपाल (म.प्र.)
334	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला दी ट्रिब्यून काम्पलेक्स सेक्टर-29, चंडीगढ़-160030		

		List of offices/branches to be notified under Rule 10(4) of Official Language Rule 1976	
346	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बी-53/58, उजागर नगर, अर्बन एस्टेट के सामने कादियां रोड, बटाला-143505	1	State Bank of India Jabalpur City Main Road Wright Town Jabalpur District Jabalpur Madhya Pradesh-482002
347	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला 61-के, नजफगढ़ रोड, अध्यापक नगर नागलोई, दिल्ली-110041		
348	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला 724, जनकपुरी, राम जानकी मंदिर रोड राजेन्द्र नगर, बरेली	2	State Bank of India Sihora District Jabalpur Madhya Pradesh 483225
349	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बी 37/84, दुगरी रोड, जगदीश नगर नजदीक कनाल ब्रिज, दुगरी, लुधियाना	3	State Bank of India Tularam Chowk Jabalpur District Jabalpur Madhya Pradesh 482002
350	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला तूर अस्पताल के पास हैबोवाल रोड नज़दीक रिलायंस फ्रैश, लुधियाना-141 001		
351	93. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला मिनी सचिवालय, सैक्टर-1 पंचकुला-134109	4	State Bank of India Medical College Branch Jabalpur District Jabalpur Madhya Pradesh 482003
352	94. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला जुडीशियल कम्प्लैक्स, जिला कोर्ट गुरदासपुर-143521		
353	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला दाना मंडी के सामने, सर्कुलर रोड डेरा बाबा नानक-143 604	5	State Bank of India Milloniganj Branch Cherital Jabalpur District Jabalpur Madhya Pradesh 482002

New Delhi, the 21st April, 2016

S.O.753.—In pursuance of sub-rule(4) of rule 10 of the Official Languages(use for official purpose of the union) Rules, 1976,the Central Government, hereby notified the listed branches/offices of the following banks in the attached annexure, more than 80% of the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi.

[F.No. 11016/1/2015-OL(Noti.)]

Dr. VED PRAKASH DUBEY, Jt.Director (OL)

Serial No.	Name of the Banks	Number of Branches/offices
1.	State Bank of India	257
2.	Indian Bank	01
3.	State Bank of Patiala	95
	Total	353

- 6 State Bank of India
ADB Shahpura
District Jabalpur
Madhya Pradesh
483119
- 7 State Bank of India
Bargi
District Jabalpur
Madhya Pradesh- 482051
- 8 State Bank of India
Ranjhi
District Jabalpur
Madhya Pradesh-482010
- 9 State Bank of India
Personal Banking Branch
VIP Road
South Civil Lines
Near Sai Temple
Jabalpur
District Jabalpur
Madhya Pradesh-482001

10	State Bank of India Ordnance Factory Khamaria Branch H1/1 East Land Khamaria District Jabalpur Madhya Pradesh- 482005	20	State Bank of India Marhatal Jabalpur District Jabalpur Madhya Pradesh-482002
11	State Bank of India Krishi Upaj Mandi Branch Vijay Nagar Jabalpur District Jabalpur Madhya Pradesh- 482002	21	State Bank of India Bedaghat Village Branch Panchvati Ghat Road Jabalpur District Jabalpur Madhya Pradesh- 482002
12	State Bank of India Jawaharganj Bada Fauvara Jabalpur District Jabalpur Madhya Pradesh-482002	22	State Bank of India Ridge Road Jabalpur District Jabalpur Madhya Pradesh-482001
13	State Bank of India GEC Jabalpur Branch GEC Campus Jabalpur District Jabalpur Madhya Pradesh-482011	23	State Bank of India Kamla Nehru Nagar Garha Road Jabalpur District Jabalpur Madhya Pradesh-482002
14	State Bank of India Gosalpur Village Branch Tehsil Sihora District Jabalpur Madhya Pradesh- 483222	24	State Bank of India Imlai Village Branch District Jabalpur Madhya Pradesh-483110
15	State Bank of India Panagar District Jabalpur Madhya Pradesh-483220	25	State Bank of India Chourai Tehsil Kundam Dindori District Jabalpur Madhya Pradesh-483110
16	State Bank of India Garha Branch Anand Kunj Tiraha District Jabalpur Madhya Pradesh-482003	26	State Bank of India Ponda Village Branch District Jabalpur Madhya Pradesh-483225
17	State Bank of India I. E. Adhartal Branch 19-A Katni Road Jabalpur District Jabalpur Madhya Pradesh-482009	27	State Bank of India Nayagaon Rampur MPEB Campus Rampur District Jabalpur Madhya Pradesh -482008
18	State Bank of India Patan District Jabalpur Madhya Pradesh-482056	28	State Bank of India Gun Carriage Factory Branch Jabalpur District Jabalpur Madhya Pradesh-482011
19	State Bank of India Barginagar District Jabalpur Madhya Pradesh-482056	29	State Bank of India Madan Mahal Nagpur Road Jabalpur District Jabalpur Madhya Pradesh-482001

30	State Bank of India Khinni Village Branch District Jabalpur Madhya Pradesh-483222	39	State Bank of India Gwarighat Road Near Akash Ganga Hotel Poli Pathar Jabalpur District Jabalpur Madhya Pradesh-482008
31	State Bank of India SME Branch Civil Lines Jabalpur District Jabalpur Madhya Pradesh-482001	40	State Bank of India Bilhari Mandla Road Jabalpur District Jabalpur Madhya Pradesh-482020
32	State Bank of India Grenadiers Regimental Centre Jabalpur District Jabalpur Madhya Pradesh-482001	41	State Bank of India Regional Business Office Region - 1 , Vijay Nagar Jabalpur District Jabalpur Madhya Pradesh-482002
33	State Bank of India Katanga Dixit Enclave Bandaria Tiraha Narmada Road Jabalpur District Jabalpur Madhya Pradesh-482001	42	State Bank of India Majhgawan Tehsil Sihora District Jabalpur Madhya Pradesh-485778
34	State Bank of India Campus of 01 Signal Training Centre Jabalpur District Jabalpur Madhya Pradesh-482001	43	State Bank of India Sihora Near Rest House District Jabalpur Madhya Pradesh-483225
35	State Bank of India Shakti Nagar Near Gupta Hotel Ratan Nagar Jabalpur District Jabalpur Madhya Pradesh-482001	44	State Bank of India Karmeta Near ITI Tiraha District Jabalpur Madhya Pradesh-482002
36	State Bank of India Barela Near Forest Barrier Village and Post Barela District Jabalpur Madhya Pradesh -491332	45	State Bank of India Veterinary College Campus Jabalpur District Jabalpur Madhya Pradesh-482001
37	State Bank of India Main Road Katangi District Jabalpur Madhya Pradesh- 483105	46	State Bank of India SCAB Main Branch Premises Jabalpur, District Jabalpur Madhya Pradesh-482001
38	State Bank of India Majhauili Main Road District Jabalpur Madhya Pradesh-486666	47	State Bank of India Belkhandu Mohas Tehsil Panagar District Jabalpur Madhya Pradesh -482002
		48	State Bank of India Malviya Chowk Branch Mittal Court 'B' Wing Jabalpur District Jabalpur Madhya Pradesh-482002

49	State Bank of India Gorakhpur 766, Madan Mahal Road Opp. Chimani Plot Jabalpur District Jabalpur Madhya Pradesh-482001	60	State Bank of India Chhapara District Seoni Madhya Pradesh -480884
50	State Bank of India Mastana Chowk Ranjhi Jabalpur District Jabalpur Madhya Pradesh-482010	61	State Bank of India Ghansore District Seoni Madhya Pradesh -480997
51	State Bank of India MPEB Rampur Vidyut Nagar Jabalpur District Jabalpur Madhya Pradesh-482008	62	State Bank of India Lamta District Balaghat Madhya Pradesh -481551
52	State Bank of India PBB Cantonement Jabalpur District Jabalpur Madhya Pradesh-482001	63	State Bank of India Lanjhi District Balaghat Madhya Pradesh -481222
53	State Bank of India Balaghat District Balaghat Madhya Pradesh-481001	64	State Bank of India Nainpur District Mandla Madhya Pradesh -481776
54	State Bank of India Mandla District Mandla Madhya Pradesh-481661	65	State Bank of India Shahpura Dindori(Niwas) District Dindori Madhya Pradesh -481990
55	State Bank of India Seoni District Seoni Madhya Pradesh-480661	66	State Bank of India Mohgaon District Balaghat Madhya Pradesh -481118
56	State Bank of India Waraseoni District Balaghat Madhya Pradesh-481331	67	State Bank of India Malajkhand District Balaghat Madhya Pradesh -481116
57	State Bank of India Dindori District Dindori Madhya Pradesh-481880	68	State Bank of India Niwas District Mandla Madhya Pradesh -481885
58	State Bank of India Baihar District Balaghat Madhya Pradesh-481111	69	State Bank of India Bharweli Village Branch District Balaghat Madhya Pradesh -481102
59	State Bank of India Barghat District Seoni Madhya Pradesh - 480667	70	State Bank of India Dhanora Village Branch Tehsil Lakhanadon District Seoni Madhya Pradesh -480998
		71	State Bank of India Narayanganj Village Branch District Mandla Madhya Pradesh -481662
		72	State Bank of India Bijadandi Village Branch District Mandla Madhya Pradesh -486674

73	State Bank of India Amarpur Village Branch Tehsil Dindori District Dindori Madhya Pradesh -481666	85	State Bank of India Keolari Main Road Keolari Madhya Pradesh -480994
74	State Bank of India Samnapur Village Branch District Dindori Madhya Pradesh -481778	86	State Bank of India Lalburha Branch District Balaghat Madhya Pradesh -481441
75	State Bank of India Katangi District Balaghat Madhya Pradesh -481445	87	State Bank of India Padav mandla Dindori Road Mandla Madhya Pradesh -481661
76	State Bank of India Anjaniya Village Branch Block Bichiya District Mandla Madhya Pradesh -481993	88	State Bank of India Manglipeth Branch Seoni Madhya Pradesh -480661
77	State Bank of India Hirri District Balaghat Madhya Pradesh -481115	89	State Bank of India Regional Business Office Region-2 Administrative Office Building Vijaynagar Jabalpur Madhya Pradesh -482002
78	State Bank of India Kachiwahi Tehsil Waraseoni District Balaghat Madhya Pradesh -481332	90	State Bank of India Paraswada Opp. Ram Mandir Paraswada Tehsil Baihar District Balaghat Madhya Pradesh -481556
79	State Bank of India Linga Village Branch District Balaghat Madhya Pradesh -481001	91	State Bank of India Tirodi Near Gram Panchayat office Tirodi District Balaghat Madhya Pradesh-481449
80	State Bank of India Mehandiwada Village Branch Tehsil Waraseoni District Balaghat Madhya Pradesh -481302	92	State Bank of India Gadasarai Near Shishumandir Indira Market Gadasarai Tehsil Dindori Madhya Pradesh -481882
81	State Bank of India Bhorgarh Village Branch Tehsil Waraseoni District Balaghat Madhya Pradesh -481337	93	State Bank of India Bamhani Opp. Police Station Bamhani District Mandla Madhya Pradesh 481771
82	State Bank of India Udaipur (Mandla) District Mandla Madhya Pradesh -481662		
83	State Bank of India Chirai Dongri District Mandla Madhya Pradesh -481662		
84	State Bank of India Lakhnadon District Seoni Madhya Pradesh -480886		

94	State Bank of India Post & Village Bhua Bichhiya Block & Tehsil Bichhiya District Mandla Madhya Pradesh -481995	105	State Bank of India Dabhaura District Rewa Madhya Pradesh-486556
95	State Bank of India Maharajpur Mandla Raipur Road Maharajpur Tehsil Mandla Madhya Pradesh -481665	106	State Bank of India Hanumana Tehsil Mungeli District Rewa Madhya Pradesh-486335
96	State Bank of India Kacheri Chowk National Highway - 7 Kacheri Road Seoni Madhya Pradesh -480661	107	State Bank of India G.E.C. Rewa District Rewa Madhya Pradesh-486002
97	State Bank of India Subhash Chowk Sector-14 (Extension) Balaghat Madhya Pradesh - 481001	108	State Bank of India Morwa Tehsil Singrauli District Sidhi Madhya Pradesh-486889
98	State Bank of India Dindori Madhya Pradesh -481880	109	State Bank of India Waidhan District Sidhi Madhya Pradesh-486886
99	State Bank of India Maihar District Satna Madhya Pradesh-485771	110	State Bank of India Jayant Post Singrauli Collier District Sidhi Madhya Pradesh-486890
100	State Bank of India Satna District Satna Madhya Pradesh-485001	111	State Bank of India Gorbi District Sidhi Madhya Pradesh-486892
101	State Bank of India Satna City District Satna Madhya Pradesh-485001	112	State Bank of India Mankahari (Satna) Prism Cement Project Village Mankahari Bathi District Satna Madhya Pradesh-485111
102	State Bank of India Sidhi District Sidhi Madhya Pradesh-486661	113	State Bank of India SME Branch Satna Bus stand Area Satna District Satna Madhya Pradesh-485001
103	State Bank of India Nagod District Satna Madhya Pradesh-485446	114	State Bank of India Rewa City District Rewa Madhya Pradesh-486001
104	State Bank of India Chakghat District Rewa Madhya Pradesh-486226	115	State Bank of India Birla Colony Satna District Satna Madhya Pradesh-485005

116	State Bank of India Regional Business Office Satna Madhya Pradesh-485001	127	State Bank of India Rajmilan (Koyalkooth) Tehsil Singroli District Sidhi Madhya Pradesh-486886
117	State Bank of India Amarpatan Near Civil Court Highway No. 7 Rewa Road Amarpatan Madhya Pradesh-485775	128	State Bank of India Collectorate Branch Satna Madhya Pradesh-485001
118	State Bank of India Jhingurda District Sidhi Madhya Pradesh-486889	129	State Bank of India Deosar Main Road Deosar District Singrauli Madhya Pradesh-464881
119	State Bank of India Amiliki Village Branch Tehsil Huzur District Rewa Madhya Pradesh-486550	130	State Bank of India Sasan Village Sasan Post Tiwara District Singrauli Madhya Pradesh-486886
120	State Bank of India Teoni Village Branch District Rewa Madhya Pradesh-486112	131	State Bank of India Mauganj National Highway 7 Mauganj Madhya Pradesh-486335
121	State Bank of India Madhavgarh Village Branch District Satna Madhya Pradesh-485115	132	State Bank of India Rampur Baghelan Main Road Rampur Baghelan District Satna Madhya Pradesh-485115
122	State Bank of India ADB Churhat District Sidhi Madhya Pradesh-486771	133	State Bank of India Sidhi City Market Area Gopal Das Road Sidhi Madhya Pradesh-486661
123	State Bank of India Jaitwara Rahuraj Nag District Satna Madhya Pradesh-485221	134	State Bank of India SME Rewa Premises of Main Branch Old Khanna Talkies Rewa Madhya Pradesh-486001
124	State Bank of India Vindhya Nagar STPS NTPC Colony District Sidhi Madhya Pradesh-486885	135	State Bank of India PBB Satna Street No.7 Rajendra Nagar Satna Madhya Pradesh-485001
125	State Bank of India Amlori Tehsil Singrouli District Sidhi Madhya Pradesh-486886		
126	State Bank of India Barethia District Satna Madhya Pradesh-485441		

136	State Bank of India Chitrangi Village & Post Chitrangi District Singrauli Madhya Pradesh-486882	146	State Bank of India Manjhauli Opp. BSNL Tower Manjhauli, District Sidhi Madhya Pradesh-486666
137	State Bank of India Bargawan Village & Post Bargawan District Singrauli Madhya Pradesh-486886	147	State Bank of India Bihari Chowk Mahavir Bhawan Satna Madhya Pradesh-485001
138	State Bank of India Nigahi NSC Campus Block Waidhan District Singrauli Madhya Pradesh-486887	148	State Bank of India Deep Complex Branch Mamta Building Raniganj Near Main Road Rewa Madhya Pradesh-486001
139	State Bank of India Dudhichua Sector A Village Dudhichua Post Jayant District Singrauli Madhya Pradesh-486890	149	State Bank of India Gayatri Complex Bus Stand Road Sidhi Madhya Pradesh-486661
140	State Bank of India Raghurajgarh Main Road Tehsil Mankwa Raghurajgarh Madhya Pradesh-486111	150	State Bank of India Ganiyari Road Waidhan Madhya Pradesh-486886
141	State Bank of India Mangawan Rewa Road Mangawan Madhya Pradesh-486111	151	State Bank of India Katni, District Katni Madhya Pradesh-483501
142	State Bank of India Near Petrol Pump Gurh, Madhya Pradesh-486553	152	State Bank of India Shahdol District Shahdol Madhya Pradesh -484001
143	State Bank of India Chitrakoot District Satna Near Eye Hospital Main Road Near Bus Stand Chitrakoot Madhya Pradesh-485780	153	State Bank of India Umaria District Umaria Madhya Pradesh-484661
144	State Bank of India Maihar City Sarala Nagar Road Near Civil Court Maihar, Madhya Pradesh-485772	154	State Bank of India Amlai Amlai Paper Mill District Shahdol Madhya Pradesh -484117
145	State Bank of India Kotar Madhya Pradesh-485226	155	State Bank of India Market Hanumanganj Katni District Katni Madhya Pradesh -483501
		156	State Bank of India Anuppur District Shahdol Madhya Pradesh -484224

157	State Bank of India Kotma District Shahdol Madhya Pradesh -484334	169	State Bank of India Kymore District Katni Madhya Pradesh -483880
158	State Bank of India Niwar District Katni Madhya Pradesh -483442	170	State Bank of India Bohariband Village Branch Tehsil Sihora District Katni Madhya Pradesh -483330
159	State Bank of India Barhi District Katni Madhya Pradesh -483770	171	State Bank of India Manpur Village Branch Tehsil Bandhavgarh District Umaria Madhya Pradesh -484665
160	State Bank of India Nowrozabad District Umaria Madhya Pradesh -484555	172	State Bank of India Jaisinghnagar District Shahdol Madhya Pradesh -484771
161	State Bank of India Dhanpuri District Shahdol Madhya Pradesh -484114	173	State Bank of India Umariapan Village Branch District Katni Madhya Pradesh -483332
162	State Bank of India Rithi District Jabalpur Madhya Pradesh -483990	174	State Bank of India Chandia Village Branch Tehsil Bandhavgarh District Umaria Madhya Pradesh -484660
163	State Bank of India Vijayraghavagarh Village Branch District Katni Madhya Pradesh -483775	175	State Bank of India BanSagar Dam Deoland Post Deoland District Shahdol Madhya Pradesh -484776
164	State Bank of India Ghanta Ghar Katni (Evening Branch) G.M. Building Katay Ghat Road Katni, District Katni Madhya Pradesh -409525	176	State Bank of India Sleemnabad Village Branch District Katni Madhya Pradesh -483440
165	State Bank of India Amarkantak District Shahdol Madhya Pradesh-484886	177	State Bank of India Bijuri Tehsil Sohagpur District Shahdol Madhya Pradesh -484440
166	State Bank of India New Katni Junction District Katni Madhya Pradesh -483503	178	State Bank of India Beohari District Shahdol Madhya Pradesh -484774
167	State Bank of India Ordnance Factory Katni, District Katni Madhya Pradesh -483583	179	State Bank of India Badagaon Village Branch District Jabalpur Madhya Pradesh -483010
168	State Bank of India Regional Business Office Katni RBO House No. 176 Maharana Pratap Ward Police Line, Jhinhari, Katni, Madhya Pradesh -483501		

180	State Bank of India Jaithari Tehsil Shahdol District Shahdol Madhya Pradesh -484330	192	State Bank of India Rajendra Colony Campus of SECL Post Khairha, Via Budhar District Shahdol Madhya Pradesh -484110
181	State Bank of India Singhpur Village Branch District Shahdol Madhya Pradesh -484010	193	State Bank of India Market Area Branch Shahdol Main market, Shahdol District Shahdol Madhya Pradesh -484001
182	State Bank of India Lalpur Budhar Post Budhar District Shahdol Madhya Pradesh -484110	194	State Bank of India Market Area Umaria Rajeev Chowk Umaria, Madhya Pradesh -484661
183	State Bank of India Jamuna Collery Via Kotma, District Shahdol Madhya Pradesh -484444	195	State Bank of India PBB Katni Samdariya Complex Madhav Nagar Katni, Madhya Pradesh -483501
184	State Bank of India Pali, District Umaria Madhya Pradesh -495449	196	State Bank of India Amadand District Anuppur Madhya Pradesh -495119
185	State Bank of India Pipariyakalan Village Branch District Katni Madhya Pradesh -483770	197	State Bank of India Gairtalai SAIL Premises Kuteshwar Mines Township Post & Tehsil Barhi Madhya Pradesh -483770
186	State Bank of India Village Vilayatkala District Katni Madhya Pradesh -483773	198	State Bank of India Collectorate Branch Katni National Highway 7 Katni Madhya Pradesh -483501
187	State Bank of India Deogaon Village Branch District Katni Madhya Pradesh -483501	199	State Bank of India Kanhawara Branch District Katni Madhya Pradesh -483501
188	State Bank of India Kotma Colliery District Shahdol Madhya Pradesh -484336	200	State Bank of India Deori Hatai (Katni) Madhya Pradesh -483501
189	State Bank of India Kanti, District Jabalpur Madhya Pradesh -483775	201	State Bank of India Murwara Hiraganj Murwara Katni Madhya Pradesh -483501
190	State Bank of India Karepa District Shahdol Madhya Pradesh -484881	202	State Bank of India Singhania Complex Shahdol Madhya Pradesh -484001
191	State Bank of India Shahpur Village Branch District Umaria Madhya Pradesh -484551		

203	State Bank of India Gadarwara District Narsinghpur Madhya Pradesh -487551	216	State Bank of India Rehli , District Sagar Madhya Pradesh -470227
204	State Bank of India Khurai District Sagar Madhya Pradesh -470117	217	State Bank of India Jaisinagar Village Branch District Sagar Madhya Pradesh -470125
205	State Bank of India Narsinghpur District Narsinghpur Madhya Pradesh -487001	218	State Bank of India Sainkheda Pipariya Road Sainkheda District Narsinghpur Madhya Pradesh -487661
206	State Bank of India Sagar District Sagar Madhya Pradesh -470002	219	State Bank of India Shahgarh District Sagar Madhya Pradesh -470339
207	State Bank of India Sagar University Sagar, Madhya Pradesh -470003	220	State Bank of India Garhakota Tehsil Rehli District Sagar Madhya Pradesh -470229
208	State Bank of India Bina, District Sagar Madhya Pradesh -470113	221	State Bank of India Bandri Village Branch District Sagar Madhya Pradesh -470442
209	State Bank of India ADB Narsinghpur District Narsinghpur Madhya Pradesh -487001	222	State Bank of India Suatala Village Branch Post Pajoha District Narsinghpur Madhya Pradesh -487315
210	State Bank of India Chichli District Narsinghpur Madhya Pradesh -487770	223	State Bank of India Sihora(Bohani)Village Branch District Narsinghpur Madhya Pradesh -487441
211	State Bank of India Gotegaon District Narsinghpur Madhya Pradesh -487118	224	State Bank of India Gopalganj Sagar District Sagar Madhya Pradesh -470001
212	State Bank of India Kareli District Narsinghpur Madhya Pradesh -487221	225	State Bank of India Khamariya (Jhansighat) Tehsil Gotegaon District Narsinghpur Madhya Pradesh -487118
213	State Bank of India Civil Lines Sagar District Sagar Madhya Pradesh -470001	226	State Bank of India Banwari Village Branch Tehsil Gadawara District Narsinghpur Madhya Pradesh -487660
214	State Bank of India Deori District Sagar Madhya Pradesh -470226		
215	State Bank of India Regional Business office Sagar Shop No.9-18 Dwarkaji Complex Civil Lines, Sagar Madhya Pradesh -470001		

227	State Bank of India Khulari Village Branch District Narsinghpur Madhya Pradesh -481441	238	State Bank of India Dhana Sagar Main Road Dhana District Sagar Madhya Pradesh -470228
228	State Bank of India Semdhana District Sagar Madhya Pradesh -470120	239	State Bank of India Mandi Bamora Main Market Mandi Bamora District Sagar Madhya Pradesh -470111
229	State Bank of India Bada Bazar Sagar Chameli Chowk District Sagar Madhya Pradesh -470002	240	State Bank of India Hospital Road Gadarwara District Narsinghpur Madhya Pradesh -487551
230	State Bank of India Mahar Regimental Centre Sagar Cantonment District Sagar Madhya Pradesh -470001	241	State Bank of India SME Sagar Bhagwanganj Bhopal Road Sagar Madhya Pradesh -470001
231	State Bank of India BORL Shopping Complex Agasod Madhya Pradesh -470124	242	State Bank of India Sirchopi (BPSCL) Block No. FH 5/1 Bina Power Supply Co. Sirchopi District Sagar Madhya Pradesh -470113
232	State Bank of India Banda (Belai) District Sagar Madhya Pradesh -470335	243	State Bank of India Khimlasa Block Khurai District Sagar -470118
233	State Bank of India Makronia - Sagar Jabalpur Road Sagar Madhya Pradesh -470004	244	State Bank of India SCAB Sagar Civil Lines Khel Parisar Sagar Madhya Pradesh -470001
234	State Bank of India Rahatgarh Near Gas Agency Rahatgarh District Sagar Madhya Pradesh -461251	245	State Bank of India Kesli Village and Post Kesli District Sagar Madhya Pradesh -470235
235	State Bank of India Tendukheda Main Market Tendukheda District Narsinghpur Madhya Pradesh -487337	246	State Bank of India Gourjhamar Ward No. 1 Near Police Thana Sagar Tehsil Deori Madhya Pradesh -470223
236	State Bank of India Medical College Branch Sagar Shivaji Ward Road Sagar Madhya Pradesh -474002		
237	State Bank of India Shahpur (Ganeshgunj) Near CEO Office Shahpur District Sagar Madhya Pradesh -470693		

247 State Bank of India
Jaruwakheda
Bazar ward
Near Jain Mandir
Jaruwakheda
Madhya Pradesh -470115

248 State Bank of India
Gujrati Bazar
Sagar
Madhya Pradesh -470002

249 State Bank of India
Singhpur Chauraha
Narsinghpur
Shivaji ward
Main Road Kandeli
Narsinghpur
Madhya Pradesh -487001

250 State Bank of India
Station Road Bina
Bilgaiyan Ward
Station Road
Bina
District Sagar
Madhya Pradesh -470113

251 State Bank of India
RACPC
1st Floor
Main Branch Premises
Jabalpur
Madhya Pradesh -482001

252 State Bank of India
Administrative Office
Vijay Nagar
Jabalpur
Madhya Pradesh -482002

253 State Bank of India
CCPC
2nd floor
Zonal Office Premises
Vijay Nagar
Jabalpur
Madhya Pradesh -482001

254 State Bank of India
SMECC
SBI Main Branch Building
Civil Lines
Jabalpur
Madhya Pradesh -482001

255 State Bank of India
DAC
SBI Main Branch Campus
Civil Lines
Jabalpur
Madhya Pradesh-482001

256 State Bank of India
Main Branch Jabalpur
Civil Lines
District Jabalpur
Madhya Pradesh -482001

257 State Bank of India
Main Branch Rewa
Khanna Chauk
Rewa
District Rewa
Madhya Pradesh -486001

Zonal Office LUCKNOW

258 INDIAN BANK
Yamuna Vihar Branch,
B-1/3,
Yamuna Vihar
Delhi – 110053

259 State Bank of Patiala
Desh Bhagat University, Vill. Saunti, PO
Amloh, Distt. Fatehgarh Sahib-147203

260 State Bank of Patiala
Ward No.14, In front of Govt. Sr. Sec.
School Ground, Bus Stand Road, Behror –
301701, Distt. Alwar (Rajasthan)

261 State Bank of Patiala Village Aayad Nagar,
P.O. Babugarh Cantt.-245201, Tehsil &
Distt. Hapur, (Uttar Pradesh)

262 State Bank of Patiala
Near Bansal Departmental Store, Mohali –
Kharar Road, V. Mundi Kharar, PO Kharar –
140 301, Tehsil Kharar, Distt. SAS Nagar
(Punjab)

263 State Bank of Patiala Lucknow Kanpur
Highway, Village Bashiratganj (Sarai
Katiyan), P.O. Chamrauli - 209831, Tehsil &
Distt. Unnao, (Uttar Pradesh)

264 State Bank of Patiala PLOT NO. B, Harsha
City Mall, Shakti Khand-II, Indirapuram
201014

265 State Bank of Patiala, Door No. 5,
Palaniappa Street Opp. KMCH Speciality
Hospital, Erode -638009, Distt. Erode,
(Tamilnadu)

266 State Bank of Patiala 14295, Opp. Verma
Hospital, Bhatti Road, Bathinda - 151001,
Distt. Bathinda (Punjab)

267 State Bank of Patiala
Vill.& P.O. Patta Brawari-173207, Tehsil &
Distt. Solan, (Himachal Pradesh)

268	State Bank of Patiala Vill.& P.O. Ghanagughat, Tehsil Arki, Distt. Solan, (Himachal Pradesh), PIN – 171102	282	State Bank of Patiala Bir Road, Vill. Talkehr, P.O. Ahju-175032, Tehsil Joginder Nagar, Distt. Mandi, (Himachal Pradesh)
269	State Bank of Patiala Near Bus Stand, Baroutiwala Road, Marranwala, PO Nanakpur– 134 102, Tehsil Kalka, Distt. Panchkula, (Haryana)	283	State Bank of Patiala Delluana Road, V. & PO Akanwali – 151505, Tehsil Budhlada, Distt. Mansa (Punjab)
270	State Bank of Patiala 14, Ram Nagar, Near Electricity Board, Vill. Kansapur, PO Yamunanagar, Distt. Yamunanagar, (Haryana)	284	State Bank of Patiala Bakhtu Patti Road, V. & PO Kot Bakhtu – 151301, Tehsil Talwandi Sabo, Distt. Bathinda (Punjab)
271	State Bank of Patiala Near Reliance Tower, VPO Kharwan- 135003, Teh. Jagadhri, Distt. Yamunanagar, (Haryana)	285	State Bank of Patiala First Floor, Mini Secretariat, Biholi Road, Samalkha-132101, Distt. Panipat, (Haryana)
272	State Bank of Patiala 27446, Street No. 6-B, Main Road, Bathinda – 151001, Distt. Bathinda (Punjab)	286	State Bank of Patiala Plot No. 17, Delhi Road, Hasanpur Chungi Chowk, Saharanpur - 247001, Tehsil & Distt. Saharanpur, (Uttar Pradesh)
273	State Bank of Patiala Dabwali Road, Vill.& P.O. Pathrala – 151401, Distt. Bathinda (Punjab)	287	State Bank of Patiala Near Gole Puli, Main Road, Talab Tilo, Jammu- 180002, Tehsil & Distt. Jammu, (J&K)
274	State Bank of Patiala Satguru Overseas, Plot No. -C-165, Near Ganpati Tower, Panchsheel Nagar, Vaishali Nagar, Ajmer– 305004, Distt. Ajmer (Rajasthan)	288	State Bank of Patiala SCO No. 263, Sector 44-C, Chandigarh – 160044
275	State Bank of Patiala Ward No.2, Misserwala, Dehradun Road, Vill.& P.O. Doiwala – 248140, Tehsil Doiwala, Distt. Dehradun (Uttarakhand)	289	State Bank of Patiala # 91, Matharoo Market, Maloya- Chandigarh– 160025
276	State Bank of Patiala Maqsudan Chowk, Bye-Pass Road, (Maqsudan), Jalandhar – 144008, Distt. Jalandhar (Punjab)	290	State Bank of Patiala Dasuya Hoshiarpur Road, VPO Bhunga -144210, Teh. Dasuya, Distt. Hoshiarpur (Punjab)
277	State Bank of Patiala Near Royal Filling Station, Kala Amb Road, VPO Rasulpur-133204, Tehsil Bilaspur, Distt. Yamunanagar, (Haryana)	291	State Bank of Patiala Basti Nau, Jalandhar –144008, Distt. Jalandhar (Punjab)
278	State Bank of Patiala Vill.& P.O. Bhai Rupa - 151106, Distt. Bathinda (Punjab)	292	State Bank of Patiala V. & PO Jhoke Hari Har-152003 Teh. & Distt. Ferozepur (Punjab)
279	State Bank of Patiala Shop No.54, New Grain Market, Jind – 126 102, District Jind (Haryana)	293	State Bank of Patiala V. & PO Panjawa – 152024, Tehsil Malout, Distt. Muktsar
280	State Bank of Patiala Mohan Road, Vill.& P.O. Newalganj - 229881, Tehsil Hasanganj, Distt. Unnao, (Uttar Pradesh)	294	State Bank of Patiala Bathinda Road, Muktsar – 152026, Distt. Muktsar (Punjab)
281	State Bank of Patiala Near Grameen Hut Guru Nanak Dev Gurudwara, Jai Narayan Vyas Colony, Bikaner – 334001, Distt. Bikaner (Rajasthan)	295	State Bank of Patiala V. & PO Bajaura –175125, Tehsil Bhunter, Distt. Kullu, (Himachal Pradesh)
		296	State Bank of Patiala Ground Floor, V. Jaurbar (Ujhe), PO Tippi –177112, Tehsil Jaswan, Distt. Kangra, (Himachal Pradesh)

297	State Bank of Patiala VPO Takhtupura -142055, Teh. Nihalsinghwala, Distt. Moga (Punjab)	308	State Bank of Patiala Ahmedgarh-Khanna Road, Opp. Canal Karamsar, VPO Rara Sahib -141419 Tehsil Payal, Distt. Ludhiana
298	State Bank of Patiala VPO Kot Duna -148105, Distt. Barnala (Punjab)	309	State Bank of Patiala Main Khanna Road, Near Police Station, VPO Bardhalan - 141114, Tehsil Samrala, Distt. Ludhiana
299	State Bank of Patiala V. Karamgarh-148101 PO Barnala, Distt. Barnala (Punjab)	310	State Bank of Patiala Saini Market, Saini Senior Secondary School, Barara Road, Babain – 136156, Distt. Kurukshetra, (Haryana)
300	State Bank of Patiala Kirpal Towers, B19/645, Dandi Swami Road, Opposite Old DMC Hospital, Civil lines, Ludhiana – 141001, Distt. Ludhiana	311	State Bank of Patiala Main Road, VPO Saragthal, Tehsil Gohana, Distt. Sonapat, (Haryana)-131305
301	State Bank of Patiala 1339/7, Passi Chowk, Pakhowal Road, Opposite Housefeed Flats, Ludhiana – 141013, Distt. Ludhiana	312	State Bank of Patiala Near Gurudwara Sahib, V. & PO Bhurthala Mander, Tehsil Malerkotla, Distt. Sangrur (Punjab)148 023
302	State Bank of Patiala B-2/9, Gandhi Path, Chitrakoot Scheme, Vaishali Nagar, Jaipur-302021 Distt. Jaipur (Rajasthan)	313	State Bank of Patiala Luxmi Jindal Complex, Opposite Goyal Nursing Home, Kaithal Road, Cheeka-136034, Distt. Kaithal, (Haryana)
303	State Bank of Patiala M/s Sankhla Udyog, A-48, Marudhara Industrial Area Basni, Phase - II Jodhpur-342005 Distt. Jodhpur (Rajasthan)	314	State Bank of Patiala 101-B, Sandeep House, Tirupati Nagar, Phase-I, Virar (West) – 400103, Distt. Thane (Maharashtra)
304	State Bank of Patiala Rajeev Colony, Samaypur Road, Sector-58, Faridabad – 121004, Distt. Faridabad, (Haryana)	315	State Bank of Patiala Opp. Mill Gate, Opp. Mill Gate, Distt. Hisar (Haryana)
305	State Bank of Patiala Plot No. DSS-1&2, Police Line Area, Near Town Park, Hisar- 125001, Distt. Hisar , (Haryana)	316	State Bank of Patiala Opp. TCP Gate No. 2, P.O. Sat Road Kalan, Hisar Cantt. –125006, Distt. Hisar (Haryana)
306	State Bank of Patiala Malerkotla Road, Near Bus Stand, VPO Ikolaha -141414, Teh. & Distt. Ludhiana (Punjab)	317	State Bank of Patiala Pehowa-Kurukshetra Road, V. & PO Bhor Saidan – 136118, Distt. Kurukshetra (Haryana)
307	State Bank of Patiala Thakarwal Road, Village Kheri, PO Lalton Kalan-142022, Teh. & Distt. Ludhiana (Punjab)	318	State Bank of Patiala A-188 (A), Road No. 6D, VKI Area, Jaipur-302013 Distt. Jaipur (Rajasthan)

319	State Bank of Patiala MAIN ROAD, Opp.Gurudwara Saheb, Ding-125055, Distt. Sirsa (Haryana)	(RIICO), Bhamashah Mandi, Kota – 324005 (Rajasthan)
320	State Bank of Patiala Baba Complex, Meena Market, Dakwell, Phase-II, Bagru - 303 007, Tehsil & Distt. Jaipur (Rajasthan)	329 State Bank of Patiala B N M Complex, B.B. Road, Near Old RTO Office, Devanahalli – 562110,
321	State Bank of Patiala 24 No. Phatak, Near Patiala Cantt., Railway Station, Partap Nagar, Patiala – 147001, Distt. Patiala, (Punjab)	330 State Bank of Patiala Hall No. 2, Arihant Complex , Pataliya Hanuman Road, Padra – 391440,
322	State Bank of Patiala V. & PO Thua – 140417, Tehsil Rajpura, Distt. Patiala, (Punjab)	331 State Bank of Patiala Upper Ground Floor, S. No. 3,4, Adarash Sankul, National Highway-4, Khed (Satara) –415 003, Distt. Satara (Maharashtra)
323	State Bank of Patiala Money Shoppee, Nizam Palace, A.C. Bose Road, Kolkata-700020 (West Bengal)	332 State Bank of Patiala Mini Sectt., Sonapat Road, Gohana - 131301, Distt. Sonapat, (Haryana)
324	State Bank of Patiala Money Shoppe, 6, Gian Nagar, Jalandhar – 144001, Distt. Jalandhar (Punjab)	333 State Bank of Patiala RIICO Phase-III, Kher Road, Balotra – 344022, Tehsil Pachpadra, Distt. Barmer (Rajasthan)
325	State Bank of Patiala Eshwar Complex, Plot No. 3A-I of Jigani Industrial Area, Phase-II, Anekal Taluk, Bangalore – 560106,	334 State Bank of Patiala The Tribune Complex, Sector 29, Chandigarh – 160030
326	State Bank of Patiala SCO 9, Near Barrier, Peer Muchalla, Zirakpur – 140603, Tehsil Dera Bassi, Distt. SAS Nagar (Punjab)	335 State Bank of Patiala No. 28, Devaraj Urs Road, Mysore – 570001, Distt. Mysore, (Karnataka)
327	State Bank of Patiala Opp. Saini Atta Chakki, V.&PO Raipur Kalan – 160102, Chandigarh (UT)	336 State Bank of Patiala Near Jai Durga Commercial Plaza, Main Market, Selaqui – 248011, Tehsil Vikas Nagar, Distt. Dehradun (Uttarakhand)
328	State Bank of Patiala S-75, Inderprasth Industrial Area,	337 State Bank of Patiala V.&PO Sangrah–173023 Tehsil Sangrah, Distt. Sirmour (Himachal Pradesh)

338	State Bank of Patiala Vill. Bharwali Khurd, PO Khumano – 141801, Tehsil Khumano, Distt. Fatehgarh Sahib (Punjab)	345	State Bank of Patiala Shop No 4.5.6. Kanta Shrawan Palace, Bhel Jublee Gate to Ayodhya Bypass Road, Nizamuddin Road, District Bhopal
339	State Bank of Patiala V. Durana (Tika Bathed), PO DOLE –176210, Tehsil Jawali, Distt. Kangra,	346	State Bank of Patiala B-53/58, Ujagar Nagar, Opp. Urban Estate, Qadian Road, Batala - 143505,
340	State Bank of Patiala Main Bazar Sunhet, Kangra Road, V. Bhageen (Sunhet), PO Sunhet –177101, Tehsil Dehra Gopipur, Distt. Kangra, (Himachal Pradesh)	347	State Bank of Patiala 61-K, Nazafgarh Road, Adhayapak Nagar, Nangloi, Delhi – 110041
341	State Bank of Patiala Vill.&PO Khudda – 144305, Tehsil Dasuya, Distt. Hoshiarpur (Punjab)	348	State Bank of Patiala 724, Janakpuri, Ram Janki Mandir Road, Rajendra Nagar, Bareilly
342	State Bank of Patiala Gate No. 2, New Grain Market, KDB Road, Kurukshetra – 136 119, District Kurukshetra (Haryana)	349	State Bank of Patiala B37/84, Dugri Road, Jagdish Nagar, Near Canal Bridge, Dugri, Ludhiana
343	State Bank of Patiala Dwarka Express Way, Pataudi Road, Garhi Harsaru, District Gurgaon (Haryana)	350	State Bank of Patiala Adjoining Toor Hospital, Haibowal Road, Near Reliance Fresh, Ludhiana – 141001
344	State Bank of Patiala 13-A, Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti, Guru Nanak Path, Kelgiri Road, Malviya Nagar, District Jaipur (Rajasthan)	351	State Bank of Patiala Mini Sectt.,Sector – 1, Panchkula-134109
		352	State Bank of Patiala Judicial Complex, Distt. Courts, Gurdaspur-143521
		353	State Bank of Patiala Opposite Dana Mandi, Circular Road, Dera Baba Nanak – 143604

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय**(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)**

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2016

का.आ. 754.— केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा संस्थापित विशेष न्यायाधीश, सी.बी.आई. मामले गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के न्यायालय में एन.आर.एच.एम. समूह के मामलों अर्थात् आर.सी. 7(ए)/2013/एस.टी.एफ./दिल्ली तथा आर.सी. 11(ए)/2013/एस.टी.एफ./दिल्ली के अभियोजन तथा विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण या अपीलीय न्यायालय में अपील, पुनरीक्षण या उनसे उत्पन्न अन्य मामलों का संचालन करने के लिए श्री महेंद्र कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता को नियुक्त तिथि से 3 वर्ष तक या मामलों के निस्तारण तक, जो पहले हो, विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[फा. सं. 225/5/2015-एवीडी-II]

मो. नदीम, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel And Training)**

New Delhi, the 28th April, 2016

S.O. 754.— In exercise of the powers conferred by sub-section(8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No.2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Mahender Kumar, Advocate as Special Public Prosecutor for conducting cases RC.7(A)/2013/STF/DLI and RC.11(A)/2013/STF/DLI (NRHM Group of cases) instituted by Delhi Special Police Establishment in the Court of Special Judge, CBI Cases, Ghaziabad (Uttar Pradesh) and appeals/revisions or other matters arising out of the said cases in revisional or appellate courts established by law, for a period of three years from the date of appointment or disposal of the cases entrusted to the counsel, whichever is earlier.

[F.No. 225/5/2015-AVD-II]

Md. NADEEM, Under Secy.

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2016

का.आ.755.— 17.08.2006 को अधिसूचित मुख्य वैद्युत निरीक्षक और वैद्युत निरीक्षक की अर्हता, शक्ति और कार्य नियम, 2006 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा सीएमआरएल के निम्नलिखित अधिकारियों को इस अधिसूचना की तारीख से सीएमआरएल में उनके कार्यकाल तक, उपर्युक्त नियम में उल्लिखित अर्हता और शर्त को पूरा करने के अध्यक्षीन चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के लिए वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है:-

क्रम सं.	नाम	अर्हता	पदनाम	के रूप में नियुक्त किया जाना है
1	श्री एल. नरासिम प्रसाद	बी.ई. (ईईई)	निदेशक (एसएंडओ)	वैद्युत निरीक्षक
2	श्री एस. रामासुब्बू	बी.ई. (ईईई), एम.ई. (एनर्जी इंजी.) इत्यादि	मुख्य महाप्रबंधक	वैद्युत निरीक्षक

उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारी समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, सीएमआरएल के अधिकार वाले क्षेत्रों में प्रचालनाधीन वैद्युत

कार्यों, वैद्युत संस्थापनाओं तथा वैद्युत रोलिंग स्टॉक अथवा सीएमआरएल के नियंत्रणाधीन/सीएमआरएल से संबंधित कार्यों तथा वैद्युत संस्थापनाओं के संबंध में अधिकारों का प्रयोग करेंगे और अपना कार्य निष्पादित करेंगे।

सीएमआरएल यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त अधिकारी उन्हें, सीएमआरएल में वैद्युत अभियंता के रूप में दिये गये कार्यों के संबंध में वह वैद्युत निरीक्षक नहीं होंगे।

वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारी वह प्रशिक्षण लेंगे जिसे केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे तथा ऐसा प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के स्तर तक पूरा किया जाएगा।

[फा. सं. 42/5/2016 – आर एण्ड आर]

ज्योति अरोरा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 25th April, 2016

S.O. 755.— In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Qualifications, Powers and Functions for Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 notified on 17.8.2006, the Central Government hereby appoints following officers of CMRL as Electrical Inspector for Chennai Metro Rail Limited, from the date of this Notification till his tenure in CMRL, subject to fulfillment of the Qualification and Condition mentioned in the above Rule.

S. No.	Name	Qualification	Designation	Appointed as
1.	Sh. L. Narasim Prasad	B. E. (EEE)	Director (S&O)	Electrical Inspector
2.	Sh. S. Ramasubbu	B. E. (EEE), M. E. (Energy Engg.) etc.	Chief General Manager	Electrical Inspector

The above mentioned officers shall exercise the powers and perform his functions in respect of electrical works, electrical installations and electrical rolling stock in operation within the areas occupied by the CMRL or in respect of works and all electrical installations under the control of CMRL/belonging to CMRL as per the procedure provided in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time.

CMRL will ensure that above officers will not be the Electrical Inspector in respect of the work assigned to him as Electrical Engineer in CMRL.

The persons appointed as Electrical Inspector shall undergo such training as the Central Government may consider necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of the Government.

[F.No. 42/5/2016-R&R]

JYOTI ARORA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2016

का.आ. 756.— 17.08.2006 को अधिसूचित मुख्य वैद्युत निरीक्षक और वैद्युत निरीक्षक की अर्हता, शक्ति और कार्य नियम, 2006 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा एलएमआरसीएल के निम्नलिखित अधिकारियों को इस अधिसूचना की तारीख से एलएमआरसीएल में उनके कार्यकाल तक, उपर्युक्त नियम में उल्लिखित अर्हता और शर्त को पूरा करने के अध्यधीन लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के लिए मुख्य वैद्युत निरीक्षक/वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है:-

क्रम सं.	नाम	अर्हता	पदनाम	के रूप में नियुक्त किया जाना है
1	श्री सुशील कुमार, आईआरएसईई, 1991	बी.टेक. (इलैक्ट्रिकल)	सीईई	मुख्य वैद्युत निरीक्षक
2	श्री अरविंद कुमार सिंह	बी.टेक. (इलैक्ट्रिकल)	सीईई	
3	श्री प्रकाश चन्द्र राय, आईआरएसईई, 2000	बी.टेक. (इलैक्ट्रिकल) एम.टेक. (इलैक्ट्रिकल)	उप सीईई	वैद्युत निरीक्षक
4	श्री शैलेन्द्र कुमार*	बी.एससी. इंजी. (इलैक्ट्रिकल)	उप सीईई	

* जुलाई, 2014 से डीएमआरसी कार्यों के लिए डीएमआरसी में पहले ही ईआईजी हैं।

उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारी समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, एलएमआरसीएल के अधिकार वाले क्षेत्रों में प्रचालनाधीन वैद्युत कार्यों, वैद्युत संस्थापनाओं तथा वैद्युत रोलिंग स्टॉक अथवा एलएमआरसीएल के नियंत्रणाधीन/एलएमआरसीएल से संबंधित कार्यों तथा वैद्युत संस्थापनाओं के संबंध में अधिकारों का प्रयोग करेंगे और अपना कार्य निष्पादित करेंगे।

एलएमआरसीएल यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त अधिकारी उन्हें, एलएमआरसीएल में वैद्युत अभियंता के रूप में दिये गये कार्यों के संबंध में वह मुख्य वैद्युत निरीक्षक/वैद्युत निरीक्षक नहीं होंगे।

मुख्य वैद्युत निरीक्षक/वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारी वह प्रशिक्षण लेंगे जिसे केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे तथा ऐसा प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के स्तर तक पूरा किया जाएगा।

[फा. सं. 42/5/2016 – आर एण्ड आर]

ज्योति अरोरा, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th April, 2016

S.O. 756.— In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Qualifications, Powers and Functions for Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 notified on 17.8.2006, the Central Government hereby appoints following officers of LMRCL as Chief Electrical Inspector/Electrical Inspector for Lucknow Metro Rail Corporation Ltd, from the date of this Notification till his tenure in LMRCL, subject to fulfillment of the Qualification and Condition mentioned in the above Rule.

S. No	Name	Qualification	Designation	Appointed as
1.	Sh. Sushil Kumar, IRSEE, 1991	B. Tech (Electrical)	CEE	Chief Electrical Inspector
2.	Sh. Arvind Kumar Singh	B. Tech (Electrical)	CEE	
3.	Sh. Prakash Chandra Ray, IRSEE, 2000	B. Tech (Electrical) M. Tech (Electrical)	Dy. CEE	Electrical Inspector
4.	Sh. Shailendra Kumar*	B. Sc. Engg. (Electrical)	Dy. CEE	

* Already EIG in DMRC for DMRC works since July, 2014.

The above mentioned officers shall exercise the powers and perform his functions in respect of electrical works, electrical installations and electrical rolling stock in operation within the areas occupied by the LMRCL or in respect of works and all electrical installations under the control of LMRCL/belonging to LMRCL as per the procedure provided in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time.

LMRCL will ensure that above officers will not be the Chief Electrical Inspector/Electrical Inspector in respect of the work assigned to him as Electrical Engineer in LMRCL.

The persons appointed as Chief Electrical Inspector/Electrical Inspector shall undergo such training as the Central Government may consider necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of the Government.

[F.No. 42/5/2016-R&R]

JYOTI ARORA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

का.आ. 757.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एनएचपीसी लिमिटेड के तीस्ता “पावर स्टेशन, बालूटार, सिंगताम, पूर्वी सिक्किम: 737134 तथा सेवा-2 पावर स्टेशन, माशका, बसोहली, जिला-कठुआ, जम्मू एवं कश्मीर”, जिसके 80 प्रतिशत कर्मचारीवृंद ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतद्वारा अधिसूचित करती है।

[सं. 11017/10/2013-हिंदी]

डॉ. आर. सी. शर्मा, संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

New Delhi, the 26th April, 2016

S.O. 757.—In pursuance of Sub-Rule (4) of the Rule 10 of the Official Language (Use for Official purpose of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby “Teesta-V Power Station, Balutar, East Sikkim-737134 and Sewa-II, Power Station, Mashka (J&K)” of NHPC Ltd. under the administrative control of Ministry of Power, where 80% of the staff have acquired working knowledge of Hindi.

[No.11017/10/2013-Hindi]

Dr. R. C. SHARMA, Jt. Director (O.L.)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2016

का.आ. 758—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मकार के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद के पंचाट (संदर्भ सीजीआईटीए सं. 1066/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/192/1993-आईआर (डीयू)]

पी. के. वेणुगोपाल, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 13th April, 2016

S.O. 758—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (I.D Ref. CGITA No. 1066/2004) of the Central Government Industrial Tribunal Cum-Labour-Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of the Department of Telecommunication and their workmen, which was received by the Central Government on 12.04.2016.

[No. L-40012/192/1993-IR (DU)]

P. K. VENUGOPAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, AHMEDABAD

Present :

Binay Kumar Sinha,

Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,

Ahmedabad, Dated 4th March, 2016

Reference : (CGITA) No. 1066/2004

Reference : (ITC) No. 41/1997

1. The General Manager,
D/o. Telecom,

Amruta Estate,

Behind Girnar Cinema,

Rajkot-360001

2. The Asset Engineer (Cable),
D/o Telecom,

Rajkot

...First Party

And

Their Workman

Shri, Manusinh Jivansinh Parmar

Through the President,

Saurashtra Employees Union,

'Baba Ama' 10/5, Junction Plot,

Rajkot

... Second Party

For the First parties : Shri H. R. Raval, Advocate

For the second party : Shri B. B. Gogia, Advocate

AWARD

Under reference Order No. L-40012/192/93-IR(DU) New Delhi, dated 13.08.1997, the Central Government/Ministry of Labour referred the Industrial Dispute for adjudication to this Tribunal in respect of the matter specified in the Schedule :

SCHEDULE

“Whether the action of the management of the General Manager, Telecom, Rajkot through the Assistant Engineer Cable Dept. of Telecom, Rajkot in terminating the services of Shri, Manusinh Jivansinh Parmar is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to?”

2. Second Party workman Manusinh Jivansinh Parmar filed the statement of claim (Ext. 3) alleging that he was employed under the first party General Manager, Telecom Dept. from February 1984 to December 1984 with details as below :

From	To	MR No. Book No.	Total days	Worked under
Feb 84	March 84	18-72/28390	29	A. E. Cable Rajkot
Apr 84	May 84	15/102	50	- do -
June 84	Aug 84	6-9-13/102	109	- do -
Sep 84	Dec 84	19-29/02, 111	53	- do -
		Total Days	244	

Xerox copies of the aforesaid details also enclosed. From the aforesaid details, it can be said that he worked for more than 240 days in the last preceding 12 months at the time of termination of his service till December 1984. His services terminated by orally without serving any notice along with one month pay or without the retrenchment compensation required to be done under section 25 (F) of the Industrial Disputes Act, 1947 being the pre-requisite condition. He has further alleged that the workman junior to him were also allowed to work by the first party. He has further alleged that vide Order No. 269-53/87-STN dated 22.09.1989 issued by Assistant Director General, STN, Department of Telecom,

Ahmedabad he ought to have been given or reengaged as temporary employee. He further alleged that vide letter No. 269-4/93/STN-II dated 17.12.1998 issued by ADG (STN) DOT, New Delhi, he be given regularised which provides as under :

“The matter has further been examined in this office and it is decided that all these casual mazdoors who engaged by the circles during the period from 31.3.1985 to 22.6.88 and who are still continuing for such works in the circles where they were initially engaged and who are not absent for the last there than 365 days counting from the date of issue this order, be brought under the above said scheme.

The engagement of casual mazdoors after 30-3-85 in violation of the instruction of the Head quarter, has been viewed very seriously and it is decided that all past cases wherein recruitment has been made in violation of instructions of the Head quarter dtd. 30-3-85 should also be analysed and disciplinary action be initiated against defaulting officers.

It has also been decided that engagement of any casual mazdoors after the issue this order should be viewed very seriously and brought to the notice of the appropriate authority for taking prompt and suitable action. His should be the personal responsibility of the Head of circles concerned DE/Class II officers and amount paid to such casual mazdoors towards wages should be recovered from the person who has recruited engaged casual labour in violation of these instructions.

It is further stated that the services of all casual mazdoors who have not rendered at least 240 days (206 days in the case of Administrative offices observing 5 days a week) of service in a year on the date of issue of these orders, should be terminated following the conditions as laid down in I.D. Act, 1947 25-F of G&H.

This orders are issued with concurrence of member (Finance) vide UO No. 3811/93 FA-I dated 1-12-1993.”

3. It is further alleged that he has been dealt with arbitrarily in the matter of employment therefore, the impugned order of termination deserves to be quashed.
4. First party General Manager Telecom, Rajkot filed the written statement (Ext. 11) denied the allegation of statement of claim. In the written statement he has alleged that the application of the second party is barred by limitation. Departmental rules (list of showing periods of presentation of account records of (A) Divisional Telephone District and Stores and Factories Account Offices, and (B) Stores Branch and (C) Telecom Factories) permits the preservation of muster roll and register of muster only for 5 years. Hence, applicant/second party ought to have approached the proper forum within 5 years. Thus, the matter is time barred. Department Telecom is not industry, it is run by Ministry of Telecom., Union of India where the employees hold the office during the pressure of President of India. It is also submitted that Apex Court in Civil No. 7945 of 1997 arising out of SLP (C) No. 8509 of 1997 decided on 18.11.1997 GM Telecom, Guntur Vs. A. Shrinivas Rao held the department Telecom has is industry but that was not a correct law due the reasons given in the written statement. It is further alleged that the applicant workman left the job on his own accord and therefore, the provisions of section 25 of ID Act are not applicable. It is further alleged that applicant workman has not given any details of the casual labours junior to him who were retained or appointed as regular or permanent employees. It is further alleged that applicant workman has not given his source of income during last 8 years before come into Tribunal.
5. It is noteworthy that the second party was died on 16.04.2001 therefore, his legal heirs were substituted in his place.
6. As the workman second party Manusinh Jivansinh Parmar died on 16.04.2001 therefore his wife Ranjanben Manusinh Parmar was examined as witness who in his affidavit (Ext. 26) supported the averments of the statement of claim but while being cross examined she express ignorance regarding the details of the service of her husband as well as other relevant matters.
7. On behalf of the first party Shri Jayantilal, Divisional Engineer, BSNL, Rajkot was examined who stated that the second party workman Manusinh Jivansinh Parmar worked in the bsnl as casual labour his services were not regularized. Second party Manusinh Jivansinh Parmar worked only for 195 days in the department. Regulation is done on the availability of the post. In his cross examination, he stated that no notice was issued for termination of service as being not required. He expresses the ignorance regarding the retention of any workman junior to the second party. He also express ignorance regarding the preparation of seniority list.
8. I heard the arguments of both the parties. Learned counsel for the first party referred Shalimar Works Ltd. Vs. Workman 1959 AIR (SC) 1217 wherein Apex Court held that though no limitation period is described for making reference in the industrial dispute. He further referred Prabhakar Vs. Joint Director Sericulture Department, 2016 LLR SC wherein it has been held as under :

“We may hasten to clarify that in those cases the court finds that dispute still existed, though raised belatedly, it is always permissible for the court to take the aspect the aspect of delay into consideration and mould the relief.

In such cases, it is still open for the court to either grant reinstatement without back wages or lesser back wages or grant compensation instead of reinstatement. We are of the Opinion that the law on this issue has to be applied in the aforesaid perspective in such matter.

To summarise, although there is no limitation prescribed under the Act for taking a reference under Section 10(1) of the Act, yet it is for the 'appropriate Government' to consider whether it is expedient to not to make the reference. The words 'at any time' used in Section 10(1) do not admit of any limitation in making an order of reference and laws of limitation are not applicable to proceedings under the Act. However, the policy of industrial adjudication is that very stale claims should not be generally encouraged or allowed inasmuch as unless there is satisfactory explanation for delays as, apart from the entertainment of claims after long lapse of time, it is necessary also to take into account the unsettling effect which it is likely to have on the employers' financial arrangement and to avoid dislocation of an industry.

9. He has further referred BSNL Vs. Presiding Officer, CGIT, Civil Application No. 10433 of 2001 wherein Gujarat High Court observed as under :

"I am of the opinion that the Tribunal below has not only entertained a stale claim without any explanation for the delay but, has also erred in deciding the reference or presumption and conjectures. As recorded hereinabove, the claim made by the workman was required to be rejected on the ground delay alone. Moreover, on evidence also the workman failed to prove that his service was terminated in the year 1991 as alleged. In absence of proof of alleged termination of service, no order for reinstatement in service could have been made in favour of the workman.

10. He has further referred Sanjivani Hospital Vs. Surat Labour Union and Another, Special Civil No. 13522 of 2015 wherein Gujarat High Court observed as under

"(i) the appropriate Government would not be in making a reference under section 10 of the Act without satisfying itself on the facts and circumstances brought to its notice that an industrial dispute exists or apprehended and if such a reference is made it is desirable, wherever possible, for the Government to indicate the nature of dispute in the order of referred;

(ii) the order of the appropriate Government making a reference under section 10 of the Act is an administrative order and not a judicial or quasi-judicial one and the court, therefore, cannot canvass the order of the reference closely to see if there was any material before the Government to support its conclusion, as if it was a judicial or quasi-judicial;

(iii) an order made by the appropriate Government under section 10 of the act being an administrative order no lis is involved as such an order is made on the subjective satisfaction of the Government;

(iv) If it appears from the reasons given that the appropriate Government took into account any consideration irrelevant or foreign material, the court may in a given case consider the case for a writ of mandamus; and

(v) it would, however be open to a party to show that what was referred by the Government was not an industrial dispute within the meaning of the Act."

"In view of the this court, if the case of the workman was bona-fide, he would not have accepted his retirement dues in the year 2005. Further if his case is accepted as it is, then also he should have agitated at least before July, 2007, the month which according to the workman he should have retired. It is not in dispute that he did not do anything till the year 2011. It is this delay which should operate against the workman in these facts.

In view of the above proposition of law and the facts noted above, this court finds that the reasoning adopted by the labour court is unsustainable since the case of the workman himself was to the effect that he ought to have been continued in service till 05.07.2007, and he raised this dispute in the year 2011. In view of this delay on the part of the workman, the dispute ceased to be a live dispute when it was raised. No relief could have been granted to the workman. The impugned award therefore needs to be quashed and set aside."

- (i) I considered the arguments of learned counsels of both the parties, it is noteworthy that the workman was terminated in December 1984 and kept himself unconcerned with the so called industrial dispute till date 13.08.1997 i.e. for 12 years. Workman has not been alive to state the reasons as to why he did not challenge the termination for 12 years. It is also noteworthy that it is unreasonable to expect from the first party to keep all the records for 12 years. The wife of the workman has not also explained as to how she or her husband survived in the absence of any job. Thus in the light of the aforesaid judgments and discussions, matter is stale and beyond time. The second party has also failed to prove that the second party workman worked for more than 240 days preceding year of termination of his service. In this case, if I believe the statement of claim then the workman worked for 244 days in the year 1984. In this case, the preceding year must be 1983 or April 1983 to

March 1984 wherein he appears to have worked for 29 days. Thus, in the circumstance of the case, the second party has failed to prove his case and therefore, the reference deserves to be dismissed.

The reference is dismissed.

PRAMOD KUMAR CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2016

का.आ. 759.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उत्तर रेलवे के प्रबंधन के संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, लखनऊ के पंचाट (संदर्भ सं. 33/2011) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-41011/102/2010-आईआर (बी-1)]

रणबीर सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 21st April, 2016

S.O. 759.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 33/2011) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Lucknow as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Northern Railway and their workmen, received by the Central Government on 21.04.2016.

[No. L-41011/102/2010-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, LUCKNOW

PRESENT : RAKESH KUMAR, Presiding Officer

ID No. 33/2011

Ref. No. L-41011/102/2010-IR(B-I) dated: 14.03.2011

Between :

Mandal Sangthan Mantri
Uttar Railway Karmchari Union
283/63 Kh, Garhi Kananora (Premwati Nagar)
PO – Manak Nagar
Lucknow – 16.

(Espousing cause of Sri Om Prakash)

AND

Senior Divisional Railway Manager (Personnel)
Northern Railway, Hazratganj
Lucknow

AWARD

1. By order No. L-41011/102/2010-IR(B-I) dated: 14.03.2011 the Central Government in the Ministry of Labour, New Delhi in exercise of powers conferred by clause (d) of sub section (1) and sub section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) referred this industrial dispute between Mandal Sangthan Mantri, Uttar Railway Karmchari Union, 283/63 Kh, Garhi Kananora (Premwati Nagar), PO – Manak Nagar, Lucknow and Senior Divisional Railway Manager (Personnel), Northern Railway, Hazratganj, Lucknow for adjudication to this CGIT-cum-Labour Court, Lucknow.

2. The reference under adjudication is:

Whether The Demand Of The Union Regarding Placing Shri Om Prakash s/o shri rameshwar Dayal, assistant loco pilot, LOCO-SHED, LUCKNOW IN THE PENAL OF 1983-84 ABOVE HIS JUNIORS

AND GRANT OF PAY BENEFITS ACCORDINGLY IS LEGAL AND JUSTIFIED? TO WHAT RELIEF THE UNION IS ENTITLED?"

3. The case of the workman's union, in brief, is that the workman, was appointed as cleaner w.e.f. 20.11.1978 and worked as such till 03.09.1981 continuously, when he had been retrenched w.e.f. 04.09.1981 illegally. The workman challenged his retrenchment before CGIT-cum-Labour Court, Kanpur in I.D. No. 48/83 and 163/1983 and the Tribunal was pleased to reinstate the workman with back wages from the date of retrenchment vide their award dated 19.02.1987 and 25.11.1985. The management challenged the award of CGIT, Kanpur before Hon'ble High Court, which was rejected; likewise the SLP too before Hon'ble Apex Court was rejected; accordingly, the workman was reinstated on 03.08.1983. It is alleged that the management vide its order No. 220 E/1-5/Screening/ Loco dated 30.08.1991 regularized the workman on the post of Loco Cleaner; whereas it absorbed other junior workmen in the panel for the year 1983-84 on the basis of 120 days working up to 30.09.81, which is in violation to the provisions of Railway Rules. It is submitted by the workman's union that Shri Amarjeet Singh & Sri Abdul Aziz were also included in the panel for year 1992 but later on included in the panel of year 1983-84 on the orders of Hon'ble CAT, Lucknow. Likewise, other workmen viz. Sri Pratap Bahadur & Ahmad Ali, who were earlier included in panel for the year 1992 were included in the panel for year 83-84 as per order of this Tribunal. Accordingly, the workman's union has prayed that the name of the workman, be included in the panel of the year 83-84 which consequential benefits.
4. The management of the railways has filed its written statement, denying the claim of the workman's union and has contended that the workman's union has sought the relief regarding placing the name of the workman in the panel of year 1983-84, which is not permissible because of the seniority of other employees will be effected and they are not arrayed as party in present industrial dispute and if the relief is granted, several other workers may prefer the matter in courts since their seniority shall be affected. The management has specifically submitted that the industrial dispute has been referred after lapse of more than 25 years without any rhyme or reason or any sufficient explanation; and accordingly, the same is liable to be rejected on the point of limitation.
5. The workman's union has filed its rejoinder wherein apart from reiterating facts already mentioned in the statement claim has submitted that there is no limitation provided in the industrial disputes Act, 1947.
6. The parties filed documentary as well as oral evidence in support of their respective case and forwarded oral arguments.
7. Heard learned authorized representatives of the parties at length and perused entire evidence on record.
8. The authorized representative of the workman has contended that since the termination dated 04.09.81 has been held illegal and the workman had been reinstated with consequential benefits, therefore he is entitled for inclusion in the panel of year 1983-1984. He has relied upon:

(i) *N. Balakrishnan vs. M. Krishnamurthy 1998 ACJ 1347.*
9. In rebuttal, the authorized representative of the management has contended that the workman was screened and rightly placed in the seniority panel vide order dated 30.08.1991. The management has vehemently contended that the workman is not entitled to be included in the panel for the year 1983-84, inasmuch as the present industrial dispute is time barred and the workman has raised this industrial dispute when he found that some other workmen got benefit from different Court/Tribunals. The management has relied on:

(i) *M. Ramakotaiah & others vs. Union of India & others 2007 (6) AWC 6556 (SC).*
10. I have given my thoughtful consideration to the rival contentions of the learned authorized representatives of the parties and scanned the entire evidence available on record.

11. Admittedly, the workman had been terminated w.e.f. 04.09.1981 and his termination had been declared to be illegal and was reinstated with back wages by the CGIT-cum-Labour Court, Kanpur. Also, the Hon'ble High Court in writ petition, filed by the management of railways, upheld the award regarding reinstatement and the management in compliance of award reinstated the workman and paid him back wages. However, the management's contention over the issue referred to this Tribunal is, that the workman was screened and was rightly placed in the seniority panel for 1991 and he is not entitled for inclusion in the panel for year 1983 as he was not in service at that point of time; more so because the present industrial dispute has been raised after lapse of more than 25 years.

12. Thus, the question to be adjudicated is as to whether the workman is entitled to be included in the seniority panel of 83-84, which was denied to him, consequent upon his termination in the said year? It is admitted fact that the workman was not in service due to illegal termination in the relevant year 1983, when the seniority panel was drawn and his name was not considered. The termination of the workman was quashed by the CGIT-cum-Labour Court, Kanpur and in compliance thereof the management reinstated the workman, treating the termination as non-est and paid back wages in compliance of the order of the Hon'ble High Court.

As per award of the CGIT-cum-Labour Court, Kanpur, the reinstatement order was not qualified one to be given effect to the extent of monetary benefits only. As per settled procedure, logically and legally reinstatement required grant of all service benefits including seniority as if the termination had not taken place. The management complied with the order of reinstatement without giving seniority and released monetary benefits to the workman. On the quashing of termination order, it has to be assumed that the workman was never been terminated and continued to be in service notionally. The effect of the reinstatement is that the workman, would be deemed in service on the last post held on the date of termination. Accordingly, he is entitled for preference over his juniors and to be included in the seniority panel for the year 1983-1984.

13. The management of the railways has come up with a contention that the present industrial dispute is time barred as it has been raised after lapse of more than 25 years. The workman's witness during his cross-examination stated that he moved an application before the management; but has not filed its copy before this Tribunal. The authorized representative of the management has contended that the workman has not given any reliable explanation for inordinate delay of 25 years; rather he turned up when the other got successful. He stressed that the order of the Hon'ble CAT, Lucknow Bench, Lucknow in respect of Amarjeet Singh was delivered on 26.04.1993; but the workman has raised present industrial dispute in 2011, without any explanation.

14. The management has relied upon *N. Balakrishnan vs M. Krishnamurthy* 1998 ACJ 1347; wherein Hon'ble Apex Court while dealing with the matter of delay has observed that length of delay does not matter, acceptability of the explanation is the only criterion.

In *Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board & others vs T.T. Murali Babu* 2014 (141) FLR 772, Honble Apex Court has observed as under:

"The Court should bear in mind that it is exercising an extraordinary and equitable jurisdiction. As a Constitutional Court it has a duty to protect the rights of the citizens but simultaneously it is to keep itself alive to the primary principle that when an aggrieved person, without adequate reason, approaches the Court at his own leisure or pleasure, the Court would be under legal obligation to scrutinize whether the lis at a belated stage should be entertained or not. Be it noted, delay comes in the way of equity. In certain circumstances delay and laches may be fatal but in most circumstances inordinate delay would only invite disaster for the litigant who knocks at the doors of the Court. Delay reflects inactivity and inaction on the part of a litigant – a

litigant who has forgotten the basic norms, namely, “procrastination is the greatest thief of time” and second, law does not permit one to sleep and rise like a phoenix. Delay does bring a hazard and causes injury to the lis. In the case at hand, though there has been four years’ delay in approaching the Court, yet the writ Court chose not to address the same. It is the duty of the Court to scrutinize whether such enormous delay is to be ignored without any justification. ”

Further, in *Dr. Jawahar Lal Rohatgi Memorial Eye Hospital vs State of U.P. & others 2013 (138) FLR 11* Hon’ble Allahabad High Court upholding the action of the State Government in denying the making reference of case after 22 years held that it is not expedient for State government to refer against order of termination dated 26.6.1982 being old and stale case, where the workman filed an application raising industrial dispute after 22 years in 2004. Hon’ble High Court observed that there is nothing to indicate as to why the workman could not approach the authority under the ID Act. On the issue of delay the workman has tried to explain his delay by pleading that he kept on making representations before the authorities; but in the absence of any copy thereof his contention cannot be relied upon. There is no other explanation about delay.

Thus, from the face of record it is crystal clear that the workman did not bother to approach the management or any legal forum for redressal of his grievances for more than 20 years; and he approached this Tribunal when he come to know about favourable order of the courts in similar nature of cases, which points out towards opportunism of the workman. Moreover, the explanation forwarded by the workman’s union before this Tribunal is insufficient.

15. In the present case, admittedly there is delay of approximately 20 years as he was screened vide order dated 30.08.1991. The workman’s union failed to give any logical explanation for this inordinate delay of 20 years. Hon’ble Apex Court in *Ajaib Singh vs. Sirhind Co-operative Marketing-cum-Processing Services Society Ltd. & another 1999 LAB IC 1435* where there was admitted delay of seven years has held that the Court can mould relief by refusing back wages or directing payment of part of back wages.

16. Thus, from the facts and circumstances of the case and the case laws cited hereinabove, I am of considered opinion that the action of the management of Central Railway in not including the name of the workman in the panel for year 83-84 was illegal and unjustified. Accordingly, I come to the conclusion that the workman, Sri Om Prakash is entitled for placement in the panel of 1983-1984 above his juniors, subject to his suitability under Rules. He shall be entitled to services benefits under Rules; however, he would be liable for payment of only 1/3rd of back wages, in view of delay in raising the present industrial dispute.

17. The reference under adjudication is answered accordingly.

18. Award as above.

LUCKNOW

29th December, 2015

RAKESH KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2016

का.आ. 760.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बीबीसीएल के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 2, धनबाद के पंचाट (संदर्भ सं. 31/2014) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/58/2014-आईआर (सीएम-1)]

एम. के. सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 25th April, 2016

S.O.760 .— In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Dhanbad (Ref. No. 31 of 2014) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workmen, which was received by the Central Government on 25.04.2016.

[No. L-20012/58/2014-IR(CM-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.2), AT DHANBAD

PRESENT :

Shri Kishori Ram, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947

REFERENCE NO 31 OF 2014

PARTIES : Shri Dheeraj Beldar,
Ex.M/Loader, At Durga Mandir Godhur,
PO: Kusunda, Dhanbad-828116.

Vs.

The General Manager,
P.B.Area of M/s BCCL,
P.O.Kusunda, Dhanbad.-828116

Order No. L-20012/58/2014-IR (CM-I) dt.19.06.2014.

APPEARANCES :

On behalf of the workman/Union : Mr. Pintu Mandal, Union Representative

On behalf of the Management : Mr.N .M. Kumar, Ld. Advocate

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 16th Oct., 2015

A W A R D

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Sec.10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/58/2014-IR (CM-I) dt.19.06.2014.

SCHEDULE

“Whether the action of the Management of P.B.Area of M/s BCCL in dismissing Sr Dheeraj Beldar, Ex-M/Loader of Pootki colliery of BCCL from the services vide letter dated 08.05.2004 is fair and justified? To what relief the concerned workman is entitled to?”

On receipt of the Order No. L-20012/58/2014-IR (CM-I) dt.19.06.2014 of the above mentioned reference from the Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi for adjudication of the dispute, the Reference Case No. 31 of 2014 was registered on 01.07.2014 and accordingly an order to that effect was passed to issue notices through the Registered Posts to the parties concerned, directing them to appear in the Court on the date fixed, and to file their written statements along with the relevant documents. In pursuance of the said order, notices by the Registered Posts were sent to the parties concerned.

Both the parties made their appearances and filed their pleadings and photocopies of their documents. The Union Rep. /Petitioner and the O.P./Management through their own Ld. Rep. /Counsel respectively appeared and contested the case.

2. This Reference case relates about dismissal of the delinquent workman Shri Dhiraj Beldar, Ex M. Loader of Putki Colliery of M/s BCCL. The whole episode of the issue is as follows: that the workman had gone to his native village and fell in serious illness and thus he started absenting from his duty. Though his family members kept the Management informed about of his illness. As claimed. during the period of his illness he was not served a charge- sheet, so question of reply to the said charge-sheet does not arise . The workman further stated that the

Management deliberately and purposefully served the charge-sheet on his old address. Even the Management went ahead to hold domestic enquiry in the aftermath of undelivered charge-sheet which also drew flak. The Enquiry Officer had sent two Enquiry Notices; the workman flatly denied having received to, as both the Notices were sent to his old address. The Enquiry was conducted as Ex-parte holding the workman the guilty for the charges levelled against him without any efforts to serve the notices and charge-sheet as well. The workman alleged that the whole enquiry was marred as vitiated in laws as he (workman) was not given opportunity to rebut the allegations. The Disciplinary Authority in a prejudiced and biased attitude just to getting rid of the applicant was bent upon to dismiss him from service. Though the workman's appeal against the dismissal to the C.M.D and G.M. (P), Koyla Bhawan concerned was also turned down. The documents as relied upon by the Management was actually not supplied to the workman as stated by the workman in his WS. So the enquiry is itself is illegal and thus is liable to be set aside.

Whereas it holds against the fact, as stated by the Management, denying categorically all the allegations of the workman, that the charge sheet was framed taking the workman taking into his past attendance into accounts, asked him to come out with a reply within seven days under clause 26.1.1 of the Certified Standing order of the Company which went unresponsive nor did the workman participate in enquiry constituted after no receipt of the said explanation from the workman. In the said Enquiry the workman was held guilty of the charges brought upon him with supporting full enquiry proceedings with documents. Even the 2nd show Cause Notice which was also sent to the workman remained unresponsive. So the enquiry is fair and justified and nothing sort of violation of the natural justice as the workman enjoyed the full opportunity to defend the case in a transparent way.

There is nothing new so long as it concerned to Group of the Collieries under M/s BCCL Management, a part of the Coal India Ltd., where numerous cases of dismissal on such grounds may be observed piling up. Undeniably the workmen usually are afraid of stepping into the underground Mines due to safety hazards and unhealthy conditions, surrendering around the site despite safety mechanism in place. Workers being mostly illiteracy backgrounds prefer resorting to proceed on leave under the plea of absentism rather to apprise the Management of bare facts/ordeal, they face, and to take the Management into confidence breaching the trust between the Employer and –Employee relationship. Though allegations and counter allegations by the both the parties respectively are set to be logical in its form. The workman concerned had all along been unblemished track record of service and nothing adverse found barring this one. The punishment imposed to the misconduct against the workman shielding under the name of penalty is too harsher to bear with.

As such there is nothing improper and wrong-doings and unjust if workman concerned who needs breather, be provided one more opportunity by offering him fresh appointment in the lowest Grade. Therefore it is ordered that the worker concerned be appointed as a fresh in the lowest Grade-I with two-year period on probation.

R. K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2016

का.आ. 761.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एअर इंडिया के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ सं. 39/2013) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-11012/52/2010-आईआर (सीएम-1)]

एम. के. सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 25th April, 2016

S.O.761 .— In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad (Ref. No. 39 of 2013) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Air India and their workmen, which was received by the Central Government on 25.04.2016.

[No. L-11012/52/2010-IR(CM-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT
HYDERABAD****Present :** Sri Muralidhar Pradhan, Presiding OfficerDated the 5th day of April, 2016**INDUSTRIAL DISPUTE No. I.D. 39/2013****Between:**

The Regional Secretary,
Air Corporations Employees' Union,
Indian Airlines Ltd.,
Hyderabad – 500 016

...Petitioner

AND

1. The Executive Director(South),
Air India, NACIL,
Airlines House, Meenambakkam,
Chennai – 600 017.
2. The Station Head/General Manager(Engg),
Air India, NACIL,
Begumpet, Hyderabad-500016.
3. The Dy. General Manager(Finance),
Air India, NACIL,
Begumpet, Hyderabad -500 016

...Respondents

Appearances:

For the Petitioner : None

For the Respondent : M/s. K. Srinivasa Murthy, V. Uma Devi & N. Srinivas, Advocates

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-11012/52/2010-IR(CM-I) dated 7.3.2013 referred the following dispute between the management of Air India, NACIL, and their workman under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal. The reference is,

SCHEDULE

“Whether the action of the management of National Aviation Company of India Ltd., Hyderabad by deducting the wages of Sri G. Rajkumar and thirty other workmen is legal and justified? To what relief are the concerned workmen entitled to?”

The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 39/2013 and notices were issued to the parties concerned.

2. The case stands posted for filing of claim statement and documents by the Petitioner.
3. In spite of service of notices to the address of the Petitioner Union given in the reference order, returned unserved with the endorsement that ‘office is closed’. In the circumstances there is no option but to close the case as there is nothing on record to proceed with. Hence, a ‘No dispute’ award is passed.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant, corrected by me on this the 5th day of April, 2016.

MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2016

का.आ. 762.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 2, धनबाद के पंचाट (संदर्भ सं. 32/2014) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/56/2014-आईआर (सीएम-1)]

एम. के. सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 25th April, 2016

S.O. 762.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Dhanbad (Ref. No. 32 of 2014) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workmen, which was received by the Central Government on 25.04.2016.

[No. L-20012/56/2014-IR(CM-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.2), AT DHANBAD

PRESENT : Shri R.K.Saran, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D.Act., 1947.

REFERENCE NO. 32 OF 2014

PARTIES : : The Secretary,
Jharkhand Janta Mazdoor Union,
Viswakarma Colony, Nutandih
P.O. Jajivan Nagar, Dhanbad -826003.
Vs.

The General Manager,
Bastacolla Area of M/s BCCL,
Jharia, Dhanbad.828111

Order No. L-20012/56/2014-IR (CM-I) dt. 23.06.2014

APPEARANCES :

On behalf of the workman/Union : Mr. Pintu Mandal, Union Rep.

On behalf of the Management : Mr. U.N. Lal, Ld. Advocate

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 15th Mar. 2016

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Sec.10(1)(d) of the I.D. Act.,1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No.L-20012/56/2014-IR (CM-I) dt. 23.06.2014.

SCHEDULE

“Whether the action of the Management of East Bhagatdih Colliery of M/s BCCL in dismissing Sri Barun Rajwar from the services of the Company vide order dated 25/27.12.2002 is justified and fair? To what relief the concerned workman is entitled to?”

On receipt of the Order No. L-20012/56/2014-IR (CM-I) dt. 23.06.2014 of the above mentioned reference from the Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi for adjudication of the dispute, the Reference Case No. 32 of 2014 was registered on 04.07.2014 and accordingly an order to that effect was passed to issue notices through the Registered Posts to the parties concerned, directing them to appear in the Court on the date fixed, and to file their written statements along with the relevant documents. In pursuance of the said order, notices by the Registered Posts were sent to the parties concerned.

Both the parties made their appearances and filed their pleadings and photocopies of their documents. The Union and the O.P./Management through their own respective Representative /Ld. Counsel appeared respectively, and contested the case.

2. The Reference case deals with the dismissal of the workman Barun Rajwar, as stated in the W.S., who was an employee of the East Bhagatdih Colliery bearing Personnel No. 02940047 as M/Loader enjoying unblemished service record with full confidence of Higher Ups of the Management. The workman suddenly became sick and reported to the Management of his sickness. But after recovery when he approached for resumption of duty, the Management did not let him join the service but issued a charge-sheet for misconduct of absentism according to 26.1.1. of the Certified Standing Order of the M/s. BCC, L a bye-laws of the Company. Though the workman replied to the charge sheet. But not convinced with reply, the Management stepped up with an enquiry that did not consider the contention of the workman marred with violation of the natural justice, nor did the workman was provided ample to defend his case. Ultimately the Project Officer, East Bhagatdih Colliery of M/s. BCCL illegally dismissed the workman as he is not the Competent Authority as stated on the W.S. by the workman side. Though the workman appeal to the Management was set aside.

Contrary to the fact, categorically denying all the allegations as stated by the workman in his W.S., the Management asserted that the matter, in issue, was taken up by the Union concerned before the ALC@, Dhanbad for conciliation with making availability of the full facts etc. followed with documents by the Management to convince whatsoever actions felt imperative was taken as the Management still standby the action of dismissal. The Disciplinary Authority issued the Charge sheet under the Clause of 26.1.1. of the Certified Standing Order of the company seeking workman's reply allowing one-week time. The Disciplinary Authority also maintained the Enquiry was held mainly to go to the bottom of the facts of the issue providing the workmen sufficient opportunity to come out in his self defence. After enquiry, the Enquiry Officer submitted report which was gone through by the Disciplinary Authority who issued the workman 2nd charge sheet but the same was found unsatisfactory. Ultimately the Disciplinary Authority decided to impose the penalty of the dismissal from service, taking into his past record of meager attendance in account. Post dismissal neither the workman preferred any appeal nor did represent to the Competent Authority concerned. So there is nothing short of violation of the natural justice, as alleged by the workman.

So the event like this does not gain much significance as nothing unusual, and unprecedented like in it. Simultaneously to ease out of the Industrial unrest in principle, the Tribunal always shares of view of having a second thought before imposing harsher penalty rather ushering a new chapter for reform, as they are ultimately backbone of the production and always roped in with country mainstream and rather very prone to deadly diseases owing to unhygienic conditions around them and risk involvement associated with the tedious job, assigned of. So the move will not be called improper and wrongdoing if the workman concerned be taken as a fresh employee in the lowest grade but without back wages whatsoever. Thus, it is being ordered for employment of the workman concerned as fresher in lowest Grade-I, but without back wages, whatsoever under probation for two years treating from date, he joins.

R. K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2016

का.आ. 763.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 2, धनबाद के पंचाट (संदर्भ सं. 120/2013) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/18/2013-आईआर (सीएम-I)]

एम. के. सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 25th April, 2016

S.O. 763.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Dhanbad (Ref. No. 120 of 2013) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workmen, which was received by the Central Government on 25.04.2016.

[No. L-20012/18/2013-IR(CM-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.2), AT DHANBAD****PRESENT : Shri R.K. Saran, Presiding Officer**

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947.

REFERENCE NO. 120 OF 2013

PARTIES: : The Secretary,
Jharkhand Janta Mazdoor Union,
Vishwakarma Colony, Nutandih,
PO: Jagjivan Nagar, Dhanbad -826003

Vs.

The General Manager,
P.B. Area of M/s. BCCL
PO: Kusunda, Dhanbad.828116

Ministry 's Order No. L-20012/18/2013-IR(CM-I) dt.20.05.2013

APPEARANCES :

On behalf of the workman/Union : Mr. Pintu Mandal, Union Rep.

On behalf of the Management : Mr. S. N. Ghosh, Ld. Adv.

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 10th March 2016**AWARD**

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Sec.10(1)(d) of the I.D. Act.,1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/18/2013-IR (CM-I) dt.20.05.2013.

SCHEDULE

“Whether the action of the Management of 5/6 Pits Colliery under P.B. Area of BCCL in dismissing Sri Dulal Mahato, Ex. M/Loader from the services of the Company vide order dated 10.12.1996 is fair and justified? To what relief the concerned workman is entitled to?”

On receipt of the Order No. L-20012/18/2013-IR (CM-I) dt.20.05.2013 of the above mentioned reference from the Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi for adjudication of the dispute, the Reference Case No. 120 of 2013 was registered on 12.06..2013 and accordingly an order to that effect was passed to issue notices through the Registered Posts to the parties concerned, directing them to appear in the Court on the date fixed, and to file their written statements along with the relevant documents. In pursuance of the said order, notices by the Registered Posts were sent to the parties concerned.

Both the parties made their appearances and filed their pleadings and photocopies of their documents. The Union/Petitioner and the O.P./Management through their own Ld. Rep./ Counsel respective appeared, and contested the case

2. This Industrial Reference Case deals with dismissal from service of the workman Dulal Mahato who was a permanent employee at K B 5/6 Pits Colliery of P.B. Area of M/s. BCCL as M/Loader .As alleged in the WS., the workman was slapped charge sheet on ground of the absentism for remaining absent for prolonged periods and subsequently, in the run up of dismissal, the domestic enquiry was conducted to probe the reasons behind his absentism and at last found him guilty. Management's stand was that the workman confessed himself having committed misconduct of absentism is something that was also figured out in its plea of W.W.-cum-rejoinder alleged by the Management. The Disciplinary Authority based on the findings of the enquiry dismissed the workman from the service straightway. Not convinced with the action, the workman represented to the Management but to no avail. Management also pleaded to have exhausted all channel of avenues of proceedings before arriving to the decision of dismissal giving the workman full opportunity as natural justice to come out in his defence but he appeared failure . Contrary to these all facts , workman pleaded that he had not been provided opportunity to defend his case nor even had the Second Show Cause been served upon him, which he amounted to violation of the natural justice, and termed it hasty decision as he was given only 48- hours deadline to reply to the alleged charge -sheet. Management also objected to taking up the

matter after a wide gap of alleged so long periods of 17 years, and put a question mark over the locus standi of the Union declaring the Industrial Case not falling under the ambit of time- limitation.

Going by the facts it is proved beyond doubt that the harsher punishment inflicted upon the workman will definitely snatch the workman of his livelihood to sustain. Though the Management seems committed to stand by the whole actions whatsoever felt imperative and not deviated from follow-up of natural justice after exhausting all avenues of disciplinary proceedings. The Management came out with stunning fact the case had been earlier referred to the CGIT No. 2 Dhanbad but this was restricted to the only in W.S cum rejoinder with one supported document. The arguments and counters with supporting logic and reasons put forth by the Union and OP/ Management respectively appeared in their respective written statements in proper and best possible way. Though the workman was dismissed in the year 1996 and raised the present ID. in the year 2013 pointing the wider gap which falls under the ambit of time barred limitation and with the dismissal relationship between the employer –employee ceased to exist

No wonder, cases of absentism of the workmen are not unknown and unusual so long as in the BCCL Management concerned as the mostly workmen hailing of illiteracy background intent to move on prolonged leave as being scared of the safety points of view and often evade to step into the underground Mines which proved fatal and disastrous at times despite best mechanism of safety in place and its periodical reviews. Summing up quantum of the punishment as dismissal against the misconduct of absentism by the delinquent workman seems not only harsher and but not in proportionate also .So a fresh look at the issue cannot be ruled out. .

Though, there is nothing improper , unlawful and wrong-doings if the workman be provided a little bit breather but simultaneously with severe warning to mend his way ultimately .In the light of the above, it is ordered for fresh appointment of the workman as Cat. -I with probation for up to two years, only subject to furnishing an “Undertaking” by the workman concerned to the Management to the effect that any absentism by him during the period of probation period continuously for five- day without any valid reasons /cause will stand removal from service even without holding enquiry .

R. K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2016

का.आ. 764.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 2, धनबाद के पंचाट (संदर्भ सं. 05/2011) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/25/2010-आईआर (सीएम-I)]

एम. के. सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 25th April, 2016

S.O. 764.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Dhanbad (Ref. No. 05 of 2011) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workmen, which was received by the Central Government on 25.04.2016.

[No. L-20012/25/2010-IR(CM-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.2), AT DHANBAD

PRESENT : Shri R.K.Saran, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947

REFERENCE NO. 05 OF 2011

PARTIES :

The Exec.Committee Member,
Rastriya Colliery Mazdoor Sangh,
Rajendra Path, Dhanbad

Vs.

The General Manager,
Govindpur Area of M/s. BCCL
PO: Sonardih, Dhanbad-(Jharkhand)

Ministry 's Order No. L-20012/25/2010-IR(CM-I) dt 24.01.2011

APPEARANCES :

On behalf of the workman/Union : Mr. N. G. Arun, Ld. Rep.

On behalf of the Management : Mr. U. N. Lal, Ld. Adv.

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 14th March, 2016

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Sec.10(1)(d) of the I.D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/25/2010-IR(CM-I) dt 24.01.2011.

SCHEDULE

“Whether the action of the Management of East Katras Colliery of M/s. BCCL in dismissing Sri Giridhari Turi, M/Loader from the services of the Company from 20.08.2002 is fair and justified? To what relief the concerned workman is entitled?”

On receipt of the Order No. L-20012/25/2010-IR(CM-I) dt 24.01.2011 of the above mentioned reference from the Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi for adjudication of the dispute, the Reference Case No. 05 of 2011 was registered on 23.02.2011 and accordingly an order to that effect was passed to issue notices through the Registered Posts to the parties concerned, directing them to appear in the Court on the date fixed, and to file their written statements along with the relevant documents. In pursuance of the said order, notices by the Registered Posts were sent to the parties concerned.

Both the parties made their appearances and filed their pleadings and photocopies of their documents. The Union/Petitioner and the O.P./Management through their own respective Ld. Rep. /Counsel appeared, and contested the case.

2. The Reference case deals with dismissal of the workman named Shri Giridhari Turi a M/Loader of East Katras Colliery of M/s. BCCL. His service track record had all along been unblemished with entire satisfaction under High Ups of the Colliery. He used to perform his duty in underground and came into contact with hazardous disease, as alleged by the workman in W.S. and He started absenting himself from service, though, it turned into habitual at a later stage, as counterclaimed by the Management. The workman alleged the Management of lack of human approach and termed the stand of the Management as vindictive. The Workman further added that the Management did not feel it necessary to hold even preliminary enquiry before issuing show cause to the workman and declared the whole exercise of actions as own caprice and whim at their will, whom the workman sniffed foul and malafide action. The Management after constituting Departmental Enquiry and based on its findings exhausting all channels of avenues of proceedings held the workman guilty of the charges of the misconduct. The workman was straightway dismissed from service pending his mercy appeal to the G.M concerned as indecisive. However the matter was referred to the ALC (C) Dhanbad for conciliation but due to strict and adamant attitude by the Management over compromise case failed to yield with result, subsequently birth of the I.D. Reference Case.

Brushing aside all the allegations of the Union/workman, contention of the Management stated that the whole exercise of the action inflicting punitive action had been in the line of the natural justice only after emphatically considering of all aspects of the case before arriving final decision of dismissal, and as per the bye-laws of the Company. So there is nothing sort of violation of the natural justice. The allegations as levelled by the workman are baseless and fabricated and twisted them to suit the workman in his own interest. Needless to say though the matter was get enquired by an Enquiry Officer and the Management Representative and forwarded it to the Disciplinary Authority who in turn, dismissed the workman. The workman enjoyed the full opportunity to counter and defence his case in a transparent way as the materials available in record suggest as claimed by the Management in its W.S.-cum-Rejoinder. So the action was taken was justified, proper and nothing sort of violation of the natural justice just as the natural justice was done to the workman by way of giving ample opportunity.

However there is nothing unusual in the colliery when observed, under the Management of the M/s. BCCL where dismissal over absentism figures out as prominent issue. What general conception and mindset amongst the workers has, been by and large shy and usually evading in nature from stepping into Underground Mines due to

safety concerns in mind and health hazards against odd atmospheres .So they do not hesitate to proceed on the leave even in improper and unauthorized way attracting disciplinary action against them owing to safety of lives in mind leaving the vital Concern to fend for itself. Though the facts cannot be ruled out that the nature of the work of M/Loader in the underground calls for more physical labour apart from being robust health in a most adverse hazardous atmosphere despite best mechanism of safety standards in Mines. Keeping this point over above anything else, the workers prefer going on leave to avert to fall prey the victim of accident, and that do not deter them from being even punished. The punishment of dismissal upon the workman for his alleged misconduct is too harsh to bear as the workman will be robbed of his bread and butter.

Now it is felt that there will not be unfair and improper if a last chance of survival may rekindle the hope of reform and give a sigh of relief to the workman..Now it is ordered that the workman be appointed as fresher in lowest cadre in Cat. - I with probation period rolling over to two years.

R. K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2016

का.आ. 765.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 2, धनबाद के पंचाट (संदर्भ सं. 06/2015) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/139/2014-आईआर (सीएम-I)]

एम. के. सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 25th April, 2016

S.O. 765.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Dhanbad (Ref. No. 06 of 2015) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workmen, which was received by the Central Government on 25.04.2016.

[No. L-20012/139/2014-IR(CM-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.2), AT DHANBAD

PRESENT : Shri R.K.Saran, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947

REFERENCE NO. 06 OF 2015

PARTIES : : The Treasurer,
Rastriya Colliery Mazdoor Sangh,
Michael John Samriti Bhawan, Rajendra Path,
Dhanbad.-826001

Vs.

The General Manager,
P.B. Area of M/s. BCCL.
PO: Kusunda, Dhanbad.828116

Order No. L-20012/139/2014-IR(CM-I) dt.08.01.2015

APPEARANCES :

On behalf of the workman/Union : Mr. N.G.Arun, Ld. Rep. of the workman
On behalf of the Management : Mr. Ganesh Prasad, Ld. Advocate

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 14th March 2016

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Sec.10(1)(d) of the I.D. Act.,1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No.L-20012/139/2014-IR (CM-I) dt.08.01.2015.

SCHEDULE

“Whether the action of the Management of P.B.Project Colliery under P.B.Area of M/s BCCL in dismissing Md.Tabrej Akhtar, General Mazdoor from the services vide letter dated 29.5.2006 is fair and justified? To what relief the concerned workman is entitled to?”

On receipt of the Order No. L-20012/139/2014-IR(CM-I) dt.08.01.2015 of the above mentioned reference from the Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi for adjudication of the dispute, the Reference Case No. 06 of 2015 was registered on 19.01.2015 and accordingly an order to that effect was passed to issue notices through the Registered Posts to the parties concerned, directing them to appear in the Court on the date fixed, and to file their written statements along with the relevant documents. In pursuance of the said order, notices by the Registered Posts were sent to the parties concerned.

Both the parties made their appearances and filed their pleadings and photocopies of their documents. The Union and the O.P./Management through their own Ld. Rep./ Counsel respective appeared respectively, and contested the case.

2. There is a another case of dismissal from service in respect of the workman Md.Tabrej Akhtar, who was a General Mazdoor since 1.2.1999 under P.B. Area of M/s BCCL. The workman was working with entire satisfaction of the High Ups. with unblemished service track record till he fell ill and ultimately restricted to bed till 03.01.2004 the reasons behind his absence of duty .After recovery, the workman requested the Management to let him join the service but he was not only flatly denied but was told straightway to collect all dues legally admissible, all the initiatives at the behest of the Management, he flatly denied having knowledge of, as claimed by the workman. Though the matter was referred to the ALC,Dhanbd for conciliation but here too, it remained inconclusive as firmed and adamant attitude of the Management . And thus finally inflicted the punishment of dismissal upon the delinquent workman. The workman sniffed the whole exercise of the action as prejudiced, malafide and fabricated, declared it foul play on the plea that prima facie the Management could not assess as to whether the case having materials for constituting preliminary enquiry before framing the charge sheet against the workman directly .Though the matter had been dealt with the ALC©, Dhanbad but ended in failure, thus, as an outcome of the present Reference case. Though the Management/OP did not file the much awaited WS/Rejoinder on their part.

Though of work of Coal Mazdoor obviously an arduous and tedious in nature which needs a hale and hearty structure of health all the time and more physical labour particularly in underground Mines shrouding very odds unhygienic atmosphere, overall venturing into life risks .However, there is nothing unusual on the part of the workman to prefer proceeding on prolonged leave even on a single call of urgency, be it medical or something else as ground, to venture out in the Mines for work. Sometimes it proved fatal and forced them to face casualty keeping of lives at stake despite best mechanism of safety norms in place. Though the workman has set the logics very candidly. The punishment of dismissal imposed upon the workman to the misconduct, he committed, however does not stand proportionate as he was robbed off his bread and butter.

Hence the Tribunal is of the view that the move will not be termed wrong and improper if the workman concerned be provided a little bit breather by way of employment as fresher setting the alleged dismissal order aside. Thus it is ordered for fresh employment of the workman concerned as fresher as Cat.- I with probation rolling over up to 2 years.

R. K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2016

का.आ. 766.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 2, धनबाद के पंचाट (संदर्भ सं. 08/2015) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/142/2014-आईआर (सीएम-1)]

एम. के. सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 25th April, 2016

S.O. 766.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Dhanbad (Ref. No. 08 of 2015) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workmen, which was received by the Central Government on 25.04.2016.

[No. L-20012/142/2014-IR(CM-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.2), AT DHANBAD

PRESENT : Shri R.K.Saran, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947

REFERENCE NO 08 OF 2015

PARTIES :

The Secretary
Rastriya Mazdoor Union,
Etwari Nagar, Telipara, Hirapur, Dhanbad-826001

Vs.

The General Manager,
Sijua Area of M/s BCCL
PO: Sijua, Distt. Dhanbad.

Ministry 's Order No L-20012/142/2014-IR(CM-I) dt 8.1.2015

APPEARANCES :

On behalf of the workman/Union : Mr. S. K. Sinha, Ld. Adv.

On behalf of the Management : Mr. D. K. Verma, Ld. Adv.

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 10th Mar., 2016

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Sec.10(1)(d) of the I.D. Act.,1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/142/2014-IR (CM-I) dt 8.1.2015.

SCHEDULE

“Whether the action of the Management of Sendra Bansjora Colliery under Sijua Area of M/s BCCL in dismissing Mahendra Ram Hari, Ex-M/Loader from the services w.e.f. 25.06.2004 is fair and justified? To what relief the concerned workman is entitled to?”

On receipt of the Order No. L-20012/142/2014-IR (CM-I) dt 8.1.2015 of the above mentioned reference from the Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi for adjudication of the dispute, the Reference Case No. 08 of 2015 was registered on 19.01.2015 and accordingly an order to that effect was passed to issue notices through the Registered Posts to the parties concerned, directing them to appear in the Court on the date fixed, and to file their written statements along with the relevant documents. In pursuance of the said order, notices by the Registered Posts were sent to the parties concerned.

Both the parties made their appearances and filed their pleadings and photocopies of their documents. The Union/Petitioner and the O.P./Management through their own Ld. Counsels appeared, and contested the case.

2. This is an Industrial reference Case of dismissal of the workman named Mahendra Ram Hari M/Loader in Sendra Bansjora Colliery under Sijua Area No.5 of M/s BCCL .As narrated by the workman in his W.S. that he was initially appointed M/Loader on 30.08.1995 .In course of duty he suffered chest and head pains and the Doctor attending him, advised complete bed rest .During the course of bed rest he received the charge sheet from the Management but no further enquiry there on ,as stated by the workman. Ultimately dismissal was served to the

workman. Due to dismissal he was robbed of his bread and butter and he desperately needs a source of earning to sustain himself along with and his family from starvation. Moreover, he by caste belongs to Harijan, an underprivileged section of the Society.

It stands against the contrary to the fact that since very beginning, he started absenting from his duty in unauthorized way. So the Management went ahead by constituting a departmental proceeding for commission of misconduct under the clause 26.1.1. of the Certified Standing Order, a byelaws of the Company. Though Management taking a lenient view with stoppage of three increments got him joined the service but the conduct of the workman was again more or less the same. He again indulged in the same misconduct. So finally with constituting the domestic enquiry under Enquiry Officer as Sr. Personnel Officer of the Colliery conducted ex-parte enquiry as workman unilaterally evaded appearance all along before the enquiry and thus giving the full opportunity the workman to defend the case. The Disciplinary Authority dismissed the workman from service and termed the enquiry as fair proper in accordance with principle of natural justice. Moreover the OP/ Management hobnobbing the whole case as concocted and fabricated so as to suit his own interest. "As the I.D. is stale, the Union does not have locus-standi of raising the dispute as of now", as claimed by the Management categorically in its W.S.

Though the allegations and its counter by the OP/Management put forth by each other in very proper and calculative way. The nature of the work of the Underground M/Loader is very tougher and arduous as one has to work in very unhygienic and odd atmosphere and sometimes has to face the ordeal of suffocation and workman usually tries to evade venturing into the Underground Mines beneath 100-feet or more from the surface particularly being scared of the safety points. Despite best safety mechanism in place there is no deterrent of tragic accident being happened to the extent negligence occurred apart from natural calamity. That is why under the M/s BCCL Management, a spearhead the Group of the Collieries, the cases of the same footing are in abundance and nothing unusual any longer. The punishment of dismissal inflicted upon seems harsher and not in proportionate to the misconduct, the workman committed

Thus, the move will not be called improper and wrongdoings if little bit breather, the workman be provided by way of employment just to sustain his lost livelihood with rekindling hope of reform before it is too late. Hence the workman concerned is ordered as fresh employment in lowest of Cat.-I with probation period rolling over to 2-year.

R. K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2016

का.आ. 767.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 2, धनबाद के पंचाट (संदर्भ सं. 12/2011) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/76/2010-आईआर (सीएम-I)]

एम. के. सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 25th April, 2016

S.O. 767.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Dhanbad (Ref. No. 12 of 2011) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workmen, which was received by the Central Government on 25.04.2016.

[No. L-20012/76/2010-IR(CM-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.2), AT DHANBAD

PRESENT : Shri R.K.Saran, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947

REFERENCE NO 12 OF 2011

PARTIES :

The Secretary
Koyla Ispat Mazdoor Panchayat
Post Box No. 59, Jharia
Dhanbad

Vs.

The General Manager,
Barora Area of M/s BCCL
PO: Nawagarh Dhanbad.

Ministry 's Order No L-20012/76/2010-IR(CM-I) dt 29.03.2011

APPEARANCES :

On behalf of the workman/Union : Mr. S. C. Gaur, Ld. Adv.

On behalf of the Management : Mr. D. K. Verma, Ld. Adv.

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 10th Mar., 2016

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Sec.10(1)(d) of the I.D. Act.,1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/76/2010-IR(CM-I) dt 29.03.2011.

SCHEDULE

“Whether the action of the Management of Madhuband Colliery of M/s BCCL in dismissing Sri Roop Chandra Manjhi, M/Loader from the services of the company from 07.12.2007 is fair and justified? To what relief the concerned workman is entitled to?”

On receipt of the Order No. L-20012/76/2010-IR (CM-I) dt 29.03.2011 of the above mentioned reference from the Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi for adjudication of the dispute, the Reference Case No. 12 of 2011 was registered on 08.04.2011 and accordingly an order to that effect was passed to issue notices through the Registered Posts to the parties concerned, directing them to appear in the Court on the date fixed, and to file their written statements along with the relevant documents. In pursuance of the said order, notices by the Registered Posts were sent to the parties concerned.

Both the parties made their appearances and filed their pleadings and photocopies of their documents. The Union/Petitioner and the O.P./Management through their own Ld. Counsels appeared, and contested the case.

2. This is the case of dismissal of the workman of Roop Chandra Manjhi who was an permanent employee of the P.R. M/Loader at Madhuband Colliery .The workman started absenting from duty which was amounted to misconduct according to 26.1.1.of the Certified Standing Order of the Company. He was away from the Station to be side with the bed-ridden ailing wife reported of serious as the reason of his long spell of absentism. Though workman's plea that there was no Senior Member of his family to take care of his wife with all supporting documentary proofs to substantiate the factum .The plea of the workman did not seem to work as it fell flat over Management after a series of logic reasons backing with grounds. Not convinced by the plea ,the Management went ahead by constituting of the domestic enquiry in accordance with principle of natural justice .But the workman deliberately evaded appearing before the Enquiry Committee as alleged by the Management, the enquiry was concluded ex-parte holding workman guilty for the charges brought upon him.. The Management in a very calculative and cautiously after exhausting all avenues of channels of proceedings ,and further based on findings of the enquiry as well , lastly dismissed him from service taking his past attendances also into consideration. So the whole exercise of action by the Management was asserted just, fair and in accordance with principle of natural law as the workman was given several opportunities to prove his innocence but he utterly failed .The workman cried it all a foul play and sniffed the alleged action prejudiced and biased

Though there is nothing unusual and unprecedented event like this one as several hundred cases on the same footing happened in the Collieries earlier under the management of BCCL. The work nature of the M/Loader is obviously arduous and tedious apart from at all time being in hale & hearty in physical structure too to work in the hazardous atmospheres under beneath of several fetes or more from the surface where quantum of oxygen sometimes reduces to drastically leading to causality or suffocation . So workman do not hesitate to proceed on prolonged leave even on slightest pretext of reasons on one score or another before stepping into the underground Mines despite safety mechanism in place by the Management .Notwithstanding so much so there was no deterrent to avert the tragic accident in the Mines, and for which mostly workmen are still afraid of . As such the move will not be called unjust and wrong-doings if the workman be provided one more opportunity to reform himself by way of a little breather of fresh appointment.

So it is ordered for fresh appointment of the workman concerned in the lowest grade with probation rolling over to two years.

R. K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2016

का.आ. 768.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 2, धनबाद के पंचाट (संदर्भ सं. 95/2013) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/120/2012-आईआर (सीएम-1)]

एम. के. सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 25th April, 2016

S.O. 768.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Dhanbad (Ref. No. 95 of 2013) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workmen, which was received by the Central Government on 25.04.2016.

[No. L-20012/120/2012-IR(CM-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.2), AT DHANBAD

PRESENT : Shri R.K.Saran, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947

REFERENCE NO. 95 OF 2013

PARTIES : The Gen. Secretary,
Koyla Ispat Mazdoor Panchayat,
Chhatabad No.5, PO: Katras, Dhanbad.-828113.

Vs.

The General Manager,
Govindpur Area of M/s BCCL,
P.O.Sonardih, Dhanbad- 828125.

Order No. L-20012/120/2012-IR (CM-I) dt.28.02.2013.

APPEARANCES :

On behalf of the workman/Union : Mr. B.B. Pandey, Ld. Advocate

On behalf of the Management : Mr. D.K. Verma, Ld. Advocate

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 16th Mar., 2016

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Sec.10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/120/2012-IR (CM-I) dt.28.02.2013.

SCHEDULE

“Whether the action of the Management of Akash Kinari Colliery of M/s BCCL in dismissing Sri Prabhu Orang, Ex M/Loader from the services of the Company vide order letter dated 13/16.08.2006 is far and justified? To what relief is the workman concerned entitled to?”

On receipt of the Order No. L-20012/120/2012-IR (CM-I) dt.28.02.2013 of the above mentioned reference from the Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi for adjudication of the dispute, the Reference Case No. 95 of 2013 was registered on 09.04.2013 and accordingly an order to that effect was passed to issue notices through the Registered Posts to the parties concerned, directing them to appear in the Court on the date fixed, and to file their written statements along with the relevant documents. In pursuance of the said order, notices by the Registered Posts were sent to the parties concerned.

Both the parties made their appearances and filed their pleadings and photocopies of their documents. The Union /Petitioner and the O.P./Management through their own Counsels respectively appeared and contested the case.

2. This Reference case revolves around about the delinquent workman Shri Prabhu Orang, Ex-M.Loader of Akash Kinari Colliery of M/s BCCL ,the whole episode, as narrated in the W.S. is that the workman suddenly fell sick and started absenting from duty for three months under the compelling situation beyond his control. After recovery when he went for reporting for duty, the Management denied to let him join the duty. Considering his absence a serious offence, as stated in the W.S., the Management issued the charge-sheet treating the absence period as misconduct under clause 27.0 of the Certified Standing Order, and Bye-laws of the BCCL Management (a Group of the Collieries) based at Dhanbad. As per the provision contained in Certified Standing Order (Clause 27.2) the workman was not provided sufficient time to explain the cause of his absence to the Management nor was the departmental enquiry constituted, that was a clear violating the principle of the natural justice. The punishment, it was awarded upon the workman as dismissal is not only harsh but disproportionate to the misconduct, committed by the workman. So the workman is entitled for reinstatement with full back wages as dismissal of the workman is unfair and unjust.

Contrary to it the Management denying all the allegations brought out by the workman asserted that the absence, in question, was not alone to accuse him of the misconduct on that score. While framing charge sheet, his past conducts of absentism were virtually also cropped up which the Management did not ignore. Unfazed by the reply of the workman, the Management stepped up further by constituting departmental enquiry holding him guilty of the charges brought in by the Management. Paving the way the Disciplinary Authority to dismissed him from service straightway. The departmental enquiry was held with participation of the workman with providing him full opportunity to come out in his defence. So all the proceedings since its abinitio to dismissal was not marred with unfair, unjust and in no way violation of the natural justice at any stage drawing flak any quarter.

Though there is nothing unusual and unprecedented event like this one as several hundred cases on the same footing happened in the Collieries earlier under the management of BCCL. The work nature of the M/Loader is obviously arduous and tedious apart from at all time being in hale & hearty in physical structure too to work in the hazardous atmospheres under beneath of several fetes or more from the surface where quantum of oxygen sometimes reduces to drastically leading to causality or suffocation. So workman do not hesitate to proceed on prolonged leave even on slightest pretext of reasons on one score or another before stepping into the underground Mines despite safety mechanism in place by the Management. Notwithstanding so much so there was no deterrent to avert the tragic accident in the Mines, and for which mostly workmen are still afraid of. As such the move will not be called unjust and wrong-doings if the workman be provided one more opportunity to reform himself by way of a little breather of fresh appointment.

As such there is nothing improper, wrong-doings and unjust if the workman concerned who needs breather, be provided one more opportunity by offering him fresh appointment. Therefore it is ordered that the worker concerned be appointed as a fresh in the lowest Grade –I with two-year period on probation since he joins duty.

R. K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2016

का.आ. 769.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार कम्मबाटा एविएशन प्राईवेट लिमिटेड के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1, नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ सं. 161/2015) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को

25.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-11012/23/2015-आईआर (सीएम-1)]

एम. के. सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 25th April, 2016

S.O. 769.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, New Delhi (Ref. No. 161 of 2015) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Cambata Aviation Pvt. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 25.04.2016.

[No. L-11012/23/2015-IR(CM-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

ANNEXURE

IN THE COURT OF SHRI AVTAR CHAND DOGRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT NO.1, KARKARDOOMA COURT COMPLEX, DELHI

ID No.161/2015

The President,
Cambata Aviation Karamchari Union (Regd.)
BG/14-C, DDA Flats, Munirkha,
New Delhi – 110 067

...Workman

Versus

The Chief Operating Officer (Delhi),
M/s Cambata Aviation Pvt. Ltd.,
IGI Airport, T-2, BAY-81, Line Maintenance,
Block A, IGI Airport,
New Delhi -110 037

...Management

AWARD

Central Government, vide letter No.L-11012/23/2015-IR(CM-I) dated 07.07.2015, referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication:

“Whether payment of 20% of bonus to the employees of Cambat Aviation Pvt. Ltd. since almost two decades can be construed as convention of the Company? If yes, conversion of payment of bonus 20% to 8.33% to the employees of Cambata Aviation Pvt. Ltd. without complying with the provisions under Section 9A of the Industrial Disputes Act is legal? To what relief the workers are entitled to?”

2. In the reference order, the appropriate Government commanded the parties to the dispute to file statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with this Tribunal within 15 days of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to the opposite parties involved in the dispute. Despite directions so given, claimant opted not to file its claim statement with the Tribunal.

3. On receipt of the above reference, notice was sent to the claimant union as well as the management. Neither the postal article, referred above, was received back nor was it observed by the Tribunal that postal services remained affected in the period, referred above. Therefore, every presumption lies in favour of the fact that the above notice was served upon the claimant union. Despite service of the notice, the claimant union opted to abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on its behalf. Thus, it is clear that the claimant union is not interested in adjudication of the reference on merits.

4. Since the claimant union has neither put in its appearance nor has it led any evidence so as to prove its cause against the management, as such, this Tribunal is left with no other alternative, except to pass a ‘No Dispute/Claim’ award. Let this award be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, for publication.

Dated :April 12, 2016

A.C. DOGRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

का.आ. 770.— केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91-क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड रिफ्रेक्टरी की इकाईयों भिलाई, छत्तीसगढ़

आईएफआईसीओ, मारर, झारखण्ड और रांची रोड, मारर, झारखण्ड के कारखानों/स्थापनाओं के नियमित कर्मचारियों को इस अधिनियम के प्रवर्तन से छूट प्रदान करती है। यह छूट, 02 मई, 2016 से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी।

2. उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है; अर्थात्:-

- (1) पूर्वोक्त स्थापना जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगी, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदनाम दिखाये जायेंगे;
- (2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अंशदानों के आधार पर हकदार हो जाते हैं;
- (3) छूट प्राप्त अवधि के लिए, यदि कोई अभिदाय पहले ही किए जा चुके हों, तो वे वापस नहीं किए जाएंगे;
- (4) उक्त कारखाने/स्थापना का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने/स्थापना पर उक्त अधिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) प्रवर्तमान था ऐसी विवरणियां, ऐसे प्रारूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी अपेक्षित होती थीं;
- (5) निगम द्वारा उक्त कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई सामाजिक सुरक्षा अधिकारी या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी;
 - (i) धारा 44 की उप-धारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरण की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; अथवा
 - (ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गये थे या नहीं; या
 - (iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिये गए उन फायदों को, जिसके फलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या
 - (iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं, निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा:-
 - (क) प्रधान या आसन्न नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है; अथवा
 - (ख) ऐसे प्रधान या आसन्न नियोजक के अधिभोगाधीन, किसी कारखाने, स्थापना, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें या ऐसी जानकारी दें जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या
 - (ग) प्रधान या आसन्न नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति को, जो ऐसे कारखाने, स्थापना, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या
 - (घ) ऐसे कारखाने, स्थापना, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखा, बही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उद्धरण लेना;
 - (ङ) यथानिर्धारित अन्य शक्तियों का प्रयोग करना।

6. विनिवेश/निगमीकरण के मामले में, प्रदत्त छूट स्वतः रद्द हो जाएगी और तब नए प्रतिष्ठान को छूट हेतु समुचित सरकार की अनुमति लेनी होगी।

[सं. एस-38014/13/2011-एसएस-1)]

अजय मलिक, अवर सचिव

New Delhi, the 26th April, 2016

S.O.770 .— In exercise of the power conferred by Section 88 read with Section 91-A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby exempts the regular employees of factories/establishments of SAIL Refractory Units at Bhilai, Chattisgarh, IFICO, Marar, Jharkhand and Ranchi Road, Marar, Jharkhand from the operation of the said Act. The exemption shall be effective w.e.f. 02.05.2016 for a period of one year.

2. The above exemption is subject to the following conditions namely:-

- (1) The aforesaid establishments wherein the employees are employed shall maintain a register showing the name and designations of the exempted employees';
- (2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;
- (3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refundable;
- (4) The employer of the said factory/establishment shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred as the said period), such returns in such forms and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;
- (5) Any Social Security Officer appointed by the Corporation under Sub-Section (1) of Section 45 of the said ESI Act or other official of the Corporation authorized in this behalf by it, shall, for the purpose of :-
 - (i) Verifying the particulars contained in any returned submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
 - (ii) Ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
 - (iii) Ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or
 - (iv) Ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory to be empowered to:
 - (a) require the principal or immediate employer to him such information as he may consider necessary for the purpose of this Act; or
 - (b) at any reasonable time enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found in charge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine accounts, books and other documents relating to the employment of personal and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
 - (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or
 - (d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises,
 - (e) exercise such other powers as may be prescribed.
- (6) In case of disinvestment/corporatization, the exemption granted shall become automatically cancelled and then the new entity will have to approach the appropriate Government for exemption.

[No. S-38014/11/2013-SS-I]

AJAY MALIK, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

का.आ. 771.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स ओ.एन.जी. सी. लिमिटेड और दूसरों के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 1318/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/63/2000-आईआर (एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 26th April, 2016

S.O. 771.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 1318/2004) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. O.N.G.C. Ltd. and Others and their workman, which was received by the Central Government on 21-04-2016.

[No. L-30012/63/2000-IR(M)]

NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD****Present :**

Pramod Kumar Chaturvedi,
Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 4th March, 2016

Reference : (CGITA) No. 1318/2004**Reference : (ITC) No. 36/2000**

1. The Group General Manager(P),
ONGC Ltd.,
Hazira Project,
P.O. Bhatpore,
Surat (Gujarat)-394518
2. M/s. Sagar Construction
Near Tapi Bridge,
Tax Plaza, Kagdaila ONGC Road,
Surat(Gujarat)- 394518

...First Party

Vs.

Shri Brijesh J. Patel
At. Bhatpur,
Taluka Choryasi,
Surat (Gujarat)

...Second Party

For the First Party : Sh. Nilam B. Shah, Advocate
For the Second Party :

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L- 30012/63/2000-IR(M) dated 05.07.2000 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Surat(Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

“Whether the contract between the management of ONGC Ltd., Hazira project, Surat & the contractor M/s. Sagar construction in respect of the contractual workman Shri Brijesh J. Patel is sham & bogus contract?”

“Whether the demand of the workman Shri Brijesh J. Patel for treating him as direct and regular/permanent employee of ONGC Ltd., Hazira Project from either the date of his initial engagement with the contractor or from the date of Notification issued by Government of India, prohibiting his alleged employment/work through the contract system is legal and justified? If so, to what relief Shri Brijesh J. Patel is entitled and from which date and what other directions are necessary in the matter?”

2. This reference dates back to 05.07.2000. Second party submitted statment of claim (Ext. 5) on 25.10.2000 and first party filed the written statement (Ext.9) on 10.04.2001. Since then second party has been given dozen of opportunity to lead evidence but he did not prefer to lead his evidence. He has also been absent since then. Thus, it appears that second party is not interested in the proceedings of the reference. Therefore, Tribunal has no option but to dismiss the reference in default of the second party.

The reference is dismissed in default of the second party.

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

का.आ. 772.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स ओ.एन.जी. सी. लिमिटेड और दूसरे के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 1319/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/85/2000-आईआर (एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 26th April, 2016

S.O. 772.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 1319/2004) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. O.N.G.C. Ltd. and Others and their workman, which was received by the Central Government on 21-04-2016.

[No. L-30012/85/2000-IR(M)]

NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD**

Present :

Pramod Kumar Chaturvedi,
Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 4th March, 2016

Reference : (CGITA) No. 1319/2004

Reference : (ITC) No. 37/2000

1. The Group General Manager(P),
ONGC Ltd.,
Hazira Project,
P.O. Bhatpore,
Surat (Gujarat)-394518
2. M/s. Sagar Construction
Near Tapi Bridge,
Tax Plaza, Kagdaila ONGC Road,

Surat(Gujarat)- 394518

...First Party

Vs.

Shri Kishore R. Patel
At. Bhatpur,
Taluka Choryasi,
Surat (Gujarat)

...Second Party

For the First Party : Sh. Nilam B. Shah, Advocate

For the Second Party :

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L- 30012/85/2000/IR(M) dated 05.07.2000 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Surat(Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

“Whether the contract between the management of ONGC Ltd., Hazira Project, Surat & the contractor M/s. Sagar construction in respect of the contractual workman Shri Kishore R. Patel is sham & bogus contract?”

“Whether the demand of the workman Shri Kishore R. Patel for treating him as direct and regular/permanent employee of ONGC Ltd., Hazira Project from either the date of his initial engagement with the contractor or from the date of Notification issued by Government of India, prohibiting his alleged employment/work through the contract system is legal and justified? If so, to what relief Shri Kishore R. Patel is entitled and from which date and what other directions are necessary in the matter?”

2. This reference dates back to 05.07.2000. Second party submitted statement of claim (Ext.5) 25.10.2000 and first party filed the written statement (Ext.9) on 10.04.2001. Since then second party has been given dozen of opportunity to lead evidence but he did not prefer to lead his evidence. He has also been absent since then. Thus, it appears that second party is not interested in the proceedings of the reference. Therefore, Tribunal has no option but to dismiss the reference in default of the second party.

The reference is dismissed in default of the second party.

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

का.आ. 773.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स ओ.एन.जी. सी. लिमिटेड और दूसरों के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 1323/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/95/2000-आईआर (एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 26th April, 2016

S.O. 773.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 1323/2004) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. O.N.G.C. Ltd. and Others and their workman, which was received by the Central Government on 21-04-2016.

[No. L-30012/95/2000-IR(M)]

NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD****Present :**

Pramod Kumar Chaturvedi,
Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 4th March, 2016

Reference : (CGITA) No. 1323/2004

Reference : (ITC) No. 43/2000

1. The Group General Manager(P),
ONGC Ltd.,
Hazira Project,
P.O. Bhatpore,
Surat (Gujarat)-394518
 2. M/s. Sagar Construction
Near Tapi Bridge,
Tax Plaza, Kagdaila ONGC Road,
Surat(Gujarat)- 394518
 3. M/s. International Engineering & Marine Work,
Bandra Mariam Co-op Housing Society Ltd.,
B/92, St. Sabastian Road,
Mumbai-400050
- ...First Party

Vs.

Shri Suresh Somabhai
At. Bhatpur,
Taluka Choryasi,
Surat (Gujarat)

...Second Party

For the First Party : Sh. Nilam B. Shah, Advocate

For the Second Party :

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L30012/95/2000-IR(M) dated 13.07.2000 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Surat (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

“Whether the contract between the management of ONGC Ltd., Hazira Project, Surat & the contractor M/s. Sagar construction in respect of the contractual workman Shri Suresh Somabhai is sham & bogus contract?”

“Whether the demand of the workman Shri Suresh Somabhai for treating him as direct and regular/permanent employee of ONGC Ltd., Hazira Project from either the date of his initial engagement with the contractor or from the date of Notification issued by Government of India, prohibiting his alleged employment/work through the contract system is legal and justified? If so, to what relief Shri Suresh Somabhai is entitled and from which date and what other directions are necessary in the matter?”

2. This reference dates back to 13.07.2000. Second party filed statement of claim (Ext.6) on 25.10.2000. First party filed the written statement (Ext.10) on 10.04.2001. Since then second party has been given dozens of opportunities to lead evidence but he did not prefer to lead evidence. He has also been absent since 2008. Thus, it appears that second party is not interested in the proceedings of the reference. Therefore, Tribunal has no option but to dismiss the reference in default of the second party.

The reference is dismissed in default of the second party.

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

का.आ.774 .—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स ओ.एन.जी. सी. लिमिटेड और दूसरों के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 1335/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/132/2000-आईआर (एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 26th April, 2016

S.O. 774.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 1335/2004) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. O.N.G.C. Ltd. and Others and their workman, which was received by the Central Government on 21-04-2016.

[No. L-30012/132/2000-IR(M)]

NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD****Present :**

Pramod Kumar Chaturvedi,
Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 4th March, 2016

Reference : (CGITA) No. 1335/2004**Reference : (ITC) No. 58/2000**

1. The Group General Manager(P),
ONGC Ltd.,
Hazira Project,
P.O. Bhatpore,
Surat (Gujarat)-394518
2. 403,404, RuchitaAthugar Street,
The Surat Electricity Co. Ltd.,
Nanpura, Surat(GUJARAT)-395001

.....First party

Vs.

Shri Bimal Kantilal Patel
At. Bhatpur,
Taluka Choryasi,
Surat (Gujarat)

.....Second Party

For the First Party

: Sh. Nilam B. Shah, Advocate

For the Second Party

:

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L- 30012/132/2000/IR(M) dated 03.10.2000 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Surat(Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

“Whether the contract between the management of ONGC Ltd., Hazira Project, Surat & the contractor. The Surat Electricity Co. Ltd., Surat in respect of the contractual workman Shri BimalKantilal Patel is sham & bogus contract?”

“Whether the demand of the workman Shri Bimal Kantilal Patel for treating him as direct and regular/permanent employee of ONGC Ltd., Hazira Project from either the date of his initial engagement with the contractor or from the date of Notification issued by Government of India, prohibiting his alleged employment/work through the contract system is legal and justified? If so, to what relief Shri Bimal Kantilal Patel is entitled and from which date and what other directions are necessary in the matter?”

2. This reference dates back to 03.10.2000. Second party submitted statement of claim (Ext. 5) on 15.02.2001 and first party filed the written statement (Ext.9) on 13.03.2001. Since then second party has been given dozen of opportunity to lead evidence but he did not prefer to lead his evidence. He has also been absent since then.

Thus, it appears that second party is not interested in the proceedings of the reference. Therefore, Tribunal has no option but to dismiss the reference in default of the second party.

The reference is dismissed in default of the second party.

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

का.आ. 775.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स ओ.एन.जी. सी. लिमिटेड और दूसरों के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 1337/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/134/2000-आईआर (एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 26th April, 2016

S.O. 775.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 1337/2004) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. O.N.G.C. Ltd. and Others and their workman, which was received by the Central Government on 21-04-2016.

[No. L-30012/134/2000-IR(M)]

NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, AHMEDABAD

Present :

Pramod Kumar Chaturvedi,
Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 4th March, 2016

Reference : (CGITA) No. 1337/2004

Reference : (ITC) No. 61/2000

1. The Group General Manager(P),
ONGC Ltd.,
Hazira Project,
P.O. Bhatpore,
Surat (Gujarat)-394518
2. M/s. Sagar Construction
Near Tapi Bridge,
Tax Plaza, Kagdaila ONGC Road,
Surat(Gujarat)- 394518

...First Party

Vs.

Shri Girsishbhai Bhikhabhai Patel
At. Bhatpur,
Taluka Choryasi,
Surat (Gujarat)

...Second Party

For the First Party : Sh. Nilam B. Shah, Advocate

For the Second Party :

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L- 30012/134/2000-IR(M) dated 03.10.2000 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Surat(Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

“Whether the contract between the management of ONGC Ltd., Hazira project, Surat & the contractor, M/s. Sagar Constructions, Surat in respect of the contractual workman Shri Girishbhai Bhikhabhai Patel is sham & bogus contract?”

“Whether the demand of the workman Shri Girishbhai Bhikhabhai Patel for treating him as direct and regular/permanent employee of ONGC Ltd., Hazira Project from either the date of his initial engagement with the contractor or from the date of Notification issued by Government of India, prohibiting his alleged employment/work through the contract system is legal and justified? If so, to what relief Shri Girishbhai Bhikhabhai Patel is entitled and from which date and what other directions are necessary in the matter?”

2. This reference dates back to 03.10.2000. Second party submitted statement of claim (Ext. 4) on 15.02.2001 and first party filed the written statement (Ext.7) on 13.03.2001. Since then second party has been given dozen of opportunity to lead evidence but he did not prefer to lead his evidence. He has also been absent since then. Thus, it appears that second party is not interested in the proceedings of the reference. Therefore, Tribunal has no option but to dismiss the reference in default of the second party.

The reference is dismissed in default of the second party.

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

का.आ. 776.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स ओ.एन.जी. सी. लिमिटेड और दूसरों के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 1338/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/144/2000-आईआर (एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 26th April, 2016

S.O. 776.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 1338/2004) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. O.N.G.C. Ltd. and Others and their workman, which was received by the Central Government on 21-04-2016.

[No. L-30012/144/2000-IR(M)]

NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD****Present :**

Pramod Kumar Chaturvedi,
Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 4th March, 2016

Reference : (CGITA) No. 1338/2004

Reference : (ITC) No. 62/2000

1. The Group General Manager(P),
ONGC Ltd.,
Hazira Project,
P.O. Bhatpore,
Surat (Gujarat)-394518
2. 403,404, RuchitaAthugar Street,
The Surat Electricity Co. Ltd.,
Nanpura, Surat(GUJARAT)-395001

....First party

Vs.

Shri Bhogilal Chhotubhai Patel
At. & Post Bhatpur,
Taluka Choryasi,
Surat (Gujarat)

....Second Party

For the First Party : Sh. Nilam B. Shah, Advocate

For the Second Party :

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L- 30012/144/2000-IR(M) dated 03.10.2000 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Surat(Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

“Whether the contract between the management of ONGC Ltd., Hazira Project, Surat & the contractor. The Surat Electricity Co. Ltd., Surat in respect of the contractual workman Shri Bhogilal Chhotubhai Patel is sham & bogus contract?”

“Whether the demand of the workman Shri Bhogilal Chhotubhai Patel for treating him as direct and regular/permanent employee of ONGC Ltd., Hazira Project from either the date of his initial engagement with the contractor or from the date of Notification issued by Government of India, prohibiting his alleged employment/work through the contract system is legal and justified? If so, to what relief Shri Bhogilal Chhotubhai Patel is entitled and from which date and what other directions are necessary in the matter?”

2. This reference dates back to 03.10.2000. Second party submitted stamen of claim (Ext. 6) on 15.02.2001 and first party filed the written statement (Ext.9) on 13.03.2001. Since then second party has been given dozen of opportunity to lead evidence but he did not prefer to lead his evidence. He has also been absent since then.

Thus, it appears that second party is not interested in the proceedings of the reference. Therefore, Tribunal has no option but to dismiss the reference in default of the second party.

The reference is dismissed in default of the second party.

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

का.आ. 777 .— औद्योगिक विवाद अधिनियम, (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स ओ. एन.जी.सी लिमिटेड और दूसरे के प्रबंधन के संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद पंचाट (संदर्भ संख्या 1340/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल— 30012/139/2000-आईआर(एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 26 April, 2016

S.O.777—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 1340/2004) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. O.N.G.C. Ltd. and other and their workman, which was received by the Central Government on 21.04.2016.

[No. L-30012/139/2000-IR(M)]
NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD**

Present....

Pramod Kumar Chaturvedi,
Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 4th March, 2016

Reference: (CGITA) No-1340/2004**Reference: (ITC) No-66/2000**

1. The Group General Manager(P),
ONGC Ltd.,
Hazira Project,
P.O. Bhatpore,
Surat (Gujarat)-394518
2. M/s. Sagar Construction
Near Tapi Bridge,
Tax Plaza, Kagdaila ONGC Road,
Surat(Gujarat)- 394518

...First party

Vs.

Shri Kiritbhai Ramabhai Patel
At. Bhatpur,
Taluka Choryasi,
Surat (Gujarat)

...Second Party

For the First Party : Sh. Nilam B. Shah, Advocate
For the Second Party :

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour ,New Delhi by reference adjudication Order No. L- 30012/139/2000/IR(M) dated 03.10.2000 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Surat(Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

“Whether the contract between the management of ONGC Ltd., Hazira project, Surat & the contractor, M/s. Sagar Constructions, Surat in respect of the contractual workman Shri Kiritbhai Ramabhai Patel is sham & bogus contract?”

“Whether the demand of the workman Shri Kiritbhai Ramabhai Patel for treating him as direct and regular/permanent employee of ONGC Ltd., Hazira Project from either the date of his initial engagement with the contractor or from the date of Notification issued by Government of India, prohibiting his alleged employment/work through the contract system is legal and justified? If so, to what relief Shri Kiritbhai Ramabhai Patel is entitled and from which date and what other directions are necessary in the matter?”

2. This reference dates back to 03.10.2000. Second party submitted statement of claim (Ext. 4) on 15.02.2001 and first party filed the written statement (Ext.7) on 13.03.2001. Since then second party has been given dozen of opportunity to lead evidence but he did not prefer to lead his evidence. He has also been absent since then. Thus, it appears that second party is not interested in the proceedings of the reference. Therefore, Tribunal has no option but to dismiss the reference in default of the second party.

The reference is dismissed in default of the second party.

P.K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

का.आ. 778.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स ओ. एन.जी.सी. लिमिटेड और दूसरे के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद पंचाट (संदर्भ संख्या 1349/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल— 30012/4/2001-आईआर(एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 26th April, 2016

S.O.778—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 13/2004) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s O.N.G.C. Ltd. and others and their workman, which was received by the Central Government on 21.04.2016.

[No. L-30011/4/2001-IR(M)]
NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD**

Present....

Pramod Kumar Chaturvedi,
Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 4th March, 2016

Reference: (CGITA) No-1349/2004

Reference: (ITC) No-3/2001

1. The Group General Manager(P),
ONGC Ltd.,
Hazira Project,
P.O. Bhatpore,
Surat (Gujarat)-394518
2. M/s Sagar Construction
301, Avenue Park,
City Light Society,
Opp. Agriculture Farm,
Surat (Gujarat)-395007

3. M/s. D.J. Patel & Co.
At Post Bhatpore
Taluka Choryasi,
Surat (Gujarat)

...First party

Vs.

Their workmen
Through the general Secretary,
Gujarat Working class Union,
A-772, 'Anand Ganga' Kasak,
Bharuch (East) Gujarat

...Second Party

For the First Party : Sh. Nilam B. Shah, Advocate
For the Second Party :

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L- 30011/4/2001/IR(M) dated 16.01.2001 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Surat(Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

“Whether the demand of the Union to absorb /regularise the services of 29 contractual workmen (list enclosed) as permanent and direct employees of ONGC Ltd., Hazira, Surat with time scale of pay of their category of work equivalent to their similar placed regular employees of ONGC Ltd. by declaring the contract as ‘Sham contract is fair and justified? If so, to what relief the concerned workmen are entitled to and from which date and what other directions are necessary in the matter?”

2. This reference dates back to 16.01.2001. Second party submitted statement of claim (Ext. 3) on 12.02.2001 and first party filed the written statement (Ext.16) on 10.09.2001. Since then second party has been given dozen of opportunity to lead evidence but he did not prefer to lead his evidence. He has also been absent since then. Thus, it appears that second party is not interested in the proceedings of the reference. Therefore, Tribunal has no option but to dismiss the reference in default of the second party.

The reference is dismissed in default of the second party.

P.K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

का.आ. 779 .— औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स ओ. एन.जी.सी. लिमिटेड और दूसरे के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद पंचाट (संदर्भ संख्या 1356/2004) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 21.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल- 30012/22/2001-आईआर(एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 26th April, 2016

S.O.779—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 1356/2004) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s O.N.G.C. Ltd. and others and their workman, which was received by the Central Government on 21.04.2016.

[No. L-30012/22/2001-IR(M)]
NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD

Present....

Pramod Kumar Chaturvedi,

Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,

Ahmedabad,

Dated 4th March, 2016**Reference: (CGITA) No-1356/2004****Reference: (ITC) No-10/2001**

1. The Group General Manager(P),
ONGC Ltd.,
Hazira Project,
P.O. Bhatpore,
Surat (Gujarat)-394518
2. M/s Airon Corporation,
Rajmahal Road, Rhode 'sKancha corner, Baroda
Surat(Gujarat)- 394518

...First party

Vs.

Shri Sureshbhai Zinabhai Patel,
Vill. Palanpur,
Taluka Choryasi,
Surat (Gujarat)

...Second Party

For the First Party : Sh. Nilam B. Shah, Advocate

For the Second Party :

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour ,New Delhi by reference adjudication Order No. L- 30012/22/2001/IR(M) dated 22.03.2001 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Surat(Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of ONGC Ltd. Through its contractor M/s. Airon Coprn in terminating the services of Sh. Sureshbhai Zinabhai Patel, ‘Attendant/Operator (A/C Plant) w.e.f. 30.11.2000 is proper and justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled to?”

“Whether the demand of the workman Shri Sureshbhai Zinabhai Patel in considering his as direct/regular employee of ONGC Ltd.. w.e.f. the date of his entry in the services is legal, proper and justified? If so, to what relief the concerned workman is entitled to and which date & what other directions are necessary in the matter?”

2. This reference dates back to 22.03.2001. Second party submitted statement of claim (Ext. 5) on 21.01.2002 and first party filed the written statement (Ext.11) on 02.01.2003. Since then second party has been given dozen of opportunity to lead evidence but he did not prefer to lead his evidence. He has also been absent since then. Thus, it appears that second party is not interested in the proceedings of the reference. Therefore, Tribunal has no option but to dismiss the reference in default of the second party.

The reference is dismissed in default of the second party.

P.K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

का.आ. 780.— औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दूसरों के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद पंचाट (संदर्भ संख्या 14/2005) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 21.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल- 11012/28/2004-आईआर(एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 26th April, 2016

S.O.780—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 14/2005) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s Airport Authority of India and other and their workman, which was received by the Central Government on 21.04.2016.

[No. L-11012/28/2004-IR(M)]
NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD**

Present....
Pramod Kumar Chaturvedi,
Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 9th March, 2016

Reference: (CGITA) No-14/2005

1. The Airport Director,
Airport Authority of India, Civil Aerodrome,
Harni Gujarat,
Vadodara (Gujarat)-380022
2. The Airport Director,
Airport Authority of India (IAD)
Mumbai Airport,
Mumbai-99
Mumbai
3. M/s. Dwarkanath Contract Services,
12, Shrinath Dham Society,
Behind Deep Society,
VIP Road, Vadodara (Gujarat) -390002
4. M/s. Delta Construction
BB-5 Puja Park Society,
Nr. Sardar Estate,
VIP Ring Road,
Vadodara (Gujarat)- 390002

...First Party

Vs.

Their Workman,
Sh. Shyam Kumar J. Solanki
Harijanvas, Behind No. 10 School Nagarwada,
Vadodara (Gujarat)

...Second Party

For the First Party :
For the Second Party :

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-11012/28/2004-IR(M) dated 18.01.2005 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad(Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Airport Authority of India through the Contractor in terminating the services of Shri Shyam Kumar J. Solanki & 23 others (list enclose) is legal, proper and justified? If not, to what relief these concerned workmen Shri Shyam Kumar J. Solanki & 23 others are entitled to and from which date and what other directions are necessary in the matter?”

2. This reference dates back to 18.01.2005. Second party filed the statement of claim (Ext.2) on 18.02.2005 along with some documents. First party also filed vakalatparta (Ext.5) of his advocate and also filed written statement (Ext.10) on 21.05.2009. Since then the second party has not been leading evidence and has also been absent since last several dates. Thus, it appears that second party is not willing to proceed with the reference as they have been absent since last several dates. Thus Tribunal has no option but to dismiss the reference in default of the second party.

This reference is dismissed in default of the second party.

P.K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

का.आ.781 .— औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स ओ. एन.जी.सी. लिमिटेड के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद पंचाट (संदर्भ संख्या 45/2011) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 21.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल- 30011/31/2005-आईआर(एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 26th April, 2016

S.O.781—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 45/2011) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s O.N.G.C. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 21.04.2016.

[No. L-30011/31/2005-IR(M)]

NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD**

Present....

Pramod Kumar Chaturvedi,
Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 16th March, 2016

Reference: (CGITA) No-45/2011

1. The General Manager,
ONGC Ltd., Avani Bhavan,
Sabarmati,
Ahmedabad (Gujarat)

...First Party

Vs.

Their Workman,
Through the General Secretary,
Kamdar Hit Rakshak Union,
10, Jiviba Complex,
Near Cadila Rly. Crossing,
Ghodasar,
Ahmedabad (Gujarat)-50

...Second Party

For the First Party : Sh. K.V. Gadhia, Advocate

For the Second Party : C/o. Kamdar Hit Rakshak Union

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-30011/31/2005-IR(M) dated 28.11.2008 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad(Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of ONGC Ahmedabad asset by not granting the benefit of Ex-gratia under Agrani Samman scheme to Shri R. Kuppaya Murgan is justified and legal, if not what relief the workmen is entitled to?”

2. This reference dates back to 28.11.2008. Both the parties were served. First party filed the vakalatpatra (Ext.4) on 15.09.2011. Second party filed the Statement of claim (Ext.6) on 30.09.2011. First party filed the written statement (Ext.7) on 13.02.2012. Second party moved an application for withdrawal of the reference. First party has no objection. Thus, the application (Ext.8) is allowed. Reference is dismissed as withdrawn.

This reference is dismissed as withdrawn.

P.K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

का.आ. 782 .— औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स ओ. एन.जी.सी. लिमिटेड और दूसरों के प्रबंधतंत्र के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद पंचाट (संदर्भ संख्या 113/2007) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 21.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल- 30011/60/2007-आईआर(एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 26th April, 2016

S.O.782—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 113/2007) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s O.N.G.C. Ltd. and others and their workman, which was received by the Central Government on 21.04.2016.

[No. L-30011/60/2007-IR(M)]
NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD**

Present....

Pramod Kumar Chaturvedi,
Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 9th March, 2016

Reference: (CGITA) No. 113/2007

1. The Executive Director-Asset Manager,
ONGC Ltd.,
Ahmedabad Asset,
Avani Bhavan,
Chandkheda,
Ahmedabad (Gujarat)-380005
2. The Executive Director- Asset Manager,
ONGC Ltd., KDM Bhavan,
Palavasna,
Mrhsana (Gujarat)-384003

3. The Asset Manager,
ONGC Ltd., Campbay Sub Asset,
Kansari (PO), via- Anand,
Cambay,
Kheda

...First Party

Vs.

Their Workman,
Through the Chairman,
Ahmedabad Asset & General Secretary,
(CEC), ONGC Employees Mazdoor Sabha, Western Region,
ONGC Ahmedabad Asset, Avani Bhavan,
Chandkheda,
Ahmedabad (Gujarat)-380005

...Second Party

For the First Party : Shri K.V. Gadhia, Advocate
For the Second Party : C/o. ONGC Employees Mazdoor Sabha

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-30011/60/2007-IR(M) dated 23.11.2007 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad(Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

“Whether the demand of the ONGC Employees Mazdoor Sabha (Western Region) that all the future recruitments in unionized category should be made on regular basis only, and the existing 140 vacancies created in Western Region for Tenure Based appointment should be converted into regular vacancies is legal, valid and justified? If so, what directions are necessary in the matter?”

2. This reference dates back to 23.11.2007. Both the parties were served by registered post. First part filed the vakalapatra (Ext.7) on 28.05.2008. But despite service second party did not prefer to submit the statement of claim he has also been absent since last several dates. Thus, it appears that second party is not willing to proceed with the reference as they have been absent since last several dates. Thus Tribunal has no option but to dismiss the reference in default of the second party.

This reference is dismissed in default of the second party.

P.K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

का.आ. 783 .— औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स ओ. एन.जी.सी. लिमिटेड और दूसरों के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद पंचाट (संदर्भ संख्या 402/2004) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 21.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल- 30011/47/2001-आईआर(एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 26th April, 2016

S.O.783—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 402/2004) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s O.N.G.C. Ltd. and others and their workman, which was received by the Central Government on 21.04.2016.

[No. L-30011/47/2001-IR(M)]
NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD

Present....

Pramod Kumar Chaturvedi,
 Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,
 Ahmedabad,
 Dated 9th March, 2016

Reference: (CGITA) No. 402/2004

Reference: (ITC) No. 64/2001

1. ONGC Ltd.,
 The Group General Manger (P),
 Ankleshwar,
 Dt. Bharuch (Gujarat)
 Bharuch-393010

2. M/s Mahalxmi Industrial Corporation,
 1/112/A, GIDC Estate,
 Phase-I,
 Gandhar,
 Dt. Bharuch

3. SrueshTranspot Co.,
 Ankleshwar Gandhar, ONGC,
 Ankleshwar,
 Bharuch

4. Industrial Security Services,
 1st Floor,
 Opp. Jagdamba Mills,
 A.K. Road,
 Surat (Gujarat)

...First Party

Vs.

Their Workman,
 Through the President,
 All Gujarat State Kamdar Union,
 Khadki Faliya,
 At Vav, Post Kadodara,
 TalukaVagra, Dt. Bharuch (Gujarat)

...Second Party

For the First Party : Shri P.S. Chari, Advocate

For the Second Party : Shri Amrish Patel, Advocate

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-30011/47/2001-IR(M) dated 10.07.2001 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad(Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of ONGC Ltd., Ankleshwar Project, Ankleshwar in not considering the demand of Shri Rathod Ranjitbhai Hirabhai & 15 other workmen (as per list enclose) for absorption and regularisation is justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled?”

2. This reference dates back to 11.07.2001. second party sought time vide application (Ext.3) on 15.10.2001 and first party also filed the vakalatpatra (Ext.4) on 15.10.2001 but since then second party has not been filing statement of claim and has also been absent. Thus, it appears that second party is not willing to proceed with

the reference as they have been absent since last several dates. Thus Tribunal has no option but to dismiss the reference in default of the second party.

This reference is dismissed in default of the second party.

P.K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

का.आ. 784.— औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स ओ. एन.जी.सी. लिमिटेड और दूसरों के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद पंचाट (संदर्भ संख्या 678/2004) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 21.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल- 30011/13/1999-आईआर(एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 26th April, 2016

S.O.784—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 678/2004) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s O.N.G.C. Ltd. and others and their workman, which was received by the Central Government on 21.04.2016.

[No. L-30011/13/1999-IR(M)]
NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, AHMEDABAD

Present....

Pramod Kumar Chaturvedi,
Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 8th March, 2016

Reference: (CGITA) No. 678/2004

Reference: (ITC) No. 38/1999

1. The Executive Director,
ONGC Ltd., WRBC, Makarpura Road,
Baroda-390009
2. M/s. Sanand Towers,
207, IInd Floor,
ONGC Colony,
Beside Central workshop,
ONGC Ltd., Makarpura Road,
Baroda-390009
3. The President,
M/s. Vasudha Towers,
501, 5th Floor, ONGC Colony,
Beside Central workshop,
Baroda-390009
4. The President,
M/s. Uday Towers,
6th Floor, ONGC Colony,
ONGC Ltd., Makarpura Road,
Baroda-390009

...First Party

Vs.

Their Workmen,
Through the Legal Secretary,
Bhartiya Karmachai Sangh,
Shashtri Pole,
Kothi Char Rasta,
Baroda-390001

...Second Party

For the First Party : Shri C.S. Naidu, Advocate
For the Second Party : Shri Sudhir Shah

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-30011/13/99/IR(M) dated 16.02.1999 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

“Whether the contract between the management of ONGC Ltd., Baroda and contractors M/s Sanand Towers, M/s. Vasudha Towers & M/s Uday Towers in respect of Shri Chhatrasinh Nagjibava Matroja, Shri Nilesh Natvarlal Purihit, Shri Vithalbhai Kalidas Thakor, Shri Mafatbhai Mohanbhai Mali, Shri Ramchandra Bjirao Sinde and Shri Jagdishbhai Hirabhai Patel is sham and bogus contract entered into as a camouflage to avoid the provisions of contract Labour (Regulation and Abolition Act, 1970)?”

2. Whether the demand of the union in respect of 6 contractual workmen mentioned hereinabove engaged through various contractors and the non-registered association of persons in the establishment of ONGC Ltd for treating these contract workmen as ‘direct and regular employees of ONGC Ltd. from the date of their joining either with ONGC Ltd or any other labour contractors/non-registered association of persons, is legal, proper and justified? If so, to what relief these 5 contractual workmen are entitled to and from which date and what other directions are necessary in the matter?”

3. “Whether the demand of the union in respect of the above mentioned 6 contractual workmen mentioned hereinabove for making the payment of arrears of wages, DA, VDA, HRA and other fringe benefits at par with the regular employees of ONGC Ltd as per their categories and to make the payment of amount of over time to these contract workmen for the extra work performed by them is legal and justified? If so, to what relief these contract workmen are entitled to and from which date?”

2. This reference dates back to 16.02.1999. Second party submitted statement of claim (Ext.4) on 31.03.1999. First party submitted written statement (Ext.17) on 03.05.2002. But second party did not come forward to lead his evidence despite giving dozens of opportunities since the submission of written statement. Thus, it appears that second party is not willing to proceed with the reference as they have been absent since last several dates. Thus Tribunal has no option but to dismiss the reference in default of the second party.

This reference is dismissed in default of the second party.

P.K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

का.आ. 785.— औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद पंचाट (संदर्भ संख्या 967/2004) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 21.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल- 29012/1B/1993-आईआर(एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 26th April, 2016

S.O785.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 967/2004) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the

management of M/s. Gujarat Mineral Development Corporation Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 21.04.2016.

[No. L-29012/1B/1993-IR(M)]
NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, AHMEDABAD

Present....
Pramod Kumar Chaturvedi,
Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 8th March, 2016

Reference: (CGITA) No-967/2004

Reference: (ITC) No-15/1994

1. The Managing Director,
Gujarat Mineral Development Corporation Ltd.,
Khanij Bhavan, Ashram Road,
Ahmedabad

...First Party

Vs.

Their Workman,
Through the General Secretary,
Bhartiya Mazdoor Sangh,
'Gayatri' Rajputpara Main Road,
Rajkot

...Second Party

For the First Party : Shri C.S. Naidu, Advocate
For the Second Party :

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-29012/1B/93-IR(Misc.) dated 10.05.1994 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Rajkot(Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Gujarat Minerals Development Corporation Limited, Khani Bhavan, Ashram Road, Ahmedabad and the Project Manager, Lignite Project, Panandhro (Kutch) in terminating/discharging the service of Shri Dinesh Kumar Kalidas Bhatt, w.e.f. 21.10.1991 is valid and justified? If not, to what relief the workman is entitled for and what directions are necessary in the matter?”

2. This reference dates back to 10.05.1994. Second party submitted statement of claim (Ext.2) on 26.08.1997. First party submitted written statement (Ext.3) on 11.08.1998. But second party did not come forward to lead his evidence despite giving dozens of opportunities since the submission of written statement. Thus, it appears that second party is not willing to proceed with the reference as they have been absent since last several dates. Thus Tribunal has no option but to dismiss the reference in default of the second party.

This reference is dismissed in default of the second party.

P.K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

का.आ. 786.— औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स कांडला पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद पंचाट (संदर्भ संख्या 1105/2004) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 21.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल- 37012/3/1998-आईआर(एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 26th April, 2016

S.O.786—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 1105/2004) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s Kandla Port Trust and their workman, which was received by the Central Government on 21.04.2016.

[No. L-37012/3/1998-IR(M)]
NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD**

Present....
Pramod Kumar Chaturvedi,
Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 29th March, 2016

Reference: (CGITA) No. 1105/2004

Reference (ITC) No. 3/1998

1. Kandla Port Trust,
Chairman, Administrative Office,
P.B. No. 50, Gandhidham (Kutch)
Gandhidham-370201

...First Party

Vs.

Their Workman,
Through the general secretary,
Transport & Dock Workers Union,
Room No. 21, Yogesh Building, Ward 12-C, Plot No. 58,
Gandhidham (Kutch)-370201

...Second Party

For the First Party : Shri K.V. Gadhia, Advocate
For the Second Party : Shri N.H. Rathod, Advocate

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-37012/3/98-IR(M) dated 17.03.1999 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Rajkot(Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Kandla Port trust in penalising thrice for the same reason i.e. one increment and no promoting him from the post of Fireman to the post of Leading Hand to Shri Tejpal L. H working as Fireman under Dy. Conservator, Kandla Port Trust is just, valid an legal? If not, to what benefits the workman is entitled for and what directions are necessary in the matter?”

2. This reference dates back to 11/17.03.1999. Second party submitted statement of claim (Ext.1) on 09.05.2001. First party submitted written statement (Ext.17) on 19.10.2015 but second party has not been responding/present since then to lead evidence.LalitLachhmandasVaryani, Secretary, Transport Dock worker Union, Kandla moved an application for withdrawal of the reference. First party has no objection. Therefore, application deserves to be allowed.
3. Reference is dismissed as withdrawn

P.K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

का.आ. 787 .— औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स ओ. एन.जी.सी. लिमिटेड और दूसरों के प्रबंधन संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद पंचाट (संदर्भ संख्या 1305/2004) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 21.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल- 30012/94/2000-आईआर(एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 26th April, 2016

S.O.787—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 1305/2004) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s O.N.G.C. Ltd. and others and their workman, which was received by the Central Government on 21.04.2016.

[No. L-30012/94/2000-IR(M)]
NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, AHMEDABAD

Present....

Pramod Kumar Chaturvedi,
Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 4th March, 2016

Reference: (CGITA) No-1305/2004

Reference: (ITC) No-21/2000

1. The Group General Manager(P),
ONGC Ltd.,
Hazira Project,
P.O. Bhatpore,
Surat (Gujarat)-394518
2. M/s Sagar Construction
Near Tapi Bridge,
Tax Plaza, Kagdaila ONGC Road,
Surat(Gujarat)- 394518
3. M/s International Engineering & Marine Work,
Bandra Mariam Co-op Housing Society Ltd.,
B/92, St. Sabastiam Road ,
Mumbai-400050

...First Party

Vs.

Shri Ashok Shantilal Patel,
At.Bhatpur,
TalukaChoryasi,
Surat (Gujarat)

...Second Party

For the First Party : Sh. Nilam B. Shah, Advocate
For the Second Party :

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L- 30012/94/2000/IR(M) dated 13.07.2000 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Surat(Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

“Whether the contract between the management of ONGC Ltd., Hazira project, Surat & the contractor M/s Sagar construction in respect of the contractual workman Shri Ashok Shantilal Patel is sham & bogus contract?”

“Whether the demand of the workman Shri Ashok Shantilal Patel for treating him as direct and regular/permanent employee of ONGC Ltd., Hazira Project from either the date of his initial engagement with the contractor or from the date of Notification issued by Government of India, prohibiting his alleged employment/work through the contract system is legal and justified? If so, to what relief Shri Ashok Shantilal Patel is entitled and from which date and what other directions are necessary in the matter?”

2. This reference dates back to 13.07.2000. Second party submitted statement of claim (Ext. 5) on 25.10.2000 and first party filed the written statement (Ext.10) on 10.04.2001. Since then second party has been given dozen of opportunity to lead evidence but he did not prefer to lead his evidence. He has also been absent since then. Thus, it appears that second party is not interested in the proceedings of the reference. Therefore, Tribunal has no option but to dismiss the reference in default of the second party.

The reference is dismissed in default of the second party.

P.K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

का.आ. 788 .— औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स ओ. एन.जी.सी. लिमिटेड और दूसरों के प्रबंधन संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद पंचाट (संदर्भ संख्या 1309/2004) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 21.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल- 30012/72/2000-आईआर(एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 26th April, 2016

S.O.788—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 1305/2004) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s O.N.G.C. Ltd. and others and their workman, which was received by the Central Government on 21.04.2016.

[No. L-30012/72/2000-IR(M)]
NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

**ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD**

Present....
Pramod Kumar Chaturvedi,
Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 4th March, 2016

Reference: (CGITA) No. 1309/2004
Reference: (ITC) No. 25/2000

1. The Group General Manager(P),
ONGC Ltd.,
Hazira Project,
P.O. Bhatpore,
Surat (Gujarat)-394518

2. M/s. Sagar Construction
Near Tapi Bridge,
Tax Plaza, Kagdaila ONGC Road,
Surat(Gujarat)- 394518

...First Party

Vs.

Shri Kishore M. Patel
At. Bhatpur,
Taluka Choryasi,
Surat (Gujarat)

...Second Party

For the First Party : Sh. Nilam B. Shah, Advocate
For the Second Party :

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L- 30012/72/2000/IR(M) dated 05.07.2000 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Surat(Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

“Whether the contract between the management of ONGC Ltd., Hazira project, Surat & the contractor M/s. Sagar construction in respect of the contractual workman Shri Kishore M. Patel is sham & bogus contract?”

“Whether the demand of the workman Shri Kishore M. Patel for treating him as direct and regular/permanent employee of ONGC Ltd., Hazira Project from either the date of his initial engagement with the contractor or from the date of Notification issued by Government of India, prohibiting his alleged employment/work through the contract system is legal and justified? If so, to what relief SShri Kishore M. Patel is entitled and from which date and what other directions are necessary in the matter?”

2. This reference dates back to 05.07.2000. Second party submitted statement of claim (Ext. 4) on 25.10.2000 and first party filed the written statement (Ext.10) on 10.04.2001. Since then second party has been given dozen of opportunity to lead evidence but he did not prefer to lead his evidence. He has also been absent since then.

Thus, it appears that second party is not interested in the proceedings of the reference. Therefore, Tribunal has no option but to dismiss the reference in default of the second party.

The reference is dismissed in default of the second party.

P.K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

का.आ. 789.— औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन के प्रबंधतंत्र संबंध निर्योजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या सीजीआईटीए 47/2004) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 26.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल- 40012/25/96-आईआर(डीयू)]

पी. के. वेणुगोपाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th April, 2016

S.O.789— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (I.D Ref (CGITA)No.47/2004) of the Central Government Industrial Tribunal-Cum-Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of the Department of Telecommunication and their workmen, which was received by the Central Government on 26.04.2016.

[No.L-40012/25/96-IR(DU)]

P.K.VENUGOPAL, Desk Officer

ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD

Present....

Pramod Kumar Chaturvedi,

Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,

Ahmedabad,

Dated 3rd March, 2016

Reference: (CGITA) No. 47/2004

Reference: (ITC) No. 3/1997

1. The Sub-Divisional Officer/Phones,
Telecom Deptt.,
Gandhidham

2. The Divisional Engineer/Telephone,
Deptt. Of Telecom,
(Kutch) ,Kutch Dist,
Bhuj(Kutch) -370001

...First Party

Vs.

Their workman

Shri Krishna Prasad,

Nageshwar Kumar,

Nandkumar Pal,

Q No. 34-A, Railway Colony,

Gandhidham(Kutch)

...Second Party

For the First Party : Smt. P.V. Kharsani, Advocate

For the Second Party : Sh. N.R. Mehta, Advocate

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour ,New Delhi by reference adjudication Order No. L-40012/25/96-IR(DU) dated 24.02.1997 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad(Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of SDO (Telephones) , Gandhidham in terminating the services of S/Shri Krishna Prasad, Nageshwar Kumar and Nand Kumar Pal, casual workers is legal and justified? If not, to what relief the workman are entitled to?”

2. This reference dates back to 24.02.1997. Both the parties are absent. From the perusal of the order dated 23.07.2012 , it reveals that out of three workmen, two of the workmen have expired and their legal heirs are to be substituted and time was granted for the same since then neither of any workmen or legal heirs have been turning up in the reference. A number of dates have been given for the purpose but to no result. Thus, it appears that all the second parties/workmen have no inclination or willingness to proceed with the reference. Thus, the Tribunal has no option but to dismiss the reference in default of the second parties/workmen

The reference is dismissed in default of the second parties/workmen.

P.K. CHATURVEDI , Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

का.आ. 790.— औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड आदर्स के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, भुवनेश्वर के पंचाट (संदर्भ संख्या 52/2014) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 12.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल- 42012/101/2014-आईआर(डीयू)]

पी. के. वेणुगोपाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th April, 2016

S.O. 790.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (I.D No. 52/2014) of the Central Government Industrial Tribunal Cum-Labour Court, Bhubaneswar now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of the NHAI and others and their workman, which was received by the Central Government on 12.04.2016.

[No.L-42012/101/2014-IR(DU)]

P.K.VENUGOPAL, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT BHUBANESWAR

Present:

Shri B.C. Rath,
Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour
Court, Bhubaneswar.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 52/2014

No. L-42012/101/2014-IR(DU), dated 30.09.2014

Date of Passing Order – 31st March, 2016

Between:

1. The Project Director,
NHAI, 1st Floor, Sety Nirman Bhawan,
(OBCC), Near Kalyan Mandap, Nayapalli,
Bhubaneswar Odisha.

2. The Regional Manager,
Sky Lark Securities Pvt. Ltd.,
C/o. Srirampur Toll Plaza, At. Srirampur,
Po. Kantigadia, Chandikhole, Dist. Jajpur,
Odisha.

3. Srirampur Toll Plaza,
At. Srirampur, Po. Kantigadia, Chandikhole,
Dist. Jajpur, Orissa.

(And)

...1st Party-Managements.

Shri Satish Kumar Barik & 6 Ors.
At. Gopalpur, Po. Kantigadia,
P.S. Dharmasala, Jajpur, Orissa.

...2nd Party-Workmen.

Appearances:

None.	...	For the 1 st Party- Managements.
None	...	For the 2 nd Party- Workmen.

ORDER

Case taken up. Parties are absent. The 2nd Party-Workmen have not filed any statement of claim despite sending notices through ordinary as well as regd. post. As such it seems that the 2nd party-workmen are not interested in prosecuting their case. However the dispute cannot be adjudicated upon for want of pleadings on behalf of the parties. As such there is no alternative except to return the reference to the Government for necessary action at its end.

2. Accordingly the reference is returned to the Government unanswered for necessary action at its end.

Dictated & Corrected by me.

B. C. RATH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

का.आ. 791 .— औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार स्काई लार्क सिक्योरिटीज प्राइवेट एंड आदर्स के प्रबंधन संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, भुवनेश्वर के पंचाट (संदर्भ संख्या 40/2014) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 12.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल- 42012/84/2014-आईआर(डीयू)]

पी. के. वेणुगोपाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th April, 2016

S.O.791— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (I.D No.40/2014) of the Central Government Industrial Tribunal-Cum-Labour Court, Bhubaneswar now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of the Sky Lark Securities Pvt. Ltd., & others and their workman, which was received by the Central Government on 12.04.2016.

[No.L-42012/84/2014-IR(DU)]

P.K.VENUGOPAL, Desk Officer

ANNEXURE**CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT BHUBANESWAR****Present:**

Shri B.C. Rath,
Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour
Court, Bhubaneswar.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 40/2014

No. L-42012/84/2014-IR(DU), dated 04.08.2014

Date of Passing Order – 4th April, 2016

Between:

1. The Managing Director,
Sky Lark Securities Pvt. Ltd.,
Corporate Office, Shiv Gram, 323,
Palam Vihar Extension, Gurgaon,
Haryana.

2. Srirampur Toll Plaza,
C/o. NHAI, 1st Floor, Setu Nirman Bhawan, (OBCC),
Near Kalyan Mandap, Naayapalli,
Bhubaneswar, Orissa.
3. M/s. Indradeep Construction Co.
Engineers & Govt. Contractors, Radhamahal,
Block No. C-814/1627, Ganchi Road,
Ulhasnagar – 421 005.
4. The Chief General Manager, NHAI,
Pal Heights, 3rd Floor, Bhubaneswar, Orissa.
5. The Project Director, NHAI,
1st Floor, Setu Nirman Bhawan, (OBCC),
Near Kalyan Mandap, Nayapalli,
Bhubaneswar, Orissa.

...1st Party-Managements

(And)

Shri Prafulla Kumar Bal & 4 others,

Kokiatha, Po. Basudevapur, Cuttack-752 204

...2nd Party-Workmen

Appearances:

None	...	For the 1 st Party- Managements.
None	...	For the 2 nd Party- Workmen.

ORDER

Case taken up. Parties are absent. The 2nd Party-Workmen have not filed any statement of claim despite sending notices through ordinary as well as regd. post. As such it seems that the 2nd party-workmen are not interested in prosecuting their case. However the dispute cannot be adjudicated upon for want of pleadings on behalf of the parties. As such there is no alternative except to return the reference to the Government for necessary action at its end.

2. Accordingly the reference is returned to the Government unanswered for necessary action at its end.

Dictated & Corrected by me.

B. C. RATH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

का.आ. 792 -केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34 की धारा **91**-क के साथ पठित धारा **88** द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान इन्सेकटीसाइड्स लिमिटेड (सभी प्रतिष्ठानों/इकाईयों) के कारखानों/स्थापनाओं के नियमित कर्मचारियों को इस अधिनियम के प्रवर्तन से छूट प्रदान करती है। यह छूट, 30 मई, 2016 से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी।

2. उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है; अर्थात्:-

- (1) पूर्वोक्त स्थापना जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगी, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदनाम दिखाये जायेंगे;
- (2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अंशदानों के आधार पर हकदार हो जाते हैं;
- (3) छूट प्राप्त अवधि के लिए, यदि कोई अभिदाय पहले ही किए जा चुके हों, तो वे वापस नहीं किए जाएंगे;

- (4) उक्त कारखाने/स्थापना का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने/स्थापना पर उक्त अधिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अवधि कहा गया है) प्रवर्तमान था ऐसी विवरणियां, ऐसे प्रारूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी अपेक्षित होती थीं;
- (5) निगम द्वारा उक्त कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी;
- (i) धारा 44 की उप-धारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरण की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; अथवा
- (ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गये थे या नहीं; या
- (iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिये गए उन फायदों को, जिसके फलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या
- (iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं, निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा:-
- (क) प्रधान या आसन्न नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है; अथवा
- (ख) ऐसे प्रधान या आसन्न नियोजक के अधिभोगाधीन, किसी कारखाने, स्थापना, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें या ऐसी जानकारी दें जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या
- (ग) प्रधान या आसन्न नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति को, जो ऐसे कारखाने, स्थापना, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापना, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखा, बही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उद्धरण लेना;
- (ङ) यथानिर्धारित अन्य शक्तियों का प्रयोग करना।
6. विनिवेश/निगमीकरण के मामले में, प्रदत्त छूट स्वतः रद्द हो जाएगी और तब नए प्रतिष्ठान को छूट हेतु समुचित सरकार की अनुमति लेनी होगी।

[सं.एस-38014/12/2013-एस.एस-1]

अजय मलिक, अवर सचिव

New Delhi, the 27th April, 2016

S.O. 792— In exercise of the power conferred by Section 88 read with Section 91-A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby exempts the regular employees of factories/establishments of M/s Hindustan Insecticides Ltd. (all units) from the operation of the said Act. The exemption shall be effective w.e.f. 30.05.2016 for a period of one year.

2. The above exemption is subject to the following conditions namely:-

- (1) The aforesaid establishments wherein the employees are employed shall maintain a register showing the name and designations of the exempted employees;
- (2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;
- (3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refundable;
- (4) The employer of the said factory/establishment shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred as the said period), such returns

in such forms and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

- (5) Any Social Security Officer appointed by the Corporation under Sub-Section (1) of Section 45 of the said ESI Act or other official of the Corporation authorized in this behalf by it, shall, for the purpose of :-
- (i) Verifying the particulars contained in any returned submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
 - (ii) Ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
 - (iii) Ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or
 - (iv) Ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory to be empowered to:
 - (a) require the principal or immediate employer to him such information as he may consider necessary for the purpose of this Act; or
 - (b) at any reasonable time enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found in charge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine accounts, books and other documents relating to the employment of personal and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
 - (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or
 - (d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises,
 - (e) exercise such other powers as may be prescribed.
 - (6) In case of disinvestment/corporatization, the exemption granted shall become automatically cancelled and then the new entity will have to approach the appropriate Government for exemption.

[No. S-38014/12/2013-SS-I]

AJAY MALIK, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

का.आ. 793 .— औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार हेड पोस्ट ऑफिस, गुडगांव के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, 2 चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 334/2013) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 27.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल- 40012/102/2013-आईआर(डीयू)]

पी. के. वेणुगोपाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th April, 2016

S.O.793—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (I.D. No. 334/2013) of the Central Government Industrial Tribunal Cum Labour Court No. II, Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of the Head Post Office, Gurgaon and their workman, which was received by the Central Government on 27.04.2016.

[No. L-40012/102/2013-IR(DU)]

P.K. VENUGOPAL, Desk Officer

ANNEXURE**In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.****Present: Sri Kewal Krishan, Presiding Officer.**

Case No. I.D. No.334/2013

Registered on 24.2.2014

Sh. Surender Singh S/o Sh. Rama Nand Singh, Village Dhorka, Post Bhangrola, District Gurgaon, Haryana.

Petitioner**Versus**

1. Director of Postal Services, Head Offices Dundaheda, Udyog Vihar, Sector 19, Gurgaon(Haryana).
2. The Chief Post Master, Haryana Circle, Ambala, Haryana.
3. The Post Master, Head Post Office, Sadar,Gurgaon, Haryana.

Respondents**APPEARANCES**

For the workman

Sh. Arun Batra, Adv.

For the Management

Management ex parte.

AWARD**Passed on:-08.03.2016_**

Vide Order No.L-40012/102/2013-IR(DU), dated 06.02.2014 the Central Government in exercise of the powers conferred by Clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-Section 2(A) of Section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (in short Act) has referred the following industrial dispute for adjudication to this Tribunal.

“Whether the demand of Sh. Surender Singh S/o Sh. Rama Nand Singh, as Gramin Dak Sewak Mail Deliver/Mail Carrier at Bhangrola Branch Post Office, Distt. Gurgaon against the Management of the Director Postal Services, Head Office, Gurgaon(Haryana) and others over alleged illegal termination of his services w.e.f. 16.4.2012 without considering his medical certificate and his post service and requested for reinstatement in service with continuity of service with full back wages is just, valid and legal? If so, to what benefits the workman is entitled for and what directions are necessary in the matter?”

In response to the notice, the workman appeared and submitted statement of claim pleading that he was engaged as Gramin Dak Sewak/Mail Deliverer/Mail Carrier on 27.6.1995 by the respondent-management at Bhangrola, District Gurgaon, Haryana. He was sent to work as Outsider Group ‘D’ Chowkidar to Gurgaon Head Post Office in leave arrangement on 5.12.2011 to 12.3.2012. Thereafter, he fell sick and advised bed rest by the doctor till 11.4.2012. The doctor issued a fitness certificate on 14.4.2012 and he approached the management to resume his duty on 16.4.2012 along with medical certificate. But he was not allowed to join the duty and was told verbally that he was relieved w.e.f. 22.3.2012. It is pleaded that no enquiry was conducted and no show cause notice was issued to him before terminating his service and therefore, his termination is illegal and he be reinstated in service.

Respondent-management appeared through Sh. Manoj Kumar, Post Master but none appeared on behalf of the management on 20.5.2014 and therefore, respondent-management was proceeded against ex parte.

Workman led ex parte evidence and himself appeared in the witness-box. He filed his affidavit reiterating the case as set out in the claim petition.

It may be added at the outset that according to the workman, he was engaged as Gramin Dak Sewak on 27.6.1995. Though the respondent-management did not contest the present proceedings but, it filed reply to the demand notice before the Assistant Labour Commissioner, the copy of which is Exb.W6. The management admitted in its reply before the Assistant Labour Commissioner that the workman was employed as Gramin Dak Sewak on 27.6.1995. Thus, the employment of the workman as Gramin Dak Sewak is admitted by the management.

Now, according to the workman, he remained sick from 12.3.2012 to 23.3.2012 and was declared fit to resume the duty on 14.4.2012. He was not allowed to work by the respondent-management. Again the respondent-management

admitted in its reply before the Assistant Labour Commissioner that workman submitted a medical certificate and further pleaded that the workman was being treated as absent from duty and he was not removed from service. When the workman did submit a medical certificate and certainly, he must have applied for leave, how the respondent-management can treat him as absent from duty. Even if he was absent from duty, the respondent-management was required to proceed against him under the Department of Posts, Gramin Dak Sewak (Conduct and Engagement) Rules 2011 which inter alia provides a procedure for imposing a penalty and relevant portion of Rule 10 read as follow:-

“(1) No order imposing a penalty shall be passed except after-

- (a) *The Sevak is informed in writing of the proposal to take action against him and of the allegation on which it is proposed to be taken and given an opportunity to make any representation he may wish to make; and*
- (b) *Such representation, if any, is taken into consideration by the Recruiting Authority: Provided that the penalty of dismissal or removal from engagement shall not be imposed except after an enquiry in which he has been informed of the charges against him and has been given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges.”*

But the respondent-management neither imposed any penalty nor followed the procedure as laid down under the rules and rather the case of the respondent-management, as set up before the Assistant Labour Commissioner, was that the workman was not removed from service and is being treated as absent from duty which cannot be accepted as the workman has been agitating the matter by issuing demand notice as well by contesting the present proceedings.

Since the workman has not been removed/disengaged from service, he is deemed to be in service and it cannot be said that his services were terminated w.e.f. 16.4.2012.

Ordinarily, the workman is entitled to full pay as he was not allowed to join w.e.f. 16.4.2012; but there is nothing on file to suggest that he did not earn any amount during all this period. Considering all the circumstances, he is found to be entitled to 50% of the back wages.

In result, the reference is answered holding that the workman is still in service and is entitled to 50% of the back wages w.e.f. 16.4.2012 till the passing of the award. The respondent-management shall assign him duty within one month of the publication of the award and is at liberty to take action as envisaged under the rules for his alleged absence from duty.

KEWAL KRISHAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

का.आ. 794 .—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन और अदर्स के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 68/2010) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/76/2010-आईआर (डीयू)]

पी. के. वेणुगोपाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th April, 2016

S.O. 794.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (ID No. 68/2010) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. II, Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of the National Hydro Power Corporation and Others and their workman, which was received by the Central Government on 27.04.2016.

[No. L-42012/76/2010-IR (DU)]

P. K. VENUGOPAL, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, CHANDIGARH

Present: Sri Kewal Krishan, Presiding Officer

Case No. I.D. No. 68/2010

Registered on 30.8.2010

Sh. Roshan Lal S/o Sh. Bhag Singh, Resident of Village Jugari,
Post Office Glot, Tehsil Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh.

...Petitioner

Versus

1. The General Manager, National Hydel Power Corporation,
Parbati Hydel Project, Stage-III, Village Behali,
Post Office Largee, District Kullu.
2. The General Manager, M/s Joggar Gammon Joint Venture,
Parbati, HPEP-III, Bihali, Kullu, Himachal Pradesh.
3. The Director, M/s Joggar Gammon Joint Venture, Mumbai.

...Respondents

APPEARANCES :

For the workman

Sh. M.S. Gors, Adv.

For the Management

Sh. V.K. Gupta for Resp. No.1

Sh. D.R. Sharma for Resp. No.2 & 3

AWARD

Passed on:-17.03.2016

Vide Order No.L-42012/76/2010-IR(DU), dated 13.08.2010 the Central Government in exercise of the powers conferred by Clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-Section 2(A) of Section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (in short Act) has referred the following industrial dispute for adjudication to this Tribunal.

“Whether the action of the management of M/s Jogger Gammon Joint Venture, Kullu, in terminating the services of their workman Sh. Roshan Lal w.e.f. 10.09.2007 is legal and justified? If not, what relief the workman is entitled to?”

The workman submitted statement of claim pleading that he joined the respondents as Driver on 15.4.2006 and was drawing a salary of Rs.3,800 per month. His services were illegally terminated on 10.9.2007 without paying him any retrenchment compensation and without conducting any enquiry. That false allegation were leveled against him which were not proved. That he be reinstated in service.

Respondent No.1 filed written reply, pleading that the workman was appointed by respondent No.2 who is a contractor of respondent No.1.

Respondent No.2 and 3 filed joint written statement, admitting that the workman was employed by it and further pleaded that a complaint was received against the workman for committing a theft of diesel. A show cause notice was issued to him and after conducting the enquiry, his services were terminated on 25.6.2007. However he again joined the service and was again found committing theft of diesel on 7.9.2007 and after conducting enquiry, his services were terminated. The termination of his services is legal and well.

Parties were given opportunity to lead their respective evidence.

Roshan Lal, workman appeared in the witness-box and filed his affidavit, reiterating his case as set out in the claim petition.

Respondent No.1 examined Mrs. Rubby Raina, who filed her affidavit stating therein that the workman was employed by respondent No.2 & 3 who were contractors.

Evidence of respondent No.2 & 3 was closed by order vide order dated 16.9.2015 as it failed to lead any evidence despite availing several opportunities and even grant of last opportunity.

I have heard Sh. M.S. Gors for the workman, Sh. V.K. Gupta for respondent No.1 and Sh. D.R. Sharma for Respondent No.2 & 3.

The admitted fact is that respondent No.2 & 3 are the contractors of respondent No.1. It was respondent No.2 & 3 who employed the workman on 15.4.2006 and his services were terminated on 10.9.2007.

Thus, he worked from 15.4.2006 to 10.9.2007 and completed continuous service of 240 days in a calendar year prior to the termination of his service.

According to respondent No.2 & 3, the workman was found committing theft of diesel and after conducting an enquiry, his services were terminated on 25.6.2007. The workman again joined the service and was again found committing theft of diesel and his services were terminated after conducting an enquiry.

Thus, according to respondent No.2 & 3 the services of the workman were terminated after conducting an enquiry but there is no evidence on file that the workman was ever found committing theft of diesel and a domestic enquiry was conducted by respondent No.2 & 3. In the absence of any evidence, it cannot be said that services of the workman were terminated after conducting a fair and proper enquiry, and it is to be held that the services were retrenched by respondent No.2 & 3 illegally and that too without payment of any retrenchment compensation. Thus, the termination of the services of the workman was not legal and valid.

Now the question is whether he is to be reinstated in service or be paid compensation in lieu thereof. It is not disputed that respondent No.2 & 3 were the contractors of respondent No.1 and there is nothing on the file to suggest that respondent No.2 & 3 are still doing the work as contractors of respondent No.1. In the circumstances, the reinstatement of the workman cannot be ordered. According to the workman, he was getting a salary of Rs.3,800 per month and he worked with the respondent No.2 & 3 for more than a year. The compensation is to be paid as salary in lieu of one month notice and pay for 15 days in each completed year. Considering the totality of the circumstances and the fact is that the services of the workman were terminated illegally, the workman is entitled to get a compensation of Rs.50,000

In result, the reference is answered holding that the termination of the services of the workman by respondent No.2 & 3 is not legal and he is entitled to Rs.50,000 by way of compensation from the respondents. If respondent No.1 who is the principal employer, pay the amount, it may be at liberty to recover the same from respondent No.2 & 3. Respondents shall make the payment within two months from the publication of the award failing which the workman is entitled to get 9% interest on the awarded amount per annum from the date of award till realization.

KEWAL KRISHAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

का.आ. 795 .—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार सेंट्रल साइल और वाटर कोन्सेर्वेटिव रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, चंडीगढ़ के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. एलसीए सं. 258/2011, सं. 259/2011, सं. 260/2011, सं. 261/2011, सं. 262/2011, सं. 263/2011, सं. 264/2011) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42025/03/2016-आईआर (डीयू)]

पी. के. वेणुगोपाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th April, 2016

S.O. 795.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (I.D LCA No. 258/2011, No. 259/2011, No. 260/2011, No. 261/2011, No. 262/2011, No. 263/2011 & No. 264/2011) of the Central Government Industrial Tribunal-Cum-Labour Court No.II, Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of the Central Soil & Water Conservation Research Training Institute, Chandigarh and their workman, which was received by the Central Government on 27/04/2016.

[No. L-42025/03/2016-IR (DU)]

P. K. VENUGOPAL, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, CHANDIGARH

Present: Sri Kewal Krishan, Presiding Officer

1. LCA No.258/2011, Sh. Jangi S/o Sh. Nathu,
R/o Vill. Saketri, Distt. Panchkula.
2. LCA No.259/2011, Sh. Hukam Chand S/o Sh. Bachna Ram,
Vill. Bhainsa Tibba, Panchkula.

3. LCA No.260/2011, Sh. Pawan Kumar S/o Sh. Ram Partap,
H.No.577/1, Manimajra, Chandigarh.
4. LCA No.261/2011, Sh. Ram Rattan S/o Sh. Dwarikasdas,
Vill. Bhainsa Tibba, MDC, Panchkula.
5. LCA No.262/2011, Sh. Suraj Bali S/o Sh. Himachal,
R/o Near Peer Baba, Sector-4, MDC, Panchkula.
6. LCA No.263/2011, Sh. Baldev Singh S/o Sh. Tota Ram,
H.No.815, Vill. Saketri, Panchkula.
7. LCA No.264/2011, Sh. Ashwani Kumar S/o Sh. Harbans Lal,
H.No.13, Village Bhainsa Tibba, MDC, Panchkula.

...Petitioners

Versus

1. Central soil & Water Conservation Research Training Institute,
Sector-27, Chandigarh.

...Respondent

APPEARANCES :

For the workman

Sh. Arun Batra, Adv.

For the Management

Sh. S.K. Gupta, Adv.

AWARD

Passed on:-24.2.2016

This order shall disposed of the LCA Nos.258/2011, 259/2011, 260/2011, 261/2011, 262/2011, 263/2011, 264/2011, as all of them are based on same facts.

The facts, giving arise to these applications, are that different references were received in this Court which was registered as ID No.889, 890, 892, 894, 895 and 896 and Ashwani Kumar Versus CSWC of 2005. All these references were decided vide separate awards dated 11.6.2007 with the following observations:-

“Therefore, direct the Management to pay an amount of Rs.50,000 as one time compensation to him for the suffering he received. The Management is directed to examine the case of the workman within three months from the date this award becomes enforceable to find out as to what benefits he is entitled to. In case the Management fails to do it, the workman shall also be entitled for the interest on the amount of compensation awarded to him at the rate of 9% p.a. from the date the Management appeared in this Tribunal i.e. on 12th Dec, 1990.”

The management did make the payment of Rs.50,000 but failed to examine the case of the workman to find out as to what benefits they are entitled to.

The workmen filed different LCAs, claiming interest by way of compensation on the basis of the above said award. During the pendency of the proceedings, some settlement was affected in the Lok Adalat and an order dated 8.12.2009 was passed which is as follow:-

“All the petitioners shall move an application to the Head of the Department within a week and the head of the department has agreed to pass the speaking order in the light of the award passed by this Tribunal dated 9.2.2009 and in few cases passed by CGIT-cum-Labour Court-II on 11.6.2007. It has also been agreed upon that the Head of the Department shall dispose of the application with speaking order within 30 days. Accordingly, these petitions are disposed as withdrawn in Lok Adalat.”

Thereafter, the management passed the speaking order on 24.2.2010.

Now according to the workman, the management did not pass the speaking order in pursuance of the award dated 6.7.2006 within the stipulated period, and they are entitled to interest as awarded and amount be calculated and paid to them along with further interest @ 10% p.a. from the due date till the date of final payment.

According to the management, there is no delay in implementing the award and the management moved an application before this Tribunal on 14.1.2010, seeking extension of time in pursuance of the order dated 8.12.2009 and

the order was ultimately passed on 24.2.2010 and thus, the award has been complied with and the workmen are not entitled to any compensation by way of interest.

I have heard Sh. Arun Batra for the workman and Sh. S.K. Gupta for the management.

A perusal of the award dated 11.6.2007(Annexure A1) shows that the workmen were awarded a sum of Rs.50,000 as compensation with a further direction to the management to examine the case of the workmen within three months to find out as to what benefits the workmen are entitled to and a condition was imposed that if the management fails to do it, the workmen shall be entitled to interest on amount of compensation @ 9% p.a. from 12.12.1990.

There is no denial of the fact that the management failed to examine the case of the workmen as ordered vide said award and the workmen filed different LCAs claiming interest on the awarded amount on the basis of the said award dated 11.6.2007. It was during the pendency of those proceedings, the workmen effected some settlement and withdrew the applications in the Lok Adalat as is evident from the order dated 8.12.2009(Annexure A3), as reproduced above.

The workmen has already availed the remedy for the implementation of the award dated 11.6.2007 by moving different LCA's. It is not disputed that the workmen withdrew those applications after settling the matter with the management in the Lok Adalat and the applications were dismissed as withdrawn as is evident from the order dated 8.12.2009(Annexure A3). Since the matter has already been agitated and settlement was effected between the parties and therefore, the workman cannot be allowed to re-agitate the matter on the basis of the award dated 11.6.2007 and cannot claim any amount by way of interest.

It may also be added that once workmen withdrew their application in the Lok Adalat and the Court passed fresh order dated 8.12.2009, as reproduced above; and in pursuance thereof a speaking order dated 24.2.2010 was passed by the management and in the circumstance, the award dated 11.6.2007 do not survive and the workmen are not entitled to claim any amount by way of interest.

It may also be added that some of the workmen has already agitated the matter in CGIT-cum-Labour Court-I, and their applications were declined by the Court vide order dated 23.2.2015(Annexure R2) which is reproduced in para '10' of the order as follow:-

“From the record, it is revealed that by the award dated 9.2.2009, the management was directed to pay an amount of Rs.50,000 to each of the workmen as one time compensation and the management was further directed to examine the case of the workmen within three months from the date of publication of this award to find out as to what benefits they are entitled to and any failure, the workmen shall be entitled to interest on the amount of compensation awarded to them @ 9% per annum from 12.12.1990. It is admitted case of the parties that management paid Rs.50,000 and it was informed to the workmen vide order dated 6.7.2009 that nothing is due. The workmen approached this Tribunal for seeking interest on the amount of Rs.50,000 as the management did not pass any order within a stipulated period. The matter was taken up in Lok Adalat and vide order dated 8.12.2009, all the workmen agreed to withdraw the petition on the term that they move an application to the Head of the Department within a week and the HOD agreed to pass the speaking order in the light of the award dated 9.2.2009 and in few cases of CGIT-II, on 1.6.2007 and it was also agreed that HOD shall dispose off the application with speaking order within 30 days and these petitions were disposed off as withdraw in Lok Adalat. Thereafter, management moved an application on 14.01.2010, that in view of the directions passed by this Court on 8.12.2009 for passing the speaking order. They have sent the matter for approval to the Head Office and reply from ICAR is awaited and requested for one month time for complying with the direction dated 8.12.2009. On this application no order was passed by this Court. It is admitted fact that compensation was paid well within time which is not disputed by the workmen also. Speaking order was emerged with the order dated 8.12.2009. The management also moved for extension of time as the approval was to be accorded from the Head Office and finally speaking order was passed on 25.2.2010. Therefore, in the facts and circumstances of the case, the workmen are not entitled for any interest on the amount of Rs.50,000 as claimed by them in their respective petitions. The claims of the workmen are rejected with no order to cost.”

Thus, the Court has already adjudicated the matter regarding the payment of interest awarded vide award dated 11.6.2007 and the workmen cannot claim any relief in the present applications.

In result, the applications under Section 33C(2) are dismissed with no order to cost.

KEWAL KRISHAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

का.आ. 796 .—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उ.र. इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और अदर्स के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 172/2011) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/281/2010-आईआर (डीयू)]

पी. के. वेणुगोपाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th April, 2016

S.O. 796.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (ID No. 172/2011) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. II, Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of the U.R. Infrastructure Company Private Limited and Others and their workman, which was received by the Central Government on 27.04.2016.

[No. L-42012/281/2010-IR (DU)]

P. K. VENUGOPAL, Desk Officer

ANNEXURE**IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, CHANDIGARH****Present:** Sri Kewal Krishan, Presiding Officer**Case No. 172/2011**

Registered on 24.5.2011

Sh. Dila Ram S/o Sh. Jalam Ram, H.No.232, Muhal Jaral,
PO Batwara, Tehsil Nihari, Mandi (HP).

...Applicant

Versus

1. The Managing Director, M/s U.R. Infrastructure Company Pvt. Limited, Kol Dam Hydro-Electric Power Project, Chhamb, Post Office Harnoda, Tehsil Sadar, District Bilaspur, Himachal Pradesh.
2. The Project Manager, M/s Italian Thai Development Public Company Ltd., Kol Dam hydro Electric power Project, village Kyan, Post Office Slapper, Tehsil Sundar Nagar, District Mandi, Himachal Pradesh, through its Project Manager.
3. The General Manager, M/s NTPC Limited, Kol Dam Hydro Electric Power Project, Barmana, Tehsil Sadar, District Bilaspur, Himachal Pradesh.

...Respondents

APPEARANCES

For the workman	-	Sh. M.S. Gors, Adv.
For the Management	-	Resp. No.1 and 3 Ex parte
	-	Sh. H.R. Sharma for Resp. No.2

AWARD

Passed on:-11.02.2016

Vide Order No.L-42012/281/2010-IR(DU), dated 27.04.2011 the Central Government in exercise of the powers conferred by Clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-Section 2(A) of Section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (in short Act) has referred the following industrial dispute for adjudication to this Tribunal.

“Whether the retrenchment of services of Sh. Dila Ram S/o Sh. Jalam Ram w.e.f. 3.9.2008 by the management of M/s. U.R. Infrastructure Company Private Limited, Village Chamb, District

Bilaspur a sub contractor of M/s Italian Thai Development Public Limited a contractor of M/s. NTPC Limited without following the principal of 'last come first go' is legal and justified? What relief the workman is entitled to from the above employer?"

In his statement of claim, the workman has pleaded that respondent No.3 has been constructing dam known as 'Kol Dam Hydro Electric Power Project' at Harnoda and engaged respondent No.2 as a Contractor. Respondent No.2 has engaged respondent No.1 as Sub-Contractor.

The workman was appointed through respondent No.1 and he worked from 20.01.2005 to 3.9.2008 when his services were retrenched. He has challenged the retrenchment on the ground that the persons junior to him were retained in service as well the management appointed new persons after his retrenchment.

Respondent No.1 was proceeded against ex-parte vide order dated 11.6.2012 and respondent No.3 was proceeded against ex- parte vide order dated 3.12.2015.

Respondent No.2 filed written statement admitting the relationship and pleaded that retrenchment was made as per law due to the partial completion of the work. Other averments were controverted.

Parties were given opportunity to lead evidence.

Workman did not lead any evidence despite availing several opportunities and his evidence was closed by order vide order dated 29.10.2014.

Sh. H.R. Sharma was examined on behalf of respondent No.2.

I have heard Sh. M.S. Gorsri for the workman and Sh. H.R. Sharma for respondent No.2.

It is not disputed that the workman was employed by respondent No.1 on 20.1.2005 and his services were retrenched on 3.9.2008.

According to the workman, the persons junior to him were retained in service and even new persons were appointed by the management after his retrenchment. But no cogent evidence has come on the file to prove the said fact and even workman himself did not appear in the witness-box to support his assertions. Thus, it cannot be said that the persons junior to the workman were retained in service and the management made fresh appointments after his retrenchment.

It has come in the affidavit of Mr. H.R. Sharma that due retrenchment compensation was paid to the workman at the time of retrenchment and there is nothing on the file that retrenchment made was in violation of any law.

Thus, it cannot be said that the termination of his services are in any way illegal and unjustified.

In result, the reference is answered against the workman and it is held that he is not entitled to any relief.

KEWAL KRISHAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

का.आ. 797.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उ.र. इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और अदर्स के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 198/2011) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/296/2010-आईआर (डीयू)]

पी. के. वेणुगोपाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th April, 2016

S.O. 797.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (ID No. 198/2011) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. II, Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of the U.R. Infrastructure Company Private Limited and Others and their workman, which was received by the Central Government on 27.04.2016.

[No. L-42012/296/2010-IR (DU)]

P. K. VENUGOPAL, Desk Officer

ANNEXURE**IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, CHANDIGARH****Present:** Sri Kewal Krishan, Presiding Officer**Case No. 198/2011**

Registered on 5.7.2011

Sh. Ram Swaroop S/o Sh. Tulsi Ram, Village and Post Office Kangoo,
Tehsil Sunder Nagar, Mandi(HP)

...Applicant

Versus

1. The Managing Director, M/s U.R. Infrastructure Company Pvt. Limited, Kol Dam Hydro-Electric Power Project, Chhamb, Post Office Harnoda, Tehsil Sadar, District Bilaspur, Himachal Pradesh.
2. The Project Manager, M/s. Italian Thai Development Public Company Ltd., Kol Dam hydro Electric power Project, village Kyan, Post Office Slapper, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi, Himachal Pradesh, through its Project Manager.
3. The General Manager, M/s NTPC Limited, Kol Dam Hydro Electric Power Project, Barmana, Tehsil Sadar, District Bilaspur, Himachal Pradesh.

...Respondents

APPEARANCES

For the workman	-	Sh. M.S. Gors, Adv.
For the Management	-	Resp. No.1 and 3 Ex parte
	-	Sh. H.R. Sharma for Resp. No.2

AWARD

Passed on:-11.02.2016

Vide Order No.L-42012/296/2010-IR(DU), dated 25.05.2011 the Central Government in exercise of the powers conferred by Clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-Section 2(A) of Section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (in short Act) has referred the following industrial dispute for adjudication to this Tribunal.

“Whether the retrenchment of services of Sh. Ram Swaroop S/o Sh. Tulsi Ram, Kangoo, P.O.Sunder Nagar w.e.f. 3.9.2008 by the management of M/s U.R. Infrastructure Company Private Limited, Chamb, Bilaspur sub contractor of M/s Italian Thai Development Public Limited a contractor of M/s NTPC Limited without following the principal of ‘last come first go’ is legal and justified? What relief the workman is entitled to from the employer?”

In his statement of claim, the workman has pleaded that respondent No.3 has been constructing dam known as ‘Kol Dam Hydro Electric Power Project’ at Harnoda and engaged respondent No.2 as a Contractor. Respondent No.2 has engaged respondent No.1 as Sub-Contractor.

The workman was appointed through respondent No.1 and he worked from 04.01.2005 to 2.9.2008 when his services were retrenched. He has challenged the retrenchment on the ground that the persons junior to him were retained in service as well the management appointed new persons after his retrenchment.

Respondent No.1 was proceeded against ex-parte vide order dated 11.12.2011 and respondent No.3 was proceeded against ex-parte vide order dated 3.12.2015.

Respondent No.2 filed written statement admitting the relationship and pleaded that retrenchment was made as per law due to the partial completion of the work. Other averments were controverted.

Parties were given opportunity to lead evidence.

Workman did not lead any evidence despite availing several opportunities and his evidence was closed by order vide order dated 29.10.2014.

Sh. H.R. Sharma was examined on behalf of respondent No.2.

I have heard Sh. M.S. Gors for the workman and Sh. H.R. Sharma for respondent No.2.

It is not disputed that the workman was employed by respondent No.1 on 4.1.2005 and his services were retrenched on 2.9.2008.

According to the workman, the persons junior to him were retained in service and even new persons were appointed by the management after his retrenchment. But no cogent evidence has come on the file to prove the said fact and even workman himself did not appear in the witness-box to support his assertions. Thus, it cannot be said that the persons junior to the workman were retained in service and the management made fresh appointments after his retrenchment.

It has come in the affidavit of Mr. H.R. Sharma that due retrenchment compensation was paid to the workman at the time of retrenchment and there is nothing on the file that retrenchment made was in violation of any law.

Thus, it cannot be said that the termination of his services are in any way illegal and unjustified.

In result, the reference is answered against the workman and it is held that he is not entitled to any relief.

KEWAL KRISHAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

का.आ.798.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस, सोलन डिवीजन के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 287/2013) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/48/2013-आईआर (डीयू)]

पी. के. वेणुगोपाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th April, 2016

S.O. 798.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (ID No. 287/2013) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. II, Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of the Superintendent of Post Office, Solan Division and their workman, which was received by the Central Government on 27.04.2016.

[No. L-40012/48/2013-IR (DU)]

P. K. VENUGOPAL, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, CHANDIGARH

Present: Sri Kewal Krishan, Presiding Officer

Case No. I.D. No. 287/2013

Registered on 9.9.2013

Sh. Mohinder Pal S/o Sh. Babu Ram, Village Charog,
Post Office-Loonas via Tehsil Ramsheshar, Distt.Solan-174102(H.P.)

...Petitioner

Versus

Superintendent of Post Office, Solan Division, Saproon (H.P.)

...Respondent

APPEARANCES

For the workman

Sh. R.K. Parmar.

For the Management

Sh. Sanjiv Dhaiya, Adv.

AWARD

Passed on:-11.03.2016

Vide Order No.L-40012/48/2013-IR(DU), dated 29.08.2013 the Central Government in exercise of the powers conferred by Clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-section 2(A) of section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (in short Act) has referred the following industrial dispute for adjudication to this Tribunal.

“Whether action of the Management of Supdt. of Post Office, Solan Division, Saproon in terminating the services w.e.f. 3.3.2012 of Sh. Mohinder Pal S/o Sh. Babu Ram is legally just and valid, if not, what relief the workman is entitled to and from which date?”

The workman submitted statement of claim, pleading that he was employed as Dak Deliverer w.e.f. 24.11.2003 and his services were terminated on 3.3.2012 without paying him any retrenchment compensation. He was getting Rs.600/- per month. That his termination is illegal.

Respondent-management filed reply, pleading that in the year 1995 a Scheme called “Panchayat Sanchar Sewa Yojna”, for providing basic postal facilities to Gram Paychayat was started and it was to be implemented by the Gram Panchayat through an agent appointed by it. Gram Panchayat, Charog, was given Sanchar Kendra who approved the name of the workman to act as an agent. Thereafter, an agreement was executed between the Gram Panchayat and the respondent-management and the Sewa Kendra started working on 24.11.2003. That the workman was engaged by the Gram Panchayat on 24.11.2003 at Rs.600/- per month and a remuneration of Rs.600/- was paid to him through the Gram Panchayat. But workman failed to perform his duty and a notice dated 28.11.2011 was issued to him. Since there was no business, the agreement entered into between the Gram Panchayat and the respondent-management was terminated. That the workman is not an employee of the respondent-management.

Parties were given opportunity to lead their evidence.

Workman appeared in the witness-box and filed his affidavit reiterating his case as set out in the claim petition.

On the other hand, respondent-management simply closed its evidence.

I have heard Sh. R.K. Parmar for the workman and Sh. Sanjiv Dhaiya for the management.

It was argued by Sh. R.K. Parmar, learned counsel for the workman that workman continuously worked from 2003 to 2012 and his services were terminated without issuing a show cause notice and payment of retrenchment compensation and therefore, his termination is illegal.

It may be added that the workman did not show any appointment letter issued by the respondent-management and there is nothing on file to suggest that he was appointed by following any rules and procedure. Therefore, it cannot be said that he was an employee of the respondent-management. It is the definite case of the respondent-management that ‘Pachayat Sanchar Sewa Yojna’ was started in the year 1995 and Sanchar Sewa Kendra was given to Gram Panchayat, Charog, who appointed the workman and an agreement was executed on 23.10.2003 between the Gram Panchayat and the respondent-management. Since there was no business, the agreement was cancelled vide memo dated 3.2.2012. Thus it is clear that Gram Panchayat was given Sanchar Sewa Kendra and an agreement was executed between it and the respondent-management; and that agreement has been cancelled. Thus Sanchar Sewa Kendra, Charog, was closed and in these circumstances the services of the workman, who was not proved to be employed by the respondent-management, automatically came to an end and he cannot claim any relief against the respondent-management as there is no relationship of employer and employee between the parties.

In result, the workman is not entitled to any relief.

KEWAL KRISHAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

का.आ. 799.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एनटीपीसी, कॉल डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और अदर्स के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 71/2010) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/122/2010-आईआर (डीयू)]

पी. के. वेणुगोपाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th April, 2016

S.O. 799.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (ID No. 71/2010) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. II, Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of the NTPC Ltd., Kol Dam Hydro Electric Power Project and Others and their workman, which was received by the Central Government on 27.04.2016.

[No. L-42012/122/2010-IR (DU)]

P. K. VENUGOPAL, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, CHANDIGARH

Present: Sri Kewal Krishan, Presiding Officer

Case No. 71/2010

Registered on 26.10.2010

Sh. Sita Ram S/o Sh. Hiru Ram, village & PO Harnora, Tehsil & Distt. Bilaspur(HP).

...Applicant

Versus

1. M/s. NTPC Ltd., Kol Dam Hydro Electric Power Project, Barmana, Tehsil Sadar, District Bilaspur, Himachal Pradesh, through its Project Manager.
2. M/s. Italian Thai Development Public Company Ltd., Kol Dam Hydro Electric Power Project, Village Kyan, Post Office Slapper, Tehsil Sundar Nagar, District Mandi, Himachal Pradesh, through its Project Manager.
3. M/s. AKS Engineers and Contractors, Kol Dam Hydro Electric Power Project, Sanjay Sadan, Chhota Shimla-2, District Shimla, Himachal Pradesh, through its Managing Director.

...Respondents

APPEARANCES :

For the workman	-	Sh. M.S. Gorsî, Adv.
For the Management	-	Resp. No.1 and 3 Ex parte
	-	Sh. H.R. Sharma for Resp. No.2
	-	AWARD

Passed on:-11.02.2016

Vide Order No.L-42012/122/2010-IR(DU), dated 29.09.2010 the Central Government in exercise of the powers conferred by Clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-section 2(A) of Section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (in short Act) has referred the following industrial dispute for adjudication to this Tribunal.

“Whether the action of the management of M/s. AKS Engineers & Contractors, a contractor engaged by NTPC Koldam Hydroelectric Power Project, Bilaspur(HP), in terminating the services of their workman Sh. Sita Ram S/o Sh. Hiru Ram w.e.f. 1.8.2008, is legal and justified? If not, what relief the workman is entitled to?”

In response to the notice, the workman submitted statement of claim, pleading that respondent No.1 is a principal employer constructing a Dam in the name of “Kol Dam Hydro Electric Power Project” at Harnoda and engaged respondent No.2 as its Contractor. Respondent No.2 has engaged respondent No.3 as Sub-Contractor.

The workman was appointed through respondent No.3 on 7.8.2004 and his services were retrenched on 31.7.2008. It is pleaded by the workman that the persons junior to him were retain in service whereas the management has also appointed number of workers after his retrenchment. Since his retrenchment is illegal, he be deemed to be in service.

Respondent No. 3 was proceeded against ex parte.

Respondent No.2 admitted the fact that the workman was employed through respondent No.3 and further pleaded that his services were retrenched as per law due to partial completion of work. On similar lines respondent No.1 filed written statement.

Respondent No.1 was also proceeded against ex parte vide order dated 17.4.2015.

The workman did not lead any evidence and his evidence was closed by order vide order dated 29.10.2014.

On the other hand, Sh. H.R Sharma was examined on behalf of respondent No.2.

I have heard Sh. M.S. Gorski for the workman and Sh. H.R. Sharma for respondent No.2.

It is not disputed that the workman was employed by respondent No.3 on 7.8.2004 and his services were retrenched on 31.7.2008.

According to the workman, the persons junior to him were retained in service and even new persons were appointed by the management after his retrenchment. But no cogent evidence has come on the file to prove the said fact and even workman himself did not appear in the witness-box to support his assertions. Thus, it cannot be said that the persons junior to the workman were retained in service and the management made fresh appointments after his retrenchment.

It has come in the affidavit of Mr. H.R. Sharma that due retrenchment compensation was paid to the workman at the time of retrenchment and there is nothing on the file that retrenchment made was in violation of any law.

Thus, it cannot be said that the termination of his services are in any way illegal and unjustified.

In result, the reference is answered against the workman and it is held that he is not entitled to any relief.

KEWAL KRISHAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

का.आ. 800.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एनटीपीसी, कॉल डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और अदर्स के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 84/2010) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/119/2010-आईआर (डीयू)]

पी. के. वेणुगोपाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th April, 2016

S.O. 800.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (ID No. 84/2010) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. II, Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of the NTPC Ltd., Kol Dam Hydro Electric Power Project and Others and their workman, which was received by the Central Government on 27.04.2016.

[No. L-42012/119/2010-IR (DU)]

P. K. VENUGOPAL, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, CHANDIGARH

Present: Sri Kewal Krishan, Presiding Officer

Case No. 84/2010

Registered on 26.10.2010

Sh. Ravi Sharma S/o Sh. Sant Ram, VPO Chambi, Tehsil Sundernagar, Mandi (HP).

...Applicant

Versus

1. M/s. NTPC Ltd., Kol Dam Hydro Electric Power Project, Barmana, Tehsil Sadar, District Bilsapur, Himachal Pardesh, through its Project Manager.
2. M/s. Italian Thai Development Public Company Ltd., Kol Dam Hydro Electric Power Project, Village Kyan, Post Office Slapper, Tehsil Sundar Nagar, District Mandi, Himachal Pardesh, through its Project Manager.
3. M/s. AKS Engineers and Contractors, Kol Dam Hydro Electric Power Project, Sanjay Sadan, Chhota Shimla-2, District Shimla, Himachal Pardesh, through its Managing Director.

...Respondents

APPEARANCES :

For the workman	-	Sh. M.S. Gors, Adv.
For the Management	-	Resp. No.1 and 3 Ex parte
	-	Sh. H.R. Sharma for Resp. No.2

AWARD

Passed on:-11.02.2016

Vide Order No.L-42012/119/2010-IR(DU), dated 29.09.2010 the Central Government in exercise of the powers conferred by Clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-Section 2(A) of Section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (in short Act) has referred the following industrial dispute for adjudication to this Tribunal.

“Whether the action of the management of M/s. AKS Engineers & Contractors, a contractor engaged by NTPC Koldam Hydroelectric Power Project, Bilaspur(HP), in terminating the services of their workman Sh. Ravi Sharma S/o Sh. Sant Ram w.e.f. 1.8.2008, is legal and justified? If not, what relief the workman is entitled to?”

In response to the notice, the workman submitted statement of claim, pleading that respondent No.1 is a principal employer constructing a Dam in the name of “Kol Dam Hydro Electric Power Project” at Harnmda and engaged respondent No.2 as its Contractor. Respondent No.2 has engaged respondent No.3 as Sub-Contractor.

The workman was appointed through respondent No.3 on 19.8.2004 and his services were retrenched on 31.7.2008. It is pleaded by the workman that the persons junior to him were retain in service whereas the management has also appointed number of workers after his retrenchment. Since his retrenchment is illegal, he be deemed to be in service.

Respondent No. 3 was proceeded against ex parte.

Respondent No.2 admitted the fact that the workman was employed through respondent No.3 and further pleaded that his services were retrenched as per law due to partial completion of work. On similar lines respondent No.1 filed written statement.

Respondent No.1 was also proceeded against ex parte vide order dated 17.4.2015.

The workman did not lead any evidence and his evidence was closed by order vide order dated 29.10.2014.

On the other hand, Sh. H.R Sharma was examined on behalf of respondent No.2.

I have heard Sh. M.S. Gors for the workman and Sh. H.R. Sharma for respondent No.2.

It is not disputed that the workman was employed by respondent No.3 on 7.8.2004 and his services were retrenched on 31.7.2008.

According to the workman, the persons junior to him were retained in service and even new persons were appointed by the management after his retrenchment. But no cogent evidence has come on the file to prove the said fact and even workman himself did not appear in the witness-box to support his assertions. Thus, it cannot be said that the persons junior to the workman were retained in service and the management made fresh appointments after his retrenchment.

It has come in the affidavit of Mr. H.R. Sharma that due retrenchment compensation was paid to the workman at the time of retrenchment and there is nothing on the file that retrenchment made was in violation of any law.

Thus, it cannot be said that the termination of his services are in any way illegal and unjustified.

In result, the reference is answered against the workman and it is held that he is not entitled to any relief.

KEWAL KRISHAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

का.आ. 801 .—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उ.र. इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और अदर्स के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 192/2011) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/270/2010-आईआर (डीयू)]

पी. के. वेणुगोपाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th April, 2016

S.O. 801.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (ID No. 192/2011) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. II, Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of the U.R. Infrastructure Company Private Limited and Others and their workman, which was received by the Central Government on 27.04.2016.

[No. L-42012/270/2010-IR (DU)]

P. K. VENUGOPAL, Desk Officer

ANNEXURE**IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, CHANDIGARH****Present:** Sri Kewal Krishan, Presiding Officer**Case No. 192/2011**

Registered on 8.6.2011

Sh. Suresh Kumar S/o Sh. Lekh Ram, Vill. and PO-Bahot-Kasol,
Tehsil Sardarr, Bilaspur

...Applicant

Versus

1. The Managing Director, M/s. U.R. Infrastructure Company Pvt. Limited, Kol Dam Hydro-Electric Power Project, Chhamb, Post Office Harnoda, Tehsil Sadar, District Bilaspur, Himachal Pardesh.
2. The Project Manager, M/s. Italian Thai Development Public Company Ltd., Kol Dam hydro Electric power Project, village Kyan, Post Office Slapper, Tehsil Sundar Nagar, District Mandi, Himachal Pardesh, through its Project Manager.
3. The General Manager, M/s. NTPC Limited, Kol Dam Hydro Electric Power Project, Barmana, Tehsil Sadar, District Bilaspur, Himachal Pardesh.

...Respondents

APPEARANCES :

For the workman	-	Sh. M.S. Gors, Adv.
For the Management	-	Resp. No.1 and 3 Ex parte
	-	Sh. H.R. Sharma for Resp. No.2

AWARD

Passed on:-11.02.2016

Vide Order No.L-42012/270/2010-IR(DU), dated 6.5.2011 the Central Government in exercise of the powers conferred by Clause (d) of Sub-section (1) and Sub-section 2(A) of Section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (in short Act) has referred the following industrial dispute for adjudication to this Tribunal.

“Whether retrenchment of services of Sh. Suresh Kumar S/o Sh. Lakh Ram w.e.f. 14.8.2008 by M/s. U.R. Infrastructure Company Private Limited, Village Chamb, Bilaspur, a sub contractor of M/s. Italian Thai Development Public Limited, a contractor of M/s. NTPC Limited without following the principal of ‘last come first go’ is legal and justified? What relief the workman is entitled to?”

In his statement of claim, the workman has pleaded that respondent No.3 has been constructing dam known as ‘Kol Dam Hydro Electric Power Project’ at Harnoda and engaged respondent No.2 as a Contractor. Respondent No.2 has engaged respondent No.1 as Sub-Contractor.

The workman was appointed through respondent No.1 and he worked from 16.10.2004 to 14.8.2008 when his services were retrenched. He has challenged the retrenchment on the ground that the persons junior to him were retained in service as well the management appointed new persons after his retrenchment.

Respondent No.1 was proceeded against ex parte vide order dated 11.11.2011 and respondent No.3 was proceeded against ex parte vide order dated 3.12.2015.

Respondent No.2 filed written statement admitting the relationship and pleaded that retrenchment was made as per law due to the partial completion of the work. Other averments were controverted.

Parties were given opportunity to lead evidence.

Workman did not lead any evidence despite availing several opportunities and his evidence was closed by order vide order dated 29.10.2014.

Sh. H.R. Sharma was examined on behalf of respondent No.2.

I have heard Sh. M.S. Gorski for the workman and Sh. H.R. Sharma for respondent No.2.

It is not disputed that the workman was employed by respondent No.1 on 16.10.2004 and his services were retrenched on 14.8.2008.

According to the workman, the persons junior to him were retained in service and even new persons were appointed by the management after his retrenchment. But no cogent evidence has come on the file to prove the said fact and even workman himself did not appear in the witness-box to support his assertions. Thus, it cannot be said that the persons junior to the workman were retained in service and the management made fresh appointments after his retrenchment.

It has come in the affidavit of Mr. H.R. Sharma that due retrenchment compensation was paid to the workman at the time of retrenchment and there is nothing on the file that retrenchment made was in violation of any law.

Thus, it cannot be said that the termination of his services are in any way illegal and unjustified.

In result, the reference is answered against the workman and it is held that he is not entitled to any relief.

KEWAL KRISHAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

का.आ. 802.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स ट्रिनिटी कमर्शियल प्रा. लिमिटेड के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, भुवनेश्वर के पंचाट (संदर्भ संख्या 10/2014) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29012/42/2013-आईआर (एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 27th April, 2016

S.O. 802.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 10/2014) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Bhubaneswar now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Trinity Commercial Pvt. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 22-04-2016.

[No. L-29012/42/2013-IR(M)]

NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE**CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT BHUBANESWAR****Present:**

Shri B.C. Rath,
Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour
Court, Bhubaneswar

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 10/2014

No. L-29012/42/2013-IR(M), dated 30.10.2013

Date of Passing Order – 13th April, 2016**Between:**

M/s.Trinity Commercial Pvt. Ltd.,
Contractor of M/s. Serajuddin & Co.
Balda Block Iron Mines, At./Po. Baneikela,
Via. Joda, Dist. Keonjhar (Odisha), Keonjhar.

...1st Party-Management.

(And)

Shri Debendar Purty,
At./Po. Balda, Via. Joda,
Dist. Keonjhar (Odisha),
Keonjhar

.... 2nd Party-Workman.**Appearances:**

None.

... For the 1st Party-
Management.

None

...For the 2nd Party-
Workman.**ORDER**

The Government of India in the Ministry of Labour & Employment has referred the present dispute existing between the employers in relation to the Management of M/s. Trinity Commercials Pvt. Ltd., and their workman Shri Debendar Purty in exercise of the powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) vide their Letter No. L-29012/42/2013 – IR(M), dated 30.10.2013 to this Tribunal for adjudication.

2. That the 2nd Party-workman has filed his statement of claim on 16.06.2014. He has not filed any documents to substantiate his case. Since he did not take any step except filing of his statement of claim the 2nd Party-workman was noticed on 23.2.2016 after the new P.O. Joins. Notice issued to him seems to have been duly served. But, the 2nd Party-workman did not appear.

3. On the other hand, the 1st Party-Management did not file its written statement, though the 2nd Party-workman has served a copy of statement of claim on them through post. Also, notice was issued to the 1st Party-Management to file its written statement on 23.2.2016 from this Tribunal, but, neither the 1st Party-Management appeared nor any step taken by it.

4. It appears from the above acts of the parties that either they have lost their interest in the case or they might have resolved their disputes amicably out of the court. In the given circumstances, a no-dispute award is required to be passed and accordingly a no-dispute award is passed in the case.

5. The reference is answered in the above terms.

Dictated & Corrected by me.

B. C. RATH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

का.आ. 803.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स ट्रिनिटी कमर्शियल प्रा. लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, भुवनेश्वर के पंचाट (संदर्भ संख्या 16/2014) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29012/41/2013-आईआर (एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 27th April, 2016

S.O. 803.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 16/2014) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Bhubaneswar now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Trinity Commercial Pvt. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 21-04-2016.

[No. L-29012/41/2013-IR(M)]

NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT BHUBANESWAR

Present:

Shri B.C. Rath,
Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour
Court, Bhubaneswar.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 16/2014

No. L-29012/41/2013-IR(M), dated 03.04.2014

Date of Passing Order – 4th April, 2016

Between:

M/s.Trinity Commercial Pvt. Ltd.,
Contractor of M/s. Serajuddin & Co.
Balda Block Iron Mines, At./Po. Baneikela,
Via. Joda, Dist. Keonjhar (Odisha), Keonjhar

....1st Party-Management.

(And)

Shri Tikan Lohar,
At./Po. Balda, Via. Joda,
Dist. Keonjhar (Odisha),
Keonjhar

....2nd Party-Workman.**Appearances:**

None.

...For the 1st Party-
Management.

None

...For the 2nd Party-
Workman.**ORDER**

The Government of India in the Ministry of Labour & Employment has referred the present dispute existing between the employers in relation to the Management of M/s. Trinity Commercials Pvt. Ltd., and their workman Shri Tikan Lohar in exercise of the powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) vide their Letter No. L-29012/41/2013 – IR(M), dated 03.04.2014 to this Tribunal for adjudication.

2. That the 2nd Party-workman has filed his statement of claim on 08.09.2014. He has not filed any documents to substantiate his case. Since he did not take any step except filing of his statement of claim the 2nd Party-workman was noticed on 11.2.2016 after the new P.O. Joins. Notice issued to him seems to have been duly served. But, the 2nd Party-workman did not appear.

3. On the other hand, the 1st Party-Management did not file its written statement, though the 2nd Party-workman has served a copy of statement of claim on them through post. Also, notice was issued to the 1st Party-Management to file its written statement on 11.2.2016 from this Tribunal, but, neither the 1st Party-Management appeared nor any step taken by it.

4. It appears from the above acts of the parties that either they have lost their interest in the case or they might have resolved their disputes amicably out of the court. In the given circumstances, a no-dispute award is required to be passed and accordingly a no-dispute award is passed in the case.

5. The reference is answered in the above terms.

Dictated & Corrected by me.

B. C. RATH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

का.आ. 804.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स बोलानी अयस्क खान के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, भुवनेश्वर के पंचाट (संदर्भ संख्या 21/2014) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/71/2013-आईआर (एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 27th April, 2016

S.O. 804.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 21/2014) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Bhubaneswar now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Bolani Ore Mines and their workman, which was received by the Central Government on 21-04-2016.

[No. L-30012/71/2013-IR(M)]

NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT BHUBANESWAR

Present:

Shri B.C. Rath,
Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour
Court, Bhubaneswar.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 21/2014

L-30012/71/2013 – IR(M), dated 04.04.2014

Date of Passing Order – 31st March, 2016

Between:

The General Manager,
Bolani Ore Mines, RMD SAIL,
At./Po. Bolani, Dist. Keonjhar, Orissa.

... 1st Party-Management.

(And)

The President, Barbil Workers Union,
At./Po. Bolani Dist. Keonjhar, Orissa

.... 2nd Party-Union.

Appearances:

None.

... For the 1st Party-
Management.

None

... For the 2nd Party-
Union.

ORDER

Parties are absent. The 2nd Party-Union has not filed any statement of claim despite sending notices and inspite of taking time by it on different occasions. As such it seems that the 2nd party-Union is not interested in prosecuting its case. However the dispute cannot be adjudicated upon for want of pleadings on behalf of the parties. As such there is no alternative except to return the reference to the Government for necessary action at its end.

2. Accordingly the reference is returned to the Government unanswered for necessary action at its end.

Dictated & Corrected by me.

B. C. RATH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

का.आ. 805.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स स्मेल्टर संयंत्र, नाल्को के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, भुवनेश्वर के पंचाट (संदर्भ संख्या 38/2014) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21. 04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-43011/2/2014-आईआर (एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 27th April, 2016

S.O. 805.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 38/2014) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Bhubaneswar now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Smelter Plant, NALCO and their workman, which was received by the Central Government on 21-04-2016.

[No. L-43011/2/2014-IR(M)]

NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, BHUBANESWAR

Present:

Shri B.C. Rath,
Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour
Court, Bhubaneswar.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 38/2014

No. L-43011/2/2014-IR(M), dated 09.07.2014

Date of Passing Order – 16th March, 2016

Between:

The General Manager,
Smelter Plant, NALCO,
Po. & Dist. Angul, Odisha.

... 1st Party-Management.

(And)

The General Secretary,
Nalco Employees' Sangha,
Nalco Nagar, Po. & Dist. Angul, Odisha.

... 2nd Party-Union.

Appearances:

None.

... For the 1st Party-
Management.

None

... For the 2nd Party-
Union.

ORDER

Case taken up. Parties are absent. The 2nd Party-Union has not filed any statement of claim despite sending notices through ordinary as well as regd. post. As such it seems that the 2nd party-Union is not interested in prosecuting its case. However the dispute cannot be adjudicated upon for want of pleadings on behalf of the parties. As such there is no alternative except to return the reference to the Government for necessary action at its end.

2. Accordingly the reference is returned to the Government unanswered for necessary action at its end.
Dictated & Corrected by me.

B. C. RATH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

का.आ. 806.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स ट्रिनिटी कमर्शियल प्रा. लिमिटेड के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, भुवनेश्वर के पंचाट (संदर्भ संख्या 30/2013) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29012/4/2013-आईआर (एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 27th April, 2016

S.O. 806.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 30/2013) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Bhubaneswar now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Trinity Commercial Pvt. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 21-04-2016.

[No. L-29012/4/2013-IR(M)]
NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE**CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, BHUBANESWAR****Present:**

Shri B.C. Rath,
Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour
Court, Bhubaneswar

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 30/2013

No. L-29012/4/2013 – IR(M), dated 13.05.2013

Date of Passing Order – 18th March, 2016

Between:

M/s. Trinity Commercial Pvt. Ltd.,
Contractor of M/s. Serajuddin & Co.
Balda Block Iron Mines,
At./Po. Baneikela, Via. Joda,
Dist. Keonjhar, Odisha.

... 1st Party-Management.

(And)

Shri Ghanashyam Pingua,
S/o. Ranjit Pingua,
At./Po. Basira, Via. Joda,
Dist. Keonjhar, Odisha.

... 2nd Party-Workman.

Appearances:

None ... For the 1st Party-
Management.

None ... For the 2nd Party-
Workman

ORDER

The Government of India in the Ministry of Labour & Employment has referred the present dispute existing between the employers in relation to the Management of M/s. Trinity Commercials Pvt. Ltd., and their workman Shri Ghanhyam Pingua in exercise of the powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) vide their Letter No. L-29012/4/2013 – IR(M), dated 13.05.2013 to this Tribunal for adjudication.

2. That the 2nd Party-workman has filed his statement of claim on 23.12.2013. He has not filed any documents to substantiate his case. The case record reveals that the 2nd Party-workman was noticed thrice after March, 2014 for appearance before this Tribunal. Since he did not take any step except filing of his statement of claim the 2nd Party-workman was again noticed on 12.2.2016 after the new P.O. Joins. Notice issued to him seems to have been duly served. But, the 2nd Party-workman did not appear.

3. On the other hand, the 1st Party-Management did not file its written statement, though the 2nd Party-workman has served a copy of statement of claim on them through post. Also, notice was issued to the 1st Party-Management to file its written statement on 12.2.2016 from this Tribunal, but, neither the 1st Party-Management appeared nor any step taken by it.

4. It appears from the above acts of the parties that either they have lost their interest in the case or they might have resolved their disputes amicably out of the court. In the given circumstances, a no-dispute award is required to be passed and accordingly a no-dispute award is passed in the case.

5. The reference is answered in the above terms.

Dictated & Corrected by me.

B. C. RATH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

का.आ. 807.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स ट्रिनिटी कमर्शियल प्रा. लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, भुवनेश्वर के पंचाट (संदर्भ संख्या 31/2013) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29012/5/2013-आईआर (एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 27th April, 2016

S.O. 807.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 31/2013) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Bhubaneswar now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Trinity Commercial Pvt. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 21-04-2016.

[No. L-29012/5/2013-IR(M)]

NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE**CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, BHUBANESWAR****Present:**

Shri B.C. Rath,
Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour
Court, Bhubaneswar

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 31/2013

No. L-29012/5/2013 – IR(M), dated 25.04.2013

Date of Passing Order – 18th March, 2016**Between:**

M/s. Trinity Commercial Pvt. Ltd.,
Contractor of M/s. Serajuddin & Co.
Balda Block Iron Mines,
At./Po. Baneikela, Via. Joda,
Dist. Keonjhar, Odisha.

... 1st Party-Management.

(And)

Smt. Bimala Gope,
W/o. Pawan Kumar Gope,
At./Po. Guruda, Via. Joda, Dist. Keonjhar,
Odisha.

... 2nd Party-Workman.**Appearances:**

None

... For the 1st Party-
Management.

None

... For the 2nd Party-
Workman.

ORDER

The Government of India in the Ministry of Labour & Employment has referred the present dispute existing between the employers in relation to the Management of M/s. Trinity Commercials Pvt. Ltd., and their workman Smt. Bimala Gope in exercise of the powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) vide their Letter No. L-29012/5/2013 – IR(M), dated 25.04.2013 to this Tribunal for adjudication.

2. That the 2nd Party-workman has filed his statement of claim through post which was received on 01.08.2013. She has not filed any documents to substantiate her case. Since she did not take any step except sending her statement of claim through post, the 2nd Party-workman was noticed through registered post on 28.11.2014 and again on 19.1.2016 after the new P.O. Joins. Notice issued to her seems to have been duly served, but, the 2nd Party-workman did not appear.

3. On the other hand, the 1st Party-Management did not file its written statement, though the 2nd Party-workman has served a copy of statement of claim on them through post. Also, notice was issued to the 1st Party-Management to file its written statement on 6.8.2014 and on 19.1.2016 from this Tribunal, but neither the 1st Party-Management appeared nor any step taken by it.

4. It appears from the above acts of the parties that either they have lost their interest in the case or they might have resolved their disputes amicably out of the court. In the given circumstances, a no-dispute award is required to be passed and accordingly a no-dispute award is passed in the case.

5. The reference is answered in the above terms.

Dictated and Corrected by me.

B. C. RATH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

का.आ. 808.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स ट्रिनिटी कमर्शियल प्रा. लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, भुवनेश्वर के पंचाट (संदर्भ संख्या 35/2013) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29012/8/2013-आईआर (एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 27th April, 2016

S.O. 808.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 35/2013) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Bhubaneswar now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Trinity Commercial Pvt. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 21-04-2016.

[No. L-29012/8/2013-IR(M)]

NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE**CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, BHUBANESWAR****Present:**

Shri B.C. Rath,
Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour
Court, Bhubaneswar

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 35/2013

No. L-29012/8/2013 – IR(M), dated 13.05.2013

Date of Passing Order – 18th March, 2016

Between:

M/s. Trinity Commercial Pvt. Ltd.,
Contractor of M/s. Serajuddin & Co.
Balda Block Iron Mines,
At./Po. Baneikela, Via. Joda,
Dist. Keonjhar, Odisha.

... 1st Party-Management.

(And)

Shri Prem Chand Hemram,
S/o. Kripa Hembram,
At./Po. Basira, Via. Joda,
Dist. Keonjhar, Odisha.

... 2nd Party-Workman.

Appearances:

None	...	For the 1 st Party- Management.
None	...	For the 2 nd Party- Workman.

ORDER

The Government of India in the Ministry of Labour & Employment has referred the present dispute existing between the employers in relation to the Management of M/s. Trinity Commercials Pvt. Ltd., and their workman Shri Prem Chand Hemram in exercise of the powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) vide their Letter No. L-29012/8/2013 – IR(M), dated 13.05.2013 to this Tribunal for adjudication.

2. That the 2nd Party-workman has filed his statement of claim on 12.12.2013. He has not filed any documents to substantiate his case. Since he did not take any step except filing of his statement of claim the 2nd Party-workman was noticed on 19.1.2016 after the new P.O. Joins. Notice issued to him seems to have been duly served. But, the 2nd Party-workman did not appear.

3. On the other hand, the 1st Party-Management did not file its written statement, though the 2nd Party-workman has served a copy of statement of claim on them through post. Also, notice was issued to the 1st Party-Management to file its written statement on 19.1.2016 from this Tribunal, but, neither the 1st Party-Management appeared nor any step taken by it.

4. It appears from the above acts of the parties that either they have lost their interest in the case or they might have resolved their disputes amicably out of the court. In the given circumstances, a no-dispute award is required to be passed and accordingly a no-dispute award is passed in the case.

5. The reference is answered in the above terms.

Dictated & Corrected by me.

B. C. RATH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

का.आ. 809.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स ट्रिनिटी कर्माशियल प्रा. लिमिटेड के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, भुवनेश्वर के पंचाट (संदर्भ संख्या 62/2013) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29012/27/2013-आईआर (एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 27th April, 2016

S.O. 809.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 62/2013) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Bhubaneswar now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Trinity Commercial Pvt. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 21-04-2016.

[No. L-29012/27/2013-IR(M)]

NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, BHUBANESWAR

Present:

Shri B.C. Rath,
Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour
Court, Bhubaneswar

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 62/2013

No. L-29012/27/2013 – IR(M), dated 23.08.2013

Date of Passing Order – 30th March, 2016

Between:

M/s. Trinity Commercial Pvt. Ltd.,
Contractor of M/s. Serajuddin & Co.
Balda Block Iron Mines,
At./Po. Baneikela, Via. Joda,
Dist. Keonjhar, Odisha.

... 1st Party-Management.

(And)

Shri Kartik Naik
At./Po. Baneikela, Via-Joda,
Dist. Keonjhar (Odisha)

... 2nd Party-Workman.

Appearances:

None ... For the 1st Party-
Management.

None ... For the 2nd Party-
Workman.

ORDER

The Government of India in the Ministry of Labour & Employment has referred the present dispute existing between the employers in relation to the Management of M/s. Trinity Commercials Pvt. Ltd., and their workman Shri Kartik Naik in exercise of the powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) vide their Letter No. L-29012/27/2013 – IR(M), dated 23.08.2013 to this Tribunal for adjudication.

2. That the 2nd Party-workman has filed his statement of claim on 09.12.2013. He has not filed any documents to substantiate his case. Since he did not take any step except filing of his statement of claim the 2nd Party-workman was noticed on 05.02.2016 after the new P.O. Joins. Notice issued to him seems to have been duly served. But, the 2nd Party-workman did not appear.

3. On the other hand, the 1st Party-Management did not file its written statement, though the 2nd Party-workman has served a copy of statement of claim on them through post. Also, notice was issued to the 1st Party-Management to file its written statement on 05.02.2016 from this Tribunal, but neither the 1st Party-Management appeared nor any step taken by it.

4. It appears from the above acts of the parties that either they have lost their interest in the case or they might have resolved their disputes amicably out of the court. In the given circumstances, a no-dispute award is required to be passed and accordingly a no-dispute award is passed in the case.

5. The reference is answered in the above terms.

Dictated & Corrected by me.

B. C. RATH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

का.आ. 810.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स ट्रिनिटी कर्मशियल प्रा. लिमिटेड के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, भुवनेश्वर के पंचाट (संदर्भ संख्या 63/2013) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29012/30/2013-आईआर (एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 27th April, 2016

S.O. 810.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 63/2013) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Bhubaneswar now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Trinity Commercial Pvt. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 21-04-2016.

[No. L-29012/30/2013-IR(M)]

NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, BHUBANESWAR

Present:

Shri B.C. Rath,
Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour
Court, Bhubaneswar

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 63/2013

No. L-29012/30/2013 – IR(M), dated 23.08.2013

Date of Passing Order – 18th March, 2016

Between:

M/s. Trinity Commercial Pvt. Ltd.,
Contractor of M/s. Serajuddin & Co.
Balda Block Iron Mines,
At./Po. Baneikela, Via. Joda,
Dist. Keonjhar, Odisha.

... 1st Party-Management.

(And)

Shri Rup Singh Pingua,
At./Po. Balda, Via-Joda,
Dist. Keonjhar (Odisha)

... 2nd Party-Workman.

Appearances:

None

... For the 1st Party-
Management.

None

... For the 2nd Party-
Workman.

ORDER

The Government of India in the Ministry of Labour & Employment has referred the present dispute existing between the employers in relation to the Management of M/s. Trinity Commercials Pvt. Ltd., and their workman Shri Kartik Naik in exercise of the powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) vide their Letter No. L-29012/30/2013-IR(M), dated 23.08.2013 to this Tribunal for adjudication.

2. That the 2nd Party-workman has filed his statement of claim on 22.10.2013. He has not filed any documents to substantiate his case. Since he did not take any step except filing of his statement of claim the 2nd Party-workman was noticed on 19.1.2016 after the new P.O. Joins. Notice issued to him seems to have been duly served. But, the 2nd Party-workman did not appear.

3. On the other hand, the 1st Party-Management did not file its written statement, though the 2nd Party-workman has served a copy of statement of claim on them through post. Also, notice was issued to the 1st Party-Management to file its written statement on 19.1.2016 from this Tribunal, but neither the 1st Party-Management appeared nor any step taken by it.

4. It appears from the above acts of the parties that either they have lost their interest in the case or they might have resolved their disputes amicably out of the court. In the given circumstances, a no-dispute award is required to be passed and accordingly a no-dispute award is passed in the case.

5. The reference is answered in the above terms.

Dictated & Corrected by me.

B. C. RATH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

का.आ. 811.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स ट्रिनिटी कमर्शियल प्रा. लिमिटेड के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, भुवनेश्वर के पंचाट (संदर्भ संख्या 65/2013) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29012/33/2013-आईआर (एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 27th April, 2016

S.O. 811.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 65/2013) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Bhubaneswar now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Trinity Commercial Pvt. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 21-04-2016.

[No. L-29012/33/2013-IR(M)]

NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE**CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, BHUBANESWAR****Present:**

Shri B.C. Rath,
Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour
Court, Bhubaneswar

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 65/2013

No. L-29012/33/2013 – IR(M), dated 23.08.2013

Date of Passing Order – 13th April, 2016

Between:

M/s. Trinity Commercial Pvt. Ltd.,
Contractor of M/s. Serajuddin & Co.
Balda Block Iron Mines,
At./Po. Baneikela, Via. Joda,
Dist. Keonjhar, Odisha.

... 1st Party-Management

(And)

Shri Laxman Barik,
At./Po. Balda, Via-Joda,
Dist. Keonjhar (Odisha)

... 2nd Party-Workman

Appearances:

None	...	For the 1 st Party- Management.
None	...	For the 2 nd Party- Workman

ORDER

The Government of India in the Ministry of Labour & Employment has referred the present dispute existing between the employers in relation to the Management of M/s. Trinity Commercials Pvt. Ltd., and their workman Laxman Barik in exercise of the powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) vide their Letter No. L-29012/33/2013 – IR(M), dated 23.08.2013 to this Tribunal for adjudication.

2. That the 2nd Party-workman has filed his statement of claim on 22.10.2013. He has not filed any documents to substantiate his case. Since he did not take any step except filing of his statement of claim the 2nd Party-workman was noticed on 23.2.2016 after the new P.O. Joins. Notice issued to him seems to have been duly served. But, the 2nd Party-workman did not appear.

3. On the other hand, the 1st Party-Management did not file its written statement, though the 2nd Party-workman has served a copy of statement of claim on them through post. Also, notice was issued to the 1st Party-Management to file its written statement on 23.2.2016 from this Tribunal, but, neither the 1st Party-Management appeared nor any step taken by it.

4. It appears from the above acts of the parties that either they have lost their interest in the case or they might have resolved their disputes amicably out of the court. In the given circumstances, a no-dispute award is required to be passed and accordingly a no-dispute award is passed in the case.

5. The reference is answered in the above terms.

Dictated & Corrected by me.

B. C. RATH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

का.आ. 812.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स रमेश ब्रदर्स इंजीनियरिंग कार्पोरेशन के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, कोलकाता के पंचाट (संदर्भ संख्या 04/2015) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-43012/12/2014-आईआर (एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 27th April, 2016

S.O. 812.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 04/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Kolkata now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Ramesh Bros. Engineering Corporation and their workman, which was received by the Central Government on 21-04-2016.

[No. L-43012/12/2014-IR(M)]

NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT KOLKATA

Reference No. 04 of 2015

Parties: Employers in relation to the management of M/s. Ramesh Bros. Engineering Corporation

A N D

Their workmen

Present : Justice Dipak Saha Ray, Presiding Officer

Appearance:

On behalf of the : None
Management

On behalf of the : None
Union

State: West Bengal

Industry:

Dated: 22nd March, 2016

AWARD

By Order No.L-43012/12/2014-IR(M) dated 02.02.2015 the Government of India, Ministry of Labour in exercise of its powers under Section 10(1)(d) and (2A) of the industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

“(1) Whether the action of the management of M/s. Ramesh Bros. Engineering Corporation is justified by terminating the service of Sk. Rahul Amin is legal and/or justified? If not, what relief the workman is entitled to? (2) Whether the action of principal employer is justified by not issuing ‘Gate Pass’ to the workman is legal and/or justified? If not, what relief the workman is entitled to?”

2. When the case is taken up today for hearing, none appears on behalf of M/s. Ramesh Bros. Engineering Corporation, M/s. Tata Steel Ltd. and Purba Medinipur Zela Security Service & Allied Workers’ Union inspite of service. Sk. Rahul Amin the workman concerned workman is also found absent and it appears from the record that he refused to receive the notice issued by this Tribunal.

3. It appears from the record that neither the union nor the concerned workman ever appeared before this Tribunal since the initiation of this reference. Considering the above facts and circumstances, it appears that neither the union nor the concerned workman is interested to proceed with the case further. So, no fruitful purpose will be served in keeping the matter pending.

4. In view of the above, instant reference is disposed of by passing a “No Dispute Award”.

Dated, Kolkata,
The 22nd March, 2016.

JUSTICE DIPAK SAHA RAY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

का.आ. 813.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स बिरला लाइफ इश्योरेंस कं. लिमिटेड के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-1, नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 153/2015) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-17012/18/2015-आईआर (एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 27th April, 2016

S.O. 813.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 153/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-1, New Delhi now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Birla Life Insurance Co. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 21-04-2016.

[No. L-17012/18/2015-IR(M)]

NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE COURT OF SHRI AVTAR CHAND DOGRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO.1, KARKARDOOMA COURT COMPLEX, DELHI

ID No. 153/2015

The President,
Bhartiya Shramjivi Sangh (Regd. 2928)
Branch Office : F-489,
In front of Labour Office Karampura,
New Delhi 110 015

...Workman

Versus

M/s Birla Life Insurance Co. Ltd.,
Bhagwati Plaza, 201-2012, 2nd Floor,
Plot No.12, Dwarka, Sector 5 Market,
New Delhi 110 075

...Management

AWARD

Central Government, vide letter No.L-17012/18/2015-IR(M) dated 30.06.2015, referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication:

“Whether Shri C.M. Chamoli and Shri Amit Kumar Jha, being appointed as agency manager in the management of Birla Life Insurance Company Ltd. were the workmen under Industrial Disputes Act, 1947? If yes, their termination with effect from 19.11.2014 is legal? If not, what relief the workmen concerned are entitled to?

2. In the reference order, the appropriate Government commanded the parties to the dispute to file statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with this Tribunal within 15 days of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to the opposite parties involved in the dispute. Despite directions so given, claimant union opted not to file its claim statement with the Tribunal.

3. On receipt of the above reference, notice was sent to the claimant union as well as the management. Neither the postal article, referred above, was received back nor was it observed by the Tribunal that postal services remained affected in the period, referred above. Therefore, every presumption lies in favour of the fact that the above notice was served upon the claimant union. Despite service of the notice, the claimant union opted to abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on its behalf. Thus, it is clear that the claimant union is not interested in adjudication of the reference on merits.

4. Since the claimant union has neither put in its appearance nor has it led any evidence so as to prove its cause against the management, as such, this Tribunal is left with no other alternative, except to pass a ‘No Dispute/Claim’

award. Let this award be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, for publication.

Dated : April 11, 2016

A.C. DOGRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

का.आ. 814.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार अकाउंटेंट जनरल (आ एवं इ) पंजाब के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 365/2005) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/87/99-आईआर (डीयू)]

पी. के. वेणुगोपाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th April, 2016

S.O. 814.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (ID No. 356/2005) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. II, Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Accountant General (A&E) Punjab and their workman, which was received by the Central Government on 27.04.2016.

[No. L-42012/87/99-IR (DU)]

P. K. VENUGOPAL, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, CHANDIGARH

Present : Sri Kewal Krishan, Presiding Officer

Case No. I. D. No. 356/2005

Registered on 8.5.2000

Sh. Raj Nath S/o Sh. Lahauri Yadav, H. No. 2040, Sector 15-C, Chandigarh ...Petitioner

Versus

1. The Accountant General (A&E) Punjab, Sector-17, Chandigarh-160017 ...Respondent

Appearances :

For the Workman : Sh. Jagdeep Singh, Adv.

For the Management : Sh. I.S. Sidhu, Adv.

AWARD

Passed on : 10.03.2016

Vide Order No. L-42012/87/99-IR (DU), dated 18.04.2000 the Central Government in exercise of the powers conferred by Clause (d) of the sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (in short Act) has referred the following industrial dispute for adjudication to this Tribunal.

“Whether the action of the management of Accountant General (A&E) Punjab, Chandigarh in terminating the services of Sh. Raj Nath S/o Sh. Lahauri Yadav w.e.f. 3.7.1997 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled”

The workman submitted statement of claim, pleading that he was engaged as Mali by the respondent-management on 21.8.1991 and he continuously worked till 3.7.1997 when his services were terminated illegally. That the persons junior to him were retained in service and even they were conferred temporary status vide order dated

1.4.1997. Those persons are still performing the duties. He was not paid any retrenchment compensation and thus, his termination of service is illegal.

Respondent-management filed written reply controverting the averments and pleaded that workman was only engaged on daily-wages basis and was not appointed as Mali which is a classified Group 'D' post and is to be filled by following procedure. The workman was engaged on need basis and when there was no requirement, his services were disengaged. That he is not entitled to get any retrenchment compensation. That the workman was not granted the temporary status as he did not fulfill the conditions as required vide OM dated 10.3.1993. It is further pleaded that respondent-management is not an 'Industry'.

Parties were given opportunity to lead its evidence.

In support of his case, the workman appeared in the witness-box and filed his affidavit reiterating his case as set out in the claim petition.

On the other hand, the respondent-management examined Sh. Tsewang Tharchin, DAG, who filed his affidavit supporting the stand of the respondent-management.

I heard Sh. S.K. Bansal for the workman and Sh. I.S. Sidhu for the management and perused the file carefully.

The respondent-management is an office of A.G. which certainly deals with the audit with the audit of different accounts the State Government. In Bangalore Water Supply Vs. A. Rajappa reported in 1978 AIR 548, the Hon'ble Apex Court did interpret 'Industry' and observed para 161 of the judgement as follow :

“ 'Industry', as defined in S. 2(j) and explained in Banerji (AIR 1953 SC 58) has a wide import.

- (a) Where (i) systematic activity, (ii) organized by co-operation between employer and employee (the direct and substantial element is chimerical) (iii) for the production and/or distribution of goods and services calculated to satisfy human wants and wishes (not spiritual or religious but inclusive of material things or services geared to celestial bliss i.e. making, on a large scale Prasa or food) prima facie, there is an 'industry' in that enterprise.
- (b) Absence of profit motive or gainful objective is irrelevant, be the venture in the public, joint private or other sector.
- (c) The true focus is functional and the decisive test is the nature of the activity with special emphasis on the employer-employee relations.
- (d) If the organization is a trade or business it does not cease to be one because of philanthropy animating the undertaking

Thus, in order to constitute any organization as an 'Industry' there must be systematic activity for the production and distribution of goods and services to satisfy human wants and wishes. But in the present case, the very nature of the office of the respondent-management suggest that it is not an 'Industry' and it only deals with the audit of different offices and do not indulge in the production and distribution of any goods or services. Thus, respondent-management is not an 'Industry'.

Now the question is whether the workman has been able to prove that he was employed by the respondent-management. According to the workman, he was engaged on 21.8.1991, but he did not produce any appointment letter to show that he was actually appointed as a Mali. It may be added that respondent-management is governed by rules and regulations. There is nothing to suggest that the workman was employed as Mali by following any procedure. It is the definite case of the respondent-management that the workman was engaged on daily wages basis as a casual labourer. The workman while appearing in the witness-box has admitted that he was working with the department on daily wages basis which strengthen the case of the respondent-management and prove that the workman was only engaged as a casual labourer on daily wages and he was not engaged as Mali as alleged by him.

When the workman was engaged as daily wagger, the termination of his services do not amounts to 'retrenchment' and reliance may be placed on Divisional Forest Officer, Rohtak Vs. Jagat Singh and others reported in 2009(2) PLR 586.

Wherein it was observed in para 4 of the judgment as follow :

“It may be noticed that the definition of retrenchment in Section 2(oo) of the Act is applicable to the provisions contained in Chapter VA containing Section 25-F and 25-H of the Act. The termination of daily wagger is not retrenchment failing within Section 2(oo)(bb) of the Act. Therefore, the workman, who is a daily wagger, cannot be reinstated as it does not amount to retrenchment within the meaning of Sections 25-F and 25-G of the Act.”

Thus, on disengagement from service, the workman was not to get any retrenchment compensation.

The workman has pleaded that persons junior to him, were given temporary status under the Scheme known as 'Casual Labourers' (Grant of Temporary Status and Regularization) Scheme, 1993 and the benefit was not given to him. The workman filed OA No. 436/CH/97 before the Central Administrative Tribunal, claiming temporary status under the said scheme and his application was declined vide order dated 27.5.1997 as per copy of the order Exhibit R5.

Thus, if temporary status was not given to the workman, he cannot get any relief in the present reference as it is not proved that he was appointed as Mali by the respondent-management, as pleaded by him.

In result, the reference is answered against the workman and he is not entitled to any relief.

KEWAL KRISHAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2016

का.आ. 815.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स डे इंजीनियरिंग के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 9/2015) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/3/2015-आईआर (एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 28th April, 2016

S.O. 815.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 9/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-2, Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Dey's Engineering and their workman, which was received by the Central Government on 27-04-2016.

[No. L-30012/3/2015-IR(M)]

NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, CHANDIGARH

Present: Sri Kewal Krishan, Presiding Officer

Case No. I.D. No. 9/2015

Registered on 18.5.2015

Sh. Major Singh, S/o Sh. Zoga Singh, Village & PO Bansa,
Tehsil & Distt. Karnal, Haryana

...Petitioner

Versus

M/s Dey's Engineering, Kothi No.292, Virat Nagar,
Near Himansu Nursery, Panipat, Haryana

...Respondent

APPEARANCES :

For the workman

Workman ex parte.

For the Management

Sh. Ajay Pal Singh, Adv.

AWARD

Passed on:-09.03.2016

Vide Order No.L-30012/3/2015-IR(M), dated 8.5.2015 the Central Government in exercise of the powers conferred by Clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-Section 2(A) of Section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (in short Act) has referred the following industrial dispute for adjudication to this Tribunal.

“Whether the action of management of M/s Deys Engineering in terminating the services of the workman Sh. Major Singh S/o Sh. Zoga Singh, rigger and not given his dues of two months wages, retrenchment compensation, bonus etc is justified? If not, what relief the workman is entitled to and from which date?”

On receipt of the reference, notice was given to the workman who appeared in person on 29.7.2015 and thereafter, he did not appear and was proceeded against ex parte.

Since the workman was proceeded against ex parte, no statement of claim was submitted on his behalf. In the absence of the statement of claim, and the evidence thereon no relief can be granted to the workman. Therefore, this reference is decided against the workman holding that he is not entitled to any relief.

KEWAL KRISHAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2016

का.आ. 816.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स डे इंजीनियरिंग के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 10/2015) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/4/2015-आईआर (एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 28th April, 2016

S.O. 816.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 10/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-2, Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Dey's Engineering and their workman, which was received by the Central Government on 27-04-2016.

[No. L-30012/4/2015-IR(M)]

NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, CHANDIGARH

Present: Sri Kewal Krishan, Presiding Officer

Case No. I.D. No. 10/2015

Registered on 18.5.2015

Sh. Wazeer Singh, S/o Sh. Kehar Singh, Vill & PO-Bansa,
Tehsil & Distt. Karnal, Haryana

...Petitioner

Versus

M/s Dey's Engineering, Kothi No.292, Virat Nagar,
Near Himansu Nursery, Panipat, Haryana

...Respondent

APPEARANCES

For the workman

Workman ex parte.

For the Management

Sh. Ajay Pal Singh, Adv.

AWARD

Passed on : 09.03.2016

Vide Order No.L-30012/4/2015-IR(M), dated 8.5.2015 the Central Government in exercise of the powers conferred by Clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-Section 2(A) of Section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (in short Act) has referred the following industrial dispute for adjudication to this Tribunal.

“Whether the action of management of M/s Deys Engineering in terminating the services of the workman Sh. Wazeer Singh S/o Sh. Kehar Singh, rigger and not given his dues of two months wages, retrenchment compensation, bonus etc is justified? If not, what relief the workman is entitled to and from which date?”

On receipt of the reference, notice was given to the workman who appeared in person on 29.7.2015 and thereafter, he did not appear and was proceeded against ex parte.

Since the workman was proceeded against ex parte, no statement of claim was submitted on his behalf. In the absence of the statement of claim, and the evidence thereon no relief can be granted to the workman. Therefore, this reference is decided against the workman holding that he is not entitled to any relief.

KEWAL KRISHAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2016

का.आ. 817.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 47/2010) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/8/2010-आईआर (एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 28th April, 2016

S.O. 817.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 47/2010) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-2, Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Indian Oil Corporation Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 27-04-2016.

[No. L-30012/8/2010-IR(M)]

NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, CHANDIGARH

Present: Sri Kewal Krishan, Presiding Officer

Case No. I.D. No. 47/2010

Registered on 20.8.2010

Sh. Ravinder Kumar(Physiotherapist) S/o Sh. Kamta Prasad Verma,
Permanent address Village Charrah. Post Office Ajwan,
Distt.Patna(Bihar), presently residing at Jeet Studio,
Haribag Colony, Assandh Road, Panipat

....Petitioner

Versus

The Executive Director, IOCL, Panipat Refinery Division, Panipat

...Respondent

APPEARANCES

For the workman

Sh. A.K. Singh Goyat, Adv.

For the Management

Sh. Paul S. Saini, Adv.

AWARD

Passed on:-14.03.2016

Vide Order No.L-30012/8/2010-IR(M), dated 04.08.2010 the Central Government in exercise of the powers conferred by Clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-Section 2(A) of Section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (in short Act) has referred the following industrial dispute for adjudication to this Tribunal.

“Whether the contract awarded by the management of IOCL, Panipat Refinery is a sham contract and contractor M/s Chabra Hospital and M/s. Maharaja Aggersain Hospital are a camouflaged & whether the job performed by the worker is perennial in nature? If yes, the action of the management of IOCL in terminating the services of Sh. Ravinder Kumar, Physiotherapist w.e.f. 10.8.2005 is just, fair and legal? To what relief the workman is entitled and from which date?”

In response to the notice, the workman appeared and submitted statement of claim pleading that he is a qualified Physiotherapist. In the month of December 1999, respondent-management gave an advertisement for the post of Physiotherapist in its hospital at Panipat Refinery township. He was selected by a High Level Committee of respondent-management and he joined the duty on 16.2.2000. He continuously worked up to 15.2.2002 under the direct supervision of the respondent-management.

A new committee was constituted on 18.4.2002(Annexure P-13 and P-14) for conducting selection of RMO and a Paramedical Staff for the Refinery Hospital who conducted Screening on 17.4.2002. The workman was again selected and joined the duties on 16.2.2002 and continuously worked till 10.8.2005 when his services were terminated.

That the termination order is illegal. It is pleaded that the contract entered into between the respondent-management and private hospital is illegal. The work is of perennial nature, it cannot be out sourced or be given on contract. That the respondent-management has been acting in violation of the provisions of law and since the workman worked continuously from 16.2.2002 to 10.8.2005 and his services are not to be terminated and that too without any payment of retrenchment compensation, he is deemed to be in service.

Respondent-management filed written reply, pleading that recruitments to various posts to the corporation are made in accordance with the rules and regulations. That the contract to run certain medical services including Physiotherapy at township was awarded to M/s. Chabra Hospital, Panipat in the year 1999 and the employees to be provided by the contractor were screened by Screening Committee deputed by the respondent-management. That the workman was posted as Physiotherapist by the contractor M/s. Chabra Hospital. Later on the contract for providing medical officers and paramedical staff in the hospital was given to M/s. Maharaja Aggersain Hospital in the year 2002 and the applicant was again appointed by the contractor. That there is no relationship of employee and employer between the parties and the workman is not an employee of the corporation who was of the contractor.

Parties were given opportunities to lead their evidence.

In support of his case, Sh. Ravinder Kumar, workman appeared in the witness-box and filed his affidavit along with several documents, supporting his case as set out in the claim petition.

On the other hand, the respondent-management examined Sh. P.C. Baishya, who filed his affidavit reiterating the stand of the respondent-management and further filed copies of the contract dated 14.1.2000 and 22.4.2000 and other various letters.

I have heard Sh. A.K. Singh Goyat for the workman and Sh. Paul S. Saini for the management and perused the record carefully.

The learned counsel for the workman carried me through Annexure-P2 and submitted that a committee was constituted for selection of the Paramedical Staff who recommended the name of the applicant for appointment as Physiotherapist as is evident from Annexure-P3 dated 9.1.2000. He has further carried me through an office order dated 18.4.2000(Annexure P13) and submitted that a committee was again constituted by the respondent-management for screening of RMOs and Paramedical Staff to be appointed at Panipat Refinery and name of the workman was again recommended who joined the service and further submitted that the workman continuously worked as employee of the respondent-management from 16.2.2002 to 10.8.2005 and his services were arbitrarily terminated without serving any notice or payment of retrenchment compensation and therefore the termination is illegal.

I have considered the contention of the learned counsel.

The workman claimed that he applied in response to the an advertisement given by the respondent-management in the year 1999 and was selected by a Committee appointed by the respondent-management and he joined the service. Thereafter again a Committee was appointed who again selected him and he joined the service on 16.2.2002 and continuously worked on 10.8.2005. But the workman has not place on record any advertisement issued by the respondent-management or any interview letter issued to him by it. Again he did not prove any appointment letter on the file that he was appointed by the respondent-management. If some Committee was constituted for screening of Medical Staff by the respondent-management, the same do not ipso facto prove that it was the respondent-management who made the appointments. The respondent-corporation is a statutory body and follow rules and regulations for making the appointments, but nothing has come on file that any rules and regulations were followed while appointing the workman as Physiotherapist. Again nothing has come on file that he was ever paid any salary by the respondent-management and

in the absence of this, that he was paid any salary by the respondent-management, it cannot be said that he was ever appointed by the respondent-management and he ever worked as its employee.

Respondent-management has set up a definite case that it has given a contract for providing certain services at Panipat Refinery Hospital and the workman himself has placed on record a photocopy of the agreement dated 14.1.2000(Annexure-P7) showing that a contract was given to M/s. Chabra Hospital for providing medical services. Again the respondent-management filed a photocopy of the agreement dated 22.4.2002 showing that it has again given contract for medical service to M/s. Maharaja Aggarsain Hospital, Panipat. The workman has himself challenged the contract entered into between the respondent-management and the service provider, and in this way, the workman himself admits that he was not an employee of the respondent-management but was contractor to whom a contract was given for providing medical services. The workman has admitted in a letter Annexure M13 which he submitted to the Medical Superintendent Hospital, specifically mentioning therein that he has been worked at the hospital on behalf of M/s. Maharaja Aggarsain Hospital. Thus, he himself admits that he was working with the respondent-management on behalf of the Maharaja Aggarsain Hospital and when it is so, he cannot claim himself to be an employee of the respondent-management.

The respondent-management has awarded contract to different parties at different times for providing medical services in its Panipat Refinery Hospital and there is nothing on the file to suggest that the contracts entered into by the respondent-management were sham transaction. It was for the management to manage its affairs by appointing regular persons or hiring the services of the contractor and even if the work was perennial in nature, the same do not make the contract as a sham transaction. Similarly, if committee was constituted for screening of medical staff by the management, the same do not establish that workman was appointed by the respondent-management.

Since the workman has failed to prove that he was an employee of the respondent-management and the contracts entered into between the respondent-management and the service provider are not proved to be sham transaction and therefore, the reference is answered against the workman holding that he is not entitled to any relief.

KEWAL KRISHAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2016

का.आ. 818.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स डे इंजीनियरिंग के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 11/2015) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/5/2015-आईआर (एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 28th April, 2016

S.O. 818.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 11/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-2, Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Dey's Engineering and their workman, which was received by the Central Government on 27-04-2016.

[No. L-30012/5/2015-IR(M)]

NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, CHANDIGARH

Present: Sri Kewal Krishan, Presiding Officer

Case I.D. No. 11/2015

Registered on 18.5.2015

Sh. Gurpreet Singh, S/o Sh. Gurdeep Singh, Vill & PO-Bansa,
Tehsil & Distt. Karnal, Haryana

...Petitioner

Versus

M/s. Dey's Engineering, Kothi No.292, Virat Nagar,
Near Himansu Nursery, Panipat, Haryana

...Respondent

APPEARANCES :

For the workman

Workman ex parte.

For the Management

Sh. Ajay Pal Singh, Adv.

AWARD

Passed on:-09.03.2016

Vide Order No.L-30012/5/2015-IR(M), dated 8.5.2015 the Central Government in exercise of the powers conferred by Clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-Section 2(A) of Section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (in short Act) has referred the following industrial dispute for adjudication to this Tribunal.

“Whether the action of management of M/s. Deys Engineering in terminating the services of the workman Sh. Gurpreet Singh S/o Sh. Gurdeep Singh, rigger and not given his dues of two months wages, retrenchment compensation, bonus etc is justified? If not, what relief the workman is entitled to and from which date?”

On receipt of the reference, notice was given to the workman who appeared in person on 29.7.2015 and thereafter, he did not appear and was proceeded against ex parte.

Since the workman was proceeded against ex parte, no statement of claim was submitted on his behalf. In the absence of the statement of claim, and the evidence thereon no relief can be granted to the workman. Therefore, this reference is decided against the workman holding that he is not entitled to any relief.

KEWAL KRISHAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2016

का.आ. 819.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 85/2014) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29011/64/2013-आईआर (एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 28th April, 2016

S.O. 819.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 85/2014) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Hyderabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Cement Corporation of India and their workman, which was received by the Central Government on 27-04-2016.

[No. L-29011/64/2013-IR(M)]

NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD**

Present : Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer

Dated the 17th day of March, 2016

INDUSTRIAL DISPUTE I.D. No. 85/2014

Between :

The General Secretary,
C.C.I.Staff & Karmik Sangh,
C/o Cement Corporation of India,
Tandur(M), Ranga Reddy Dist-501158

...Petitioner

AND

The General Manager,
Cement Corporation of India,
Tandur Cement Factory,
Tandur R.R. Dist.

...Respondent

Appearances:

For the Petitioner : Sri M. Kiran Kumar, Advocate
For the Respondent : M/s. V. Uma Devi & N. Srinivas, Advocates

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-29011/64/2013-IR(M) dated 16.5.2014 referred the following dispute between the management of Cement Corporation of India and their workman under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal. The reference is,

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Cement Corporation of India Ltd., Tandur Cement factory restricting the OPD Medical expenses in respect of Dependent family members of the employees in the Industrial Disputes Act, 1947 scales of pay will be limited to one month basic pay (excluding DA) is fair, proper, legal and justified? If not, to what relief the workmen are entitled to?”

The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 85/2014 and notices were issued to the parties concerned.

2. The case stands posted for filing of claim statement and documents by the Petitioner.
3. In spite of availing several opportunities to file claim statement, the Petitioner union failed to file Claim statement and remained absent. There is no representation on behalf of the Petitioner union on the date fixed in spite of repeated calls, which clearly indicates that the dispute of the Petitioner union has already been settled. In the circumstances stated above, it is felt that the Petitioner union has got no claim to raise. Thus, ‘No dispute’ award is passed.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant, corrected by me on this the 17th day of March, 2016.

MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the
Petitioner

NIL

Witnesses examined for the
Respondent

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2016

का.आ. 820.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स अक्कास कंसोर्टियम के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-1, मुंबई के पंचाट (संदर्भ संख्या 32/2014) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42011/2/2014-आईआर (एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 28th April, 2016

S.O. 820.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 32/2014) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-1, Mumbai now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Aqdas Consortium and their workman, which was received by the Central Government on 26-04-2016.

[No. L-42011/2/2014-IR(M)]

NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, MUMBAI

Present : JUSTICE S.P. MEHROTRA, Presiding Officer

REFERENCE NO.CGIT-1/32 OF 2014

Parties: Employers in relation to the management of M/s. Aqdas Consortium

And

1. Navi Mumbai General Kamgar Sanghatana
2. Konkan Shramik Sangh

Appearances:

For the first party/Management : None present.

For the second party/Union No.1 : None present.

For the second party/Union No.2 : None present.

State : Maharashtra

Mumbai, dated the 7th day of July, 2015

AWARD

1. The present Reference has been made by the Central Government by its order dated 27.10.2014 passed in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947. The terms of Reference as per the Schedule to the said order are as under:

“Whether the demand of Navi Mumbai General Kamgar Sanghatana and Konkan Shramik Sangh for 20% bonus for the year 2012-2013 to the employees (373) employed by the management of M/s.Aqdas Consortium for the work of Central Warehousing Corporation is legal, fair and proper? If yes, what relief the workmen are entitled to?”

2. By the Order dated 17.11.2014, this Tribunal directed for issuance of Notices to the parties, and the case was directed to be put up on 26.12.2014. Notices were accordingly issued to the parties by Registered Post AD.

3. Pursuant to the Order dated 17.11.2014, the case was put up on 26.12.2014.

On 26.12.2014, the Tribunal noted in its Order that the first party/Management and the second party/Union No.2 had been duly served, and the respective Acknowledgement Cards had been received back. However, the Tribunal noted that as regards the Notice issued to the Vice President, Navi Mumbai General Kamgar Sanghatana, Panvel (second party/Union No.1), neither Registered Envelope nor Acknowledgement Card had been received back. In the circumstances, the Tribunal by the Order dated 26.12.2014 directed that service of notice issued to the second party/Union No.1 be awaited, and the matter was fixed for 20.2.2015.

4. Pursuant to the Order dated 26.12.2014, the matter was put up on 20.2.2015. On the said date, i.e. 20.2.2015, the Tribunal noted in its Order that the Office had informed that the notice issued to the second party/Union No.1 had also been served and the Acknowledgement Card had been received back. However, despite service of notice, none was present for either of the parties in the matter on the said date i.e. 20.2.2015. In the circumstances, by the Order dated 20.2.2015, the case was adjourned to 14.4.2015 for filing Statement of Claim.

5. As 14.4.2015 was declared as a holiday on account of “Birthday of Dr.Ambedkar”, the Tribunal by the Order dated 15.4.2015 directed the matter to come up on 18.5.2015.

6. Pursuant to the Order dated 15.4.2015, the case was put up on 18.5.2015. On the said date i.e. 18.5.2015, none was present on behalf of the first party/Management. None was present on behalf of the second party/Union No.1 nor was anyone present on behalf of the second party/union No.2. In the circumstances, by the Order dated 18.5.2015 the case was adjourned to 10.6.2015 for filing Statement of Claim.
7. Pursuant to the Order dated 18.5.2015, the case was put up on 10.6.2015. On the said date i.e. 10.6.2015, none was present on behalf of the first party/Management. None was present on behalf of the second party/Union No.1 nor was anyone present on behalf of the second party/Union No.2. In the circumstances, by the Order dated 10.6.2015, the case was adjourned to 30.6.2015 for filing Statement of Claim.
8. Pursuant to the Order dated 10.6.2015, the case was put up on 30.6.2015. On the said date i.e. 30.6.2015, none was present on behalf of the first party/Management. None was present on behalf of the second party/Union No.1 nor was anyone present on behalf of the second party/Union No.2. In the circumstances, by the Order dated 30.6.2015, the case was adjourned to 7.7.2015 for filing Statement of Claim.
9. Pursuant to the Order dated 30.6.2015, the case is put up today. None is present on behalf of the first party/Management. None is present on behalf of the second party/Union No.1 nor is anyone present on behalf of the second party/union No.2. No Statement of Claim has been filed on behalf of the second party/Union No.1 or on behalf of the second party Union No.2
10. From the above narration of facts, it is evident that despite service of notice, none has put in appearance on behalf of the second party/Union No.1 nor has anyone put in appearance on behalf of the second party/Union No.2. None has been appearing on behalf of the second party/Union No.1 or on behalf of the second party/Union No.2 on any of the dates fixed in the matter.
11. No Statement of Claim has so far been filed on behalf of the second party /Union No.1 or on behalf of the second party/Union No.2.
12. In view of the above, it is evident that there is no pleading or evidence filed on behalf of the second party/Union No.1 or on behalf of the second party/Union No.2 in respect of the Claim as contained in the aforesaid Reference.
13. No relief, therefore, can be granted to the second party/Union No.1 or the second party/Union No.2 in regard to the Claim as contained in the above Reference.
14. The Reference made to this Tribunal is consequently answered by stating that no relief can be granted to the second party/Union No.1 or the second party/Union No.2 in regard to the Claim as contained in the Reference.
15. Award is passed accordingly.

JUSTICE S.P. MEHROTRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2016

का.आ. 821.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948(1948 का 34) की धारा-1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 01 मई, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी हैं) अध्याय-5 और 6 [धारा-76 की उप धारा (1) और धारा -77, 78 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं] के उपबंध आन्ध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:

“राजस्व सीमा के अंतर्गत आने वाले गांव और उनके निकटवर्ती गांव नारायण पुरम, उंगुटूर, चेब्रोतु, राचुरु, गोपीनाथपटनम, नीलद्रिपुरम, नाचुगुंटा, तल्लापुरम, रावुलापारू, अप्पारावपेटा, काइकारम, पुल्ला, नीडामारू, कागुपाडू, और आन्ध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के उंगुटूर मंडल के बोम्मिडी के सभी क्षेत्र”

[सं० एस-38013/87/2015-एस०एस०-1]

अजय मलिक, अवर सचिव

New Delhi, the 28th April, 2016

S.O. 821.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st May, 2016, as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Andhra Pradesh, namely:—

"All the areas falling within the limits of Revenue village with their hamlets of Narayanapuram, Ungutur, Chebrolu, Rachuru, Gopinadhapatnam, Nelladripuram, Nachugunta, Tallapuram, Ravulaparru, Apparaopeta, kaikaram, Pulla, Nidamaru, Kagupadu, Bommidi of Ungutur mandal of West Godavari District in Andhra Pradesh."

[No. S-38013/87/2015-S.S.-I]

AJAY MALIK, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2016

का.आ. 822.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948(1948 का 34) की धारा-1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 01 मई, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी हैं) अध्याय-5 और 6 [धारा-76 की उप धारा (1) और धारा -77, 78 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं] के उपबंध पूर्व कार्यान्वित क्षेत्रों के अतिरिक्त संपूर्ण कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:

क्र. सं. जिला/क्षेत्र का नाम

1. बागलकोट
2. बल्लारी
3. बेलगावी
4. बेंगलुरु ग्रामीण
5. बेंगलुरु शहर
6. चामराजनगर
7. चित्रदुर्ग
8. दक्षिण कन्नड
9. दावनगेरे
10. धारवाड़
11. गदग
12. हासन
13. हावेरी
14. कलबुर्गी
15. कोलार
16. कोप्पल
17. मांड्या
18. मैसूरु
19. रायचूर
20. रामनगर
21. शिवमोग्गा
22. तुमकूरु
23. उडुपी
24. उत्तर कन्नड
25. विजयपुरा
26. यादगीर

[सं० एस-38013/19/2016-एस०एस०-1]

अजय मलिक, अवर सचिव

New Delhi, the 28th April, 2016

S.O. 822.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st May, 2016, as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Karnataka, namely:—

Sl.No. Name of the District/Areas

1. Bagalkot
2. Ballari
3. Belagavi
4. Bengaluru Rural
5. Bengaluru Urban
6. Chamarajnagar
7. Chitradurga
8. Dakshina kannada
9. Dvanagere
10. Dharwad
11. Gadag
12. Hassan
13. Haveri
14. Kalaburagi
15. Kolar
16. Koppal
17. Mandya
18. Mysuru
19. Raichur
20. Ramanagara
21. Shivamogga
22. Tumakuru
23. Udupi
24. Uttara Kannada
25. Vijayapura
26. Yadgir

[No. S-38013/19/2016-S.S.-I]
AJAY MALIK, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2016

का.आ. 823.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एन सी आर के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (संदर्भ सं. 08/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-41012/53/2005-आईआर (बी-1)]

रणबीर सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 28th April, 2016

S.O. 823.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 08/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of N.C.R. and their workmen, received by the Central Government on 28.04.2016.

[No. L-41012/53/2005-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI SHUBHENDRA KUMAR, HJS. PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 08 of 2006

Kamlesh Baboo son of Badan Singh,
AT Shanti Nagar, Dibiyapur,
Post Office Dibiyapur,
District Etawah.

And

The Divisional Railway Manager,
NCR, Allahabad.

AWARD

1. Central Government by notification No. L-41012/53/2005 (IR(B-1) dated 10.01.06, has referred the following dispute for adjudication to this tribunal.
2. Whether the action of the management of Divisional Railway Manager, NCR, Allahabad in terminating the services of Sri Kamlesh Baboo son of Badan Singh with effect from 14.09.91 is just and fair? If not to what relief the workman concerned is entitled?
3. Case in short as given by the worker Sri Kamlesh Baboo is that he was appointed as gangman by the opposite party on 06.01.84. Work was being taken from him by Assistant Engineer, PKK, Etawah. The relevant records were being dealt with by PWI Etawah. It is also alleged by the worker that from the date of his appointment till the date of his termination of service i.e. 14.09.91 he remained in continuous employment under the opposite party. It is also alleged that all his colleagues who had completed 120 days of continuous service were given temporary status and subsequently they were absorbed in regular and permanent service of the railway. It is further stated that due to illness of his wife he went to his village after giving information to the P.W.I. and after availing the leave when he came to resume his duties then he was informed by the PWI that his name has been struck off from the muster roll and some other person was engaged at his place and when he inquired about the same from the mate he was told that some relative of PWI had been engaged. It is also alleged that after completion of 120 days of continuous service Railway Conduct Rules became applicable in his case and as he had also been subjected to medical examination he became entitled for absorption in the railway service. The opposite party in an illegal manner had determined his services with effect from 14.08.91 without showing any reason or without complying with mandatory provisions i.e. without giving him any notice or notice pay in lieu of retrenchment compensation. Therefore, his retrenchment from the railway service is illegal. Thereafter he approached the higher authorities of the railway repeatedly and requested him to appoint him in the service but all in vain and after his illegal retrenchment, railway recruited several fresh hands ignoring the legitimate claim of the worker. Lastly it is alleged by the worker that he had completed more than 240 days of continuous service in intervening period between the date of his appointment and date of his retrenchment but he had not been absorbed in the service. He has thus prayed that he be reinstated in the service with full back wages and continuity of service, seniority and with all consequential benefits.
4. In reply it has been submitted by the opposite party that the worker had simply worked for 49 days in the year 1984. Worker had never placed any record relating to his appointment but however on the basis of records the appointment of the worker is admitted. It is stated that CPC scales were allowed only to those workers who were found eligible but as the worker was negligent in his work he was not allowed the benefit of CPC scale. In case of daily rated employee there is no provision for allowing leave except they are allowed only one day leave in a week. The opposite party has admitted the assertion of the worker that for the persons engaged prior to 2006, for reengaging them advertisement was published in the news papers and for which it was essential for the candidates to apply on the prescribed proforma. As the worker was a daily rated employee, therefore, there

was no need to provide him notice, notice pay or retrenchment compensation. On the basis of above it has been prayed that the claim of the worker is devoid of merit and is liable to be rejected.

5. It is pertinent to mention here that the opposite party has neither filed any document nor has adduced any evidence in support of their claim.
6. On the other hand the worker has filed document dated 20.06.91, which is working days for the period 14.02.84 to 19.09.84 showing that the worker had worked for 201 days during the above period. This document is marked as Ext. W-1. Likewise worker has also filed document dated 20.04.91 wherein it is certified by the opposite party that the worker had worked for 472 days during the period 14.01.88 to 14.12.91. Worker has further filed paper no.9/3 dated 04.01.84 which is on the subject of appointment of casual labor. This document shows that the name of persons shown in this document are allowed to work as casual labor (provisionally) with immediate effect pending verification as required under rules and their services are liable to be terminated at any time. In this document the name of the worker finds figure at serial No. 62 as Kamlesh Baboo son of Badan Singh.
7. Worker has examined himself as W.W.1 and in his examination in chief he has admitted that he was appointed as gangman on 06.01.84 and worked till 14.09.91. He was appointed by A.P.O. Allahabad and he worked continuously till 1991. He was also medically examined on 01.03.86 along with 20 other persons. He has also indicated towards documents saying that it is his service record and the same is being filed on record which has been provided to him by the PWI. On 15.09.91 he moved an application for leave on the ground of illness of his wife and gave it to Sri H.S. Sharma P.W.I. and went to his village. When he returned back he was not allowed to resume his duties. He continued to approach in the office for his duties but his request was unheard by the officers of the opposite party. At present he is not in employment any where else.
8. In his cross examination he has admitted that through open appointment he was appointed under the opposite party and he received his wages for the days for which he worked. He was appointed as casual labor and his attendance was taken on pay sheet which he could not file as it was not provided. He denied the fact that he was not working regularly and also denied that he never worked on calling as and when required.
9. Management has not filed any documentary or oral evidence to rebut the contention of the worker, while Ext.W.1 and W.2 are signed by the officers of the management certifying 201 days of working of worker in 1984 and 472 days of working from 14.01.88 to 14.02.91.
10. I have heard the arguments of the representative for the worker but none was present on behalf of the management to argue the case. I have also carefully gone through the entire file.
11. It is contended by the representative for the worker that the documents relating to the worker from 85 to 87 and after 14.02.91 were not provided to him by the management therefore, he could not file these documents. The document filed by the worker clearly falsifies the case of the management that the worker has worked for 49 days in 1984. No document is filed by the management or any oral evidence was given to establish the case of the management that the worker was careless in his working and was in the habit of remaining absent.
12. This fact has also not denied by the management that any worker completing 120 days of continuous working shall be given temporary status. Worker has also stated that due to illness of his wife he gave leave application to Sri H. S. Sharma, P.W.I on 15.09.91 and when he returned after recovery of his wife he was not allowed to work. He also denied the fact in his cross examination that he remained absent unauthorizedly.
13. From the above discussion it is clear that worker had attained temporary status and his services as such could not be terminated without notice or inquiry or at any rate without complying with the minimum principle of natural justice as absence without leave constitutes misconduct as held by the Hon'ble Apex Court in AIR 1982 Supreme Court, page 854 L.Robert De'souja versus Executive Engg, Southern Railway, wherein it has also been held that Rule 2302 of Railway Establishment Manual clearly prescribes the mode manner and methodology of terminating the service of temporary railway servant.
14. In the instant case as it has been established that the worker had attained the status of a temporary railway service by working 120 days of continuous service therefore, he could not have been terminated by the management from his service without notice or without holding of any disciplinary action against him for his alleged misconduct of remaining absent unauthorizedly from his work. Therefore, his termination is stigmatic which cannot be allowed to be sustained in the eye of law being passed in violation of Rule 2302 of Railway Establishment Manual.
15. In view of above discussion of facts and law, it is held that the action of the Divisional Railway Manager, NCR, Allahabad in terminating the services of Sri Kamlesh Baboo son of Badan Singh w.e.f. 14.09.91 is neither just

nor fair. Accordingly the worker is entitled for his reinstatement in the service of the railway w.e.f.14.09.91 with full back wages, continuity of service and with all consequential benefits.

16. Reference is answered accordingly in favor of the worker.

SHUBHENDRA KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2016

का.आ. 824.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (संदर्भ सं. 93/2011) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/62/2011-आईआर (बी-1)]

रणबीर सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 28th April, 2016

S.O. 824.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 93/2011) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Allahabad Uttar Pradesh Gramin Bank and their workmen, received by the Central Government on 28.04.2016.

[No. L-12012/62/2011-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI SHUBHENDRA KUMAR, HJS. PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 93/2011

Between-

Awadhesh Kumar Nigam,
Son of late Sri Jugul Kishore Nigam,
New Colony, Hind Tyre Wali Gali,
Near Santosh Namdeo,
Infront of Sudhir Saxena,
Gandhi Nagar,
Mahoba.

And

The Chairman,
Allahabad Uttar Pradesh Gramin Bank,
HO Civil Lines ,
DM Colony,
Banda.

AWARD

1. Central Government, Mol, New Delhi vide notification No.L-12012/62/2011-IR(B-I) dated 12.10.2011, has referred the following dispute for adjudication to this tribunal.
2. Whether the action of the management of Allahabad Uttar Pradesh Gramin Bank, Shree Nagar Branch, Mahoba in terminating the services of Sri Awadhesh Kumar Nigam with effect from 04.09.2010 is legal and justified? To what relief the workman is entitled?
3. It is not necessary to detail full facts of the case as after exchange of pleadings between the parties worker stopped putting his appearance nor has filed any evidence documentary as well as oral. Considering the conduct of the worker the representative for the bank also made an endorsement to the effect that since the worker has not given any evidence they too are not willing to adduce any evidence in the case.

4. Therefore, from the above it appears that the worker is not interested in his case and therefore, the reference is liable to be decided against him for want of evidence and proof.
5. Accordingly reference is decided against the workman and in favor of the bank.

SHUBHENDRA KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2016

का.आ. 825.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (संदर्भ सं. 60/2010) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/81/2009-आईआर (बी-1)]

रणबीर सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 28th April, 2016

S.O. 825.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 60/2010) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of State Bank of Patiala and their workmen, received by the Central Government on 28.04.2016.

[No. L-12012/81/2009-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI SHUBHENDRA KUMAR, HJS. PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 60 of 2010

Between-

Rohit Kumar son of Sri Sriram,
85/82, Gurdin Babu ka Hata,
Khalwa, Jhakarkati,
Kanpur.

And

The Branch Manager,
State Bank of Patiyala,
Naveen Market Branch,
Kanpur.

AWARD

1. Central Government, Mol, New Delhi, vide notification No.L-12012/81/2009-IR B-1 dated 25.06.12, has referred the following dispute for adjudication to this tribunal.
2. Whether the action of the management of State Bank of Patiala Lucknow in terminating services of Sri Rohit Kumar son of Sri Sriram w.e.f. 31.03.04 is justified? If not, what relief the concerned applicant is entitled?
3. Case of the workman in short is that the opposite party bank is having its extension counter at M.G. College Civil Lines under the control and supervision of State Bank of Patiala, Branch office, Naveen Market Kanpur. The applicant was appointed by the branch office of the bank on 01.04.98 as safai karamchhari at its extension counter, as above for sweeping the premises of the extension counter of the bank. It is alleged by the claimant that he made a representation dated 30.10.2003 to the bank that as he is performing the work of regular nature, therefore, he may be given the pay of a regular employee. This representation of the claimant was neither replied by the bank nor he was suitably designated and nor he was paid his wages as demanded by him. Worker further states that bank used to make him payment of wages at the rate of Rs.50/- per day after obtaining his signatures on payment vouchers which is against the provisions of Minimum Wages Act, 1948. Even after receipt of the representation of the worker, the bank continued to utilize his services and also used to pay his wages after obtaining his signatures on the reverse of the vouchers in the

name of Ratia, Rupesh, Ramu and Shyam. He again preferred representations on 05.02.04 and 19.03.04, objecting the manner in which he was being paid his wages by the bank in the name of other persons and also requested that he be declared as a regular employee of the bank but no positive favor was shown to his representation by the bank. He also objected the acts of the bank on the ground that after taking work from him by the bank till 29.03.2004, he was paid his wages at the rate of Rs.50/- per day after obtaining his signature over the payment vouchers in the name of alleged Shyam. On 31.03.2004 when he came for duty at the branch, Sri U S Dass branch incharge orally refused to take the work from the claimant. It is also alleged that during the period 03.10.98 till 08.01.04 on different dates he was paid his wages through vouchers and the dates for which he was paid wages is mentioned in para 12 of his claim statement. It is also alleged that the bank by adopting unfair labor practice has made payment of wages to him after obtaining signatures from on the vouchers in the name of others.

4. Lastly it is alleged by the claimant that the whole action as above on the part of the bank is in violation of provisios of section 25F, 25FF, 25FFF of the Act, therefore, after setting aside the action of the bank terminating his service with effect from 31.03.2004, he be directed to be reinstated in the service of the bank with full back wages and all consequential benefits.

5. Opposite party has filed a detailed reply against the claim of the workman vehemently denying all the pleadings of the worker. It is admitted by the bank that the claimant was engaged by the bank at its extension counter situate at MG College, Civil Lines, Kanpur, to carry out the work of sweeping and cleaning on exigencies as daily rated part time basis who has worked casually an intermittent. It is denied that the workman hold ay post in the bank and had never worked against any regular or permanent post. Worker was not engaged to have any fixed hours and he hd to leve the premises once he completed the sweeping work. He was never issued any appointment letter hence question of his termination from banks service does not arise at all. Worker has neither paid any salary or wages by the bank for part time sweeping job and the managment had paid the charges of Rs.50/- per day as per agreed rate on each and every occassion. It is denied by the bank that there is any full time work at the branch for sweeping and cleaning work and that worker had never worked continuously to say that at any point of time he had completed 240 days of continuous services preceding 12 calender months from the date of alleged termination. In fact worker had worked till 07.11.03 as such his claim allegedly that he worked till 29.03.04 is without any basis and substance. He left the job of his own accord without any information to the bank and he is not entitled for any facilities like regular and permanent employee of the bank.

6. As a matter of fact the post of sweeper (part time) in IV category was sanctioned for bank ward community which has been fulfilled accordingly after necessary process in this behalf and aftr selection Sri Gautam has already joined with effect from 24.03.04, who is still working a part time sweeper in the bank at MG College Extension Counter, Civil Lines, Kanpur. Sri Rohit Kumar belonged to scheduled caste community as such he could not have been considered for regular employment on pot of sweeper (part time) mainly for the reason that a pot of sweeper (part time) in IV category had been sanctioned for Back Ward Community alone. Worker is trying to seek back door entry in the service of the bank through this tribunal by misusing the process of law.

6A. Apart from above pleadings from the side of the bank there are various pleadings raised in its reply which are very lengthy and I do not think if proper to repeate the same as it will not be helpful for deciding the case on merit, therefore, those pleadings are ignored.

7. Rejoinder statement has also been filed by the worker but nothing new has been pleaded therein except repeating the contents of the claim statement.

8. Worker vide paper no. 9/1 has filed 18 documents which are photocopies. Paper no.9/7-8 are the postal receipts in original. Opposite party vide paper no.11/1 had filed 93 payment vouchers pertaining to Sri Rohit Kumar for the period 31.03.03 to 7.11.03.

9. Whereas the worker has examined himself as w.w.1, opposite party has examined Sri V K Mehta as M.W.1 as witness in support of its claim.

10. I have heard the arguments of the parties at length and have also perused the entire record carefully.

11. Rohit Kumar w.w.1 in his examination in chief has stated that he worked during the period 01.04.98 to 31.03.04 at banks extension counter MG College Civil Lines, Kanpur, to do the safai work and he was being paid his wages weekly at the rate of Rs.50/- per day through voucher. Apart from the work of sweeping and cleaning he also performed the work of carrying the branch dak etc. He was the only safai karamchari in the bank. No other person was there to do the work of carrying dak etc. He admitted the fact that he was never issued any appointment letter by the bank. Paper no. 9/3-21 are in support that he performed the work of distribution of dak at the bank, paper no.9/2 was given by him in the bank which was forwarded to head office by the manager. He also stated that paper no.9/11-20 are the photocopies and original of which is in the possession of the bank. It is pertinent to mention here that the worker has not summoned the original of the documents from the bank photocopies of which have been filed by him. After receiving his representation he was neither paid regular wages nor was declared regular and permanent employee of the bank. He goes on to state

that after serving legal notice through his counsel on 30.10.03, he continued serving the bank and bank also used to pay him salary after preparing vouchers in the name of others and he was removed from the service of the bank on 31.03.2004. He was not paid notice or retrenchment compensation by the bank at the time of his removal from service.

12. In his cross examination witness has denied the suggestion that he was working as a part time sweeper. His work started from the opening of the bank and he worked till the branch is closed. It is correct to suggest that regarding performing the work of distribution of dak has not been mentioned in his claim statement. He never applied in writing for his appointment in the bank. He also admitted that the letter which was given to the bank is not on the file. It is also correct that his name was never sponsored from the employment exchange. He was not required to mark his attendance in the attendance register and he had never objected to the effect as to why wages are paid to him through vouchers prepared in the name of different persons. Witness has denied the suggestion that he did not work after 07.11.2003.

13. M.W.1 has filed his evidence on affidavit supporting the claim of the opposite party.

14. In his cross examination the witness has deposed that the worker Rohit Kumar was working at Extension Counter of the bank to sweep and clean the extension counter only for hours or two. He was never given any order in writing and only on verbal instruction he was working. Witness goes on to state that there is no such document on the file in this tribunal which may speak that worker was working for one hours or two. Witness further deposed that for supply of dak peon was there at the branch but some times worker was also used to perform the work of distribution of dak. Witness has further deposed that paper no. 9/2 is in his knowledge by means of which it was instructed to engage a safai karmchari at extension counter and he had never entered into any correspondence with the worker. Paper no.9/4 is legal notice sent on behalf of worker which was forwarded by him to main branch of the bank at Naveen Market, Kanpur. Paper no.9/5 is a representation of Mazdoor Sabha which was not replied. Likewise paper no.9/10 is a representation of the worker which was also not replied by the bank. It is wrong to suggest that he appointed Rohit Kumar and terminated him from the service.

15. MW 1 Sri V K Mehta has stated on affidavit that worker has not worked continuously in the bank and had not completed 240 working days in any calendar year. He has neither worked nor paid any charges on or after 07.11.2003, as such his claim alleging that he worked till 20.03.04 is without any basis and substance.

17. Management has also filed photocopy of payment voucher in respect of worker Rohit Kumar from 31.03.03 to 07.11.03. From perusal of vouchers filed by management it appears that worker was paid weekly through and paid separately for other petty work taken by worker and worker has signed the voucher on its reverse side. Last voucher is paper no.11/93 shows that worker was paid wages of Rs.250/- for the work done by him from 03.11.03 to 07.11.03 for five days.

18. Worker has also filed vouchers vide list paper no.9/1 which were also filed by the bank except paper no. 9/20 which are vouchers dtd 2.1.04 and 08.01.04. On perusal of these vouchers it appears that these voucher do not relate to Rohit Kumar as on the back of voucher Rohit Kumar has not signed for receiving payment but signature of Ram Babu and some other person are found. It is stated by worker W.W.1 in his cross examination that his attendance was not taken and he has not made any complaint regarding payment done to him in other names.

19. It cannot be believed that a person will receive payment in others name without making a complaint to the management. As such worker has failed to prove that he has worked after 07.11.03.

20. As the worker has alleged that his services were terminated w.e.f. 31.03.04, it was the duty of the worker to prove that he had continuously worked for 240 days in 12 calendar months preceding the date of his termination.

21. Worker has also failed to prove the fact that he had worked continuously for 240 days or more preceding 12 calendar months from the date of his termination, therefore, question of applicability of the provisions of section 25F of the Act is not applicable in his case.

22. From the above discussions, it is clear that worker Rohit Kumar has palpably failed to prove his working after 07.11.03 as date of termination is alleged to be 31.03.04, therefore, it can hardly be believed that worker had worked till 31.03.04.

23. Therefore, considering the over all aspect of the matter my award is that the worker is not entitled for any relief and his claim is liable to be rejected which is rejected accordingly. As such reference is decided against worker Rohit Kumar.

SHUBHENDRA KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2016

का.आ. 826.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उत्तर रेलवे के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (संदर्भ सं. 77/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-41012/77/2002-आईआर (बी-I)]

रणबीर सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 28th April, 2016

S.O. 826.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 77/2002) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Northern Railway and their workmen, received by the Central Government on 28.04.2016.

[No. L-41012/77/2002-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

ANNEXURE

**BEFORE SRI SHUBHENDRA KUMAR, HJS. PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOR COURT, KANPUR**

Industrial Dispute No. 77 of 2002**Between-**

Sri Ronald Charles,
Son of Sri Charles Mikaha,
187/03 Juhi Lal Colony,
Kanpur

And

The Divisional Railway Manager,
Northern Railway,
Allahabad.

AWARD

1. Central Government, Mol, New Delhi, vide notification no.L-41012/77/2002-IR(B-1) dated 26.11.2002, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal.
2. Kya Senior Divisional Electrical Engineer, Rolling Staff, Northern Railway, Electric Road, Fazalganj, Kanpur, द्वारा कर्मकार श्री रॉनल्ड चार्ल्स को दंडादेश दिनांक 07.06.2004 अवाम अपिलेटे अदेश दिनांक 5/6.10.04 के द्वारा सेवा से हटया जना न्यायचित है? यदि नही तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनृतोश का हाकदार है?
3. At the outset it is pertinent to mention here that after exchange of pleadings between the parties several dates were fixed for evidence by the contesting. Whereas the worker has filed 33 documents on 06.07.04 and again the case was fixed for evidence of the parties on 27.09.04. The workman on the date fixed in the case instead of adducing his oral evidence moved an application for transfer of the case from this tribunal. The case was then again fixed on 03.01.2005 for evidence by the management. When the management failed to adduce their evidence, the case was fixed for arguments in the case and ultimately the case was reserved for passing final award in the case on 27.09.2005.
4. The tribunal ultimately rendered its award on 27.02.96 against the workman for want of evidence. The workman being aggrieved by the award of the tribunal has challenged its legality and propriety before the Hon'ble High Court of Allahabad by way of filing CMWP No.1462 of 2007 and the said writ petition of the worker was allowed by the Hon'ble High Court, Allahabad vide order dated 13.05.2010, whereby the petitioner was directed to appear before the authority concerned on or Ist June 2010 along with certified copy of this order and thereafter the authority concerned shall fix some date for recording the evidence of the petitioner and the management as well.

5. The workman appeared in the tribunal on 01.06.2010 and moved an application with a prayer to reopen the hearing of the case and also filed certified copy of the order of the Hon'ble High Court Allahabad. After receipt of the copy of the order of the Hon'ble High Court, registered notices were issued to the parties fixing 08.07.2010 for evidence of the parties.
6. Now the case of the workman will be dealt with. The workman in his statement of claim has alleged that he was served with major penalty charge sheet dated 27.08.98 on the forged ground of unauthorized absence from duty from 27.03.98 on wards and a disciplinary inquiry was set up by the disciplinary authority wherein Sri R C Rao was appointed as enquiry officer to conduct the inquiry against the workman. It is also alleged by the workman that the charges were leveled against him on the basis of a fact finding report of preliminary inquiry submitted by one Sri Rajni Kant enquiry officer on the forged complaint of one Sri S M Srivastava, HS Fitter Gr.1 of M-6 Section of Electric Shed and the workman too was working in that section under the immediate supervision and subordination of Sri Tapas Kumar who was not having any concern with the complaint of Sri S M Srivastava. On receipt of a letter from Sri Rajni Kant claiming himself to be inquiry officer to conduct fact finding inquiry asked him to intimate as to which authority appointed him a inquiry officer as the appointment of inquiry officer was not intimated to the petitioner as a matter of routine by the competent authority, hence inquiry to this effect was not justified and despite repeated requests Rajani Kant did not disclose the name of the competent authority and conducted the fact finding inquiry ex-parte and submitted the report to the management. It is also pertinent to mention here that the fact finding report was available with the enquiry officer and the management but it was never supplied to the petitioner.
7. The enquiry officer under DAR inquiry has held that fact finding report of enquiry officer submitted by Sri Rajni Kant is false and frivolous. It is also stated that during the course of disciplinary inquiry rule of law has not been followed by the enquiry officer as he first taken the evidence of the workman instead of inviting the witnesses of the management. Even the management did not permit the worker to cross examine the two witnesses produced by them before the enquiry, therefore, the whole inquiry held against the worker is bad in law and the worker has claimed that the order of punishment dated 07.08.04 and the appellate order dated 5/6.10.04 be set aside and the relief of reinstatement with full back wages, continuity of service and all consequential benefits be allowed in favor of the workman.
8. It is pertinent to mention here that further pleadings of the workman are in the nature of arguments hence they will be examined at the appropriate stage if deemed necessary.
9. The opposite party has filed their reply refuting the entire claim of the workman, inter alia, on the grounds that the workman absented unauthorizedly w.e.f. 27.03.98 and he never applied for sanction of leave to regularized his absence. He was repeatedly advised to turn up on duty vide office letter dated 19.09.98 and dated 11.11.98 both the above letters were sent to the workman through registered post. Instead of coming to duty Sri Charles sent a letter on 18.11.98, mentioning irrelevant matters to his absence. On being failed to resume the duties by the workman, a general notice was published in Dainik Jagaran news paper on 02.12.98 advising him to report for duty within 15 days from the date of publication failing which action under D&AR could be taken against him. Despite all aforesaid action taken by the administration Sri Charles did not report for duty. A letter dated 03.12.98 was also given to Sri Charles by AEE/RS/CNB to report for duty on or before 16.12.98, but he did not bother and thereby the administration was left with no alternative but to invoke the provision of D&AR rules 1968 and he was issued SF.5 (Major Penalty Charge sheet) was issued vide letter dated 27.08.99 and not dated 27.08.98 as mentioned in the notice and the same was acknowledged by Sri R. Charles on 12.09.99. It is further alleged that SF.5 was issued on the ground of unauthorized absence from duty and not on the complaint of any staff. He was repeatedly advised to turn up on duty but he did not bother. He even did not appear before the enquiry officer for fact finding on complaint of Sri S M Srivastava and Sri R C Rai was appointed enquiry officer to conduct inquiry on the charge of unauthorized absence from duty. The punishment notice for removal from service has been issued under D&AR Rules 1968, due to unauthorized absence from duty by the workman. All the orders has been issued by the disciplinary authority under D&AR against the workman and the appellate authority in the case of the workman was DEE/RS/CNB and not Sr. DEE/RS/CNB. It is wrong to allege that Sr. DEE was prejudiced against the workman and the leave applied by the workman was sanctioned by the competent authority. It is also pleaded by the opposite party that the entire allegations leveled by the workman against the officer of the administration are baseless and hypothetical hence are denied. As a matter of fact the workman is doing Homeopathic practice and is earning an handsome amount from the practice so he was not interested to resume the duties. The concerned authorities of the department has followed the principle of natural justice while passing the orders, therefore, there is no illegality in the action of the opposite party and the claim of the workman is liable to be rejected being devoid of merit.

10. The workman vide paper No. 33/4-5 has filed 22 documents which are in the nature of photocopies. The opposite party vide list of document dated 11.10.12 has filed 28 documents and all these documents are in the nature of photocopies.
11. As observed earlier after submissions of pleadings worker has filed 33 documents but neither adduced any evidence therefore an award was passed by the tribunal on 27.02.06 which was challenged before the Hon'ble High Court vide order dated 13.05.10 set aside the impugned award and directed the tribunal to rehear and decide the case expeditiously.
12. After remand of this case my learned predecessor has framed a preliminary issue regarding fairness of domestic inquiry on 26.08.2010 and the issue was answered against the management vide order dated 04.07.2013 and thereafter vide order dated 26.10.10 the management was debarred from adducing evidence as none was present on behalf of the management. This order was again recalled on the application of the management vide order dated 09.02.2011, and again evidence of the management was closed on 18.05.2011, as none was present for the management. Evidence of worker was recorded on 25.11.11, as w.w.1 and the management was debarred from cross examining the workman as none was present on behalf of the management and the order dated 25.11.11 was again recalled on 28.02.12 fixing a date for cross examination of w.w.1 and evidence of the opposite party and again its evidence was closed by order dated 30.07.2012 and after hearing arguments on preliminary issue my predecessor on 04.07.13 holding that inquiry conducted by the management is illegal and the opportunity was given to the management to prove the charges against the workman, but the management has not adduced any evidence in support of the charges and the worker also did not adduce any evidence and my learned predecessor by order dated 18.11.13 closed the opportunity of adducing the evidence and date was fixed for argument. On next two dates management representative was not present and on third date adjournment application was given by the worker and thereafter several dates were given for arguments and the management was present only on two dates and thereafter management absented itself.
13. As the case is very old and remanded by the Hon'ble High Court, Allahabad, arguments were heard from the side of the workman and the case was reserved for award.
14. It is pertinent to mention here that this tribunal held that the inquiry conducted against the worker is illegal and afforded opportunity to the management to prove charges leveled against the worker before the tribunal, but the management has failed to prove the charges. Besides this it also appears that management is not taking any interest in this case for the reasons best known to the management and is dealing with the case very casually and leisurely.
15. From the perusal of the order sheet as discussed earlier it is apparent that opportunity of leading evidence by the management has been closed several times and the orders were recalled several times still the management failed to adduce any evidence. It appears that management had deliberately avoided to adduce any evidence in the case.
16. As regards charges leveled against the worker for his continuous absence, the representative for the worker contended that the worker has approached several times to his authorities for joining the duties but he was not allowed to join his duties. He also contended that this fact has also come in the inquiry proceedings.
17. The representative for the worker and the worker himself during the course of arguments before me has contended that the workman Sri Ronald Charles has now retired from the service of the railway administration and now he is entitled only for payment of arrears of back wages and pensionary benefits along with pension, instead of reinstatement from the date of his retirement.
18. After giving my anxious consideration to the arguments submitted by the representative for the worker, I find force in it, and as already discussed above, as the management has palpably failed to prove the charges against the workman despite availing of repeated opportunity, I am of the confirmed opinion that Sri Ronald Charles concerned workman is fairly entitled for arrears of his full back wages, revised from time to time, from the date of his illegal removal of his service till the date of his retirement, and the workman is further entitled for his pension and arrears of pension along with the amount of leave encashment, gratuity, and the amount of pension commutation as also all consequential benefits, on the premises as if the services of the workman had never been removed by the railway administration.
19. For the reasons discussed above the present reference is decided in favor of the workman Sri Ronald Charles holding that he is fairly entitled for arrears of his full back wages, revised from time to time, from the date of his illegal removal of his service till the date of his retirement, and the workman is further entitled for his pension and arrears of pension along with the amount of leave encashment, gratuity and the amount of pension commutation as also he is entitled for all consequential benefit like seniority in the service and related benefits on the premises as if the services of the workman had never been removed by the railway administration.
20. The management is directed to enforce the award within a month from the date of the publication.

SHUBHENDRA KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2016

का.आ. 827.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उत्तर मध्य रेलवे के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (संदर्भ सं. 36/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-41012/46/2007-आईआर (बी-1)]

रणबीर सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 28th April, 2016

S.O. 827.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 36/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of North Central Railway and their workmen, received by the Central Government on 28.04.2016.

[No. L-41012/46/2007-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI SHUBHENDRA KUMAR, HJS. PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 36 of 2007

Between-

Sri Raja Bhaiya son of Sukhdeo,
Mohalla Lakhanpur Gurguj,
Gurguj Mohal,
Hamirpur.

And

The Divisional Railway Manager,
North Central Railway,
Allahabad.

A W A R D

1. Central Government, Mol, New Delhi, vide notification no.L-41012/46/2007-IR (B-1) dated 20.08.2007, has referred the following dispute to this tribunal for adjudication.
2. Whether the action of the management i.e. Divisional Railway Manager, Jhansi, in refusing to employ Sri Raja Bhaiya w.e.f. 29.09.84 and employing his juniors by violating Section 25G and 25H of Industrial Disputes Act, is legal and justified? If not to what relief the workman concerned is entitled?
3. The case of the worker in short is that he was firstly appointed on 19.10.78 by the opposite party under Assistant Engineer Rail Path at Bharuasumerpur and secondly he was appointed on 19.07.84 and in this way he remained in continuous employment for 161 days. It is the further case of the worker that by working continuously for 120 days he attained the status of temporary railway servant under the provision of Railway Establishment Manual and his name was enlisted in the casual labor register. His name also figured at serial No.7 in casual leave register at page 29. The services of the worker were dispensed with effect from 28.09.84 and he continued visiting the office of the Divisional Manager but nothing happened in the matter despite giving assurances. The worker along with 45 other workers moved before Administrative Tribunal New Delhi, by filing O.A. No. 893 of 82 and the said case was disposed off on 11.10.83 and that the worker again filed OA No. 326 of 96 before CAT New Delhi against inaction of the railway administration in which orders were passed on 06.03.96. In the year the railway administration advertised the post in the news papers and invited applications from those whose names figured in the casual labor register and the worker also applied along with required documents. The worker was fulfilling all criteria but his juniors by name S/Sri Om Prakash, Narendra Kumar, Om Prakash son of Ram Lal, Tej Ali son of Sri Punhi etc. were called for screening and thereafter they were given appointment ignoring the claim of the worker by violating the provisions of section 25G and 25H of the Act. In this way the opposite party acted in violation principles of natural justice, illegally and with malafide

intention. Thereby the worker has claimed his reinstatement from the date the juniors to him were deployed in the service of the railway administration with back wages and seniority.

4. The worker has also filed photocopies of papers no.5/5-16 along with claim petition. It is pertinent to mention here that the worker has filed his claim petition on affidavit but mere filing affidavit by a party is not sufficient unless he is examined on his affidavit by the other side.
5. The claim of the claimant has been denied by the opposite party on a number of grounds alleging that the claimant cannot claim regularization in the service of the railway as he had never completed 120 days of continuous service. The information given by the worker were found absolutely false and vague on verification. The worker with a view to mislead this court has falsely asserted in para 5 of his claim petition that his name appeared at serial no.7 in casual labor register which is not a fact. As a matter of fact the contents of para 7 of the claim petition are analogous to assertion made by one Mahanand son of Ramadhin versus NCR Jhansi in industrial dispute case no. K.8(II)/2006-E-2 dated 07.07.2006 which is not possible in the eye of law. The claim petition is highly belated inasmuch as the same has been filed after expiry of 24 years from the date of cause of action arose in favor of the claimant and thus the claim petition is devoid of merit and is liable to be dismissed.
6. The management has also filed certain document along with reply against the claim petition.
7. After exchange of pleadings between the parties the worker did not turn up for his evidence and the management also made an endorsement on 21.04.2015 that they do not want to adduce any evidence in the case. Thereafter the case was fixed for arguments.
8. When the case was take up for hearing on 3.2.2016 none appeared for the parties and considering the fact that the worker is not interested in prosecuting the case, the case was reserved for award.
9. From the above facts and circumstances of the case, it is quite obvious that the present case is a case of no evidence and tribunal feels no hesitation in holding that the worker has failed to prove his case that he had worked continuously for 120 days of service under the opposite party and further that juniors to him were given employment by the opposite party ignoring his legitimate claim of becoming a regular and permanent employee of the railway. Even otherwise it is observed by the tribunal from the schedule of reference order that it is not a case covered under section 2-A of Industrial Disputes Act, 1947, within the meaning of "Retrenchment" as the schedule of reference is not happily worded.
10. Therefore, from the above discussions of facts and law at any rate the worker cannot be held entitled for any relief pursuant to the present reference order.

SHUBHENDRA KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2016

का.आ. 828.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उत्तर रेलवे के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (संदर्भ सं. 106/13) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-41012/272/99-आईआर (बी-1)]

रणबीर सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 28th April, 2016

S.O. 828.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 106/13) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Northern Railway and their workmen, received by the Central Government on 28.04.2016.

[No. L-41012/272/99-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

ANNEXURE**BEFORE SRI SHUBHENDRA KUMAR, HJS. PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOR COURT, KANPUR****Industrial Dispute No. 106 of 13****Between-**

Tribhuwan Nath Tiwari,
R/o 4-A Near Panki Railway Station, Kachchi Basti,
Panki,
Kanpur.

And

Divisional Railway Manager,
Northern Railway,
Allahabad.

AWARD

under sub section 2 of Section 2-A of Industrial Disputes Act, 1947.

1. Worker Sri Tribhuwan Nath Tiwari, has filed the present application under sub section 2 of Section 2-A of Industrial Disputes Act, 1947, for treating it to be a dispute as referred by appropriate government.
2. Management filed written statement.
3. During the pendency of the case worker Tribhuwan Nath Tiwari, has moved an application that the dispute has been decided by the Hon'ble High Court, Allahabad to the effect that it is not an industrial dispute and he wants to raise fresh dispute before the ALC© and has not pressed the instant case.
4. On perusal of records it appears that Mol, New Delhi, vide notification no.L-41012/272/99-IR(B-1) dated 17.02.2000 referred following dispute for adjudication.
5. Whether the action of the management of DRM Northern Railway Allahabad in not reappointing Sri Tribhuwan Nath Tiwari is legal and justified? If not to what relief is the disputant entitled?, which is paper no.1/17 and which was registered as Industrial Dispute No. 36/2000 and decided by my predecessor on 07.11.07 against the worker.
6. Aggrieved by this award worker has filed writ petition no. © 73892 of 11 before Hon'ble High Court, Allahabad, which was dismissed by Hon'ble Court by order dated 18.01.12 by holding that the matter of reappointment cannot be said to be industrial dispute and also observed that it will be open to the petitioner to make afresh industrial dispute and the present award rejecting the claim in respect of reappointment shall not stand in the way of the petitioner.
7. It appears that without raising a fresh industrial dispute worker has filed case under sub section 2(2) of Section 2-A of the Act, requesting to this tribunal for grant of relief which he wants to not press to have an opportunity to make fresh industrial dispute under the provisions of the Act.
8. Accordingly the application and claim of worker is decided against worker.
9. Award is accordingly given against the worker.

SHUBHENDRA KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2016

का.आ. 829.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एन सी रेलवे के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (संदर्भ सं. 47/07) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-41012/86/07-आईआर (बी-1)]

रणबीर सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 28th April, 2016

S.O. 829.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 47/07) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of N.C. Railway and their workmen, received by the Central Government on 28.04.2016.

[No. L-41012/86/07-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

ANNEXURE

**BEFORE SRI SHUBHENDRA KUMAR, HJS. PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOR COURT, KANPUR**

Industrial Dispute No. 47 of 07

Between-

Shri Mahananda,
Son of Sri Ramadhin,
Mohalla Chandlok,
Sumerpur,
Hamirpur.

And

The Divisional Railway Manager,
Jhansi.

AWARD

1. Central Govt. Mol, New Delhi, vide notification no. L-41012/86/07-IR(B-1) dated 21.09.07, has referred the following dispute for adjudication.
2. Whether the action of the management of N.C. Railway Jhansi in refusing to employ Sri Mahananda son of Sri Ramadhin w.e.f. 03.01.86 and employing his juniors violating section 25H of the I.D. Act is legal and justified? If not to what relief the workman concerned is entitled?
3. The case of the workman in short is that he was firstly engaged at Bharuasumerpur, District Hamirpur under Assistant Engineer on 07.08.82 and worked continuously till 25.12.82. Again he was given appointment on 3.12.85 under PWI Chitrakoot Dham where he continuously worked till 03.01.86 in this way his total number of days he worked is 170 and his name is entered in casual labor register at page no.124. His services were removed from 03.01.86 and juniors to him continued in the service and he repeatedly went to the office of DRM in connection with his job but nothing happened. It is also pleaded by him that his name is also entered in casual leave register. When no action was taken by the railway administration he along with 45 other persons filed OA No. 893 of 92 before Central Administrative Tribunal, New Delhi, in which orders were passed 11.10.93 by the tribunal. When the department did not come into action under the orders of the Tribunal worker again filed OA No.324 of 96 in which on 06.03.96 orders were passed. In compliance of the said order the railway administration in the year 2001 gave appointment to those workers who had worked continuously for a period of 120 days and the applicant also filled the form along with his entire records. He was eligible in all respect but juniors to him like Om Prakash, Narendra Kumar, Taj Ali etc., were called for screening and thereafter they were appointed on the work. The opposite party did not offer any opportunity of reemployment and in this way section 25H of the Act has been breached badly. The action of the administration is malafide and amounts to unfair labor practice. Accordingly he is entitled to be appointed with continuity of service, with full back wages and all consequential benefits.
4. The opposite party has filed reply in which the claim of the worker has been denied vehemently. Opposite party has also denied that the worker has worked for 170 days as a casual labor and casual labors are absorbed under group D as per rules subject to availability of posts and suitability and eligibility of casual labor. Railway administration has issued a notification vide which applications were invited on the prescribed proforma from those workers whose name exists on live register through their depot in charge. Worker has also submitted his application mentioning therein that he had worked for 180 days as casual labor and has also declared his date of birth as 08.07.61 on the application form. On receipt of the application from the worker the same was physically verified by railway administration and it was found that the worker had worked from 03.12.85 to 03.01.86 i.e. 32 days as casual labor and never presented himself after wards to section engineer CKTD. He has

also produced an affidavit dated 11.05.05 vide which the worker had declared his date of birth as 08.07.66 and also declared his working place CKTD and BSR and on physical verification of working days the working days of the petition are found 32 days only instead of 180 days as declared by the worker. In this regard the worker has further filed an application dated 16.12.04 and has claimed his number of working days as 142 days. On verification of service particulars of the worker it is found that the worker had worked only for 32 days instead of 120 days as required for regularization as per mandatory provisions of the Indian Railway Establishment annual. For giving permanent employment in group D category it is mandatory requirement as per service rules that person should have completed 120 days of continuous service and as the worker has been found to work only for 32 days as per record available with the opposite party, the claim of the worker was rejected. Only those workers have been given appointment who have been found eligible and suitable by the screening committee as well as their service particulars were found true and correct subject to medical fitness to the post and also police verification. The worker had not completed the required number of 120 days and also the worker had given contradictory declaration regarding his date of birth i.e. 08.07.61 and 08.07.65 hence the selection committee has not considered the worker for regularization in group "D" post. It is also pleaded that for regularization as casual labor an opportunity is given to all stream of casual labor of the division without any discrimination and such who were found eligible were considered for regularization, therefore, under the facts and circumstances of the case, question of discrimination or violation of provision of section 25H of the Act, as claimed by the worker does not arise at all. Opportunity has been offered to all casual labor of the Division therefore, violation of the provision of section 25H does not arise in the instant case. Lastly it is stated by the opposite party that he claim of the petitioner is highly belated hence is liable to be rejected.

5. Worker has not filed any rejoinder in the case.
6. Worker has examined himself as w.w.1, whereas the opposite party has filed evidence on affidavit of Sri Satish Kumar, APO Jhansi as M.W.1.
7. On 06.03.13 when the case was taken up for hearing worker was present but none was for the opposite party to cross examine the worker. Worker is present to cross M.W.1 but witness is not present for cross examination hence cross is closed and its inference will be drawn at the time of arguments. Evidence is closed and the case was fixed for arguments on 02.05.13.
8. I have heard the arguments of the parties at length and have also perused the entire record of the case carefully.
9. It is the case of the worker that he had worked for 170 days and his name was entered in casual labor register. He was removed on 03.01.84 and his juniors continued in service. He along with all filed O.A. No. 893 of 92 before Central Administrative Tribunal and again filed O.A. No. 324 of 96, in which on 06.03.96 orders were passed. In compliance of the orders railway administration in the year 2001 gave appointment to those workers who had worked continuously for 120 days. He also filled the form but he was not given appointment.
10. Management denied the working of 170 days as casual labor. It is further submitted by the management that worker has submitted his application mentioning that he had worked for 180 days and declared his date of birth as 08.07.61. On verification it was found that he had worked for 32 days only and in his affidavit dated 11.05.05, he had declared his date of birth as 08.07.66.
11. Worker examined himself as w.w.1. He has denied the fact that he had worked only for 32 days and said that he had worked for 120 days but has admitted that he has filed an affidavit mentioning his date of birth as 08.07.65 and in another as 08.07.61. As regard working days of worker he has filed copy of casual labor card paper no.4/29 which also does not support the case of worker that he had worked for more than 120 days as in this casual labor card one entry is from 3.11.85 to 3.1.86 is mentioned and another entry from 7.8.82 to 25.12.82 is mentioned below the above entry. It is surprising that how the second entry showing working 7.8.82 to 25.12.85 is entered below the entry of working from 3.11.85 to 3.1.86. The entries are always mentioned in chronological order but from the above entries it creates doubt how the said entry 1982 is mentioned below the entry of 85-86.
12. Worker has also filed another certificate showing that he had worked for 1845 days. The document is not authentic and is challenged by the representative for the management that even worker had not stated that he had worked for 1845 days.
13. Therefore, this photocopy relied upon and appears to be bogus and fake document.
14. From the above discussions, it appears clear that in compliance of the order of Central Administrative Tribunal worker had submitted application with wrong facts mentioning is incorrect date of birth and working days which were found less than 120 days on verification, therefore, if he was not given appointment in compliance of order of CAT, there appears no illegality and secondly the worker has failed to prove that his juniors were given appointment nor has filed any document regarding this nor has summoned from the management.

15. Therefore, I do not find any illegality in refusing appointment to worker Mahananda as referred to in schedule of Reference order.
16. Reference is answered accordingly.

SHUBHENDRA KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2016

का.आ. 830.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (संदर्भ सं. 40/10) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/85/2009-आईआर (बी-1)]

रणबीर सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 28th April, 2016

S.O. 830.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 40/10) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of State Bank of India and their workmen, received by the Central Government on 28.04.2016.

[No. L-12012/85/2009-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI SHUBHENDRA KUMAR, HJS. PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 40 of 10

The Dy. General Secretary,
State Bank Staff Association
S/o State Bank of India, ZO,
The Mall, Kanpur

And

The Assistant General Manager (Operations)
State Bank of India, Zonal Office,
The Mall, Kanpur

AWARD

1. Central Government, Mol, New Delhi, vide notification no. L-12012/85/2009/IR(B-1) dated 30.04.2010, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal.
2. Whether the demand of State Bank Staff Association, Kanpur for fixation of basic pay of Sri Rajendra Singh son of Sri Subedar Singh, Armed Guard at Rs.920/- with effect from 19.12.90 by the management of State Bank of India, Kanpur, is legal and justified? If yes, what relief the workman is entitled to?
3. The case of the worker in short is that he was appointed as armed guard in State Bank of India, IEL Panki Branch, Kanpur on 14.12.90. Worker was an ex-serviceman retired from the military service on 14.06.88. It is stated that as per banks instructions, pay fixation on reemployment of ex-servicemen is to be done on the basis of protection of basic pay, classification pay plus dearness allowance last drawn by them in the armed forces and the pay in the bank is fixed at a stage where basic pay plus dearness allowance equates or is positive to that being drawn earlier by the ex-servicemen. In this connection the circular no.PER-40-87 of 87 dated 11.09.87 issued by bank's personnel department is very much clear. Hand Book of Staff Matters-Vol.1 of 1991 at page 561 denotes that protection of pay drawn in armed force is at a stage where new basic pay+ dearness allowance correspond to the basic pay plus dearness allowance drawn by them in the armed forces, whichever is higher. The discrimination in the pay fixation of the applicant came to the knowledge of the worker only when one Sri Vishnu Pal Singh Panther, bank guard posted at State Bank of India IEL Branch Kanpur, then it transpired that due to wrong fixation of salary of the worker he was getting less salary than him. The matter was represented

by the worker vide his letter dated 20.04.2002 to the then pay fixation authority as to wrong fixation of his basic pay salary structure including special allowance i.e. Gun Allowance by the bank has created an anomalous position. The pay of Sri Jang Bahadur Singh, Guard was fixed at a basic pay of Rs.1050, by giving benefit of 8 increments, Sri Desh Raj Singh, guard fixed at a basic pay of Rs.980/- by giving benefit of six increments and pay of Vishnupal Singh Guard was fixed at Rs.1015/- with benefit of 7 increments. Irrespective of the fact that all the above named guards were the batch mates of the worker, the worker was given benefit of only one increment in place of 4 increments, he was fixed at a basic pay at Rs.835/- instead his pay should have been fixed basic pay Rs.920/- plus DA Rs.517.77 aggregating Rs. 1437.77 without inclusion of gun allowance at the time of joining the service by the worker. Worker's representation was denied by the bank which has given rise to the present industrial dispute on the ground that the worker is at a loss of Rs.1000/- per month from the date of his joining the bank. On the basis of above grounds, it has been prayed by the worker to direct the bank to fix him at Basic Pay at Rs. 920/- with effect from 14.12.90 with all consequential benefits accrued on the post together with payment of arrears of wages.

4. The worker along with his claim statement has also filed 21 documents which are photocopies.
5. At the outset it may be pointed out that case laws of higher courts should not be cited by the bank in their reply and this practice should be deprecated as from the reply filed by the bank it is amply clear that various rulings of superior courts have been cited in the opening paragraph of their reply.
6. Claim of the worker have been refuted by the bank on the ground of delay stating that the claim is liable to be declined. Bank has not disputed the date of appointment of the worker, however, it is stated that the worker was promoted as head armed guard on 01.08.04. It is alleged by the bank that the pay of the worker has been fixed correctly at the time of his joining the bank. The bank has fixed the pay of the worker at higher stage as compared to the Last Pay Certificated issued to him by his previous employer. The contents of the claim have not been verified either by the union or by the worker therefore, claim is liable to be rejected. Lastly it has been prayed that the claim of the worker is liable to be rejected and should be rejected.
7. Rejoinder statement has also been filed by the worker but nothing new has been mentioned therein.
8. Vide application dt. 13.03.2013, worker has again filed documents paper no.22/3-5.
9. On the contrary bank vide application dt.30.01.13 has filed 4 documents which are in the nature of photocopies.
10. Bank has also filed the service record of the worker in original.
11. Worker examined himself as w.w.1 in support of his claim whereas the opposite party bank has examined Sushil Babu Shukla as M.W.1.
12. I have heard the arguments of both sides at length and have also gone through the entire record carefully.
13. M.W.1 Sri Rajendra Singh has stated on affidavit that he retired from armed forces on 14.06.88 and joined as guard in State Bank of India on 14.12.90, and retired from banks service on 30.11.12. His pay was not fixed as per rules of the bank. It is stated that basic pay of Vishnu Singh Parihar was fixed higher than the worker and gun allowance was added in basic pay of worker in re-fixation of his pay to Rs.835/- otherwise if gun allowance would not had been added in his pay his basic pay would have been fixed at Rs.920/-. His batch mate Sri Jang Bahadur Singh's basic pay was fixed at Rs.1050/- and basic pay of Sri Vishnu Pal Singh and Desh Raj Singh was fixed higher than the worker.
14. In his cross examination he has admitted that gun allowance will not be part of basic pay. He further admitted that paper no.4/9 circular of the bank is not applicable to him. He further aid that he has not made any over writing in paper no.3/16 and admitted the authenticity of paper no.3/20. He further admitted that basic pay in paper no.3/19, 17/2 and 4/12 is fixed to Rs.815/-.
15. On behalf of bank Sri Sushil Babu Agrawal, Dy. Manager has been examined as M.W.1 who stated that the worker was appointed as guard in 1990 and salary of armed guard is fixed higher than the alary received by him in military service. In military discharge certificate paper no.3/10 his lat pay drawn is mentioned as Rs.1430/- and his pay was fixed by the bank at Rs.1493.25. Salary of the worker was re-fixed on the application of the worker paper no.4/10 which is paper no.4/11-12 wherein basic pay of worker was fixed as Rs.815/- in accordance with the circular paper no. 4/9. Gun allowance is part of basic pay. It is further deposed that basic pay of other armguards Vishnu Singh and Udairaj is re-fixed at basic pay Rs.815/- which is paper no.17/2-3.
16. In cross examination he has admitted that 1st pay of worker fixed by the bank should be higher than the last pay drawn in military service.
17. Learned representative for the management contended that work has joined the bank as armed guard in 1990 and his provisional salary was fixed and after receiving his last pay certificate from military his salary was

re-fixed in accordance with the circular of 1994. It is further contended that the salary of worker was re-fixed on his request letter which is paper no.4/10 dated 30.01.92 and his re-fixation of salary is paper no.4/11-12, wherein it is found that at the time of discharge from military service he was drawing basic pay Rs.1150/- plus DA Rs.215/- aggregating Rs.1365/-. On his appointment his basic pay fixed to be Rs.835/- plus gun allowance Rs.125 plus DA Rs.540/- totaling Rs.1500 and after re-fixation of salary as per circular of bank dated 24.1.94 his basic pay on 14.12.90 fixed to be Rs.815/- plus gun allowance Rs.125/- plus DA 529 i.e. Rs.1469/-. It reveals that his salary was fixed higher than the amount what he was drawing in military service. The re-fixation of his salary has never been challenged by the worker before any competent authority of the bank. The contention of the representative for the bank is that as worker has never challenged order dated 04.04.02 of re-fixation of his salary, it means that he was satisfied with his re-fixation and accepted this. The contention of management representative has force.

18. Management has filed copy of circular Staff No.PER;43 of 1993 dated 24.01.92 regarding pay fixation of ex-servicemen reemployed wherein it is held that it would be necessary to ensure that in addition to the pay plus DA the special allowance for armed guard / watchman in the bank is also taken into account while protecting the last pay and DA drawn at the time of retirement / discharge from armed services. In para 1 it is mentioned that pay fixation of armed guard be made prospectively in terms of Indian Bank's Association letter date 13.3.92 in respect of armed guards who joined the service on or after 13.03.92 and in para 2 it is given that the pay fixation of armed guards who joined bank prior to 13.3.92 may also be revised by reopening the cases which applies in the case of worker who has admittedly joined the bank as armed guard in bank on 14.12.90 and his pay was re-fixed on his application dated 30.01.2002 paper no.4/10 by order dated 4.4.02 paper no. 4/11.
19. Worker has filed LPC issued by record officer military service in Jan.02 which reveals that earlier LPC issued on 31.11.91 but on the request of the bank this LPC was issued which shows that worker was drawing 1150/- a basic pay and DA Rs.215/- which was taken into consideration at the time of re-fixation of pay as show in paper no.4/11 and at the time of his appointment his pay was fixed as Rs.835/- basic pay, special allowance Rs.125/- and DA Rs.540/- total Rs.1500/- and after receipt of LPC and taking into consideration circular of the bank issued in 1994 his pay was re-fixed as Rs.815/- basic pay, special allowance Rs.125 and DA 525 totaling Rs. 1469 and this order of pay fixation was not challenged by the worker before any competent authority of the bank. Besides this taking for example in other cases also paper no. 20/7 reveals that in case of Panna Lal Sharma his salary was re-fixed in terms of circular of bank issued in the year 1994 as basic pay Rs.815/- special allowance Rs.125/- and DA Rs.406/- total Rs.1406 with effect from 25.08.90 and basic pay of Udaibir Singh has been re-fixed in terms of above mentioned circular.
20. Therefore, in my concluding part it appears clear that pay of ex-servicemen who joined as arm guard/watchman is re-fixed in terms of the circular of the bank of 1994 and there appears no irregularity or illegality in re-fixation of pay of worker as it is done in several cases also.
21. As such the demand of SBI Staff Association Kanpur for fixation of basic pay of Sri Rajendra Singh at Rs.920/- w.e.f. 14.12.90 by management of SBI Kanpur is neither legal nor justified and the worker is not entitled for any relief.
22. Reference is decided accordingly against the Union and in favor of bank.

SHUBHENDRA KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2016

का.आ. 831.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (संदर्भ सं. 04/2009) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/96/2008-आईआर (बी-1)]

रणबीर सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 28th April, 2016

S.O. 831.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 04/2009) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of State Bank of India and their workmen, received by the Central Government on 28.04.2016.

[No. L-12012/96/2008-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

ANNEXURE**BEFORE SRI SHUBHENDRA KUMAR, HJS. PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOR COURT, KANPUR****Industrial Dispute No. 04 of 2009****Between –**

Gulab Singh,
Village Dadankhera,
The. Bindki,
Fatehpur.

And

The Regional Manager,
Region III,
State Bank of India,
Zonal Office,
The Mall, Kanpur. (U.P.)

AWARD

1. Central Government, Mol, New Delhi, vide notification no. L-12012/96/2008-IR(B-1) dated 12.01.09 has referred the following dispute for adjudication to this tribunal-
2. Whether the action of the management i.e. the Regional Manager, Region III, State Bank of India, Zonal Office, Kanpur in dismissing Sri Gulab Singh, Ex-Assistant, Chitrakoot Branch, Chitrakoot from bank services vide order dated 10.05.06 confirming the same by the appellate authority / Dy. General Manager, State Bank of India, Zonal Office, Kanpur, vide order dated 21.12.06 is fair, legal and justified? If not to what relief is the workman concerned entitled?
3. It is common ground between the parties that the concerned worker was served with a charge sheet dated 30.09.04, which was replied by the worker on 16.01.05. The reply submitted by the worker was not found satisfactory by the disciplinary authority therefore, the disciplinary authority decided to hold a regular departmental inquiry against the worker and accordingly appointed the enquiry officer and presenting Officer to probe the charges before 24.03.05, and to submit his findings after concluding the inquiry. After receipt of the report of inquiry officer, the disciplinary authority issued proposed punishment order dated 16.02.2006, and granted 7 days time to the worker to reply the same and worker was also given the copy of the inquiry findings. The claimant submitted his submissions against the tentative punishment order before the disciplinary authority on 30.03.06, which was not accepted by the disciplinary authority who by his order dated 10.05.06 confirmed the tentative order of dismissal from service of the worker. Appeal preferred by the worker on 22.07.06 was also rejected by the appellate authority by order dated 21.12.06.
4. Being aggrieved by the above action the worker has assailed the whole action of the opposite party bank by raising the present industrial dispute alleging therein that he was charge sheeted on the basis of hand writing expert on the ground that the worker was involved in the documentation of the bank's financing by the branch manager Sri H S Oberai in the year 2002. It is also claimed by the worker that during the inquiry in support of the charges entire documents running from PEX 1 to PEX 17 were produced by the presenting officer but the alarming thing was that none of the documents were having any authentication by the then working Branch Manager of the SBI Narecha Branch (Fatehpur). The defense representative submitted his written brief calling the enquiry officer for natural justice. The enquiry officer has proved the charges against the worker only on the basis of report of hand writing expert without giving any weight age to the various points raised by the defense representative during the course of inquiry. The disciplinary authority was bent upon to dismiss the worker by hook or crook. The claimant moved an application before the disciplinary authority on 30.03.2006 to review his tentative decision on the grounds mentioned therein but the same was not considered. No independent witnesses were examined by the prosecution side to prove the charges leveled against the worker. The report of the inquiry officer is perverse as no prudent mind can arrive at the same conclusion as has been arrived by the enquiry officer on the basis of analysis of evidence available on the record of the domestic inquiry held against the worker.
5. Therefore, on the basis of above pleadings it has been prayed by the worker that he be reinstated in the service of the bank with full back wages and all consequential benefits.

6. On the contrary the bank has refuted the claim of the worker on the ground that the worker has himself admitted his guilt vide his letter dated 30.04.04, the enquiry officer gave full and adequate opportunity to the worker to defend his case, the documents demanded by the worker were supplied to him during the course of inquiry, he was given opportunity to reply the show cause notice even he has also been allowed more time to reply the same by the disciplinary authority on his request, copy of inquiry report was also provided to him, but the reply submitted by him against the tentative punishment order and on considering the reply submitted by the worker final order dismissing the service of the worker had been passed by the disciplinary authority and appeal preferred against the same was also not appreciated by the appellate authority hence was rejected. It is also alleged by the bank that rules of natural justice have been fully complied with by the enquiry officer and the worker was given each and every opportunity of his defense at every stage therefore, the inquiry held against him is just fair and proper and the punishment has rightly been awarded to the worker considering the gravity of the misconduct. Therefore, the punishment awarded to the worker should not be interfered at the hands of the tribunal as it in no way can be said to be harsh or disproportionate on proved misconduct against the worker.
7. Lastly it is prayed that the claim of the worker is liable to be rejected being devoid of merit and the claimant is not entitled for any relief as claimed by him pursuant to the present reference order.
8. Worker has also filed rejoinder but nothing new has been alleged therein except reiterating the facts alleged by him in the claim statement.
9. It is pertinent to mention here that none of the parties have adduced their respective evidence in support of their case.
10. Management has filed papers of inquiry proceedings and orders passed from time to time by the disciplinary authority and the appellate authority in original, whereas worker has also filed photocopy of the same which are on record.
11. I have heard the arguments of both the sides at length and have perused the entire record of inquiry held against the worker by the bank carefully.
12. My learned predecessor has framed a preliminary issue regarding fairness of domestic inquiry. Both the parties did not adduce any evidence and after hearing on preliminary issue worker has moved an application that he does not want to press this issue and admitted the domestic inquiry conducted by the bank that it is fair and proper. As the worker did not press the inquiry and admitted it to be fair and proper, therefore, domestic inquiry conducted by the bank against the worker is held to be just fair and proper.
13. Parties were given opportunity to lead evidence, if they so desire.
14. Both the parties endorsed on the order sheet that they do not want to lead any evidence in support of their respective cases, therefore, opportunity in this respect was closed.
15. I have heard the representatives of the parties at length and have gone through the entire papers relating to the domestic inquiry held by the bank against the worker and have also closely analyzed the report of the inquiry officer to ascertain as to whether or not report of inquiry officer is just fair and proper and do not suffer from any infirmity apparent on the face of record.
16. From the perusal of charge sheet it appears that Gulab Singh concerned worker was charged by the bank on the ground that he had made undue pressure on the then branch manager Sri H S Oberai and in connivance with him pressurize him to release irregular agriculture loan to some of his near relative and residents of his native village viz., Ram Singh, Raghu Raj Singh, Mahendra Singh, Shiv Prasad, Prahlad Singh, Smt. Asha Devi and Smt. Tulsa Devi. It is also distract in the charge sheet that Sri Ram Singh was not the resident of address shown in the loan form and photograph of some other person affixed on the form, Shri Raghuraj Singh who died 20-25 year ago and photo of the some other person affixed on the form, Shri Mahendra Singh has submitted forged document against guarantee and address of Shiv Prasad and Prahalad Singh were also found forged.
17. Besides this Smt. Asha Devi and Smt. Tulsa Devi were his mother and mausi who were advanced Rs. 2.0 lacs for Tractor Loan, but Tractor was registered in the name of Smt. Asha Devi.
18. After serving of Charge sheet domestic enquiry was initiated on 23.03.2005. Worker has denied the charges and informed that he wants to engage Shri K.K. Agrawal as his Defence Representative and he was also shown photocopies of the documents. Thereafter 07.04.2005 was fixed as the date of hearing of the enquiry.
19. On 07.04.2005 his D.R. has objected and asked to put up the original documents through the executor. Presenting Officer informed that the then Branch Manager has died and documents were provided through present Branch Manager. It has also come in enquiry that the sanctioning authority of the loan, present Branch

Manager has died and loan was sanctioned in the persons who had already died or whose addresses were incorrect. Worker has denied that he had filled documents relating to sanctioning of loan.

20. On 05.05.2005 worker has admitted that he has submitted his explanation on 30.04.2004, which is paper no. 35/2. In this explanation worker has submitted that Tractor Loan was granted to Smt. Asha Devi and Smt. Tulsa Devi by the Branch Manager on his full satisfaction. He has also admitted that he had filled up loan application form of Shiv Prasad, Prahlad Singh, Raghuraj Singh and Ram Singh. He has also admitted that he has filled up various Credit Cards as Card Holders belong to his native village and they came to request him to fill the form.
21. It has also come in domestic enquiry that help of handwriting expert, Shri R. Krishna was taken by Enquiry Officer, but he was not produced by the P.O. before the enquiry for his cross examination. Here it can be very well said that unless handwriting expert is produced by P.O. and unless D.R. is given chance to cross examine handwriting expert, the Report of handwriting expert cannot be relied upon.
22. In domestic enquiry P.O. has asked worker/D.R. that worker has pressurized illegally the then Branch Manager to release loan on which D.R. asked about any evidence regarding pressurizing the Branch Manager by worker. On this P.O. has stated that as Branch Manager has died nothing can be said regarding this.
23. It is also very clear that during domestic enquiry no evidence was given by any witness that worker has made illegal pressure on the then Branch Manager to release the loan.
24. From perusal of entire domestic enquiry it is evident that no witness was examined by the P.O. before the enquiry in support of charges leveled against the worker. Even handwriting expert has also not been examined and the E.O. has submitted his report against the worker that all the charges against him are found proved.
25. The only part of indulgence of worker in release of loan can be said on the explanation submitted by him on 30.04.2004 wherein worker has admitted to have filled up loan application forms of Shri Shiv Prasad, Raghuraj Singh and Ram Singh and address of Ram Singh, Shiv Prasad and Prahlad Singh were found incorrect and Raghuraj Singh is said to have died 20-25 years ago as stated in the charge sheet.
26. It can be treated as negligence and carelessness of the worker in discharge of his official duties to fill up form of the deceased person and other forms showing incorrect address and properties.
27. As worker Gulab Singh was only Assistant working in the Branch, he can not have the authority of releasing the loan. It is the duty of the Branch Manager to release the loan after verifying the name, address and property mentioned in loan form by visiting the address of loanee or get it verified through the Field Officer of the Bank.
28. Simply filling up some form will not be sufficient ground to release the loan. As discussed above, no evidence has been found in domestic enquiry that worker has made undue pressure on the then Branch Manager to release the loan or the worker in connivance with the Branch Manager release the loan. The total responsibility of releasing the loan is on Branch Manager who himself has endorsed on the loan application form as "Inspected & Sanctioned the Loan".
29. Therefore it is clear that the then Branch Manager has inspected the addresses of the loanee and has sanctioned the loan on his full satisfaction and there is no indulgence of worker found in sanctioning of loan. It is also surprising that no enquiry was initiated against the then Branch Manager during his lifetime and the enquiry against the worker was initiated after his death.
30. From the above discussion it is clear that the worker has been held guilty of the charges without collecting evidence in support of the charges by the E.O., except that worker has filled up the loan forms of deceased person and other persons showing there wrong address and property especially when the worker was resident of the same village. But it was not checked by the then Branch Manager during his inspection and verification and sanction the loan on his full satisfaction.
31. The worker can be said to be negligent and careless in filling up the form but he has not played any role in sanctioning of loan.
32. Learned representative of the management has placed reliance on 2009 Lab. I.C. 3003 Divisional Manager, Rajasthan S.R.T.C. Vs. Kamruddin wherein Hon'ble Apex Court has held, if domestic enquiry is found to have been conducted in a fair manner the interference of Labor Court with the punishment of termination was improper. It has been further held that the power of Labor Court or Industrial Tribunal u/s 11-A of the Act can not be denied but the said power can be exercised judiciously.
33. Worker has relied upon a decision of Hon'ble High Court of Allahabad, 2004(4) AWC 3331 Canara Bank versus PO CGIT, Lucknow, in which Hon'ble High Court has held that in case domestic inquiry was found proper, the tribunal can record its finding for satisfying itself whether the evidence relied upon by the employer establishes misconduct alleged against him.

34. In view of above cited case law and above discussions it is clear that the management failed to prove charges against the worker for connivance and pressurizing the then branch manager in sanctioning loan. As it is also proved that the branch manager after inspection sanctioned loan by his own orders which would mean that branch manager was satisfied with the details given by loanees in application forms and after his satisfaction he also found it correct and sanctioned loan. There appears no role of the worker in release of loan by the branch manager nor there is any evidence in the domestic inquiry to prove that the worker has pressurized the branch manager and loan was sanctioned in his connivance. In this way the then branch manager is fully responsible for sanctioning loan and the inquiry against the worker had been initiated after the death of the then branch manager.
35. As the worker has admitted in his reply dated 30.04.04, submitted by him in inquiry proceedings, it can be held that he was negligent in filling up the forms of loanees showing wrong details. Although it could be checked by the then branch manager on inspection and verification but the branch manager appears to have deliberately found the contents of application correct and sanctioned the loan.
36. From the above discussions, as it has been found that worker has no role in sanction of loan and the then branch manager was wholly responsible for sanctioning the loan on his satisfaction after making endorsement of inspection, still no action was taken by the bank against the then branch manager during his life time and the poor worker has been punished with extreme penalty of dismissal without there being any role of the worker in sanctioning the loan, therefore, I find it to be a fit case where the tribunal can exercise its power under section 11-A of Industrial Disputes Act, 1947.
37. Therefore, by exercising the above powers, the punishment of dismissal awarded to the worker by the management is modified by stoppage of three increments with cumulative effect for his negligence in discharge of his duties as discussed above.
38. As such the dismissal of worker from the service of the bank is set aside and worker is reinstated in service in the above terms with full back wages, seniority and all consequential benefits attached with the post.

SHUBHENDRA KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2016

का.आ. 832.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन के संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (संदर्भ सं. 65/13) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/101/2012-आईआर (बी-1)]

रणबीर सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 28th April, 2016

S.O. 832.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 65/2013) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of State Bank of India and their workmen, received by the Central Government on 28.04.2016.

[No. L-12012/101/2012-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

ANNEXURE

**BEFORE SRI SHUBHENDRA KUMAR, HJS. PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOR COURT, KANPUR**

Industrial Dispute No. 65 of 13

Between –

Sri Raj Gopal Rawat,
So of Sri Ganesh Prasad Rawat,
C/o O P Mathur,
117/K-36, Sarvodaya Nagar,
Kanpur.

And

The Zonal Manager,
State Bank of India,
Mall Road,
Kanpur.

AWARD

1. Central Government, Mol, New Delhi vide Notification No.L-12012/101/2012-IR(B-1) dated 06.05.13, has referred the following dispute to this tribunal for adjudication.
2. Whether the action of the management of State Bank of India in terminating the services of Sri Raj Gopal Rawat son of Sri Ganesh Prasad, workman with effect from 17.02.85 and not considering his name for reemployment while reemploying others including the recruitment of fresh hands? If not to what relief the workman concerned is entitled to?
3. In the instant case after receipt of reference in the tribunal both the representatives of the contesting parties have filed their respective authorities, but the claimant after availing of sufficient opportunity since 19.09.2013 did not file his claim petition in the case. On the request of the representative for the worker the case was adjourned on three occasions.
4. Therefore, from the conduct of the worker it is very much clear that he is not interested in prosecuting his case before the tribunal. The tribunal feels no hesitation in deciding the reference against the worker for want of pleadings and proof.
5. Accordingly it is held that the worker is not entitled for any relief pursuant to the present reference.
6. Reference is answered against the worker.

SHUBHENDRA KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2016

का.आ. 833.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन के संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (संदर्भ सं. 101/2011) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/81/2011-आईआर (बी-1)]

रणबीर सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 28th April, 2016

S.O. 833.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 101/2011) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of State Bank of India and their workmen, received by the Central Government on 28.04.2016.

[No. L-12012/81/2011-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

ANNEXURE

**BEFORE SRI SHUBHENDRA KUMAR, HJS. PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOR COURT, KANPUR**

Industrial Dispute No. 101 of 2011

Between –

Nanua Nath,
Resident of Village and Post Kehraula,
District Bulandshahar. U.P.

And

The Deputy General Manager,
State Bank of India,
Zonal Office,
Sanjai Place,
Agra U.P.

AWARD

1. Central Government, Mol, New Delhi, vide notification no.L-12012/81/2011 (IR(B-1) dated 23.11.11, has referred the following dispute for adjudication to this tribunal.
2. Whether the action of the management of State Bank of India, Agra, in terminating the services of Sri Nanua Nath ex-cash coolie w. e. f. 17.10.75 by way of imposing penalty of Dismissal from bank service, is legal & Justified? To what relief the workman is entitled?
3. The case of the worker in short is that he was appointed with the opposite party as messenger cum cash coolie at Nunhai Branch in District Agra some times in the year 1965-65, and his services were regularized by the competent authority. The applicant discharged his duties with devotion, honestly up to the satisfaction of his superiors. The worker was inculpated in false case of theft of Rs.100/- on 7th May 1973. The worker has made it clear that he had not committed any misconduct as alleged by the opposite party. It is further alleged by the worker that the higher authorities of the bank were deeply interested in appointing some Rajendra Pal, their own man in place of the worker, therefore, the concerned officer of the bank hatched a conspiracy against the worker and as a result of the same the authorities of the bank planted false case against him. He was served with illegal charge sheet and the competent authority appointed inquiry officer to probe the matter as well as presenting officer was also appointed in the disciplinary case. The enquiry officer concluded the inquiry in a hasty manner without following the rule and procedure of the inquiry and even without providing the worker to cross examine the management witnesses, submitted his inquiry report before the disciplinary authority. It is also alleged that the alleged charge sheet is illegal and without jurisdiction and therefore, cannot form basis of awarding punishment upon the worker. The enquiry officer has not evaluated the evidence available on the record in its correct perspective and he had prepared his report without application of proper mind and even an ordinary prudent mind man cannot arrived at such conclusion as has been arrived at by the enquiry officer, and leading questions were put in the mouth of the bank witnesses during the inquiry despite serious objection raised by the worker. The worker was not paid subsistence allowance during the period of his suspension by the bank which renders the entire inquiry vitiated. On the basis of illegal inquiry report submitted by the enquiry officer, the services of the worker were dismissed by order dated 17.10.75. He had not been provided with the copy of the enquiry officer's report. The appeal against the order of punishment also failed. Thereafter he filed a civil suit o. 267 of 79 before Munsif Fatehabad, Agra challenging the legality and propriety of dismissal order on a number of grounds which was dismissed by order dated 26.03.84 which was challenged by him before the District Judge by filing first appeal and the same was also dismissed by order dated 01.03.2001. The worker being not satisfied by the said order filed writ petition no. 835 of 08 before Hon'ble High Court Allahabad which was finally disposed off with the observation that the applicant is given liberty to approach the appropriate forum under the provisions of Industrial Disputes Act, 1947, and under these circumstances, present reference has been made to this tribunal.
4. The worker has prayed that the punishment order be set aside.
5. The claim of the worker has been challenged by the opposite party on a number of grounds and they have filed reply against the claim statement filed by the worker. The authority of ALC®, Kanpur has also been challenged by the opposite party to entertain the application of the worker on the ground that the claim has been filed by the worker not within the stipulated period granted by the Hon'ble High Court. The worker has deliberately avoided to file complete papers of inquiry. It is not disputed by the bank that the worker was placed under suspension by order dated 29.03.73, for removing Rs.100/- note and keeping the same in his shoes. It is also not disputed that the worker was issued charge sheet for the said misconduct committed by him and after detailed inquiry he was discharged from the services of the bank with effect from 17.10.75. In the last it is alleged by the bank that the inquiry proceedings, final order and appellate order is just fair and proper and need not be interfered at the hands of the Hon'ble Tribunal and the claim of the worker is liable to be rejected and should be rejected.
6. No rejoinder has been filed by the worker.
7. Worker vide his application dated 19.12.13, has filed three documents containing judgments of the Munsif, first appeal and second appeal.

8. The management by their application dated 16.01.15 has filed 25 documents some of which are in the nature of carbon copy and some are in original.
9. I have heard the arguments in the case at length and have also perused the record of the case carefully.
10. Both the parties have filed documentary evidence and this tribunal has framed a preliminary issue on 23.06.15 regarding fairness of inquiry. Management despite availing sufficient time failed to produce the papers of inquiry and considering the fact that without perusal of papers relating to inquiry proceedings; it cannot be presumed that the domestic inquiry conducted by the bank against the worker is just fair and proper. Therefore, it was held that the domestic inquiry held against the worker by the bank was neither just, fair and nor justified and accordingly it was vitiated. Thereafter the management was given opportunity to prove the charges against the worker by adducing evidence.
11. It is pertinent to mention here that the worker by letter dated 29.03.73 was charged to the effect that he removed a note of Rs.100 from the packet and kept the same in his shoes. This charge sheet was received by the worker on 10.04.73.
12. Management examined M.W.1 Sri Mahender Singh, Manager, H.R., who stated on oath that the worker was given charge sheet which is paper No. 3 filed today and after that the worker was discharged from service on 17.10.75, which is revealed by paper No. 12/26, copy of the same was given to worker. He further submitted that Hon'ble High Court has granted him time for two months for filing his claim but he filed his claim after expiry of 4 months. He has admitted that the inquiry proceedings are not available in bank nor there is any witness of inquiry available. He further deposed that Nanua Nath was discharged from service. This witness has not been able to prove the charges against the worker as directed by this tribunal nor has the management been able to produce inquiry proceedings and further failed to prove the charge leveled against the worker.
13. Learned representative for the management raised legal plea that the reference is on the point of dismissal from service with effect from 17.10.75 and the worker has also filed his claim petition stating that he was dismissed from 17.10.75, but in fact the services of the worker were never dismissed by the bank rather he was discharged from the service of the bank on 17.10.75. He further contended that the reference made by Central Government on the contention of the worker is bad in the eye of law. He further contended that this tribunal cannot travel beyond the scope of terms of reference order as dismissal and discharge are two distinct form of retrenchment and cannot be equated with each other having two distinct and different meaning.
14. It also appears from the perusal of record filed by the parties that worker had filed OA No. 267 of 79 before Munsif Fatehabad, Agra, for declaring order dated 17.10.75 to be illegal contending that he was dismissed illegally which was dismissed by the court by order dated 26.03.84 against which worker preferred Civil Appeal No. 82/2000 which was again dismissed by Additional District & Sessions Judge, Agra, by order dated 01.03.2001. Worker has preferred second appeal No. 835/08 before Hon'ble High Court Allahabad which was dismissed as not maintainable vide order dated 12.5.10 and granted liberty to raise industrial dispute before concerned labor forum (Central) within a period of 2 months from the date of order but the worker has raised industrial dispute after expiry of period granted by the Hon'ble High Court and filed a dispute before ALC© on 27.09.10 again stating that the services of the worker were dismissed by order dated 17.10.75. Thereafter the present reference was made to this tribunal for adjudication.
15. It appears that at early stage worker has challenged his dismissal by filing civil suit and Industrial Dispute before ALC© and has not submitted any document in the proceedings before this tribunal to establish that his services were dismissed with effect from 17.10.75. Contrary to it management has filed certain document before this tribunal vide list paper No. 12/1-2 to establish that various notices were given to worker inviting him to cooperate with the inquiry which are paper No. 12/3-23 and copy of each paper was given to the worker under his own acknowledgement and signature. Management has also filed paper No.12/26 addressed to worker by Regional Manager Stt Bank of India dated 17.10.75 that there is no reason to alter his decision that he be discharged from the bank's service on payment of one month's salary and allowances in lieu of notice in terms of Sashtri & Desai Award and copy of the same was given to the worker under his acknowledgement and signature.

16. Thus it is also clear that worker was discharged from the service and not dismissed as claimed by him and he has not filed any document to establish that he was dismissed from service.
17. Now coming to the schedule of reference order it is clear that it also speaks regarding termination of service by imposing penalty of dismissal and not for discharging him from service.
18. Thus in my view, I find force in the contention of the bank that worker was discharged from service and not dismissed from service.
19. Therefore, reference appears to be bad to adjudicate dismissal of worker which was never done by the management.
20. Therefore, the worker is held not entitled for any relief pursuant to the present reference order.

SHUBHENDRA KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

का.आ. 834.— केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91.क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा मैसर्स राष्ट्रीय रासायन और उर्वरक लिमिटेड, मुम्बई के कारखानों/स्थापनाओं के नियमित कर्मचारियों को इस अधिनियम के प्रवर्तन से छूट प्रदान करती है। यह छूट, 02 मई, 2016 से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी।

2. उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है; अर्थात्:-

- (1) पूर्वोक्त स्थापना जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगी, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदनाम दिखाये जायेंगे;
- (2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अंशदानों के आधार पर हकदार हो जाते हैं;
- (3) छूट प्राप्त अवधि के लिए, यदि कोई अभिदाय पहले ही किए जा चुके हों, तो वे वापस नहीं किए जाएंगे;
- (4) उक्त कारखाने/स्थापना का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने/स्थापना पर उक्त अधिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अवधि कहा गया है) प्रवर्तमान था ऐसी विवरणियां, ऐसे प्रारूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी अपेक्षित होती थीं;
- (5) निगम द्वारा उक्त कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी;
 - (i) धारा 44 की उप-धारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरण की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; अथवा
 - (ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथाअपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गये थे या नहीं; या
 - (iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिये गए उन फायदों को, जिसके फलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

- (iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं, निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा:-
- (क) प्रधान या आसन्न नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है; अथवा
- (ख) ऐसे प्रधान या आसन्न नियोजक के अधिभोगाधीन, किसी कारखाने, स्थापना, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें या ऐसी जानकारी दें जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या
- (ग) प्रधान या आसन्न नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति को, जो ऐसे कारखाने, स्थापना, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापना, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखा, बही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उद्धरण लेना;
- (ङ) यथानिर्धारित अन्य शक्तियों का प्रयोग करना।
- (6) विनिवेश/निगमीकरण के मामले में, प्रदत्त छूट स्वतः रद्द हो जाएगी और तब नए प्रतिष्ठान को छूट हेतु समुचित सरकार की अनुमति लेनी होगी।

[सं. एस-38014/02/2013-एस.एस.-1]

अजय मलिक, अवर सचिव

New Delhi, the 27th April, 2016

S.O. 834.— In exercise of the power conferred by Section 88 read with Section 91-A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby exempts the regular employees of factories/establishments of M/s. Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd., Mumbai from the operation of the said Act. The exemption shall be effective w.e.f. 02.05.2016 for a period of one year.

2. The above exemption is subject to the following conditions namely:-

- (1) The aforesaid establishments wherein the employees are employed shall maintain a register showing the name and designations of the exempted employees';
- (2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;
- (3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refundable;
- (4) The employer of the said factory/establishment shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred as the said period), such returns in such forms and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;
- (5) Any Social Security Officer appointed by the Corporation under Sub-Section (1) of Section 45 of the said ESI Act or other official of the Corporation authorized in this behalf by it, shall, for the purpose of:-
 - (i) Verifying the particulars contained in any returned submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

- (ii) Ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
- (iii) Ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or
- (iv) Ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory to be empowered to:
 - (a) require the principal or immediate employer to him such information as he may consider necessary for the purpose of this Act; or
 - (b) at any reasonable time enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found in charge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine accounts, books and other documents relating to the employment of personal and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
 - (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or
 - (d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises,
 - (e) exercise such other powers as may be prescribed.
- (6) In case of disinvestment/corporatization, the exemption granted shall become automatically cancelled and then the new entity will have to approach the appropriate Government for exemption.

[No. S-38014/02/2013-S.S.-I]

AJAY MALIK, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 मई, 2016

का.आ. 835.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उत्तर पूर्व रेलवे के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, लखनऊ के पंचाट (संदर्भ सं. 70/2014) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 02.05.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-41011/91/2014-आईआर (बी-1)]

रणबीर सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 2nd May, 2016

S.O. 835.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 70/2014) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Lucknow as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of North Eastern Railway and their workmen, received by the Central Government on 02.05.2016.

[No. L-41011/91/2014-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

ANNEXURE**CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, LUCKNOW****PRESENT :**

RAKESH KUMAR, Presiding Officer

I.D. No. 70/2014

Ref. No. L-41011/91/2014-IR (B-I) dated: 18.11.2014

BETWEEN :

Anchal Sangthan Secretary
 Rail Sevak Sangh
 C/o Shri D.P. Awasthi
 49, Tilak Nagar
 Lucknow.

(Espousing cause of Sri Ashok Kumar Dubey)

AND

1. Sr. Divisional Personnel Officer
 North Eastern Railway
 DRM Office, Ashok Marg
 Lucknow.
2. The Chief Medical Superintendent
 North Eastern Railway
 Gonda (UP)

AWARD

1. By order No. L-41011/91/2014-IR(B-I) dated: 18.11.2014 the Central Government in the Ministry of Labour, New Delhi in exercise of powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) referred this industrial dispute between Anchal Sangthan Secretary, Rail Sevak Sangh, C/o Shri D.P. Awasthi, 49, Tilak Nagar, Lucknow and Sr. Divisional Personnel Officer, North Eastern Railway, DRM Office, Ashok Marg, Lucknow & the Chief Medical Superintendent, North Eastern Railway, Gonda (UP) for adjudication.

2. The reference under adjudication is:

“क्या पूर्वोत्तर रेल प्रशासन, लखनऊ द्वारा श्री अशोक कुमार दुबे पुत्र श्री शिव शंकर, एलसीपोर्टर, व गोंडा को पुरानी पेंशन न देकर नई पेंशन दिया जाना न्यायोचित एवं वैध है? यदि नहीं तो कामगार किस राहत को पाने का हकदार है?”

3. On receipt of the reference order the workman's union was issued registered notice to file his statement of claim complete with relevant documents, list of reliance and witnesses before Tribunal on 20.01.2015 with an advance copy to the opposite party. The Secretary of the workman's union appeared before this Tribunal and requested for a date for filing of statement of claim.

4. On successive dates the management also turned up. Since the case was related to grant of old pension scheme instead of new pension scheme, the parties were advised to settle the dispute amicably through Lok Adalat. Accordingly, the case was taken up at Lok Adalat on 19.06.2015.

5. On 19.06.2015 the opposite parties were represented by Shri Upendera Kumar Sharma, Chief Welfare Officer.

6. The opposite party filed M-4, letter signed by Sri P.B. Prasad, Senior Divisional Personnel Officer, North Eastern Railway, Lucknow, enclosing circular No. 2012/F(E)III/I(I)/2 dated 29.10.2014 of the Railway Board. The management in letter M-4, referring circular dated 29.10.2014 has stated that the Railway Board, New Delhi vide their circular dated 29.10.2014 has directed to cover the employees who got temporary status prior to 01.01.2004 may be covered under Old Pension Scheme.

7. A copy of the M-4 was furnished to the workman's union. The authorized representative of the workman's union sought time to consult the workman; and accordingly, the case was taken up on 18.03.2016 at Lok Adalat. The Authorized representative of the workman's union, Shri D.P. Awasthi after going through the contents of letter, M-4 and

circular dated 29.10.2014 showed willingness to withdraw the present industrial dispute being claim settled; and made an endorsement thereupon as under:

“That since the relief claimed by the workman/union has been accepted by the O.P. hence the case may be closed.”

8. In view of the submission/endorsement of the workman's union for dropping of the proceedings, there is no grievance left with the workman's union as the present industrial dispute pertains to non-grant of old pension to the workman by the railway management and the management of the railway has granted the same vide circular 2012/F(E)III/I(I)/2 dated 29.10.2014 of the Railway Board. Resultantly, the industrial dispute stands settled; and no relief is required to be given to the workman concerned. The reference under adjudication is answered accordingly.

9. Award as above.

Lucknow.

31st March, 2016.

RAKESH KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 2 मई, 2016

का.आ. 836.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय-2, दिल्ली के पंचाट (संदर्भ सं. 41/2014) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 02.05.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-41012/78/2010-आईआर (बी-1)]

रणबीर सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 2nd May, 2016

S.O. 836.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 41/2014) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. II, Delhi as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of M/s. Delhi Metro Rail Corporation Ltd. and their workmen, received by the Central Government on 02.05.2016.

[No. L-41012/78/2010-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT - II, DELHI

Present:- Shri Harbansh Kumar Saxena

ID.No. 41/2014

Sh. Sunil Kumar,
F-3/131, Sector 16,
Rohini, Delhi -110085

...Workman.

Versus

The Managing Director,
M/s Delhi Metro Rail Corporation Ltd.,
Metro Bhawan, Fire Brigade Lane

...Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide Letter No.L-41012/78/2010(IR(B-I)) dated 30.04.2014 referred the following Industrial Dispute to CGIT-cum-Labour Court-I for adjudication :-

“Whether the action of the management of M/s. DMRC in terminating services of Sh. Sunil Kumar Driver, w.e.f 16.10.2009 is legal and justified? If not, what relief he is entitled to?”

Which was register as I.D No. 41/10 and claimant union was called upon to file claim statement with in fifteen days from date of service of notice. Which was required to be accompanied with relevant documents and list of witnesses.

After service of notice workman/claimant filed claim statement on 1.10.2010. Through which he prayed as follows:-

It is , therefore prayed that the Hon'ble Authority may be pleased to pass an award in favour of workman and against the management holding the termination of services of the workman is illegal and unjustified and directing the management to reinstate the workman with full back wages and continuity of services. For this act of kindness, the petitioner workman as duty bound shall ever pray.

Against claim statement management filed written statement on 25.10.2010. Through which management prayed as follows:-

In view of the foregoing submissions and having regards to the facts and circumstances of the case, it is submitted that Sh. Sunil Kumar is not entitled to any relief much less he relief as alleged to have been claimed by him in these proceedings. The Statement of Claim may be rejected accordingly.

My Ld. Predecessor on 25.10.2010 framed following issues:-

1. Whether the enquiry conducted by the management against the claimant was just, fair and legal?
2. Whether punishment of removal from service awarded to the claimant , commensurate to his misconduct?
3. As in terms of reference.
4. Relief.

Out of aforesaid issue no. 1 was decided by my Ld. Predecessor Dr. R.K. Yadav on 21.01.2011 holding enquiry not legal, just and proper and decided as preliminary issue in favour of workman and against management. This order is on separate sheet.

But My Ld. Predecessor Dr. R.K Yadav, on the same day passed an order on order sheet permitting management to lead its evidence on the point of misconduct of workman as there were pleadings in written statement by management. Wherein it is pleaded that in case virus of the enquiry is answered against management, an opportunity may be accorded to prove misconduct of the claimant.

Case received by this tribunal on 9.5.2014 after transfer. Which was register as I.D. No. 41/14.

Sh. K.P. Rao,Ld. A/R for the workman and Sh. Raj Birbal, Senior Counsel and Ms. Raavi Birbal, Ld. A/R for the management. They orally argued as well as filed written arguments alongwith photocopies of rulings.

Sh. K.P. Rao, placed reliance on principle laid down by their Lordship of S.C. in case of Deepali Gundu Surwase Vs. Kranti Junior Adhyapak Mahavidyalaya (D.Ed.) and Others , Civil Appeal No. 6767 of 2013.

In support of their contentions Ld. Senior Counsel for management and it Ld. A/R filed Photostat copies of rulings with following list:-

LIST OF JUDGEMENTS ON BEHALF OF THE MANAGEMENT

S.No.	Case Name	Citation	Page No.
	Power of Industrial Tribunal while looking into charges		
1.	Paresh Nath Chowdhury and Ors. Vs. Modern Food Industries India Ltd.	(2003) IILLJ 499 Cal (Calcutta High Court)	
2.	Union of India Vs. T.R. Varma	1957 AIR 882 (Supreme Court)	
3.	Management of Balipara Tea State Vs. Its Workmen	AIR 1960 SC 191 (Supreme Court)	
4.	Ajit Kumar Nag Vs G.M. (P.J.) Indian Oil Corporation Ltd. Haldia & Ors.	2005 (3) suppl. SCR 314 (Supreme Court)	
5.	State Of Rajasthan Vs. B.K Meena and others.	(1996) 6 SCC 417 (Supreme Court)	

6.	Spadigam (J.) Vs. State of Kerala	(1970) ILLJ 718 Ker (Kerala High Court)	
	Industrial Tribunal not to interfere into penalty		
7.	Life Insurance Corporation of India Vs. R. Dhandapani	AIR 2006 SCC 615 (Supreme Court)	
	Misconducts :insubordination/disobedience		
8.	Sarabhai M. Chemicals and Electronics Ltd. Vs. M.S Ajmere and other	1982 LAB . I.C. 97 (Bombay High Court)	
	Rash Driving		
9.	Depot Manager , A.P.SRTC Vs. V. Velayudham and another	(2002) 10 SCC 756 (Supreme Court)	
	Misbehaviour/indiscipline /employees should not be allowed to break discipline		
10.	Mahesh Chandra Sharma Vs. Uttar Pradesh State Road.	(Allahabad High Court)	
	Bad language		
11.	Mahindra and Mahindra Ltd. Vs. N.B Narawade	(2005)3 SCC 134 (Supreme court)	
12.	L.K Verma Vs. HMT Ltd. and another	2006 (2) SCC 269 (Supreme Court)	
	Insubordination/disobedience		
13.	Delhi Transport Undertaking Vs. Industrial Tribunal Delhi	(1963) 2 LLJ 70 (Supreme Court)	
	Loss of confidence		
14.	Air India Corporation , Bombay Vs. V.A. Rebellow & Anr	1972 AIR 1343, 1972 SCR (3) 606 (Supreme Court)	
15.	Divisional Controller KSRTC Vs. M.G. Vittal Rao	Civil Appeal No. 9933/2011 (Supreme Court)	
	Indiscipline		
16.	M/s. Bharath Petroleum Corporation Ltd. Vs Industrial Tribunal, Kollam and others. (Kerala High Court)	2005 LAB . I.C. 2897 (Kerala High Court)	
	Past misconduct		
17.	Bharat Forge Co. Ltd. Vs. Uttam Manohar Nakate-workman found sleeping on duty	2005 (2) SCC489 (Supreme Court)	
18.	Management of Monghry Factory of ITC Ltd., Monghry, Bihar Vs. The Presiding Office ,Labour Court , Patna	1978 AIR 1428, 1978 scr (3) 1044 (Supreme court)	
19.	Devendra Swamy Vs. Karnataka State Road Transport Corporation	(2002) 9 SCC 644 (Supreme court)	
20.	Deputy Commissioner, KVS &Ors Vs. J. Hussain	(2013) 10 SCC 106 (Supreme Court)	

In the light of contentions and counter contentions. I perused the pleadings of claim statement , written statement and rejoinder as well as issues and findings of my Ld. Predecessor Dr. R.K. Yadav, preliminary Issue No. 1 relating to Domestic Enquiry decided on 21.01.2011 in favour of workman and against management holding Domestic enquiry illegal. Such order has been passed by my Ld. Predecessor on separate sheet.

I also perused the order passed by my Ld. Predecessor on order sheet dated 21.01.2011. Which is as follows:-

“Management pleads in its written statement that in case virus of the enquiry is answered against it an opportunity may be accorded to prove misconduct of the claimant.

Accordingly the matter is adjourned to evidence of the management to prove misconduct of the claimant and evidence of the claimant in rebuttal for 1.2.2011.”

This order is said to be passed by my Ld. Predecessor according contention of Sh. Raj Birbal, senior counsel and Ms. Raavi Birbal Ld. A/R for management on the basis of settled law of Hon’ble Supreme Court. Which has repeatedly been followed by Supreme Court itself in following cases etc:-

1. Cooper Engineering Limited Vs. Sh. P.P. Mundhe AIR 1975 S.C. 1-9 .
2. Neeta Kaplish Vs. Presiding Officer Labour & Anr. 1998 Supp(3) S.C.R.379.

I perused the aforesaid settled law of Hon’ble Supreme Court. Which is as follows:-

“When a case of dismissal or discharge of an employee is referred for industrial adjudication the Labour Court should first decide as preliminary issue whether the Domestic enquiry has violated the principles of natural justice. When Preliminary Issue is decided in favour of workman and against management then it will be for the management to decide and adduce evidence to prove the misconduct of workman /claimant.”

It is admitted fact that ruling in reply has been filed on behalf of workman /claimant. Aforesaid order has not been challenged in any superior court by workman /claimant. So order has become final.

In compliance of aforesaid order management examined 12 following witnesses and filed certain documents to prove misconduct of workman /claimant Sh. Sunil Kumar:-

1. MW1-Sh. Avtar Singh
2. MW2- Sh. Manish Kumar
3. MW3- Sh. Balbir Singh
4. MW4-Sh. Ratneh Jha
5. MW5-Sh. Daljeet Singh
6. MW6-Sh. Subodh Kumar Gupta
7. MW7-Sh. Kuldeep Singh
8. MW8- Sh. Sohan Singh
9. MW9- Sh. Saasank Sharma
10. MW10- Sh. Satish Kumar
11. MW11- Smt. Sangita Srivastava
12. MW12-Sh. Saasank Sharma

In rebuttal workman /claimant Sh. Sunil Kumar examined following witnesses:-

1. WW1- Sh. Inderjeet –Who is semi –skilled workman working as Maintainer in management of DMRC.
2. WW2- Sh. Satish Kumar
3. WW3- Sh. Vijendra Kumar (Driver in DMRC)
4. WW4-Sh. Sunil Kumar (Workman /Claimant)
5. WW5 –Sh. Dharmesh Rajan-Assistant Review Officer , Hon’ble H.C of Allahabad.

According to pleadings of written statement and evidence as well as oral and written argument on behalf of management. It is stressed by management that the workman was working as a driver with the management . The charges against the workman comprised that the workman would talk rudely with seniors ,misbehave, use bad filthy language , cause insubordination, not follow orders , drive rash in anger, unauthorisedly absent, be uncourteous,indisciplined etc. The charges against the workman were very serious in nature and took place on several instances . Various senior officials were harassed by the workman . The Management lost confidence in him. Needless to say any organization cannot function with such employees .

The management had brought on record about 12 witnesses and several documents to prove the misconducts . Many senior officers deposed against the workman. Chargesheet is duly exhibited .

Charge wise summary of witnesses is as follows :

1. Charge 1 comprised that the workman contemptuously threw the leave application out of the window of the car , when Daljeet Singh , a very senior officer of the management informed him to submit the leave application alongwith fitness certificate . When Daljeet Singh asked him as to why he threw the application , he instead of replying started driving at a very high speed and in a very rough manner. Daljeet Singh nearly escaped an accident.

In respect of the first charge, Daljeet Singh MW 5 deposed. He is the Chief Project Manager , South. He inter alia deposed about the incident stating that on 9.2.2007 the deponent boarded the car from Metro Bhawan. On boarding the car Sunil Kumar showing his leave application asked Daljeet Singh as to why his leave was not sanctioned. To this Daljeet Singh replied that he should submit his medical fitness certificate alongwith application. On hearing this Sunil Kumar threw application out of the window. When Daljeet Singh asked him why he did so, instead of replying Sunil kumar drove the car at a very high speed drove it zig zag , in rash and negligent manner, . He further deposed that he narrowly escaped an accident. The deponent deposed that he had reported the incident telephonically to Krishna Das and had also given written note /letter in this regard to company secretary . He stated that the misconduct committed by Sunil Kumar resulted in indiscipline, insubordination, misbehavior, etc. Furthermore , driving car at such a high speed is also an offence and could result into serious consequences. He deposed that Sunil Kumar's conduct has not been proper . He used to cause indiscipline, insubordination, misbehavior, disobedience, rashness, etc.

Daljeet Singh also exhibited a written note / letter in this regard to the company secretary . A copy of the same is exhibited as MW 5/1 (page no 439 of the file) .The said document has been signed by various officers.

Thus , Daljeet Singh, who is a very senior officer of the management deposed against the workman .

It is pertinent to note that in reply to chargesheet , the claimant did not give this explanation to this charge . Further in his written submission to the enquiry report (at page 547) , the claimant submitted that since he was already given warning for this incident, therefore he should not be vexed twice for the same misconduct .No explanation as given by him neither in the written submission nor in his reply to chargesheet. Infact in the response to report i.e. the written submissions he virtually admitted the charges. Further he also raised question whether the medical certificate was required for leave application. Thus , these contention taken by the employee is report to the enquiry report show that he had virtually admitted the charges and did not have any explanation for the misconduct committed. As per him since warning was given, therefore he could not be penalized . The evidence now led by him is only an afterthought, though the same also does not disprove the misconduct .

2. The second charge against the employee was that on 24.12.2007 he unauthorisedly absented from duties and also spoke very rudely indecently with the senior officials as well as argued with them . In this respect management produced 4 witnesses. Same are as follows :

(a) Management produced Manish Yadav MW 2. He deposed that on 24.12.2007 he visited Gupta Nursing Home alongwith employees Mr. Ratnesh Jha, M.S.Meel, Balbir Singh to visit one employee Mithlesh who had been stabbed . He deposed that Sunil Kumar was also present there . While interacting with the family members of Mithlesh, Sunil Kumar started arguing with Ratnesh Jha about issues relating to staff. The language used by him was very rude, indecent , arrogant. He deposed that apart from the claimant being guilty of misconduct of being unauthorisedly absent from duties, he was also guilty of talking rudely with senior officers , being arrogant , indecent, etc.

(b) Another witness that was produced by management was Balbir Singh MW 3 who was the security officer of the management. It is pertinent to mention that prior to working with the management , Balbir Singh was working with the police . He too deposed that Sunil Kumar argued with Ratnesh Jha . The language used by him was very rude, indecent , arrogant . He deposed that the claimant was guilty of talking rudely with the senior officer . His bad behavior and language has been rude, arrogant , indecent and unbecoming of an employee. His conduct results in indiscipline , insubordination, etc. He stated that the management lost confidence in the claimant.

(c) Further the management produced Ratnesh Jha MW 4. Ratnesh Jha is the Deputy General Manager. He deposed that he was there at Gupta Nursing home alongwith Balbir Singh and Manish Yadav. He deposed that when they interacted with the family members of Mithlesh Kumar , Sunil Kumar started arguing about issues relating to staff . The language used by him was very rude, indecent, arrogant . He further stated that he explained to Sunil Kumar that it was not the time and place to use such language but Sunil Kumar did not stop. In this regard the witness also exhibited confidential note dated 1.1.2008 as Ex MW 4/1 page 147, Mw 2/w1 AT PAGE 446 , which was a letter calling for workman's explanation . He deposed that Sunil Kumar was talking rudely with superior officers . His behavior was rude, arrogant, indecent and unbecoming of an employee.

(d) Another witness produced by management was MW 6 S.K. Gupta . He deposed that Sunil Kumar has been disobedient , rude , illbehaved, employee. He caused insubordination, indiscipline, and dereliction of duties on various occasions. His behavior had been highly disrespectful, incourteous. . He deposed that telephonically he came to know

that on 24.12.2007 the claimant had visited Gupta nursing home . As per company rule he was required to report for duties to the company secretary , but he unauthorisedly absented.

Thus from the above it is seen that so many senior employees of the management deposed against the workman. Needless to say , all the senior employees would not make any false statements against the worker .

Further, reference be made to attendance sheet at page 534 , which shows that the workman was not on duty. All the employees who are present on the said date i.e. 24.12.2007 , their names are there in the attendance sheet . Name of Sunil Kumar / workman is not there.

Further, reference be made to written submissions of the workman to the enquiry report at page 647 of the file. In his submissions , no proper explanation was given by him . Rather he had raised question about the senior officers not taking permission before going to Gupta Nursing Home .His other explanations , evidences are now just an afterthought .In any case the witnesses produced by the workman does not disprove the charges in any manner .

3. The third charge against the workman was that he while working as a driver was called by CPM/ SE , Sh. S.K.Gupta to come to his chamber and asked to distribute dak as per the office circular. The workman did not turn up till 5 p.m. He was informed that his performance has been wanting on this account. Further it was charged that on various occasions he failed to extend courteous behavior and also failed to come in presentable manner.

In this regard , management produced Sh. S.K. Gupta MW6 , Chief Project Manager (a very senior officer)who deposed that on one occasions i.e on 14.1.2008 the deponent asked claimant to come to the chamber to distribute dak after parking vehicles . He did not turn up till 5.00pm. He deposed that such conduct by him causes disobedience, insubordination and dereliction of duties. He also exhibited the duties roaster of the drivers including delivering , picking up letters /documents as per direction of the concerned officer . The same was stipulated in the duties roaster of the management . The claimant was called explanation of the same vide letter dated 14.1.2008 . The same was exhibited as EX MW 6/4. Further he also deposed that the claimant on various occasions had been found lacking in performance. He would not perform duties properly such as standing away from the official car while the officer was seated , behaving in uncourteous manner, not responding to instructions. On one occasion he also responded that he know “katia” and not courteousy. He would come to duty in an unrepresentable manner which is not expected of an employee for e.g. he would come with buttons of short open., etc. The claimant was asked for explanation. He also deposed that the claimant on many occasions would not respond to the directions of the deponent, cause insubordination, indiscipline, he would be rude, uncourteous, and his behavior was unbecoming of an employee.

4. Apart from the above witnesses of the management, the management produced the following witnesses who proved various other misconducts of the workman :

- (a) Kuldeep Singh MW 7 who is the Additional Private Secretary to the (Director) Finance. He is also a very senior officer of the management. He deposed that while going out of office at around 12.00 o clock , he saw Sunil Kumar standing near the gate of Metro Bhawan . While he was moving towards the vehicle , Sunil Kumar said very rudely said to him “tera kya haal hai” . To this Mr.Kuldeep Singh responded that he should talk properly. However, Sunil Kumar did not listen and said “ tu kya kar lega” . Further he also deposed that the workman used filthy , abusive language. The witness also stated that this incident happened in front of Dharam Pal driver and one guard Mahesh also heard the loud voice of Sunil Kumar . The witness exhibited his statement as well as statement of Dharam Pal and Mahesh. Same are exhibited as EX MW 7/1 , 7/2 and 7/3 at pages 183,184,185.
- (b) Sohan Singh MW 8: Sohan Singh is a personal assistant to the executive director . He deposed that on 13.10.10 before CGIT , he had attended the court proceedings alongwith Sh. S.Sarmah, Dy. Chief Personnel Officer/ project .He deposed that when the deponent was leaving the court complex alongwith DY.CPO/P Sunil Kumar came from behind and said “tum aur logo kyo nahin le aaye saath” . To this S.Sarmah replied “ kya zaroorat thi”. He deposed Sunil Kumar thereafter made very dirty abuses by calling the name of Karan Singh who is the Executive Director /HR and also for his female family members using the most filthy abusive language in hindi. (It may be mentioned here that using such language in court is also an offence).
- (c) Further the management produced Sasank Sharma mw 9who is working as the Dy. Chief Personnel Officer / Project .He too deposed what was deposed by Sohan Singh . He further exhibited EX MW 9/1 (at page 192 of the file.).
- (d) Another affidavit filed by management was of Sasank Sharma (MW12). This was in respect of log book. The workman had filed one log book during the proceedings. As per the workman this log book was sent to the workman by one Mr. Sunil Chabra by post, who as per workman was working with the management. However, the witness conformed that there was no Sunil Chabra working with the

management . He also exhibited EX MW 12/1 (at page 198) which was the approval of the competent authority in respect of destruction of log book . This clearly shows that the workman stolen the log book. The workman failed to give explanation as to who was Sunil Chabra, how did he know him or why did he send him the log book during court proceedings. All this shows the mala fide intentions of the workman.

- (e) Further the management produced Sh. Satish Kumar who is the Director (Electrical) MW 10 of the management and one of the most senior officers of the management . The witness deposed that he has served as Group A officer of Indian Railway Service Electrical Engineering since 1967 . The witness had also worked as Joint Secretary , Ministry of Defence and thereafter as Additional Secretary in the ministry of railways . He is one of the most senior directors of Metro. He deposed that once he had taken Sunil Kumar for a long drive to Mussoorie for 4 days. Sunil Kumar did not behave in a disciplined manner and when he was advised to drive carefully , he replied in an unpleasant and rude manner . He would drive rashly , would overtake on the wrong side , would not slow down despite requests , even on bumpers he would not slow down which caused hitting oh the head on the roof of the car. Further Sunil Kumar would talk rudely and in a very unpleasant manner. He deposed that apart from misconduct such driving was harmful for one's life. In this regard he also exhibited communication and memo EX MW 10/1 , MW 10/2 at page 203 and 204.

Thus in light of the above , it is clear that the workman was an indisciplined employee. He was guilty of talking rudely with seniors , misbehave , use bad filthy language , drive rashly out of anger, cause insubordination, not follow orders , unauthorisedly absent, be uncourteous, indisciplined etc. The management lost confidence in the workman . Needless to say the management cannot function with such employees.

In light of the above it is humbly submitted that the charges stood proved against the workman and that the penalty of dismissal imposed upon the workman is appropriate .

Sh. Raj Birbal Ld. Senior Counsel and Ms. Raavi Birbal Ld. A/R placed reliance on principle laid down in aforesaid cited rulings.

It is to be looked into whether aforesaid rulings applies in the instant case or not.

According to pleadings of claim statement and rejoinder case in rebuttal of claimant /workman is said to be supported by evidence of his following five witnesses:-

WW1- Sh. Inderjeet who is Semi-skilled workman working as Maintainer in management of D.M.R.C.

He filed certified copied of order dated 21.12.2009 passed by C.A.T and order dated 19.2.2010 passed by Hon'ble Delhi High Court for providing same relief to claimant Sh. Sunil Kumar as well as during cross-examination he admitted the fact that he is officer bearer of union so Memo of Charge sheet are used to provide to him.

His evidence is silent on the point of rebuttal of misconduct of claimant/Workman. Which is crystal clear from his statement .

Statements of WW2 to WW5 are as follows:-

Statement of WW2:- Sh. Satish Kumar is a member of workman union this fact is admitted by him during cross-examination.

He also admitted during cross-examination that chargesheet /memo Exh. WW2/M1 to WW2/M3 have been provided to him by DMRC management. Which itself indicates that he is checkered history of indiscipline in management so he came forward to support the claimant Sh. Sunil Kumar who is also addict to commit misconduct regularly. So his evidence cannot be treated to be independent evidence and liable to be discarded.

Statement of WW3- Sh. Vijender Singh is as follows:-

I tender my affidavit as evidence which is Ex. WW-3/A . I rely documents Ex. MW-2 /W2. It may be read alongwith my affidavit.

WW3 was cross-examined on 14.05.2012. His cross-examination is as follows:-

Xxx by Ms. Raavi Birbal, A/R for the management.

In Delhi I reisde in village Nangal Thakran, near Narela. I do not recollect whether I attended my duties on 22.12.2007 as well as on 23.12.2007. I also do not recollect as to whether I attended to my duties on 21.12.2007. I do not recollect as to whom I met from 21.12.2007 to 23.12.2007. Probably on 22 or 23.12.2007b , I met Sunil Kumar at his residence. On 20.12.2007, we organized a party and that is why I recollect that I met Sunil Kumar either on 22 or on 23.012.2007. I had visited his house to invite him for the marriage of my brother. I do not recollect week day of

20.12.2007. Party started around 9 P.M. I cannot produce any proof of arranging a party on 20.12.2007. Party was organized at Village and Post Office Chudani, Distt, Jhajjar, Haryana. Marriage of my brother was solemnized on 20.12.2007 at Village Bhabaroda, Distt, Rohtak, Haryana. Marriage took place during day hours and party was organized in night hours. It is incorrect that I have deposited false facts on above counts.

I took one day leave for the marriage of my brother. I was on leave on 20.12.2007. I do not recollect whether I was on leave on any other day in December, 2007. On 24.12.2007, I attended to my duties. Since 25.12.2007 was a gazette holiday, hence, I recollect that I attended to my duties on 24.12.2007. I do not recollect as to what was week day on 24.12.2007. On that day I met Balbir, Ajit, Sunil and a few other persons whose names I do not recollect. I recollect their names, as the person whom I met on 24.12.2007, since I sit with them in parties. I do not recollect the places, which were visited by me on 24.12.2007, during my duty hours. It is incorrect to say that I have given names of the aforesaid persons with ulterior motives. On 24.12.2007, I remained in touch with Sh. Sunil Kumar on 24.12.2007 to whole day. I do not recollect names of other persons, who were present on duty along with me in NBCC Place on 24.12.2007. It is incorrect that Sunil Kumar had not informed me on 24.12.2007 that he visited Gupta Nursing Home, Uttam Nagar, prior to attending to his duties. It is incorrect that facts stated in my affidavit are not based on correct propositions.

Statement of WW4- Sh. Sunil Kumar(Workman/Claimant) is as follows:-

I tender my affidavit as evidence, which is Ex. WW4/A. Alongwith this affidavit, I rely on my leave application dated 20.01.2007 which was supported alongwith a medical certificate, warning letter dated 23.2.2007, letter dated 05.05.2009, punch card issued on 10.10.1999, attendance record from 10.11.2007 till 10.01.2008, letter dated 15.09.2009, letter dated 20/23.11.2009 punch card statement for the month of January and February 2009, photocopy of RTI application and reply in response to the said application, which documents are Ex. WW4/1 to Ex. WW4/12. These documents may be read alongwith my affidavit.

WW4 was part cross-examined on 19.10.2012. His cross-examination is as follows:-

Xxx by Ms. Raavi Birbal, A/R for the management.

I joined management on 10.10.1999. Initially I worked under Sh. Satish Kumar, Director (Electrical). In 1999, I was not a member of any union. In the year 2006-07, I obtained membership of Delhi Metro Rail Employee Union.

Ex. WW4/M1 is a letter dated 02.03.2009, which projects that I became Organizing Secretary of the said union and that documents is an evidence of the fact that I became member of the aforesaid union. No other documents is in my possession to show that I became member of the aforesaid union. It is incorrect that I was not bonafide member of the aforesaid union.

I paid subscriptions to the aforesaid union. I used to pay a sum of Rs. 120.00 annually to the above union. Those receipts are not in my possession. It is incorrect that I never paid subscription to the aforesaid union. Since President of the union was bade a farewell after aforesaid union was formed and a charge sheet was served subsequently on me, hence I say that my services were terminated by the management since I became organizing secretary of the union. It is incorrect that services of President of the Union was terminated on account of serious misconduct committed by him. Vice President of the union was not shunted out by the management till I was in service. Same is my reply regarding Joint Secretary, Executive member and Treasurer, etc. of the union.

It is incorrect that I am gainfully employed after termination of my services.

Vol. I am not employed anywhere. I am a driver by profession. I am not in a position to affirm or deny that there is scarcity in provide market of professional drivers. It is wrong to say that a skilled driver gets a job immediately or after brief spell of his unemployment. I am in possession of a valid HTV driving license. Further cross-examination is deferred since Ms. Raavi Birbal says she is not feeling well.

WW 4 Shri Sunil Kumar S/o Shri Chiranji Lal, recalled for further cross examination on SA on 12.11.2012

Xxx by Ms. Raavi Birbal, A/R for the management.

In February, 2007. I was attached for my duties with CPM (south). CPM(ssouth) was maintaining two offices in those days, one at Shastri park Depot and the other at Metro Bhawan, Barakhamba Road, New Delhi. It is incorrect that in February 2007, office of CPM(south), was also located at Village Ghitorni, New Delhi. I used to report for my duties at the residence of Shri Daljite Singh, located at Metro Enclave, Saket, New Delhi. Medical certificates annexed with the application Ex.MW5/W2 was issued by Dr. S.K. Narang of Sunder Lal Jain Hospital, Which hospital is on the panel of the management. It is incorrect that no medical certificate was annexed by me alongwith the application Ex. MW5/W2. It is wrong to suggest that my application was returned by PA to CPM (South). Vol. my application was returned by Sh. Daljit Singh to me. I had not enquired from PA to CPM (South) as to where my medical certificate had gone. Photocopy of medical was annexed by me alongwith application Ex.MW5/W3. It is incorrect that false facts are deposited by me on the above counts. It is incorrect that wrong facts are projected by me in para 5 of my affidavit. In third week of

February, 2007 at about 11.30 a.m. I was called by Shri Daljit Singh to return my medical as well as fitness certificate. It is incorrect that I am deposing falsely in this regard. I do not recollect the exact date in third week of February, 2007 when I was called by Shri Daljit Singh. That day, I had not taken Shri Daljit Singh anywhere in my vehicle. That day Shri Daljit Singh was leaving NBCC Lodhi Road office in some other vehicle and when he reached the parking lot, he returned my medical and fitness certificate at the time. It is incorrect that I am deposing falsely in this regard. He left Lodhi Road Office in official vehicle of the management, which was allocated to him. Only one vehicle was allocated to him, which was drive by me.

There were 3-4 drivers, sitting in the parking lot, when Shri Daljit Singh called me. Alongwith me, Satish, Driver, also approached Shri Daljit Singh. It is incorrect that I am deposing falsely in this regard. I am not in a position to tell with whom(officer) Shri Satish, Driver, was attached in those days. He was reporting for his duties at NBCC, Lodhi Road, which was Head Office of the management. Shri Staish Kumar accompanied, while talking, when I was called by Shri Daljit Singh. Shri Satish was having no job with Shri Daljit Singh. It is incorrect that he had not accompanied me when I was called by Shri Daljit Singh. Further cross examination is deferred subject to payment of cost of Rs. 1000.00, since such a request was made by Ms. Raavi.

WW 4 Shri Sunil Kumar S/o Shri Chiranji Lal, recalled for further cross examination on SA on 14.03.2013.

Xxx by Ms. Raavi Birbal, A/R for the management.

It is incorrect that when an application for leave of an employee is rejected, it is returned to him through Dak. It is correct that my leave application was returned to me, which is Ex. MW5/W2. It is incorrect that the said application was shown by me to Shri Daljeet Singh on 9/2/2007 at 8pm. Vol. I had shown that application to Shri Daljeet during morning hours. It is incorrect that I questioned Shri Daljeet Singh as to why my application was not granted. It is further incorrect that when Shri Daljeet Singh told me that the application is to be supported by a fitness certificate then in angry mood I had thrown it outside the vehicle on the road. It is further incorrect that thereafter I drew my vehicle in a zig-zag manner.

It is correct that during my tenure of service, when I served Shri Daljeet Singh, I used to fill the log-book. It is incorrect that generally officers do not write adverse remarks in the log-book. No adverse remark was written against me in log-book. I have not seen log-book of any other driver, containing adverse remarks. I used to claim my conveyance allowance month wise. Sometimes, I had claimed conveyance allowance for 2-3 months at a time. Conveyance allowance for all Saturdays of December, 2006 was not claimable hence no conveyance allowance was granted to me. It is incorrect that in December, 2006 I had not performed duties on any of the Saturdays. Vol. I had performed duties on all 5 Saturdays of December, 2006. Ex. MW9/W1 was received by me at my residence, when it was transmitted to me by one Sunil Chabbra. Sunil Chabbra is not known to me. It is incorrect that Ex. MW9/W1 was stolen and thereafter fabricated by me. It is incorrect that Ex. MW9/W1 was got posted by me at my address.

On 24/12/2007 Shri Manish Yadav, Shri Ratnesh Jha and Shri Balbir Singh had not met me at Gupta Nursing Home. It is incorrect that my above deposition is false. It is incorrect that on 24/12/2007 I was present at the said nursing home around 11am. I am not at inimical terms with Shri Manish Yadav and Shri Ratnesh Jha. While serving with Shri Balbir Singh I had recorded certain mileage in log-book which offended him and he might have avenged against me. It is incorrect that my above deposition is false. It is incorrect that on 24/12/2007 I absented unauthorizedly from my duties. In December 2007 I used to sit in front of the office of Shri A.K. Krishnadas, awaiting further instructions. On 24/12/2007 I reported for duties to Shri A.K. Krishnadas, since Shri Gupta was on leave. It is incorrect that my punch card does not show that I was on duty for whole of the day on 24/12/2007.

I have performed duties of Dak distribution also. I have not faced any problem on those duties. It is incorrect that Ex. MW6/W3 to Ex. MW6/W6 were for delivery. I never refused to perform Dak distribution duties. It is incorrect that I have deposed false facts in that regard. I worked with Shri S.K. Gupta for about 1 year. I made written complaints against Mr. S.K. Gupta relating to his misuse of the vehicle. It is incorrect that Shri S.K. Gupta has not misused the vehicle. It is further incorrect that I had not made any written complaint against Shri Gupta. Vol. Ex.MW6/5 is the complaint which I made against Shri Gupta. I remained attached with Shri Gupta upto December, 2006. It is correct that a driver had to use his punch card to go out or come in the office as and when he goes out. A visitor may come inside or go out while using a visitor card. Visitor card is issued by the reception office to a visitor only. It is incorrect that visitor card is available with the security guard. I am not aware as to how one will enter the premises, when he forgot to get his punch card. It is incorrect that security guard helps employees of the management to come inside or go outside, with his own card. It is incorrect that Ex. MW10/2 was received by me.

I joined Delhi Metro Rail Corporation Employees Union in 2006. It is correct that the said Union has not been recognized by the management. It is incorrect that my services were not terminated on account of reasons detailed in my affidavit. I am unemployed as on date, since the date of my termination. I run my kitchen through my past savings, assistance of my past colleagues and by way of help rendered by my knowns. Vol. I had pledged my jewelry to for

which I produce documents which are MWW4/M2 to Ex. WW4/M4. At present I am residing at F-3, Sector 16, Rohini. The said house belongs to my parents, where we shifted in the year 2000. My parents reside with me. My family consists of my parents, my wife, younger brother and 2 children. It is incorrect that I work as a driver in the canteen. I go daily in search of a job. I use a mobile phone. My children are students of class 11th and 5th Standards. My elder son goes to a private school. My youngest son was also student of a private school, from where he has been shifted to a government school. It is incorrect that I am gainfully employed. It is incorrect that I have submitted a affidavit based on false facts and deposed false facts during my cross examination.

Thus their evidence is not sufficient to rebut the evidence of management witnesses on the point of misconduct of claimant Sh. Sunil Kumar. Hence rulings cited on behalf of claimant /workman is inapplicable in the instant case due to linguishable facts.

So reliable and credible evidence of management supported with principles laid down by Hon'ble Supreme Court and Hon'ble High Court in cited rulings on behalf of management . Which applies with full force due to similarity of facts. So Charges of misconduct against claimant/workman are stood proved and penalty of dismissal awarded to workman /claimant is not Harsh and Shocking. Rather it is in proportion of his misconduct, which cannot be modified.

However, workman /claimant is entitled for amount of P.F. and other permissible dues as per rules of management. But for the withdrawal of his P.F amount claimant /workman has to apply in management of D.M.R.C

Reference is liable to be decided in favour of management and against claimant/workman and claim statement is liable to be dismissed .

Which is accordingly decided and management is directed to pay the amount of P.F. and other permissible dues as per rules of management to workman /claimant.

Award is accordingly passed.

Dated:-11.02.2016

HARBANSH KUMAR SAXENA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 2 मई, 2016

का.आ. 837.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय-II, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 4/2009) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 02.05.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/153/2008-आईआर (बी-1)]

रणबीर सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 2nd May, 2016

S.O. 837.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 4/2009) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. II, Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of State Bank of India and their workmen, received by the Central Government on 02.05.2016.

[No. L-12012/153/2008-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, CHANDIGARH

Present: Sri Kewal Krishan, Presiding Officer

Case No. 4/2009

Registered on 01.05.2009

Smt. Suresh Devi W/o Sh. Balbir Singh, H.No.840, New Indira Colony,
Manimajra, Chandigarh.

...Applicant

Versus

1. State Bank of India, Zonal Office(Personnel & HRD Section) sector-8, Chandigarh through Chief Manager.
2. State Bank of India, Sector 16, Panchkula through its Branch Manager.

...Respondents

APPEARANCES :

For the workman	-	Sh. P.K. Kukreja, Adv.
For the Management	-	Sh. S.K. Gupta, Adv.

AWARD

Passed on:- 20.01.2016

Vide Order No.L-12012/153/2008-IR(B-I), dated 21.04.2009 the Central Government in exercise of the powers conferred by Clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-Section 2(A) of Section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (in short Act) has referred the following industrial dispute for adjudication to this Tribunal.

“Whether the action of the management of State Bank of India in terminating services of Smt. Suresh Devi w.e.f. 20.03.2002 without following provisions of Section 25F and 25G of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what relief is the workman concerned entitled to?”

In response to the notice, the workman appeared and submitted statement of claim pleading that she was appointed on 30.10.1998 as General Attendant(Sweeper) by the respondent-management but no appointment letter was issued to her. It is pleaded that on 21.11.2001, one permanent part time vacancy was published and she applied for the said post. The interview was conducted on 26.02.2002 without calling her and she was informed that only candidates who were residing within the territory of Panchkula were shortlisted. She served a legal notice on 09.03.2002. Her services were terminated by the management on 20.03.2002 without paying her any compensation. That the termination of her services is illegal and she be reinstated in service with all the benefits.

Respondent-management filed written reply controverting the averments and pleaded that the services of the workman were availed intermittently on daily basis and she was not appointed as a General Attendant by the respondent-management. The workman was not appointed on any temporary or permanent post by a Competent Authority. All other averments were controverted.

Parties were given opportunity to lead evidence.

In support of his case, Smt. Suresh Devi, workman appeared in the witness-box and also examined Sh. Harkesh Singh.

Smt. Suresh Devi filed her affidavit supporting her case as set out in the claim petition. Harnek Singh has deposed that he is a customer of the respondent-bank and used to see the workman doing the job of shifting documents/vouchers till the year 2002.

On the other hand, the respondent-bank has examined Sh. Harish Katoch, who filed his affidavit reiterating the stand taken by the respondent-management.

It was argued by the learned counsel for the workman that the workman continuously worked with the respondent-management from 30.10.1998 to 20.03.2002 and her services were terminated without paying her any retrenchment compensation and therefore, the termination of the workman is illegal.

I have considered the contention of the learned counsel.

As per case set out by the workman is that she was appointed on 30.10.1998 as General Attendant and she worked till 20.03.2002. It is the case of the workman herself that she was not given any appointment letter. Again there is nothing on the file to show that she was appointed by following any rules/procedure. She has stated in cross-examination that she was appointed by the Branch Manager. There is nothing to suggest that Branch Manager had any authority to make such an appointment. In the circumstances, it cannot be said that the workman was appointed as a General Attendant by the respondent-management.

On the other hand, the case of the respondent-management is that the services of the workman were availed intermittently on daily basis. The bank placed on record the documents Exb.2/2 to Exb.5/2. Smt. Suresh Devi while appearing in the witness-box has admitted her signatures on the documents Exb.1/2, 2/2, 3/2, 4/2 and 5/2. Document Exb.1/2 shows that she worked for 20 days during the month of October and November, 1998 and she submitted the bill for Rs.700 which was paid to her vide voucher Exb.1/1.

Similarly she submitted the bill Exb.2/2 for the month of June, 1999 mentioning therein that she performed duty for 25 days and she was paid Rs.800 vide voucher Exb.2/1.

Similarly she worked for certain days in the month of August, September, October 1999 and she was paid the amounts claimed vide voucher Exb.3/1 and Exb.4/1. The perusal of these documents, which are admitted by the workman, clearly shows that she was not working regularly and her services were availed intermittently and she was paid for the days she worked actually.

When the workman was engaged on daily basis, the termination of her services do not amount to “retrenchment” and in support of this, reliance may be placed on Divisional Forest Officer, Rohtak Vs. Jagat Singh and another reported in 2010(2) RSJ 517. When it was observed in para 4 of the judgement as follow:-

“Hon’ble Supreme Court in Jaipur Development Authority Vs. Ramsahai and Another(supra) has held that even if there is violation of Section 25-G of the Act that will not entitled the workman to be reinstated. It may be noticed that the definition of retrenchment in Section 2(oo) of the Act is applicable to the provisions contained in chapter VA containing Sections 25-F and 25-H of the Act. The termination of daily wager is not retrenchment failing within Section 2(oo)(bb) of the Act. Therefore, the workman, who is a daily wager, cannot be reinstated as it does not amount to retrenchment within the meaning of Sections 25-F and 25-G of the Act.”

Thus, the workman was engaged on daily wage basis and is not entitled to any compensation and it cannot be said that there is any illegality in disengaging her services.

In result the reference is answered against the workman and it is held that she is not entitled to any relief.

KEWAL KRISHAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 2 मई, 2016

का.आ. 838.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उत्तर पूर्व रेलवे के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, लखनऊ के पंचाट (संदर्भ सं. 71/2014) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 02-05-2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-41011/92/2014-आईआर (बी-1)]

रणबीर सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 2nd May, 2016

S.O. 838.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 71/2014) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Lucknow as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of North Eastern Railway and their workmen, received by the Central Government on 02-05-2016.

[No. L-41011/92/2014-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, LUCKNOW

PRESENT :

RAKESH KUMAR, Presiding Officer

I.D. No. 71/2014

Ref. No. L-41011/92/2014-IR (B-I) dated: 18-11-2014

BETWEEN :

Anchal Sangthan Secretary
Rail Sevak Sangh
C/o Shri D.P. Awasthi
49, Tilak Nagar
Lucknow.

(Espousing cause of Sri Gaya Prasad)

AND

1. Sr. Divisional Personnel Officer
North Eastern Railway
DRM Office, Ashok Marg
Lucknow.
2. The Chief Medical Superintendent
North Eastern Railway
Gonda (UP)

AWARD

By order No. L-41011/92/2014-IR(B-I) dated: 18.11.2014, the Central Government in the Ministry of Labour, New Delhi in exercise of powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) referred this industrial dispute between Anchal Sangthan Secretary, Rail Sevak Sangh, C/o Shri D.P. Awasthi, 49, Tilak Nagar, Lucknow and Sr. Divisional Personnel Officer, North Eastern Railway, DRM Office, Ashok Marg, Lucknow & the Chief Medical Superintendent, North Eastern Railway, Gonda (UP) for adjudication.

2. The reference under adjudication is:

“क्या पूर्वोत्तर रेल प्रशासन, लखनऊ द्वारा श्री गया प्रसाद पुत्र श्री राम भुजारथ , एलसीपोर्टर, व गोंडा को पुरानी पेंशन न देकर नई पेंशन दिया जाना न्यायोचित एवं वैध है? यदि नहीं तो कामगार किस राहत को पाने का हकदार है?”

3. On receipt of the reference order the workman's union was issued registered notice to file his statement of claim complete with relevant documents, list of reliance and witnesses before Tribunal on 20-01-2015 with an advance copy to the opposite party. The Secretary of the workman's union appeared before this Tribunal and requested for a date for filing of statement of claim.
4. On successive dates the management also turned up. Since the case was related to grant of old pension scheme instead of new pension scheme, the parties were advised to settle the dispute amicably through Lok Adalat. Accordingly, the case was taken up at Lok Adalat on 19-06-2015.
5. On 19-06-2015 the opposite parties were represented by Shri Upendera Kumar Sharma, Chief Welfare Officer.
6. The opposite party filed M-4, letter signed by Sri P.B. Prasad, Senior Divisional Personnel Officer, North Eastern Railway, Lucknow, enclosing circular No. 2012/F(E)III/I(I)/2 dated 29-10-2014 of the Railway Board. The management in letter M-4, referring circular dated 29-10-2014 has stated that the Railway Board, New Delhi vide their circular dated 29-10-2014 has directed to cover the employees who got temporary status prior to 01-01-2004 may be covered under Old Pension Scheme.
7. A copy of the M-4 was furnished to the workman's union. The authorized representative of the workman's union sought time to consult the workman; and accordingly, the case was taken up on 18-03-2016 at Lok Adalat. The Authorized representative of the workman's union, Shri D.P. Awasthi after going through the contents of letter, M-4 and circular dated 29-10-2014 showed willingness to withdraw the present industrial dispute being claim settled; and made an endorsement thereupon as under:

“Since the claim of the union has been accepted the case may kindly be closed.”

8. In view of the submission/endorsement of the workman's union for dropping of the proceedings, there is no grievance left with the workman's union as the present industrial dispute pertains to non-grant of old pension to the workman by the railway management and the management of the railway has granted the same vide circular 2012/F(E)III/I(I)/2 dated 29-10-2014 of the Railway Board. Resultantly, the industrial dispute stands settled; and no relief is required to be given to the workman concerned. The reference under adjudication is answered accordingly.
9. Award as above.

LUCKNOW.

31st March, 2016.

RAKESH KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 2 मई, 2016

का.आ. 839.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उत्तर पूर्व रेलवे के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, लखनऊ के पंचाट (संदर्भ सं. 72/2014) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 02-05-2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-41011/93/2014-आईआर (बी-1)]

रणबीर सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 2nd May, 2016

S.O. 839.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 72/2014) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Lucknow as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of North Eastern Railway and their workmen, received by the Central Government on 02-05-2016.

[No. L-41011/93/2014-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, LUCKNOW

PRESENT :

RAKESH KUMAR, Presiding Officer

I.D. No. 72/2014

Ref. No. L-41011/93/2014-IR (B-I) dated: 24-11-2014

BETWEEN :

Anchal Sangthan Secretary
Rail Sevak Sangh
C/o Shri D.P. Awasthi
49, Tilak Nagar
Lucknow.

(Espousing cause of Sri Shanti Prasad)

AND

1. Sr. Divisional Personnel Officer
North Eastern Railway
DRM Office, Ashok Marg
Lucknow.
2. The Chief Medical Superintendent
North Eastern Railway
Gonda (UP)

AWARD

1. By order No. L-41011/93/2014-IR(B-I) dated: 24.11.2014, the Central Government in the Ministry of Labour, New Delhi in exercise of powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) referred this industrial dispute between Anchal Sangthan Secretary, Rail Sevak Sangh, C/o Shri D.P. Awasthi, 49, Tilak Nagar, Lucknow and Sr. Divisional Personnel Officer, North Eastern Railway, DRM Office, Ashok Marg, Lucknow & the Chief Medical Superintendent, North Eastern Railway, Gonda (UP) for adjudication.

2. The reference under adjudication is:

“क्या पूर्वोत्तर रेल प्रशासन, लखनऊ द्वारा श्री शांति प्रसाद पुत्र श्री महादेव, एलसी/कपलिंग पोर्टर, व गोंडा को पुरानी पेंशन का लाभ न दिया जाना न्यायोचित एवं वैध है? यदि नहीं तो कामगार किस राहत को पाने का हकदार है?”

3. On receipt of the reference order the workman's union was issued registered notice to file his statement of claim complete with relevant documents, list of reliance and witnesses before Tribunal on 20.01.2015 with an advance

copy to the opposite party. The Secretary of the workman's union appeared before this Tribunal and requested for a date for filing of statement of claim.

4. On successive dates the management also turned up. Since the case was related to grant of old pension scheme instead of new pension scheme, the parties were advised to settle the dispute amicably through Lok Adalat. Accordingly, the case was taken up at Lok Adalat on 19-06-2015.

5. On 19-06-2015 the opposite parties were represented by Shri Upendra Kumar Sharma, Chief Welfare Officer.

6. The opposite party filed M-4, letter signed by Sri P.B. Prasad, Senior Divisional Personnel Officer, North Eastern Railway, Lucknow, enclosing circular No. 2012/F(E)III/I(I)/2 dated 29-10-2014 of the Railway Board. The management in letter M-4, referring circular dated 29-10-2014 has stated that the Railway Board, New Delhi vide their circular dated 29-10-2014 has directed to cover the employees who got temporary status prior to 01-01-2004 may be covered under Old Pension Scheme.

7. A copy of the M-4 was furnished to the workman's union. The authorized representative of the workman's union sought time to consult the workman; and accordingly, the case was taken up on 18-03-2016 at Lok Adalat. The Authorized representative of the workman's union, Shri D.P. Awasthi after going through the contents of letter, M-4 and circular dated 29-10-2014 showed willingness to withdraw the present industrial dispute being claim settled; and made an endorsement thereupon as under:

"Since the demand of union has been accepted by the Railway management hence further proceeding in concerned matter is not liable to be proceeded further."

8. In view of the submission/endorsement of the workman's union for dropping of the proceedings, there is no grievance left with the workman's union as the present industrial dispute pertains to non-grant of old pension to the workman by the railway management and the management of the railway has granted the same vide circular 2012/F(E)III/I(I)/2 dated 29-10-2014 of the Railway Board. Resultantly, the industrial dispute stands settled; and no relief is required to be given to the workman concerned. The reference under adjudication is answered accordingly.

9. Award as above.

LUCKNOW.

31st March, 2016.

RAKESH KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 2 मई, 2016

का.आ. 840.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स सदभाव इंजीनियरिंग लिमिटेड के प्रबंधन के संबंध निर्यातकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-1, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 28/2014) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-43011/11/2013-आईआर (एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd May, 2016

S.O. 840.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 28/2014) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-1, Dhanbad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Sadhbhav Engineering Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 28-04-2016.

[No. L-43011/11/2013-IR(M)]

NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 1, DHANBAD

IN THE MATTER OF A REFERENCE U/S 10(1) (D) (2A) OF I.D. ACT, 1947.

Ref. No. 28/2014

Employers in relation to the management of M/S Sadhbhav Engineering Ltd.

And

Their workmen

Present:- Sri Ranjan Kumar Saran, Presiding Officer

Appearances:

For the Employers (Contractor) : Sri S.N.Goswami, Advocate

For the UCIL (Principle Empl.) : Sri P.R.Rakshit Advocate

For the workman : Sri K.K. Mishra, Advocate.

State : Jharkhand

Industry : Uranium Mines

Dated : 19/04/2016

AWARD

By Order No.L-43011/11/2013-IR (M), dated-20/02/2014, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following disputes for adjudication to this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the action of the contractor M/S Sadhbhav Engineering Ltd. Denying re-employment of 226 retrenched workmen of old contractor is justified? Then what relief the concerned retrenched workmen are entitled to?”

Note:- List of workman at the end of the award (enclosed)

2. The case is received from the Ministry of Labour on 13.03.2014. After receipt of the reference, both parties are noticed. The sponsoring Union files their written statement on 26.03.2014. Thereafter the management files their written statement-cum-rejoinder on 08.07.2014. No witness from each side examined. But documents of both side filed
3. The case of the workman is that the M/S Sadhbhav Engineering Ltd is a Contractor who has been awarded a contract in UCIL Bandhuhurang Open Cast Mines Unit, Jamshedpur for six years i.e from July 2013 to June 2019. Prior to that the same workman were awarded same work by Somaya for the period from May 2005 to January 2010, and thereafter the same work awarded by UCIL to M/S Gulf Oil Corporation Ltd as contract job.
4. It is further submitted by the workman that the contractor M/S Gulf Oil Corporation Ltd was awarded contract job by UCIL for removal of over burden, waste and excavation of Uranium Ore open cast mines of Bandhuhurang for 4 years i.e from the year 2010 to March 2014.
5. It was agreed by the management of UCIL in principle that the contractor will change but the workmen will be absorbed by the new contractor for the job awarded to him. This practice was in vogue since a long time and accordingly when the job of Somaya was completed, The workmen were engaged with M/S Gulf oil Corporation and since then the workmen continued with their job. Thereafter expiry of the contract period of M/S Gulf Oil Corporation, the workmen were entitled to be absorbed by M/S Sadhbhav Engineering Ltd who was succeeded by M/S Gulf Oil Corporation.
6. It is further submitted by the workmen that all workmen was local people whose land including homestead land had been acquired by the Govt. of India for UCIL, and due to this facts M/S UCIL has included at Sl. NO. 23 of the worker under new contractor. But M/S Sadhbhav Engineering Ltd denied the engagement of workmen in defiance to the earlier arrangement/agreement with malafide intention and also ignored U/S 25 F of I.D Act. Hence dispute arose.
7. On the other hand, the case of the management is that all the 226 retrenched workmen of old contractor were neither employed by M/S Sadhbhav Engineering Ltd nor JKMU who is representing these workmen has got any nexus, relation with M/S Sadhbhav Engineering Ltd. and the action of M/S Sadhbhav Engineering Ltd denying / not considering the matter of 226 retrenched workmen of old Contractor can not be termed in gross violation of any provision of I.D Act and all retrenched workmen has already taken retrenchment benefits from old contractor hence they are not entitled for re-employment under the parameter of law.
8. It is also submitted by the M/S Sadhbhav Engineering that he has engaged labourers as per requirement by giving reasonable opportunity to local condition under permissible man power, hence the action of M/S Sadhbhav Engineering Ltd cannot be termed as illegal.
9. It is further submitted by M/S Sadhbhav Engineering that the principal employer UCIL and Old contractor are necessary party because they are only responsible for re-employment of these 226 retrenched workmen. M/S Sadhbhav Engineering has separate legal entity has to implement and comply the provision of agreement mentioned in tender

document has to perform work order as assigned respecting mining operation and there is no clause or provision finds place to engage 226 or any number of retrenched workmen of old contractor, who has already taken retrenchment benefits from old contractor GOCL.

10. The concerned workmen were working under the UCIL, supplied by Contractor M/S Gulf Oil Corporation Ltd. of Hyderabad. Subsequently Gulf Oil Corporation Ltd left the contract work and M/S Sadhbhav Engineering Ltd Supplied workmen to UCIL. But Sadhbhav Engineering did not engage the previous workman of Gulf Oil Corporation Ltd. Who said to have engaged the workmen for last twenty years. UCIL was added as a party and asked to engage the workmen who denied the same. But the local people whose land including homestead land had been acquired by the Govt. of India for UCIL are now on street. In this context, order of Supreme Court in

1986 STPL (LE) 12479 SC, R.K. Panda Vs Steel Authority of India is quoted below:-

**Whenever the new contractor, authority of the Rourkela Steel Plant operating under the respondent
I may instruct that the employees as far as possible would continue.**

Xxxxx

**We Suggest that the steel authority of India and the management of
Rourkela Steel Plant would keep in view.**

Xxxxx

11. It is now learnt that M/S Sadhbhav Engineering has already taken 36 workmen from the present list under reference and already given them job. Now it is ordered to Sadhbhav Engineering Ltd. to do well to engage rest of workmen in the work, from the list under the reference, and management to monitor the same keeping in view of local condition.

List of workmen

No.	Employee Name	Father Name	Village	Date of Join BND	Designation
1	Ajay Nayak	Suresen Nayak	Turamdih	25-Mar-10	Helper Trip Counter
2	Ajit Hembrom	Dikuram Hembram	Nandup	1-Oct-08	Welder
3	Ajit Kumar Mahato	Tilochon Mahato	Jambani	1-Apr-07	Volvo Driver
4	Akash Pareya	Dabru Pareya	Turamdih	5-Oct-10	Helper Electrician
5	Anil Tudu	Ghasiram Tudu	Talsa	9-Apr-07	Helper Volvo
6	Anup Kumar Pandit	S.K Pandit	Parsudih	3-Nov-07	Volvo Driver
7	Arjun Diggi	Kande Hoe	Nandup	24-Mar-10	Helper Dozer
8	Arjun Lohar	Bagh Singh Lohar	KherwaDungri	23-Mar-10	Helper Volvo
9	Arjun Roy	Kisto Roy	Bayangbil	1-Apr-10	Volvo Driver
10	Avinash Chandra Tiwari	Dinesh mani	Haludbani	7-May-12	Ex. Mechanic
11	Azhar Hussain	Miraz Hissain	Mushaboni	4-Jul-10	Tyre Mechanic
12	Bablu Bidiuli	Late Ruibu Budiuli	Talsa	7-Mar-06	Tyre Mechanic
13	Bablu Bidiuli	Paikari Bidiuli	Purihasa	27-Jul-10	Helper Volvo
14	Bablu Hoe	Rana Singh Hoe	Nandup	3-Jan-08	Volvo Driver
15	Babu Ram Hembram	Baila Hembram	Dhodanga	23-Mar-10	Helper Excavator
16	Babulal Murmu	Thakur Murmu	Talsa	22-Nov-06	Oprator Drill
17	Babulal Murmu (New)	Diku Murmu	Talsa	6-Oct-10	T/W Supervisor

18	Baburai Murmu	Surai Murmu	Talsa	16-Oct-07	Oprator Dozer
19	Badabishu Hembrom	Budgu Hembrom	Talsa	23-Mar-10	Helper Survey
20	Balram Majhi	Late Lakhan Majhi	Tentlatola Chardiha	3-Jan-08	Volvo Driver
21	Balram Roy	Kishto Roy	Bayangbil	26-Mar-10	Helper Time Office
22	Banmali Soren	Ramdas Soren	Aharghutu	23-Mar-10	Welder
23	Bhagmat Murmu (New)	Mangal Murmu	Talsa	5-Oct-10	Helper Volvo
24	Bhagmat Tudu	Late Ramu Tudu	Dhodanga	24-Mar-10	Helper Pump
25	Bhim Soren	Gumda Soren	Jondragoda	23-Mar-10	Helper Drilling
26	Bhogen hembrom	Rakhal Hembrom	Hitku	18-Apr-10	Volvo Driver
27	Bhogla Hansdah	Ramrai Hansda	Purihasa	6-Oct-10	Helper Volvo
28	Bhokta Hansdah	Lt. Ramswarup Hansdah	Purihasa	1-Oct-06	Helper Excavator
29	Bhokta Hansdah(New)	Suku Hansda	Purihasa	5-Oct-10	Helper Electrician
30	Bholanath tudu	Umesh Ch. Tudu	Rakha Copper	9-Apr-10	Volvo Driver
31	Bijay Kumar Murmu	Late Kanhailal Murmu	Chhukripara	24-Sep-07	Oprator Drill
32	Binod Hembrom	Late Palu Hembrom	Talsa	23-Mar-10	Helper Blasting
33	Birendra Tudu	Late Fagu Tudu	Purihasa	27-Jul-07	Helper Exc Victor
34	Birendranath Soren	Late Samu Soren	Jondragoda	31-Dec-07	Helper Drilling
35	Birju Hembram	Late SR Hembram	Dhodanga	6-May-08	Helper Excavator
36	Bishnu Mardi	Thakur Mardi	Nildungri	18-Apr-10	Volvo Driver
37	Brihaspati Karmakar	Late Dashrath Karmakar	Nildungri	18-Apr-10	Volvo Driver
38	Chandra Mohan Baskey	Late Tuklu Baskey	Chota Talsa	16-Oct-07	Tyre Mechanic
39	Charan Murmu	Rinchu Murmu	Ahargutu	1-May-08	Helper Blasting
40	Chhatu Bhumij	Isup Bhumij	Hulubani	3-Jan-08	Volvo Driver
41	Chhoteray Sardar	Late Purno Sardar	Jondragoda	20-Oct-08	Auto ellectrician
42	Chhoturay Tudu	Late Ramrai Tudu	Dhodanga	12-Apr-10	Helper Reliever
43	Choteram Soren	Late Fatu Soren	Talsa	23-Mar-10	Helper Dozer
44	Dashrath Murmu	Jyotindra Murmu	Talsa	24-Dec-07	Oprator Excavator
45	Daso Murmu	Chandrai Murmu	Dhodanga	1-May-08	Helper Time Office
46	Dhaniram Mahato	Late RN Mahato	Kadamdih	10-Apr-07	Volvo Driver
47	Dhano Murmu	Late Diku Murmu	Talsa	18-May-07	Helper Volvo
48	Dhanu Kisku	Jadunath Kisku	Kerwadungri	24-Mar-10	Helper Volvo
49	Dharmu Baskey	Late Hikim Baskey	Talsa	1-Oct-08	Oprator Dozer
50	Dhiren Sundi	Late Sukra Sundi	Jondragora	23-Nov-08	Welder

51	Diku Murmu (A)	Bhada Murmu	Talsa (Dungridih)	5-Oct-10	Helper Volvo
52	Diku Murmu (B)	Late Buju Murmu	Talsa	5-Oct-10	Helper Volvo
53	Dilip murmu	Late GR Murmu	Talsa	1-Oct-08	Helper Volvo
54	Dinu Gour	Lt. Purna Chandra Gour	Nildungri	18-Apr-10	Volvo Driver
55	Dogol Diggi	Somay Diggi	Nandup	24-Mar-10	Helper Reliever
56	Dogol Diggi	Gudu Hoe	Nandup	24-Mar-10	Helper Trip Counter
57	Doman Kisko	R. Kisku	Krishnapur	1-Sep-07	Oprator Drill
58	Dubraj Baskey	Late Hopan Baskey	Purihasa	5-Oct-10	Helper Electrician
59	Duka Murmu	Late Thongo Murmu	Aharghutu	23-Mar-10	Helper Crusher
60	Dukhiya Hembrom	Lakhan Hembrom	Somaijhupri	1-Oct-08	Helper Volvo
61	Dula Ram Murmu	Chope Murmu	Aharghutu	23-Mar-10	Helper Hopper
62	Dula Soren	Kunwar Soren	Purihasa	1-Oct-08	Helper Dozer
63	Durga Hansdah	Late Paraw Hansdah	Dhodanga	23-Mar-10	Helper Pump
64	Eliyas Topno	Late Samuel Topno	Jondnagora	3-Nov-07	Volvo Driver
65	Fagu Hansdah	Khudi Ram Hansda	Talsa	1-Aug-07	Volvo Driver
66	Fagu Murmu	Late Mora Murmu	Chhota Talsa	31-Dec-07	Helper Blasting
67	Gaji Murmu	Bhuju Murmu	Talsa	16-Oct-07	Helper Exc Victor
68	Ganesh Hoe	G. Hoe	Chhota Talsa	1-Aug-07	Volvo Driver
69	Ganesh Murmu	Bhandram Murmu	Kulla Balliya	5-Apr-10	Volvo Driver
70	Ganesh Soren	Late Chaitan Soren	Bhitardari	1-Jan-08	Helper Excavator
71	Gardi Ho	Bodhram Hoe	Nandup	24-Mar-10	Helper Volvo
72	Ghono Hoe	Late Bharat Hoe	Nandup	23-Mar-10	Helper Drilling
73	Ginuram Soren	Thakurdas Soren	Bhatin	3-Jan-08	Volvo Driver
74	Gobind Mardi	Sanathan Mardi	Dhodanga	1-May-08	Helper
75	Gopinath Hansda	Late Jairam Hansda	Purhasa	1-Oct-06	Oprator Excavator
76	Gudra Tudu	Late Ramu Tudu	Bhadudih	26-Dec-06	Helper Blasting
77	Gunai Diggi	Munda Diggi	Nandup	23-Mar-10	Helper Crusher
78	Gunai Guiya	Late Nepali Guiya	Nandup	24-Mar-10	Welder
79	Gurlu Tiu	Bhonjo Tiu	Bayangbil	27-Mar-10	Helper Dozer
80	Gurucharan Karmakar	Late Motilal Karmakar	Bayangbil	3-Jan-08	Volvo Driver
81	Hari Hansdah	Pitno Hansdah	Dhodanga	26-Mar-10	Helper Pump
82	Hari pado karmakar	Shibu Karmakar	Nildungri	18-Apr-10	Volvo Driver
83	Hari Pado Mahato	Mathur Mahato	Rakha (Kulgoda)	14-Apr-10	Volvo Driver

84	Hemanto Kumar Das	Rash Bhihari Das	Baghmara	6-May-08	Helper Volvo
85	Hopon Budiuli	Late Ruibu Budiuli	Talsa	4-Jun-09	Helper Volvo
86	Jadu Hansdah	Late Paraw Hansdah	Dhodanga	23-Mar-10	Helper Blasting
87	Jadunath Murmu	Late Bhada Murmu	Ahargutu	1-Oct-08	Helper Drilling
88	Jaganath Hansda	Narayan Hansda	Purihasa	1-Oct-08	Helper Volvo
89	Jagannath Hansda	Dibai Hansda	Jondragora	23-Mar-10	Helper Pump
90	Jairam Karmakar	Junu Karmakar	Nildungri	18-Apr-10	Volvo Driver
91	Jairnarayan Chawdhary	Ram Janam Chawdhary	Sunder Nagar	23-Mar-10	Volvo Driver
92	Jasai Soren	Late JN Siren	Manhara	15-May-05	Volvo Driver
93	Jasai Soren	Jitu Soren	Dhodanga	1-Oct-08	Helper Drilling
94	Jayram Hoe	Mr. Turam Hoe	Tilaitand	22-Jun-05	Helper Blasting
95	Jhukru Diggi	Late Tungu Diggi	Nandup	23-Mar-10	Helper Crusher
96	Jiten Lohar	Late Mahender Lohar	Sunder Nagar	1-Jan-07	Helper Excavator
97	Jivan Tudu	Bhagmat Tudu	Dhodanga	23-Mar-10	Helper Crusher
98	Johan Tudu	Late Karu Tudu	Talsa	24-Mar-10	Helper Crusher
99	Joyanto Sardar	Shibeshwar Sardar	Rashunchopa	31-Dec-07	Helper Volvo
100	Kali Ram Mardi	Late Bandu Ram Mardi	Kacha	23-Mar-10	Helper Volvo
101	Kalicharan Murmu	Basu Murmu	Talsa	8-Jul-05	Helper Blasting
102	Kameshwar Singh	Late Rambacha Singh	Rakha Copper	9-Apr-10	Blaster
103	Kande Diggi	Late Ruinu Hoe	Nandup	23-Mar-10	Helper Survey
104	Kandra Mardi	Parmal Mardi	Bhutka	1-Oct-08	Helper Volvo
105	Karan Mardi	Raghunath Mardi	Talsa	6-Mar-08	Helper Electrician
106	Karthik Prasad Sharma	Bankim Chandra Dash	Haludpukur	2-Dec-05	Blasting
107	Khela Tudu	Late Chhaku Tudu	Bhadudih	5-Oct-10	Helper Volvo
108	Khelaram Tudu	Late Magat Tudu	Purihasa	9-Jul-07	Helper Excavator
109	Kishun Murmu	Late Madra Murmu	Aharghutu	23-Mar-10	Helper Electrician
110	Kokil Nayak	Late Lakhindra Nayak	Turamdih	25-Mar-10	Helper Crusher
111	Kripa Sindhu Lohar	Charan Lohar	Sunder Nagar	1-Jan-07	Oprator Excavator
112	Krishna Besra	Ramu Basra	Purihasa	24-Apr-10	Welder
113	Krishna Hembrom	Lasro Hembrom	Talsa	6-Feb-08	Supervisor
114	Kushal Hembrom	Thakura Hembrom	Ghasiadih	1-Oct-08	Helper Blasting
115	Kushnu Mardi	Late Mohan Mardi	Aharghutu	23-Mar-10	Helper Trip Counter
116	Lakhan Besra	Late Supai Besra	Chhota Talsa	4-Apr-07	Helper Volvo
117	Lakhan Kunkal	Late Kanai Kunkak	Nandup	24-Mar-10	Helper Blasting

118	Lakhan Tudu	Bajal Tudu	Aharghutu	23-Mar-10	Helper Trip Counter
119	Lakhindra Hansdah	Mokro hansdah	Kacha	23-Mar-10	Helper Exc Victor
120	Lakhindra Murmu	Late Lakhan Murmu	Ghasiadih	1-Jan-08	Oprator Excavator
121	Lal Hembram	Dulu Ram Hembram	Dhodanga	1-Jan-08	Helper Trip Counter
122	Laxman Hembrom	Lt. Palu Ram Hembrom	Hake Gora	26-Dec-06	Supervisor
123	Lengra Hansdah	Late Dorga Handsah	Bhudrudih	1-Nov-05	Office Sweeper
124	Logen Hansdah	Late Baghri Hansdah	Nandup	31-Dec-07	Helper Excavator
125	Madan Hansdah	Kanu Hansdah	Gantaidih	3-Jan-08	Volvo Driver
126	Mahadev Kisku	Late Kisto Kisku	Nildingri	12-Mar-06	Volvo Driver
127	Majheswar Murmu	Late Narsingh Murmu	Purihasa	27-Jul-07	Volvo Driver
128	Mangal Hembrom	Sokha Hembrom	Jondragora	1-Oct-08	Helper Volvo Office
129	Mangal Kunkal	Late Bharat Kunkal	Chhota Talsa	16-Oct-07	Helper Exc Victor
130	Mangal Mardi	Udai Mardi	Aharghutu	23-Mar-10	Helper Crusher
131	Manik Lohar	Late Gangadhar Lohar	KherwaDungri	23-Mar-10	Helper Volvo
132	Manish Sundi	Lakhinarayan Sundi	Neeldungri	23-Mar-10	Helper Pump
133	Manoj Pramanik	Kalidas Pramanik	Purihasa	5-Oct-10	Office
134	Mansingh Soren	Loso Soren	Purihasa	5-Oct-10	Helper Electrician
135	Manu Hembrom	Sri Galu Hembrom	Talsa	27-Jul-07	Helper Volvo Office
136	MD.Sansujama	Md.Israil	Haldipokhar	4-Jan-11	Auto ellectrician
137	Miraz Hussain	Sk. Joshan Ali	UCIL Narwa Colony	10-Jul-06	Volvo Driver
138	Modi Murmu	Late Mahendar Murmu	Purihasa	5-Oct-10	Time Keeper
139	Motilal Mahato	Late Sahadev Mahato	Kadamdih	27-Jul-07	Volvo Driver
140	Mukru Munda	Late R. Munda	Huldipuklur	5-Dec-06	Volvo Driver
141	Muniram Mardi	Sangram Mardi	Talsa	23-Mar-10	Helper Blasting
142	Munna Hembram	Bishu Hembram	Talsa	31-Dec-07	Helper Volvo
143	Murli Manohar Mahakund	Gokul Mahakud	Purihasa	7-Jul-07	Helper Volvo
144	Nabin Hansda	Late Jagannath Hansdah	Purihasa	26-Dec-06	First-Aid
145	Naran Chaki	Rasu Hoe	Nandup	23-Mar-10	Helper Crusher
146	Naran Guiya	Late Bahadur Hoe	Nandup	23-Mar-10	Helper Office
147	Nimai Mardi	Shyam Mardi	Chhota Talsa	6-May-08	Volvo Driver
148	Niranjan Tiwari	Umakanth Tiwari	Turamdih	7-Feb-07	Helper Electrician

149	Oram Majhi	Late Daso Majhi	Purihasa	24-Sep-07	Blasting Helper
150	Pantu Kunkal	Late Kala Kunkal	Talsa	5-Jan-06	Helper Volvo
151	Paplu Samad	Salkhan Samad	Turamdih Colony	23-Mar-10	Helper Survey
152	Pitamber Tudu	Late Kade Tudu	Talsa	23-Mar-10	Helper Arch Room
153	Pitho Soren	Mr. Sakla Soren	Chhota Talsa	8-Jul-08	Helper Survey
154	Prabhat Kumar Sah	Biswanath Pd. Sak	Jaintgarh	17-Apr-10	Volvo Driver
155	Pradhan Murmu	Gumda Murmu	Talsa	16-Oct-07	Electrician
156	Rahul Diggi	Ghasiya Diggi	Nandup	23-Mar-10	Helper Volvo
157	Raja Ram Hansdah	Karan Hansdah	Purihasa	1-Aug-07	Helper Volvo
158	Raja Sawaya	Ramu Sawaya	Nandup	31-Dec-07	Helper Blasting
159	Rajesh Kumar Purty	Late Kali Charan Purty	Nildungri	7-Nov-06	Volvo Driver
160	Rajkishore Hembram	Suna Ram Hembram	KherwaDungri	23-Mar-10	Helper Trip Counter
161	Raju Soren	SitalSoren	Kerwadungri	25-Mar-10	Helper Volvo
162	Rakesh Soren	Late Suresh Soren	Gaitadih	31-Jul-07	Helper Excavator
163	Ram Baskey	Late Mohan Baskey	Chhota Talsa	23-Mar-10	Helper Volvo
164	Ram Hansdah	Late Dorga Handsah	Bhudrudih	5-Jul-05	Office Sweeper
165	Ranjan Namata	Noren Namata	Haludbani	27-Jul-07	Volvo Driver
166	Ranjit Karmakar	Late Nimai Karmakar	Kerwa Dungri	14-Apr-10	Volvo Driver
167	Rengo Bari	Jagannath Bari	Purihasa	5-Oct-10	Helper Electrician
168	Rohit Hansdah	Mora Hansdah	Dhodanga	28-Mar-10	Helper Time Office
169	Sadan Diggi	Guna Hoe	Nandup	25-Mar-10	Helper DumpYard
170	Sadu Hoe	Late Kande Hoe	Nandup	23-Mar-10	Helper Exc Victor
171	Saheb Murmu	Late Mohan Murmu	Chirugona	18-Jun-08	Asst. Mechanic
172	Sakla Mardi	Late Masang Mardi	Raipahari	7-Apr-10	Helper Trip Counter
173	Sakla Soren	Late Khelaram Soren	Marchagoda	1-Apr-06	Helper Excavator
174	Salkhan Tudu	Gopal Chandra Tudu	Lowadih	5-Dec-06	Volvo Driver
175	Samu Besra	Late Salai Besra	Kuvadah	20-Oct-08	Helper Excavator
176	Sangram Murmu	Diku Murmu	Chhota Talsa	1-Nov-07	Asst. Mechanic
177	Sanjay Murmu	Late Sunder Murmu	Jondragoda	8-Apr-07	Helper Volvo
178	Sastri Guiya	Late Huda Hoe	Nandup	23-Mar-10	Helper Trip Counter
179	Sawana Tudu	Dhanu Tudu	Dhodanga	23-Mar-10	Helper Volvo

180	Sawna Murmu	Late Doman Murmu	Talsa	24-Mar-10	Helper Drilling
181	Shaktipado Das	Late Binay Krishna Das	Murghaghutu	20-Oct-08	Helper Dozer
182	Shankar Singh	Shivnath Singh	Bayangbil	12-Apr-10	Volvo Driver
183	Shastri Bodra	Late Kudrai Bodra	Turamdih	24-Mar-10	Mechanic Drill
184	Shastri Godsora	Late Lokhiram Godsora	Bindapur	23-Mar-10	Helper Exc Victor
185	Shibcharan Tudu	Late Rameshwar Tudu	Bingburu	20-Oct-08	Helper Blasting
186	Shivcharan Diggi	Guddu Hoe	Nandup	25-Mar-10	Helper Drilling
187	Shyamalal Korah	Budhram Korah	Tepasai	14-Apr-10	Volvo Driver
188	Shyamlal Soren	Sunaram Soren	Baghmera	6-May-08	Helper Excavator
189	Shyamo Prasad Roy	Late M.N Roy	Kudada	20-Oct-08	Helper Drilling
190	Sidam Gaur	Late Puran Ch. Gaur	Magarkela	1-Feb-09	Volvo Driver
191	Sigrai Soren	Late Somay Soren	Tuibasa	31-Dec-07	Oprator Excavator
192	Simal Hansda	Late Durga Hansda	Ghasiadih	5-May-08	Helper Blasting
193	Subhash Chandra Hembrom	Salkhan Hembrom	Kedo	1-Aug-07	Volvo Driver
194	Sugda Murmu	Chandrai Murmu	Kumhirmundi	1-Jan-07	Volvo Driver
195	Sukhlal Baskey	Sunaram Baskey	Parulia	1-Jul-10	Helper Office
196	Sukhlal Godsora	Late Birsingh Godsora	Bindapur	25-Mar-10	Helper Volvo
197	Sukra Sidhu	Madhal Sidhu	Bayangbil	1-Jan-08	Volvo Driver
198	Suna Ram Hansdah	Anantha Hansdah	Kacha	23-Mar-10	Helper Time Office
199	Suna Ram Murmu	Late Kisnu Murmu	Banduhurang	23-Mar-10	Helper Crusher
200	Sunaram Murmu	Late Ramu Murmu	Bhursaghutu	3-Nov-07	Volvo Driver
201	Sunder Hembram	Cheitan Hembram	Aharghutu	23-Mar-10	Helper Welding
202	Sunil Hembrom	Ram Hembrom	Aharghutu	23-Mar-10	Helper Excavator
203	Sunil Kumar	Kamala Prasad	Narwapahar	1-Apr-10	Volvo Driver
204	Sunil Murmu	Bhuju Murmu	Talsa	23-Mar-10	Helper Volvo
205	Sunil Ugersundi	Late- Bablu Sundi	Aaharghutu	1-Jun-12	Office boy
206	Sunny Pariya	Sadhu Charan Pariya	Ghasiadih	6-May-08	Helper Blasting
207	Sunny Soren	Mansingh Soren	Ekladih	20-Oct-08	Helper Arch Room
208	Supai Hansda	Khudi Ram Hansda	Talsa	3-Nov-07	Volvo Driver
209	Supai Soren	Salhai Soren	Sarjomda	25-Jul-05	Volvo Driver
210	Surai Besra	Late- Mohan Besra	Chhota Talsa	20-Feb-12	Diploma Engg.
211	Suraj Mahato	Gourango Mahato	Baistamdih	10-Apr-07	Volvo Driver
212	Surdhan Handsah	Late Champai Handsah	Tilaitandi	8-Apr-10	Volvo Driver

213	Surendra Kalindi	Late Rameshwar Kalindi	Sunder Nagar	6-Mar-06	Volvo Driver
214	Susanto Kumar Mahato	Late Kusha Mahato	Kadamdih	1-Dec-06	Volvo Driver
215	Susen Ho	Late Mansinh Ho	Dhatkidih	23-Mar-10	Helper Crusher
216	Sushil Kisku	Jeetarai Kisku	KherwaDungri	23-Mar-10	Helper DumpYard
217	Thakur Hembrom	Bishu Hembram	Talsa	27-Jul-07	Asst Mechanic
218	Tulsi Majhi	Ghasi Ram Majhi	Purihasa	27-Jul-07	Volvo Driver
219	Tungu Diggi	Late Birju Diggi	Nandup	23-Mar-10	Helper Trip Counter
220	Tupi Ram Diggi	Late Dogol Hoe	Nandup	23-Mar-10	Helper Volvo
221	Turi Diggi	Late Porai Hoe	Nandup	25-Mar-10	Helper DumpYard
222	Uday Kunkal	Late Ghasia Kunkal	Nandup	31-Dec-07	Helper Volvo
223	Ummin Hembram	Bhuti Hembram	Talsa	23-Mar-10	Helper Drilling
224	Vikram Soren	Baghai Soren	Dhodanga	23-Mar-10	Helper Volvo
225	Vishwakarma Tudu	Late Ramu Tudu	Keruvadunagari	23-Mar-10	Helper Crusher
226	William David Bodra	A. Bodra	Birsanagar	1-Aug-06	Volvo Driver

This is my award.

R. K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 2 मई, 2016

का.आ. 841.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स मनोहरपुरा चिरा ओर माइन्स के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-1, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 06/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-26011/13/1999-आईआर (एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd May, 2016

S.O. 841.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 06/2000) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-1, Dhanbad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Manoharpur Chiria Ore Mines and their workman, which was received by the Central Government on 28-04-2016.

[No. L-26011/13/1999-IR(M)]

NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 1, DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d) (2A) of I.D.Act. 1947

Reference: No. 6 of 2000

Employer in relation to the management of Manoharpur Chiria Ore Mines

AND

Their workmen

Present : Shri R.K. Saran, Presiding Officer.

Appearances:

For the Employers :- None

For the workman . :- None

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated- 18/04/ 2016

AWARD

By order No. L-26011 /13/1999-IR(M) dated 14/12/1999, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute for adjudication to this Tribunal:

SCHEDULE

Whether the action of the management of Manoharpur Ore Mines in not regularising the names of 28 workers and 5 Supervisor in form B Registeris justified? If not, to what relief the workmen are entitled?

Note:- List of workmen is not enclosed with order of reference.

2. After receipt of the reference, both parties are noticed. But the workman appears for certain dates. Subsequently the workman does not appears. Case remain pending. It is felt that the disputes between the parties have been resolved in the meantime. Hence No Dispute Award is passed. Communicate.

R. K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 2 मई, 2016

का.आ. 842.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 03/2009) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/32/2008-आईआर (एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd May, 2016

S.O. 842.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 03/2009) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-2, New Delhi now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Gas Authority of India Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 28-04-2016.

[No. L-30012/32/2008-IR(M)]

NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

ANNEXURE**CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT - II, DELHI****Present:-** Shri Harbansh Kumar Saxena**ID.No. 3/09**

Sh. Anil Khanna,
134, Pocket D-10,
Sector-7 , Rohini,
New Delhi -110085.

..... Workman

Versus

The Manager (HR),
Gas Authority Of India , Ltd., 16,
Bhikaji Cama Place,
R.K. Puram,
New Delhi -110066.

..... Management

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour Vide Letter No. L-30012/32/2008 (IR(M)) dated 29.01.2009 referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication :-

“Whether the action of management of GAIL (India) Ltd., in terminating the services of Sh. Anil Khanna is just and legal? What relief the workman is entitled to and from which date?”

On 9.2.2009 reference was received in this Tribunal. Which was register as I.D No.3/09 and claimant was called upon to file claim statement with in fifteen days from date of service of notice. Which was required to be accompanied with relevant documents and list of witnesses.

After service of notice workman filed claim statement on 15.04.2009. Where-in he prayed as follows:-

It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon’ble Court may be pleaded to set-aside the order of removal dated 22/24.01.2006 and also set-aside the charge-sheet dated 13.03.2003 with the order of the Appellate Authority dated 22.03.2007 and order of the reviewing authority dated 03.11.2007 and direct the management to re-instate the workman with immediate effect with continuity of service and with all consequential benefits and full back wages from the date of termination, till his re-instatement.

Pass any other order of relief which this Hon’ble Forum may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case in favour of the workman and against the management, in the interest of justice.

Against claim statement management filed written statement on 17.02.2010. Through which it prayed as follows:-

It is denied that the order of the removal dated 22/24.01.2005 and the chargesheet dated 13.03.2003 and the order of the Appellate Authority dated 22.03.2007 and order of the Reviewing Authority dated 03.11.2007 is liable to be set aside.

Further it is denied that the workman is to be reinstated with immediate effect with continuity of service and with all consequential benefits and full backwages from the date of the termination till his reinstatement.

In view of aforesaid facts and circumstances , it is most respectfully prayed that the claim of the workman is liable to be dismissed with exemplary costs.

Against which workmen filed rejoinder on 12.05.2010. Through which he reaffirmed the contents of claim statement.

My Ld. Predecessor on 10.08.2010 framed following issues:-

1. Whether the departmental enquiry conducted in this case was legal ,just and fair and was not in violations of the principles of natural justice? If not what directions are called for in this case?
2. As per the reference sent by the court of India in this case.
3. Relief.

Workman in support of his case filed his affidavit on 20.12.2010 . Several opportunities given to workman to cross-examination himself but he failed. So case adjourned to 18.02.2014 for management evidence.

Management in support of its case filed affidavit of MW1 Sh. Sh. Dinesh Xalxo on 22.07.2014 and on same day he tendered his affidavit. His statement of examination-in-chief as follows:-

I tender my affidavit . Which bears my signature at point “A” and “B”. Affidavit is marked MW1/A.

Attached documents MW1/1 to MW1/9.

Cross-examination nil as none to cross-examined on behalf of workman.

Management in support of its case filed affidavit of other management witness as MW2 Sh. P.K. Singhal.

On 3.2.2015 MW2 Sh. P.K. Singhal tendered his affidavit. His statement of examination-in-chief as follows:-

I tender in evidence my affidavit Exh. MW1/A. Which bears my signature at point X and Y. I also rely upon document Exh.MW1/1 to Exh. MW1/3 filed alongwith my affidavit.

XXX:- Cross-examination marked nil as none is present on behalf of workman to cross-examine the management witness.

I have heard the arguments of Ld. A/R for the management and perused the pleadings and evidence of management only. Claimant has adduced no evidence.

In the instant case workman/claimant adduced no evidence to prove contents of his claim statement. So pleadings without evidence cannot be relied upon as per settled law of Hon'ble Supreme Court.

Moreover statement of MW1 and MW2 supports the contents of written statement of management as statement of MW1 and MW2 is un rebutted in want cross-examination. So it comes within category of reliable and credible evidence.

In these circumstances, this Tribunal has no option except to decide the reference in favour of management and against workman.

Which is accordingly decided. Claim statement is accordingly dismissed.

Award is accordingly passed.

Dated:-29/03/2016

HARBANSH KUMAR SAXENA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 2 मई, 2016

का.आ. 843.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड और दूसरे के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 45/1995) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25.04.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29012/124/1994-आईआर (एम)]

नवीन कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd May, 2016

S.O. 843.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 45/1995) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Hindustan Zinc Limited and Other and their workman, which was received by the Central Government on 25-04-2016.

[No. L-2912/124/1994-IR(M)]

NAVEEN KAPOOR, Under Secy.

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 45/1995

(सीआईएस नंबर 19/2014)

रैफरेंस: भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक एल. 29012/124/94 आई.आर विविध, नईदिल्ली, दिनांक 12 जुलाई 1995 अध्यक्ष, टंगस्टन माईन्स मजदूर संघ।

... प्रार्थी

बनाम

1. जनरल मैनेजर, टी एण्ड डी, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर।
2. प्रोजेक्टर मैनेजर, डेगाना, टंगस्टन प्रोजेक्ट, डेगाना, जिला नागौर।

.. अप्रार्थीगण

उपस्थित**पीठासीन अधिकारी: श्रीमती शुभा मेहता, आर.एच.जे.एस.**

प्रार्थी की ओर से :

श्री फारूक बेग,

अप्रार्थीगण की ओर से :

श्री राजीव शर्मा, मनोज शर्मा

दिनांक 29.01.2016**अधिनिर्णय**

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की आज्ञा क्रमांक एल.एल. 29012/124/94 आई.आर विविध, नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई 1995 द्वारा निम्न अनुसूची का विवाद अधिनिर्णय हेतु इस अधिकरण के यहां दिनांक 2.8.95 को इस आशय का प्राप्त हुआ है कि – “क्या हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, डेगाना टंगस्टन प्रोजेक्ट, डेगाना के प्रबंधन द्वारा श्री मघाराम की दिनांक 8.7.93 से सेवामुक्ति का कृत्य वैध है ? यदि नहीं तो श्रमिक किस अनुतोष का अधिकारी है?”

प्रार्थीगण द्वारा एक स्टेटमेंट ऑफ क्लैम प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि अध्यक्ष, टंगस्टन माईन्स मजदूर संघ इस वाद में प्रथम पक्षकार है और मघाराम इस संघ का सदस्य है। हिन्दुस्तान जिंक लि. उदयपुर का जनरल मैनेजर तथा डेगाना टंगस्टन प्रोजेक्ट, डेगाना वाद में क्रमशः विपक्षी क्रम 1 व 2 हैं। केन्द्र सरकार ने मघाराम की अवैध सेवामुक्ति से संबंधित निर्णयार्थ अधिकरण को भिजवाया है।

प्रार्थी का यह भी अभिकथन है कि प्रार्थी/श्रमिक प्रार्थी संघ के गठन व स्थापना के समय से ही ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग लेता रहा है और संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है। नियोजक के इशारे पर एक अन्य श्रमिक संगठन का गठन किया गया, ताकि प्रार्थी संघ की कार्यवाहियों में अंकुश लगाया जा सके। दिनांक 4.6.91 को विपक्षी संस्थान और उसमें कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को समस्त लेनदारी व देनदारी पूर्व सेवा शर्तों तथा सेवा की निरंतरता के साथ तत्कालीन राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम ने अप्रार्थी हिन्दुस्तान जिंक लि. को हस्तांतरित कर दिया। दिनांक 4.6.91 को हस्तान्तरण के बाद भी संघ के सदस्यों तथा पदाधिकारियों का अत्याचार खुले रूप से किया जाने लगा और उनकी सेवायें येनकेन प्रकारेण समाप्त की जाने लगीं। प्रार्थी संघ के पदाधिकारियों एवं अग्रणी सदस्यों को सेवामुक्त करने के षडयंत्र के रूप में 14 कर्मकारों को विपक्षी संस्थान उदयपुर स्थित मैडिकल ऑफिसर से डाक्टरी जांच हेतु भेजा गया, जिसमें प्रार्थी कर्मकार मघाराम को शामिल किया गया। अप्रार्थीगण प्रबंधकगण के इशारे पर उक्त मैडिकल ऑफिसर ने उक्त सभी 14 कर्मकारों को सिलीकोसिस से पीड़ित करार दिया और उन पर त्याग पत्र देने का दबाव डाला। श्रमिक मघाराम ने इस परीक्षण के विरुद्ध अपील करने का निर्णय किया। क्योंकि वह दिनांक 1.4.78 से पहले से ही होलेज ओपरेटर का कार्य करता आ रहा है, जिसका कार्य माईन्स के बाहर होता है। गत तीन वर्षों से उसे जनरेटर ओपरेटर का कार्य करवाया जा रहा था और टंगस्टन माईन्स से जनरेटर तीन सौ मीटर की दूरी पर है। माईन्स 250 फीट गहरी है, जिससे माईनिंग कार्य से उड़ने वाली धूल ऊपरी सतह तक नहीं पहुंच पाती। अपीलीय मैडिकल बोर्ड धनबाद में श्रमिक मघाराम का परीक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट में निम्न अनुशंसा की – **Medically unfit for any employment or work which could lead to exposure to high concentration of dust.**

प्रार्थी कर्मकार के पूर्व व वर्तमान कार्य में dust के अधिक concentration का प्रश्न नहीं था, इसलिए प्रकरण समाप्त हो जाना चाहिए था। इसके बाद श्रमिक मघाराम ने प्राईवेट डाक्टर से भी जांच करवाई, जिसने अत्यधिक धूम्रपान से एक्सरे में दाग दिखाई देना बताया और सिलिकोसिस होना नहीं बताया। विपक्षी संख्या 2 ने अपने आदेश टी-527 दिनांक 7.7.93 द्वारा दिनांक 8.7.93 से मघाराम की सेवायें समाप्त कर दी। उसकी सेवायें यह कहते हुए समाप्त कर दी कि मैडिकल बोर्ड ने उसे माईंस के किसी भी कार्य के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है और उसकी अयोग्यता 70 प्रतिशत आंकी है। उसकी यह सेवामुक्ति पूर्णतया अवैध एवं अनुचित है, यह अत्याचार करने के लिए अनुचित श्रम व्यवहार है। उसे सेवामुक्ति से पूर्व अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर भी नहीं दिया गया और विपक्षी संख्या 2 उसके नियुक्ति अधिकारी भी नहीं है, इसलिए सेवामुक्ति के लिए सक्षम नहीं है। उसे एक माह का नोटिस, नोटिस वेतन एवं छंटनी का मुआवजा भी नहीं दिया गया और नियम 77-78 औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम 1957 की पालना नहीं की गई। प्रार्थी के स्वास्थ्य के संबंध में कभी कारण बताओ नोटिस भी नहीं दिया गया और वह कार्य करने के लिए पूर्णतया योग्य एवं सक्षम है। श्रमिक मघाराम को उसके समक्ष किसी अन्य कार्य पर समायोजित किया जा सकता था। इन सभी कारणों से उसका सेवा-पृथक्करण आदेश अवैध एवं अनुचित घोषित किया जावे और उसे सेवा-पृथक्करण दिनांक से संवैतनिक एवं निरंतर सेवा में लिया जावे।

विपक्षी संख्या 2 ने स्टेटमेंट आफ क्लेम का उत्तर प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि राजस्थान स्टेट टंगस्टन विकास निगम के टंगस्टन प्राजेक्ट डेगाना का हस्तान्तरण दिनांक 4.6.91 से केन्द्रीय उपक्रम मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि. को इकरारनामा के अंतर्गत किया गया था। इस हस्तान्तरण के फलस्वरूप टंगस्टन प्रोजेक्ट डेगाना में नियोजित श्रमिकों/कर्मचारियों की सेवायें, जिनमें मघाराम भी शामिल हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25(FF) के अंतर्गत हिन्दुस्तान जिंक लि. को इसी दिनांक से हस्तांतरित कर दी गई। उनका अभिकथन है कि खान नियमों में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रार्थी का स्वास्थ्य परीक्षण उदयपुर स्थित मैडिकल संस्थान द्वारा दिनांक 4.6.92 को करवाया गया, जिसमें उसे सिलिकोसिस रोग से ग्रस्त होना पाया गया। यह बीमारी व्यवसायिक बीमारी है। स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट दिनांक 12.6.92 को मघाराम को दी गई। मघाराम या किसी श्रमिक पर त्याग पत्र देने के लिए दबाव नहीं डाला गया। मघाराम ने अपीलेट मैडिकल बोर्ड द्वारा अपने स्वास्थ्य के पुनः परीक्षण के लिए निवेदन किया। दिनांक 2.7.92 को उसका पुनः स्वास्थ्य परीक्षण मैडिकल बोर्ड द्वारा किया गया व मघाराम को नीमोकोनीओसिस रोग से ग्रस्त पाया गया व खदान में किसी भी नियोजन के लिए योग्य नहीं पाया। स्पष्ट है कि मघाराम रोगग्रस्त होने से कार्यक्षमता खोने के कारण नियोजन के अनुसार कार्य करने योग्य नहीं रहा। उनका अभिकथन है कि माईनिंग डस्ट का प्रभाव समस्त माईनिंग क्षेत्र में रहता है। उनका यह भी अभिकथन है कि मैडिकल बोर्ड से परीक्षण होने के बाद प्राईवेट डाक्टर से परीक्षण का कोई महत्व नहीं है। वास्तविकता में मैडिकल बोर्ड ने श्रमिक की कार्य क्षमता में 70 प्रतिशत की हानि आंकी थी। प्रार्थी की सेवामुक्ति दिनांक 7.7.93 को की गई और साथ ही उसे चैक से 32,771 रुपये 35 पैसे का भुगतान ग्रेज्युटी व बकाया संवैतनिक अवकाश के प्रति किया गया था, जो उसने प्राप्त कर लिया। कार्यक्षमता में 70 प्रतिशत की हानि के प्रति कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की राशि 63,479 रुपये 50 पैसे का भुगतान भी उसे किया गया। इस राशि को भी मघाराम ने बिना आपत्ति के प्राप्त किया और इस प्रकार से उसने अपनी सेवामुक्ति स्वीकार की। प्रार्थी की सेवामुक्ति उसकी कार्यक्षमता में हानि के कारण की गई थी। यह सेवामुक्ति छंटनी नहीं है। इस कारण औद्योगिक विवाद अधिनियम 1958 के नियम 77-78 की पालना का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रार्थी श्रमिक को माईंस संस्थान में नियोजित रहने के सर्वथा अयोग्य हो जाने के कारण उसकी सेवा समाप्त की गई हैं और उसने इसके अंतर्गत समस्त राशि ग्रेज्युटी क्षतिपूर्ति आदि प्राप्त की हैं। प्रार्थी की सेवामुक्ति विधिपूर्ण है और वह किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

स्टेटमेंट आफ क्लेम के समर्थन में श्रमिक की ओर से मघाराम ने अपना शपथ पत्र पेश किया, जिससे प्रतिपरीक्षा की गई। श्रमिक की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्श डब्ल्यू 1 माईन्स में जनरेटर पर कार्य पर लिये जाने बाबत प्रमाण पत्र को प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराया गया।

विपक्षी संस्थान की ओर से भंवरलाल जैन का शपथ पत्र पेश हुआ, जिससे प्रतिपरीक्षा की गई। प्रलेखीय साक्ष्य में स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श एम 1, मघाराम का पुनः स्वास्थ्य परीक्षण कराने का पत्र प्रदर्श एम 2, अप्रार्थी का पत्र दिनांक 24.8.92 प्रदर्श एम 3, दिनांक 15.9.92 का पत्र प्रदर्श एम 4, मैडिकल बोर्ड द्वारा किये गये स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट प्रदर्श एम 5, मैडिकल बोर्ड जिसमें 70 प्रतिशत अक्षम पाया की रपोर्ट प्रदर्श एम 6, अप्रार्थी का पत्र 7.7.93 प्रदर्श एम 7, मघाराम से प्राप्त भुगतान रसीद प्रदर्श एम 8, इकरारनामा प्रदर्श एम 9 को प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराये गये।

विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत साक्षी भंवरलाल जैन ने अपने कथन में प्रकट किया है कि मघाराम का दिनांक 4.6.92 को स्वास्थ्य परीक्षण उदयपुर स्थित मैडिकल संस्थान द्वारा किया गया, जिसमें वह सिलिकोसिस रोग से ग्रस्त पाया गया। रिपोर्ट दिनांक 12.6.92 की प्रति मघाराम को दी थी, जो प्रदर्श एम 1 है। मघाराम ने अपीलीय मैडिकल बोर्ड से परीक्षण करवाना चाहा, जिसका पत्र प्रदर्श एम 2 है; मघाराम के मैडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने का पत्र प्रदर्श एम 3 व एम 4 है। अपीलीय मैडिकल बोर्ड ने दिनांक 12.11.92 को मघाराम का पुनः परीक्षण किया, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श एम 5 है। मैडिकल बोर्ड, उदयपुर द्वारा मघाराम की कार्यक्षमता में हानि का आंकलन किया गया और 70 प्रतिशत अक्षमता पाई गई, जो प्रदर्श एम 6 है। पत्र दिनांक 4 जुलाई, 1993 द्वारा मघाराम की सेवायें समाप्त की गई, वह प्रदर्श एम 7 है। मघाराम ने ग्रेज्युटी व बकाया अवकाश की राशि प्राप्त की, जिसकी रसीद प्रदर्श एम 8 है। कर्मकार क्षतिपूर्ति आयुक्त, नागौर के समक्ष इकरारनामा पेश कर मघाराम ने क्षतिपूर्ति की राशि 63,479.50 रुपये प्राप्त किये, जो प्रदर्श एम 9 है। इस साक्षी का कथन है कि मघाराम न्यूमोकोनियोसिस रोग से ग्रस्त था, जो व्यवसायिक रोग है और उसकी कार्यक्षमता 70 प्रतिशत कम हो चुकी थी और माईनिंग नियमों के अनुसार उसे काम पर नहीं रखा जा सकता।

मैंने उक्त साक्षी के कथन व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया तथा पक्षकारान् के प्रतिनिधिगण के तर्कों पर मनन किया उभय पक्षकारान् के विद्वान प्रतिनिधिगण के तर्क सुने।

प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने अपनी बहस के दौरान यह तर्क प्रकट किया कि यह सभी तथ्य स्वीकृत हैं कि प्रार्थी को दिनांक 7.7.93 के आदेश प्रदर्श एम 7 द्वारा सेवामुक्त किया गया है, उसे ग्रेच्युटी तथा बकाया संवैतनिक अवकाश की भुगतान राशि दी गई है तथा कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत प्रार्थी को क्षतिपूर्ति राशि 63,479.50 रुपये दी गई है। उनका तर्क है कि विवाद का एक मात्र बिन्दु यह है कि उसकी छंटनी इस कारण अवैध है, क्योंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों के नियम 77 एवं 78 की पालना नहीं की गई है व प्रार्थी श्रमिक को एक माह का नोटिस या नोटिस वेतन एवं छंटनी का मुआवजा नहीं दिया गया है। उक्त आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं होने के कारण यह सेवामुक्ति, जो छंटनी है, अवैध है।

इसके विपरीत विपक्षी के प्रतिनिधि का तर्क है कि वास्तविकता में प्रार्थी श्रमिक की छंटनी नहीं की गई है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(oo) के प्रावधानों के अंतर्गत निरंतर खराब स्वास्थ्य के कारण सेवा समाप्त छंटनी की परिभाषा में नहीं आता है। इस कारण औद्योगिक विवाद अधिनियम के नियमों के नियम 77-78 की पालना का कोई प्रश्न नहीं उठता है। उनका तर्क है कि प्रार्थी खान में काम करने के लिए 70 प्रतिशत अयोग्य हो गया है।

मैंने उक्त तर्कों पर प्रस्तुत साक्ष्य के प्रकाश में मनन किया।

साक्षी मधाराम ने अपने मौखिक कथन के शपथ पत्र में यही प्रकट किया है कि यूनियन की गतिविधियों में भाग लेने के लिए नाराज होकर दिनांक 7.7.93 को उसकी सेवाएं यह कहते हुए समाप्त कर दी कि मैडिकल बोर्ड ने उसकी कार्यक्षमता में 70 प्रतिशत हानि बताई है और उसे निमोकोनियोसिस रोग से पीड़ित होना बताया है। वह इस रोग से पीड़ित नहीं है, क्योंकि प्राईवेट डाक्टर से जांच करवाने के बाद उसको यही बताया गया था। उसका यह भी कथन है कि वह माईन्स में काम नहीं करता था, बल्कि एमसीसी कमरे में जनरेटर चलाता था, जो माईन्स से दूर है। इस संबंध में जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श डब्ल्यू 1 है। उसे सेवामुक्ति से पूर्व एक माह का नोटिस और छंटनी का मुआवजा नहीं दिया गया।

मैंने उक्त साक्षी के कथनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। इस साक्षी ने अपने कथन में प्राईवेट डाक्टर से जांच करवाना कहा है, परन्तु ऐसे किसी डाक्टर की कोई रिपोर्ट इसके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे ज्ञात होता हो कि उसे मैडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में वर्णित बीमारी नहीं हो और वह माईनिंग में कार्य करने के लिए 70 प्रतिशत अयोग्य नहीं हुआ हो। दिनांक 4.6.92 को श्रमिक मधाराम का स्वास्थ्य परीक्षण अप्रार्थी के उदयपुर स्थित मैडिकल संस्थान द्वारा किया जा कर रिपोर्ट बनाया जाना व इसकी प्रति मधाराम को दिनांक 12.6.92 को दिया जाना व मधाराम का अपीलेट मैडिकल बोर्ड द्वारा पुनः स्वास्थ्य परीक्षण दिनांक 12.11.92 को किया जाना साक्षी भंवरलाल जैन ने प्रकट किया है और इसे प्रार्थी की ओर से स्वीकार किया है। इन दोनों रिपोर्ट में श्रमिक मधाराम का क्रमशः सिलिकोसिस व न्यूमोकोनियोसिस से पीड़ित होना बताया है। साक्षी भंवरलाल ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह प्रकट किया है कि निमोकोनियोसिस व सिलिकोसिस दोनों एक ही बीमारी के प्रकार हैं। निमोकोनियोसिस वृहद् शब्दावली है। प्रार्थी/श्रमिक ने प्राईवेट डाक्टर द्वारा परीक्षण करवाना और स्वयं को ऐसा रोग नहीं होना प्रकट किया है, परन्तु ऐसी कोई चिकित्सीय रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही प्रार्थी की ओर से ऐसे किसी डाक्टर को साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी श्रमिक का यह अभिकथन स्वीकार नहीं किया जा सकता। उदयपुर स्थित मैडिकल संस्थान द्वारा परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श एम 1 व अपीलेट मैडिकल बोर्ड धनबाद की मैडिकल रिपोर्ट प्रदर्श एम-5 पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। उक्त रिपोर्ट प्रतिवेदनों के मुताबिक श्रमिक सिलिकोसिस व न्यूमोकोनियोसिस रोग से पीड़ित था और खदानों में काम करने के लिए अयोग्य था और उसकी अयोग्यता 70 प्रतिशत आंकी गई। माईन्स रूल्स 1955 के नियम 29(एम) के अनुसार जो व्यक्ति चिकित्सीय परीक्षण पर माईन्स में नियोजन के लिए अयोग्य पाया जावे तो उसका नियोजन ऐसे चिकित्सीय परीक्षण के 30 दिन के बाद जारी नहीं रखा जा सकता। उक्त परिस्थितियों से स्पष्ट है कि नियमों के अधीन प्रार्थी श्रमिक को सेवा में रखा ही नहीं जा सकता था।

वर्तमान मामले में भी जैसा कि उपर विवेचन किया गया है, प्रार्थी श्रमिक का चिकित्सीय परीक्षण पहले दिनांक 4.6.92 को किया गया, जिसमें उसे माईनिंग के कार्य में नियोजन के लिए अयोग्य माना गया और उसकी अयोग्यता 70 प्रतिशत आंकी गई है और इसी आधार पर उसकी सेवायें समाप्त किया जाना आदेश दिनांक 7.7.93 से दर्शित हो रहा है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(oo) के अंतर्गत छंटनी की

परिभाषा दी गई है और धारा 2(00) (c) के अंतर्गत यह उल्लेखित है कि यदि किसी श्रमिक की सेवायें उसके खराब स्वास्थ्य के आधार पर समाप्त हो जाती हैं तो यह छंटनी नहीं होगी। जैसा कि उपर विवेचन किया गया है, प्रार्थी-श्रमिक को उसके स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात् उसका स्वास्थ्य खराब होने के आधार पर ही सेवा से पृथक् किया गया है। ऐसी स्थिति में उसकी यह सेवामुक्ति धारा 2(00) के अंतर्गत छंटनी की परिभाषा में नहीं आता है और ऐसी स्थिति में एक माह के नोटिस या नोटिस वेतन एवं छंटनी का मुआवजा देने और औद्योगिक विवाद अधिनियम के नियमों के नियम 77-78 की पालना का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी/श्रमिक को ग्रेच्युटि की राशि, बकाया अवकाश वेतन एवं कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत अयोग्यता की क्षतिपूर्ति राशि विपक्षीगण द्वारा दी जा चुकी है, जिन्हें श्रमिक बिना आपत्ति के स्वीकार भी कर चुका है। ऐसी स्थिति में मेरे विचार से सेवामुक्ति का आदेश दिनांक 7.7.93 किसी भी रूप में अवैध नहीं कहा जा सकता और यह आदेश वैध है।

अतः प्रार्थी श्रमिक का स्टेटमेंट ऑफ क्लेम खारिज किए जाने योग्य है तथा श्रमिक किसी भी तरह की राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रकरण में स्टेटमेंट ऑफ क्लेम अवार्ड निम्न प्रकार से पारित किया जाता है :-

अधिनिर्णय

“हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड, डेगाना टंगस्टन प्रोजेक्ट, डेगाना के प्रबंधन द्वारा श्री मघाराम की दिनांक 8.7.93 से सेवामुक्ति का कृत्य वैध है। श्रमिक किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।”

शुभा मेहता, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 3 मई, 2016

का.आ. 844.—जबकि मैसर्स पादमावती इनवेस्टमेंट लिमिटेड (कोलकाता क्षेत्र में कोड संख्या डब्ल्यूबी/48382 के अंतर्गत) (एतदुपरांत प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरांत अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है।

2. और जबकि केन्द्रीय सरकार के विचार में, अंशदान की दरों के संबंध में उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि नियम उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कर्मचारियों के लिए कम उपयुक्त नहीं हैं और कर्मचारी उक्त अधिनियम अथवा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरांत योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत सदृश स्वरूप के किसी अन्य प्रतिष्ठान में कर्मचारियों के संबंध में दी जाने वाली अन्य भविष्य निधि प्रसुविधाओं का भी लाभ उठा रहे हैं।

3. अतः, अब, केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के साथ सन्लग्न शर्तों के अध्याधीन उक्त प्रतिष्ठान को अगली अधिसूचना तक 01.01.2008 से उक्त योजना के सभी उपबंधों के प्रभाव से छूट प्रदान करती है।

[सं. एस-35015/27/2015-एसएस-II]

सुभाष कुमार, अवर सचिव

अनुबंध

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के उपबंधों से

छूट प्रदान करने संबंधी शर्तें

1. नियोक्ता समय-समय पर केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा दिए जाने वाले ऐसे निदेशों के अनुसार भविष्य निधि के प्रबंधन हेतु अपनी अध्यक्षता में एक न्यासी बोर्ड गठित करेगा। भविष्य निधि न्यासी बोर्ड में विहित होगी जो अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रति भविष्य निधि में प्राप्तियों और उसमें से भुगतान के उचित लेखों और उनकी अभिरक्षा में शेष राशि के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रयोजनार्थ, "नियोक्ता" से:-

- (i) किसी प्रतिष्ठान, जो एक कारखाना हो, उसके संबंध में, कारखाने का स्वामी अथवा अधिष्ठाता अभिप्रेत होगा; और
- (ii) किसी अन्य प्रतिष्ठान के संबंध में, वह व्यक्ति, अथवा प्राधिकारी अभिप्रेत होगा, जिसका उस प्रतिष्ठान के कामकाज पर अंतिम नियंत्रण हो।

2. न्यासी बोर्ड हरेक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगा और वह केन्द्र सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।
3. अधिनियम की धारा 2(च) में यथा परिभाषित सभी कर्मचारी, जो भविष्य निधि के सदस्य बनने के पात्र रहें हैं, यदि प्रतिष्ठान को छूट प्रदान नहीं की होती, उन्हें सदस्यों के रूप में नामांकित किया जाएगा।
4. जहां कोई कर्मचारी जो पहले ही किसी अन्य छूट-प्राप्त प्रतिष्ठान के किसी कर्मचारी भविष्य निधि अथवा भविष्य निधि का सदस्य हो, उसे उसके प्रतिष्ठान में नियोजित किया जाता है, तो नियोक्ता उसे तत्काल निधि के सदस्य के रूप में नामांकित करेगा। नियोक्ता ऐसे कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में उसके पहले नियोक्ता से संचय राशियां अंतरित और जमा करवाने की भी व्यवस्था करेगा।
5. नियोक्ता भविष्य निधि को उसके द्वारा और कर्मचारी के द्वारा समय-समय पर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दर से देय अंशदान को, जिस माह के लिए अंशदान देय हों उसके बाद के माह की 15 तारीख तक न्यासी बोर्ड को अंतरित करेगा। नियोक्ता न्यासी बोर्ड को किन्हीं देयों के भुगतान में किसी विलम्ब के लिए अधिनियम की धारा 7 थ के उपबंधों के अनुसार साधारण ब्याज अदा करने का दायी होगा।
6. नियोक्ता भविष्य निधि के प्रशासन के सभी व्यय वहन करेगा और चोरी, डकैती, गबन, दुर्विनियोग अथवा किसी अन्य कारण से भविष्य निधि को हो सकने वाले किसी घाटे की भी भरपाई करेगा।
7. न्यासी बोर्ड द्वारा घोषित ब्याज में किसी कमी को भी नियोक्ता द्वारा पूरा किया जाना होगा और उसे सांविधिक सीमा तक लाना होगा।
8. नियोक्ता जब कभी नियम संशोधित किए जाएं, समुचित प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित, निधि के नियमों की एक प्रति अधिसंख्यक कर्मचारियों की भाषा में उनके अनुवाद सहित प्रतिष्ठान के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।
9. प्रतिष्ठान के भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत निर्धारित देय अंशदान की दर, अग्रिम की शर्तें और मात्रा तथा अन्य मामले और सदस्य के मासिक चालू शेष पर संगणित और न्यासी बोर्ड द्वारा घोषित, प्रत्येक सदस्य के खाते में जमा किया गया ब्याज, अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित योजना में निर्धारित विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा घोषित दर से कम नहीं होगा।
10. योजना में कोई संशोधन, जो प्रतिष्ठान के विद्यमान नियमों की तुलना में कर्मचारियों के लिए अधिक लाभदायक हो, उसे न्यास के नियमों में औपचारिक संशोधन के लंबित रहते उन पर स्वतः लागू किया जाएगा।
11. नियोक्ता द्वारा नियमों में कोई भी संशोधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना रुख स्पष्ट करने का वाजिब अवसर देगा।
12. निकासी, अग्रिम और अंतरण के सभी दावे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित अधिकतम समय सीमा के भीतर, शीघ्रता से निपटाए जाएंगे।
13. न्यासी बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में जमा किए गए अंशदान, निकासी और ब्याज दर्शाने के लिए विस्तारित लेखों का रख-रखाव करेगा। ऐसे अभिलेखों का रख-रखाव अधिमानतः इलैक्ट्रॉनिक रूप से रखा जाएगा। प्रतिष्ठान आवधिक रूप से जब कभी केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा निदेश दिया जाए, सदस्यों के लेखों को इलैक्ट्रॉनिक रूप से सम्प्रेषित करेंगे।
14. न्यासी बोर्ड वर्ष में एक बार वित्तीय/लेखा वर्ष के समाप्त होने के छः माह के भीतर प्रत्येक कर्मचारी को निःशुल्क लेखों का वार्षिक विवरण अथवा पासबुक जारी करेगा। जब कभी सदस्य चाहें, अतिरिक्त प्रिंटआउट नाममात्र के प्रभार के साथ उपलब्ध कराए जा सकते हैं। पासबुक के मामले में वह कर्मचारी के पास रहेगी जिसे प्रस्तुत किए जाने पर न्यासियों द्वारा आवधिक रूप से अद्यतन किया जाएगा।
15. नियोक्ता सभी सदस्यों को उनकी आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर टर्मिनलों से अपने खाते में पड़ी शेष राशि को देखने के समर्थ बनाने के लिए आवश्यक प्रावधान करेंगे।

16. न्यासी बोर्ड और नियोक्ता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा यथा विहित रूप में ये विवरणियां विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर मासिक/वार्षिक रूप से दायर करेंगे, जिसे न करने पर इसे चूक माना जाएगा तथा न्यासी बोर्ड और नियोक्ता संयुक्त रूप से और अलग-अलग, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा की जाने वाली उपयुक्त दाण्डिक कार्रवाई के भागी होंगे।

17. न्यासी बोर्ड समय-समय पर सरकार के निर्देशों के अनुसार भविष्य निधि के पैसे का निवेश करेगा। सरकार के निर्देशों के अनुसार निवेश करने में असफल होने पर न्यासी बोर्ड अलग-अलग और संयुक्त रूप से केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उसके प्रतिनिधि द्वारा यथा अधिरोपित अधिशुल्क का भागी बन जाएगा।

18. (क) प्रतिभूतियां न्यास के नाम से प्राप्त की जाएंगी। इस प्रकार प्राप्त की गई प्रतिभूतियां अभौतिक (डीमेट) रूप में होनी चाहिए तथा न्यास के कार्यचालित रहने वाले क्षेत्रों में अपेक्षित सुविधा के उपलब्ध न होने की स्थिति में न्यासी बोर्ड संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को इसकी सूचना देंगे।

(ख) न्यासी बोर्ड लिपि-वार रजिस्टर बनाएगा तथा ब्याज की समय पर उगाही सुनिश्चित करेगा।

(ग) डीमेट खाता इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित निक्षेपागार प्रतिभागियों के माध्यम से खोला जाए।

(घ) डीमेट खाते का खर्च न्यास द्वारा किए जाने वाले निवेश का प्रासंगिक व्यय माना जाए। प्रतिभूतियों आदि की खरीद की दलाली जैसे निवेशों के सभी प्रकार के खर्चों को भी न्यास द्वारा किए जाने वाले निवेश का प्रासंगिक व्यय माना जाएगा।

19. प्रतिभूतियों और बाण्डों की खरीद जैसे ऐसे सभी निवेश भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित निक्षेपागार प्रतिभागियों की सुरक्षा अभिरक्षा में दर्ज किए जाएं, जो इसके संरक्षक होंगे। स्थापना की बंदी या परिसमापन या कर्मचारी भविष्य निधि, 1952 से छूट पर यह संरक्षक, न्यास के नाम पर प्राप्त तथा अपने जमा में पड़े निवेश को संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के, इस आशय के, अनुरोध पर संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को सीधे अंतरित करेगा।

20. स्थापना संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को उन निक्षेपागार प्रतिभागियों (भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित) के विवरण से सूचित करेगी, जिनके पास तथा जिनकी सुरक्षा अभिरक्षा में न्यास के नाम पर किए गए निवेश अर्थात् प्रतिभूतियों, बाण्डों आदि में किए गए निवेश दर्ज किए गए हैं। तथापि, न्यासी बोर्ड उस धनराशि की उगाही कर सकता है, जो दावों के निपटान, नियमानुसार अग्रिमों की मंजूरी और नियोक्ता की सेवा छोड़ने की स्थिति में सदस्य के भविष्य निधि संचयन के अंतरण और प्रतिभूतियों की बिक्री द्वारा अन्य किसी प्राप्ति अथवा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के शर्ताधीन निधि के नाम में पड़े अन्य निवेशों जैसे बाध्यकारी व्ययों को पूरा करने के लिए अपेक्षित हों।

21. न्यास द्वारा किए गए निवेशों के लिए किसी वित्तीय या अन्य संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले किसी कमीशन, प्रोत्साहन, बोनस या अन्य आर्थिक लाभ इसके खाते में डाले जाएं।

22. नियोक्ता और न्यासी बोर्ड के सदस्य शर्तों का पालन करने की सहमति देते हुए लिखित वचन देंगे तथा यह वैधिक रूप से नियोक्ता और न्यासी बोर्ड के उत्तराधिकारियों और समनुदेशितों पर उनके साथ-साथ बाध्यकारी होगा।

23. नियोक्ता और न्यासी बोर्ड छूट के रद्द होने की स्थिति में संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा विहित समय सीमा के भीतर तत्काल निधियों का अंतरण करने का वचन भी देगा। यह उन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा तथा उन्हें निधियों के अंतरण में कोई विलंब होने की स्थिति में अभियोजन का भागी बनाएगा।

24. (क) न्यासी बोर्ड द्वारा अनुरक्षित भविष्य निधि खाता किसी योग्य स्वतंत्र चार्टर्ड लेखाकार द्वारा वार्षिक रूप से लेखा-परीक्षा करने के शर्ताधीन होगा। जहां भी आवश्यक समझा जाए, वहां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अधिकार होगा कि यह किसी अन्य योग्य लेखा-परीक्षक द्वारा खातों की लेखा-परीक्षा कराए तथा इस प्रकार हुए खर्च नियोक्ता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(ख) लेखा-परीक्षकों द्वारा वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की समाप्ति के बाद छह महीने के भीतर लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र सहित लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की प्रति सीधे इस कार्यालय में प्रस्तुत की जाए। तुलन-पत्र का प्रारूप और इस रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित की जाएगी तथा संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में इलैक्ट्रॉनिक प्रारूप के साथ हस्ताक्षरित प्रतिलिपि में उपलब्ध कराई जाएगी।

(ग) एक ही लेखा-परीक्षकों को लगातार दो वर्ष के लिए तथा अगले वित्तीय वर्ष के पहले दिन से मिली छूट से अधिक के लिए नियुक्त न किया जाए।

25. लगातार तीन वित्तीय वर्षों तक कोई हानि या पूंजी आधार में कटौती को अगले वित्तीय वर्ष के पहले दिन से मिली छूट प्राप्त होगी।

26. नियोक्ता प्रत्येक माह की समाप्ति से 15 दिन के भीतर निरीक्षण हेतु ऐसी सुविधाओं का प्रावधान करेगा तथा ऐसे निरीक्षण प्रभारों का भुगतान करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 17 के उप-खण्ड (3) के खण्ड(क) के अंतर्गत समय-समय पर दिए निर्देशों के अनुसार हों।

27. न्यासी बोर्ड या नियोक्त द्वारा छूट देने के लिए शर्तों के किसी उल्लंघन की स्थिति में दी गई छूट संबंधित व्यक्ति को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद रद्द कर दी जाएगी।

28. किसी भी धोखे, गबन, गलत निवेश निर्णयों आदि के फलस्वरूप ट्रस्ट को हुए किसी भी नुकसान की स्थिति में नियोक्ता नुकसान पूरा करने का भागी होगा।

29. किसी विलय, अविलय, अभिग्रहण, विक्री, एकीकरण, सहायक कंपनी का गठन चाहे पूर्णतः स्वामित्व वाली हो या नहीं इत्यादि के फलस्वरूप यदि प्रतिष्ठान की कानूनी स्थिति में कोई भी बदलाव होता है तो दी गई छूट निरस्त होगी एवं प्रतिष्ठान को तुरंत नई छूट देने के लिए मामले की रिपोर्ट करनी चाहिए।

30. एक ही भविष्य निधि ट्रस्ट में एक से अधिक इकाई/प्रतिष्ठानों के भाग लेने की स्थिति में भाग लेने वाली इकाईयों के किसी भी ट्रस्टी/नियोक्ता द्वारा कोई भी चूक होने पर सभी ट्रस्टी संयुक्त रूप से एवं अलग से जिम्मेदार/उत्तरदायी होंगे और आरपीएफसी आम भविष्य निधि ट्रस्ट के सभी न्यासियों के विरुद्ध उपयुक्त कानूनी कार्रवाई करेगा।

31. छूट प्राप्त न्यास निधि के अधिग्रहण के मामले में, अंतरीय व्याज के कारण हानि के अनुमानित निवल वर्तमान मूल्य की वसूली प्रतिष्ठान से की जानी चाहिए।

32. केन्द्र सरकार प्रतिष्ठान की छूट की निरंतरता के लिए शर्तों को बढ़ा सकती है और जब भी इनको संप्रेषित किया जाएगा ये प्रतिष्ठान इन अतिरिक्त शर्तों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

New Delhi, the 3rd May, 2016

S.O. 844.—Whereas M/s Padmavati Investment Limited [under Code No. WB/48382 in Kolkata region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act and subject to the conditions annexed with this notification, the Central Government, hereby, exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 01.01.2008 until further notification.

[No. S-35015/27/2015-SS-II]

SUBHASH KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CONDITIONS FOR GRANT OF EXEMPTION FROM THE PROVISIONS OF EMPLOYEES PROVIDENT FUND SCHEME, 1952

1. The employer shall establish a Board of Trustees under his Chairmanship for the management of the Provident Fund according to such directions as may be given by the Central Government or the Central Provident Fund Commissioner, as the case may be, from time to time. The provident fund shall vest in the Board of Trustees who will be responsible for and accountable to the Employees' Provident Funds Organisation, inter alia, for proper accounts of

the receipts into and payment from the Provident Fund and the balance in their custody. For this purpose, the “employer” shall mean:-

- (i) In relation to an establishment, which is a factory, the owner or occupier of the factory: and
 - (ii) In relation to any other establishment, the person who, or the authority, that has the ultimate control over the affairs of the establishment.
2. The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the guidelines that may be issued from time to time by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner(CPFC) or an officer authorized by him.
 3. All employees’ as defined in section 2(f) of the act, who have been eligible to become members of the Provident Fund’ had the establishment not been granted exemption, shall be enrolled as members.
 4. Where an employee who is already a member of Employees’ Provident fund or a Provident Fund of any other exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the fund. The employer should also arrange to have the accumulations in the Provident Fund account of such employee with his previous employer transferred and credited into his account.
 5. The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the Provident Fund by himself and employees at the rate prescribed under the act from time to time by the 15th of each month following the month for which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay simple interest in terms of the provisions of Section 7Q of the Act for any delay in payment of any dues towards the Board of Trustees.
 6. The employer shall bear all the expenses of the administration of Provident Fund and also make good any other loss that may be caused to the Provident Fund due to theft, burglary, defalcation, misappropriation or any other reason.
 7. Any deficiency in the interest declared by the Board of Trustees is to be made good by the employer to bring it up to the statutory limit.
 8. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the funds as approved by the appropriate authority and as and when amended thereto along with a translation in the language of the majority of the employees.
 9. The rate of contributions payable, the conditions and quantum of advances and other matters laid down under the provident fund rules of the establishment and the interest credited to the account of each member, calculated on the monthly running balance of the member and declared by the Board of Trustees shall not be lower than those declared by the Central Government under the various provisions prescribed in the Act and Scheme framed thereunder.
 10. Any amendment to the Scheme, which is more beneficial to the employees than the existing rules of the establishment, shall be made applicable to them automatically pending formal amendment of the Rules of the Trust.
 11. No amendment in the rules shall be made by the employer without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
 12. All claims for withdrawals, advances and transfers should be settled expeditiously, within the maximum time frame prescribed by the Employees’ Provident Fund Organisation.
 13. The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited withdrawal and interest in respect of each employee. The maintenance of such records should preferably be done electronically. The establishments should periodically transmit the details of members’ accounts electronically as and when directed by the Central Provident Commissioner/Regional Provident Fund Commissioner.
 14. The Board of Trustees shall issue an annual statement of accounts or pass books to every employee within six months of the close of financial/accounting year free of cost once in the year. Additional printouts can be made available as and when the members want, subject to nominal charges. In case of passbook, the same shall remain in custody of employee to be updated periodically by the Trustees when presented to them.
 15. The employer shall make necessary provisions to enable all the members to be able to see their account balance from the computer terminals as and when required by them.
 16. The Board of Trustees and the employer shall file such returns monthly/annually as may be prescribed by the Employees’ Provident Fund Organisation within the specified time limit, failing which it will be deemed as a default and the Board of Trustees and employer will jointly and separately be liable for suitable penal action by the Employees’ Provident Fund Organisation.

17. The Board of Trustees shall invest the monies of the provident fund as per the directions of the Government from time to time. Failure to make investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees separately and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his representative.

18. (a) The securities shall be obtained in the name of Trust. The securities so obtained should be in dematerialized (DEMAT) form and in case the required facility is not available in the areas where the trust operates the Board of Trustees shall inform the Regional Provident Fund Commissioner concerned about the same.

(b) The Board of Trustees shall maintain a script wise register and ensure timely realization of interest.

(c) The DEMAT Account should be opened through depository participants approved by Reserve Bank of India and Central Government in accordance with the instructions issued by the Central Government in this regard.

(d) The cost of maintaining DEMAT account should be treated as incidental cost of investment by the Trust. Also all types of cost of investments like brokerage for purchase of securities etc. shall be treated as incidental cost of investment by the Trust.

19. All such investments made like purchase of securities and bonds, should be lodged in the safe custody of depository participants approved by Reserve Bank of India and Central Government, who shall be the custodian of the same. On closure of establishment or liquidation or cancellation of exemption from EPF Scheme, 1952 such custodian shall transfer the investment obtained in the name of the Trust and standing in its credit to the Regional PF Commissioner concerned directly on receipt of request from the Regional PF Commissioner concerned to that effect.

20. The establishment shall intimate to the Regional P.F. Commissioner concerned the details of depository participants (approved by RBI and Central Government), with whom and in whose safe custody, the investments made in the name of trust, viz., investments made in securities, bonds, etc. have been lodged. However, the Board of Trustees may raise such sum of sums of money as may be required for meeting obligatory expenses such as settlement of claims, grant of advances as per rules and transfer of member's PF accumulations in the event of his/her leaving service of the employer and any other receipts by sale of the securities or other investments standing in the name of the Fund subject to the prior approval of the Regional PF Commissioner.

21. Any commission, incentive, bonus or other pecuniary rewards given by any financial or other institutions for the investments made by the Trust should be credited to its account.

22. The employer and the members of the Board of Trustees, shall furnish a written undertaking agreeing to abide by the conditions and this shall be legally binding on the employer and the Board of Trustees, including their successors and assignees.

23. The employer and the Board of Trustees shall also give an undertaking to transfer the funds promptly within the time limit prescribed by the concerned RPFC in the event of cancellation of relaxation. This shall be legally binding on them and will make them liable for prosecution in the event of any delay in the transfer of funds.

24. (a) The account of the Provident Fund maintained by the Board of Trustees shall be subject to audit by a qualified independent chartered accountant annually. Where considered necessary the EPFO shall have the right to have the accounts re-audited by any other qualified auditor and the expenses so incurred shall be borne by the employer.

(b) A copy of the Auditor's report alongwith the audited balance sheet should be submitted to this office by the Auditors directly within six months after the closing of the financial year from 1st April to 31st March. The format of the balance sheet and the information to be furnished in the report shall be prescribed by the Employees' Provident fund Organisation and made available with the RPFC office in electronic format as well as a signed hard copy.

(c) The same auditors should not be appointed for two consecutive years and not more than the relaxation withdrawn from the first day of the next succeeding financial year.

25. Any loss for the three consecutive financial years or erosion in the capital base shall have the relaxation withdrawn from the first day of the next succeeding financial year.

26. The employer shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section (3) of Section 17 of the Act within 15 days from the close of every month.

27. In the event of any violation of the conditions for grant of relaxation, by the employer or the Board of Trustees, the relaxation granted shall be cancelled after issuing a show cause notice in this regard to the concerned persons.

28. In the event of any loss to the trust as a result of any fraud, defalcation, wrong investment decisions etc. the employer shall be liable to make good the loss.

29. In case of any change of legal status of the establishment as a result of merger, de-merger, acquisition, sale, amalgamation, formation of a subsidiary, whether wholly owned or not etc., the relaxation granted shall stand revoked and the establishment should promptly report the matter for grant of fresh relaxation.

30. In case there are more than one unit/establishment participating in the common Provident Fund Trust, all the trustees shall be jointly and separately liable/responsible for any default committed by any of the trustees/employer of any of the participating units and the RPFC shall take suitable legal action against all the trustees of the common Provident Fund Trust.

31. In case of takeover of the exempted Trust Fund, estimated net present value of the loss due to differential interest should be recovered from the establishment.

32. The Central Government may lay down further conditions for continuation of exemption of the establishment and the establishment shall be bound to comply with these additional conditions as and when the same are communicated.

नई दिल्ली, 3 मई, 2016

का.आ. 845—जबकि मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड (कांदीवली क्षेत्र में कोड संख्या एमएच/20119 के अंतर्गत) (एतदुपरांत प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरांत अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है।

2. और जबकि केन्द्रीय सरकार के विचार में, अंशदान की दरों के संबंध में उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि नियम उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कर्मचारियों के लिए कम उपयुक्त नहीं हैं और कर्मचारी उक्त अधिनियम अथवा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरांत योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत सदृश स्वरूप के किसी अन्य प्रतिष्ठान में कर्मचारियों के संबंध में दी जाने वाली अन्य भविष्य निधि प्रसुविधाओं का भी लाभ उठा रहे हैं।

3. अतः, अब, केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के साथ सन्लग्न शर्तों के अध्याधीन उक्त प्रतिष्ठान को अगली अधिसूचना तक 01.09.1981 से उक्त योजना के सभी उपबंधों के प्रभाव से छूट प्रदान करती है।

[सं. एस-35015/21/2015-एसएस-II]

सुभाष कुमार, अवर सचिव

अनुबंध

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के उपबंधों से

छूट प्रदान करने संबंधी शर्तें

1. नियोक्ता समय-समय पर केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा दिए जाने वाले ऐसे निदेशों के अनुसार भविष्य निधि के प्रबंधन हेतु अपनी अध्यक्षता में एक न्यासी बोर्ड गठित करेगा। भविष्य निधि न्यासी बोर्ड में विहित होगी जो अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रति भविष्य निधि में प्राप्तियों और उसमें से भुगतान के उचित लेखों और उनकी अभिरक्षा में शेष राशि के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रयोजनार्थ, "नियोक्ता" से:-

- (i) किसी प्रतिष्ठान, जो एक कारखाना हो, उसके संबंध में, कारखाने का स्वामी अथवा अधिष्ठाता अभिप्रेत होगा; और
- (ii) किसी अन्य प्रतिष्ठान के संबंध में, वह व्यक्ति, अथवा प्राधिकारी अभिप्रेत होगा, जिसका उस प्रतिष्ठान के कामकाज पर अंतिम नियंत्रण हो।

2. न्यासी बोर्ड हरेक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगा और वह केन्द्र सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।

3. अधिनियम की धारा 2(च) में यथा परिभाषित सभी कर्मचारी, जो भविष्य निधि के सदस्य बनने के पात्र रहें हैं, यदि प्रतिष्ठान को छूट प्रदान नहीं की होती, उन्हें सदस्यों के रूप में नामांकित किया जाएगा।

4. जहां कोई कर्मचारी जो पहले ही किसी अन्य छूट-प्राप्त प्रतिष्ठान के किसी कर्मचारी भविष्य निधि अथवा भविष्य निधि का सदस्य हो, उसे उसके प्रतिष्ठान में नियोजित किया जाता है, तो नियोक्ता उसे तत्काल निधि के सदस्य के रूप में

नामांकित करेगा। नियोक्ता ऐसे कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में उसके पहले नियोक्ता से संचय राशियां अंतरित और जमा करवाने की भी व्यवस्था करेगा।

5. नियोक्ता भविष्य निधि को उसके द्वारा और कर्मचारी के द्वारा समय-समय पर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दर से देय अंशदान को, जिस माह के लिए अंशदान देय हों उसके बाद के माह की 15 तारीख तक न्यासी बोर्ड को अंतरित करेगा। नियोक्ता न्यासी बोर्ड को किन्हीं देयों के भुगतान में किसी विलम्ब के लिए अधिनियम की धारा 7 थ के उपबंधों के अनुसार साधारण ब्याज अदा करने का दायी होगा।

6. नियोक्ता भविष्य निधि के प्रशासन के सभी व्यय वहन करेगा और चोरी, डकैती, गबन, दुर्विनियोग अथवा किसी अन्य कारण से भविष्य निधि को हो सकने वाले किसी घाटे की भी भरपाई करेगा।

7. न्यासी बोर्ड द्वारा घोषित ब्याज में किसी कमी को भी नियोक्ता द्वारा पूरा किया जाना होगा और उसे सांविधिक सीमा तक लाना होगा।

8. नियोक्ता जब कभी नियम संशोधित किए जाएं, समुचित प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित, निधि के नियमों की एक प्रति अधिसंख्यक कर्मचारियों की भाषा में उनके अनुवाद सहित प्रतिष्ठान के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।

9. प्रतिष्ठान के भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत निर्धारित देय अंशदान की दर, अग्रिम की शर्तें और मात्रा तथा अन्य मामले और सदस्य के मासिक चालू शेष पर संगणित और न्यासी बोर्ड द्वारा घोषित, प्रत्येक सदस्य के खाते में जमा किया गया ब्याज, अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित योजना में निर्धारित विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा घोषित दर से कम नहीं होगा।

10. योजना में कोई संशोधन, जो प्रतिष्ठान के विद्यमान नियमों की तुलना में कर्मचारियों के लिए अधिक लाभदायक हो, उसे न्यास के नियमों में औपचारिक संशोधन के लंबित रहते उन पर स्वतः लागू किया जाएगा।

11. नियोक्ता द्वारा नियमों में कोई भी संशोधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना रुख स्पष्ट करने का वाजिब अवसर देगा।

12. निकासी, अग्रिम और अंतरण के सभी दावे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित अधिकतम समय सीमा के भीतर, शीघ्रता से निपटाए जाएंगे।

13. न्यासी बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में जमा किए गए अंशदान, निकासी और ब्याज दर्शाने के लिए विस्तारित लेखों का रख-रखाव करेगा। ऐसे अभिलेखों का रख-रखाव अधिमानतः इलैक्ट्रॉनिक रूप से रखा जाएगा। प्रतिष्ठान आवधिक रूप से जब कभी केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा निदेश दिया जाए, सदस्यों के लेखों को इलैक्ट्रॉनिक रूप से सम्प्रेषित करेंगे।

14. न्यासी बोर्ड वर्ष में एक बार वित्तीय/लेखा वर्ष के समाप्त होने के छः माह के भीतर प्रत्येक कर्मचारी को निःशुल्क लेखों का वार्षिक विवरण अथवा पासबुक जारी करेगा। जब कभी सदस्य चाहें, अतिरिक्त प्रिंटआउट नाममात्र के प्रभार के साथ उपलब्ध कराए जा सकते हैं। पासबुक के मामले में वह कर्मचारी के पास रहेगी जिसे प्रस्तुत किए जाने पर न्यासियों द्वारा आवधिक रूप से अद्यतन किया जाएगा।

15. नियोक्ता सभी सदस्यों को उनकी आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर टर्मिनलों से अपने खाते में पड़ी शेष राशि को देखने के समर्थ बनाने के लिए आवश्यक प्रावधान करेंगे।

16. न्यासी बोर्ड और नियोक्ता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा यथा विहित रूप में ये विवरणियां विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर मासिक/वार्षिक रूप से दायर करेंगे, जिसे न करने पर इसे चूक माना जाएगा तथा न्यासी बोर्ड और नियोक्ता संयुक्त रूप से और अलग-अलग, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा की जाने वाली उपयुक्त दण्डिक कार्रवाई के भागी होंगे।

17. न्यासी बोर्ड समय-समय पर सरकार के निर्देशों के अनुसार भविष्य निधि के पैसे का निवेश करेगा। सरकार के निर्देशों के अनुसार निवेश करने में असफल होने पर न्यासी बोर्ड अलग-अलग और संयुक्त रूप से केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उसके प्रतिनिधि द्वारा यथा अधिरोपित अधिशुल्क का भागी बन जाएगा।

18. (क) प्रतिभूतियां न्यास के नाम से प्राप्त की जाएंगी। इस प्रकार प्राप्त की गई प्रतिभूतियां अभौतिक (डीमेट) रूप में होनी चाहिए तथा न्यास के कार्यचालित रहने वाले क्षेत्रों में अपेक्षित सुविधा के उपलब्ध न होने की स्थिति में न्यासी बोर्ड संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को इसकी सूचना देंगे।

(ख) न्यासी बोर्ड लिपि-वार रजिस्टर बनाएगा तथा व्याज की समय पर उगाही सुनिश्चित करेगा।

(ग) डीमेट खाता इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित निक्षेपागार प्रतिभागियों के माध्यम से खोला जाए।

(घ) डीमेट खाते का खर्च न्यास द्वारा किए जाने वाले निवेश का प्रासंगिक व्यय व्यय माना जाए। प्रतिभूतियों आदि की खरीद की दलाली जैसे निवेशों के सभी प्रकार के खर्चों को भी न्यास द्वारा किए जाने वाले निवेश का प्रासंगिक व्यय माना जाएगा।

19. प्रतिभूतियों और बाण्डों की खरीद जैसे ऐसे सभी निवेश भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित निक्षेपागार प्रतिभागियों की सुरक्षा अभिरक्षा में दर्ज किए जाएं, जो इसके संरक्षक होंगे। स्थापना की बंदी या परिसमापन या कर्मचारी भविष्य निधि, 1952 से छूट पर यह संरक्षक, न्यास के नाम पर प्राप्त तथा अपने जमा में पड़े निवेश को संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के, इस आशय के, अनुरोध पर संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को सीधे अंतरित करेगा।

20. स्थापना संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को उन निक्षेपागार प्रतिभागियों (भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित) के विवरण से सूचित करेगी, जिनके पास तथा जिनकी सुरक्षा अभिरक्षा में न्यास के नाम पर किए गए निवेश अर्थात् प्रतिभूतियों, बाण्डों आदि में किए गए निवेश दर्ज किए गए हैं। तथापि, न्यासी बोर्ड उस धनराशि की उगाही कर सकता है, जो दावों के निपटान, नियमानुसार अग्रिमों की मंजूरी और नियोक्ता की सेवा छोड़ने की स्थिति में सदस्य के भविष्य निधि संचयन के अंतरण और प्रतिभूतियों की बिक्री द्वारा अन्य किसी प्राप्तियों अथवा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के शर्ताधीन निधि के नाम में पड़े अन्य निवेशों जैसे बाध्यकारी व्ययों को पूरा करने के लिए अपेक्षित हों।

21. न्यास द्वारा किए गए निवेशों के लिए किसी वित्तीय या अन्य संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले किसी कमीशन, प्रोत्साहन, बोनस या अन्य आर्थिक लाभ इसके खाते में डाले जाएं।

22. नियोक्ता और न्यासी बोर्ड के सदस्य शर्तों का पालन करने की सहमति देते हुए लिखित वचन देंगे तथा यह वैधिक रूप से नियोक्ता और न्यासी बोर्ड के उत्तराधिकारियों और समनुदेशितों पर उनके साथ-साथ बाध्यकारी होगा।

23. नियोक्ता और न्यासी बोर्ड छूट के रद्द होने की स्थिति में संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा विहित समय सीमा के भीतर तत्काल निधियों का अंतरण करने का वचन भी देगा। यह उन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा तथा उन्हें निधियों के अंतरण में कोई विलंब होने की स्थिति में अभियोजन का भागी बनाएगा।

24. (क) न्यासी बोर्ड द्वारा अनुरक्षित भविष्य निधि खाता किसी योग्य स्वतंत्र चार्टर्ड लेखाकार द्वारा वार्षिक रूप से लेखा-परीक्षा करने के शर्ताधीन होगा। जहां भी आवश्यक समझा जाए, वहां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अधिकार होगा कि यह किसी अन्य योग्य लेखा-परीक्षक द्वारा खातों की लेखा-परीक्षा कराए तथा इस प्रकार हुए खर्च नियोक्ता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(ख) लेखा-परीक्षकों द्वारा वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की समाप्ति के बाद छह महीने के भीतर लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र सहित लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की प्रति सीधे इस कार्यालय में प्रस्तुत की जाए। तुलन-पत्र का प्रारूप और इस रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित की जाएगी तथा संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में इलैक्ट्रॉनिक प्रारूप के साथ हस्ताक्षरित प्रतिलिपि में उपलब्ध कराई जाएगी।

(ग) एक ही लेखा-परीक्षकों को लगातार दो वर्ष के लिए तथा अगले वित्तीय वर्ष के पहले दिन से मिली छूट से अधिक के लिए नियुक्त न किया जाए।

25. लगातार तीन वित्तीय वर्षों तक कोई हानि या पूंजी आधार में कटौती को अगले वित्तीय वर्ष के पहले दिन से मिली छूट प्राप्त होगी।

26. नियोक्ता प्रत्येक माह की समाप्ति से 15 दिन के भीतर निरीक्षण हेतु ऐसी सुविधाओं का प्रावधान करेगा तथा ऐसे निरीक्षण प्रभारों का भुगतान करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 17 के उप-खण्ड (3) के खण्ड(क) के अंतर्गत समय-समय पर दिए निर्देशों के अनुसार हों।

27. न्यासी बोर्ड या नियोक्ता द्वारा छूट देने के लिए शर्तों के किसी उल्लंघन की स्थिति में दी गई छूट संबंधित व्यक्ति को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद रद्द कर दी जाएगी।
28. किसी भी धोखे, गबन, गलत निवेश निर्णयों आदि के फलस्वरूप ट्रस्ट को हुए किसी भी नुकसान की स्थिति में नियोक्ता नुकसान पूरा करने का भागी होगा।
29. किसी विलय, अविलय, अभिग्रहण, बिक्री, एकीकरण, सहायक कंपनी का गठन चाहे पूर्णतः स्वामित्व वाली हो या नहीं इत्यादि के फलस्वरूप यदि प्रतिष्ठान की कानूनी स्थिति में कोई भी बदलाव होता है तो दी गई छूट निरस्त होगी एवं प्रतिष्ठान को तुरंत नई छूट देने के लिए मामले की रिपोर्ट करनी चाहिए।
30. एक ही भविष्य निधि ट्रस्ट में एक से अधिक इकाई/प्रतिष्ठानों के भाग लेने की स्थिति में भाग लेने वाली इकाईयों के किसी भी ट्रस्टी/नियोक्ता द्वारा कोई भी चूक होने पर सभी ट्रस्टी संयुक्त रूप से एवं अलग से जिम्मेदार/उत्तरदायी होंगे और आरपीएफसी आम भविष्य निधि ट्रस्ट के सभी न्यासियों के विरुद्ध उपयुक्त कानूनी कार्रवाई करेगा।
31. छूट प्राप्त न्यास निधि के अधिग्रहण के मामले में, अंतरीय व्याज के कारण हानि के अनुमानित निवल वर्तमान मूल्य की वसूली प्रतिष्ठान से की जानी चाहिए।
32. केन्द्र सरकार प्रतिष्ठान की छूट की निरंतरता के लिए शर्तों को बढ़ा सकती है और जब भी इनको संप्रेषित किया जाएगा ये प्रतिष्ठान इन अतिरिक्त शर्तों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

New Delhi, the 3rd May, 2016

S.O. 845.— Whereas M/s. Patel Engineering Limited [under Code No.MH/20119 in Kandivali region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act and subject to the conditions annexed with this notification, the Central Government, hereby, exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 01.09.1981 until further notification.

[No. S-35015/21/2015-SS-II]
SUBHASH KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CONDITIONS FOR GRANT OF EXEMPTION FROM THE PROVISIONS OF EMPLOYEES PROVIDENT FUND SCHEME, 1952

1. The employer shall establish a Board of Trustees under his Chairmanship for the management of the Provident Fund according to such directions as may be given by the Central Government or the Central Provident Fund Commissioner, as the case may be, from time to time. The provident fund shall vest in the Board of Trustees who will be responsible for and accountable to the Employees' Provident Funds Organisation, inter alia, for proper accounts of the receipts into and payment from the Provident Fund and the balance in their custody. For this purpose, the "employer" shall mean:-

- (i) In relation to an establishment, which is a factory, the owner or occupier of the factory; and
- (ii) In relation to any other establishment, the person who, or the authority, that has the ultimate control over the affairs of the establishment.

2. The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the guidelines that may be issued from time to time by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner(CPFC) or an officer authorized by him.

3. All employees' as defined in section 2(f) of the act, who have been eligible to become members of the Provident Fund' had the establishment not been granted exemption, shall be enrolled as members.

4. Where an employee who is already a member of Employees' Provident fund or a Provident Fund of any other exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the fund. The employer should also arrange to have the accumulations in the Provident Fund account of such employee with his previous employer transferred and credited into his account.
5. The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the Provident Fund by himself and employees at the rate prescribed under the act from time to time by the 15th of each month following the month for which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay simple interest in terms of the provisions of Section 7Q of the Act for any delay in payment of any dues towards the Board of Trustees.
6. The employer shall bear all the expenses of the administration of Provident Fund and also make good any other loss that may be caused to the Provident Fund due to theft, burglary, defalcation, misappropriation or any other reason.
7. Any deficiency in the interest declared by the Board of Trustees is to be made good by the employer to bring it up to the statutory limit.
8. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the funds as approved by the appropriate authority and as and when amended thereto along with a translation in the language of the majority of the employees.
9. The rate of contributions payable, the conditions and quantum of advances and other matters laid down under the provident fund rules of the establishment and the interest credited to the account of each member, calculated on the monthly running balance of the member and declared by the Board of Trustees shall not be lower than those declared by the Central Government under the various provisions prescribed in the Act and Scheme framed thereunder.
10. Any amendment to the Scheme, which is more beneficial to the employees than the existing rules of the establishment, shall be made applicable to them automatically pending formal amendment of the Rules of the Trust.
11. No amendment in the rules shall be made by the employer without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
12. All claims for withdrawals, advances and transfers should be settled expeditiously, within the maximum time frame prescribed by the Employees' Provident Fund Organisation.
13. The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited withdrawal and interest in respect of each employee. The maintenance of such records should preferably be done electronically. The establishments should periodically transmit the details of members' accounts electronically as and when directed by the Central Provident Commissioner/Regional Provident Fund Commissioner.
14. The Board of Trustees shall issue an annual statement of accounts or pass books to every employee within six months of the close of financial/accounting year free of cost once in the year. Additional printouts can be made available as and when the members want, subject to nominal charges. In case of passbook, the same shall remain in custody of employee to be updated periodically by the Trustees when presented to them.
15. The employer shall make necessary provisions to enable all the members to be able to see their account balance from the computer terminals as and when required by them.
16. The Board of Trustees and the employer shall file such returns monthly/annually as may be prescribed by the Employees' Provident Fund Organisation within the specified time limit, failing which it will be deemed as a default and the Board of Trustees and employer will jointly and separately be liable for suitable penal action by the Employees' Provident Fund Organisation.
17. The Board of Trustees shall invest the monies of the provident fund as per the directions of the Government from time to time. Failure to make investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees separately and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his representative.
18. (a) The securities shall be obtained in the name of Trust. The securities so obtained should be in dematerialized (DEMAT) form and in case the required facility is not available in the areas where the trust operates the Board of Trustees shall inform the Regional Provident Fund Commissioner concerned about the same.
(b) The Board of Trustees shall maintain a script wise register and ensure timely realization of interest.
(c) The DEMAT Account should be opened through depository participants approved by Reserve Bank of India and Central Government in accordance with the instructions issued by the Central Government in this regard.
(d) The cost of maintaining DEMAT account should be treated as incidental cost of investment by the Trust. Also all types of cost of investments like brokerage for purchase of securities etc. shall be treated as incidental cost of investment by the Trust.

19. All such investments made like purchase of securities and bonds, should be lodged in the safe custody of depository participants approved by Reserve Bank of India and Central Government, who shall be the custodian of the same. On closure of establishment or liquidation or cancellation of exemption from EPF Scheme, 1952 such custodian shall transfer the investment obtained in the name of the Trust and standing in its credit to the Regional PF Commissioner concerned directly on receipt of request from the Regional PF Commissioner concerned to that effect.
20. The establishment shall intimate to the Regional P.F. Commissioner concerned the details of depository participants (approved by RBI and Central Government), with whom and in whose safe custody, the investments made in the name of trust, viz., investments made in securities, bonds, etc. have been lodged. However, the Board of Trustees may raise such sum of sums of money as may be required for meeting obligatory expenses such as settlement of claims, grant of advances as per rules and transfer of member's PF accumulations in the event of his/her leaving service of the employer and any other receipts by sale of the securities or other investments standing in the name of the Fund subject to the prior approval of the Regional PF Commissioner.
21. Any commission, incentive, bonus or other pecuniary rewards given by any financial or other institutions for the investments made by the Trust should be credited to its account.
22. The employer and the members of the Board of Trustees, shall furnish a written undertaking agreeing to abide by the conditions and this shall be legally binding on the employer and the Board of Trustees, including their successors and assignees.
23. The employer and the Board of Trustees shall also give an undertaking to transfer the funds promptly within the time limit prescribed by the concerned RPFC in the event of cancellation of relaxation. This shall be legally binding on them and will make them liable for prosecution in the event of any delay in the transfer of funds.
24. (a) The account of the Provident Fund maintained by the Board of Trustees shall be subject to audit by a qualified independent chartered accountant annually. Where considered necessary the EPFO shall have the right to have the accounts re-audited by any other qualified auditor and the expenses so incurred shall be borne by the employer.
- (b) A copy of the Auditor's report alongwith the audited balance sheet should be submitted to this office by the Auditors directly within six months after the closing of the financial year from 1st April to 31st March. The format of the balance sheet and the information to be furnished in the report shall be prescribed by the Employees' Provident fund Organisation and made available with the RPFC office in electronic format as well as a signed hard copy.
- (c) The same auditors should not be appointed for two consecutive years and not more than the relaxation withdrawn from the first day of the next succeeding financial year.
25. Any loss for the three consecutive financial years or erosion in the capital base shall have the relaxation withdrawn from the first day of the next succeeding financial year.
26. The employer shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section (3) of Section 17 of the Act within 15 days from the close of every month.
27. In the event of any violation of the conditions for grant of relaxation, by the employer or the Board of Trustees, the relaxation granted shall be cancelled after issuing a show cause notice in this regard to the concerned persons.
28. In the event of any loss to the trust as a result of any fraud, defalcation, wrong investment decisions etc. the employer shall be liable to make good the loss.
29. In case of any change of legal status of the establishment as a result of merger, de-merger, acquisition, sale, amalgamation, formation of a subsidiary, whether wholly owned or not etc., the relaxation granted shall stand revoked and the establishment should promptly report the matter for grant of fresh relaxation.
30. In case there are more than one unit/establishment participating in the common Provident Fund Trust, all the trustees shall be jointly and separately liable/responsible for any default committed by any of the trustees/employer of any of the participating units and the RPFC shall take suitable legal action against all the trustees of the common Provident Fund Trust.
31. In case of takeover of the exempted Trust Fund, estimated net present value of the loss due to differential interest should be recovered from the establishment.
32. The Central Government may lay down further conditions for continuation of exemption of the establishment and the establishment shall be bound to comply with these additional conditions as and when the same are communicated.

नई दिल्ली, 3 मई, 2016

का.आ. 846.—जबकि मैसर्स होण्डा सिल पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (नोएडा उपक्षेत्र में कोड संख्या यूपी/36460 के अंतर्गत) (एतदुपरांत प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरांत अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है।

2. और जबकि केन्द्रीय सरकार के विचार में, अंशदान की दरों के संबंध में उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि नियम उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कर्मचारियों के लिए कम उपयुक्त नहीं हैं और कर्मचारी उक्त अधिनियम अथवा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरांत योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत सदृश स्वरूप के किसी अन्य प्रतिष्ठान में कर्मचारियों के संबंध में दी जाने वाली अन्य भविष्य निधि प्रसुविधाओं का भी लाभ उठा रहे हैं।

3. अतः, अब, केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के साथ सन्लग्न शर्तों के अध्याधीन उक्त प्रतिष्ठान को अगली अधिसूचना तक 01.02.1990 से उक्त योजना के सभी उपबंधों के प्रभाव से छूट प्रदान करती है।

[सं. एस-35015/36/2015-एसएस-II]

सुभाष कुमार, अवर सचिव

अनुबंध

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के उपबंधों से छूट प्रदान करने संबंधी शर्तें

1. नियोक्ता समय-समय पर केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा दिए जाने वाले ऐसे निदेशों के अनुसार भविष्य निधि के प्रबंधन हेतु अपनी अध्यक्षता में एक न्यासी बोर्ड गठित करेगा। भविष्य निधि न्यासी बोर्ड में विहित होगी जो अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रति भविष्य निधि में प्राप्तियों और उसमें से भुगतान के उचित लेखों और उनकी अभिरक्षा में शेष राशि के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रयोजनार्थ, "नियोक्ता" से:-

(i) किसी प्रतिष्ठान, जो एक कारखाना हो, उसके संबंध में, कारखाने का स्वामी अथवा अधिष्ठाता अभिप्रेत होगा; और

(ii) किसी अन्य प्रतिष्ठान के संबंध में, वह व्यक्ति, अथवा प्राधिकारी अभिप्रेत होगा, जिसका उस प्रतिष्ठान के कामकाज पर अंतिम नियंत्रण हो।

2. न्यासी बोर्ड हरेक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगा और वह केन्द्र सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।

3. अधिनियम की धारा 2(च) में यथा परिभाषित सभी कर्मचारी, जो भविष्य निधि के सदस्य बनने के पात्र रहें हैं, यदि प्रतिष्ठान को छूट प्रदान नहीं की होती, उन्हें सदस्यों के रूप में नामांकित किया जाएगा।

4. जहां कोई कर्मचारी जो पहले ही किसी अन्य छूट-प्राप्त प्रतिष्ठान के किसी कर्मचारी भविष्य निधि अथवा भविष्य निधि का सदस्य हो, उसे उसके प्रतिष्ठान में नियोजित किया जाता है, तो नियोक्ता उसे तत्काल निधि के सदस्य के रूप में नामांकित करेगा। नियोक्ता ऐसे कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में उसके पहले नियोक्ता से संचय राशियां अंतरित और जमा करवाने की भी व्यवस्था करेगा।

5. नियोक्ता भविष्य निधि को उसके द्वारा और कर्मचारी के द्वारा समय-समय पर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दर से देय अंशदान को, जिस माह के लिए अंशदान देय हों उसके बाद के माह की 15 तारीख तक न्यासी बोर्ड को अंतरित करेगा। नियोक्ता न्यासी बोर्ड को किन्हीं देयों के भुगतान में किसी विलम्ब के लिए अधिनियम की धारा 7 थ के उपबंधों के अनुसार साधारण ब्याज अदा करने का दायी होगा।

6. नियोक्ता भविष्य निधि के प्रशासन के सभी व्यय वहन करेगा और चोरी, डकैती, गबन, दुर्विनियोग अथवा किसी अन्य कारण से भविष्य निधि को हो सकने वाले किसी घाटे की भी भरपाई करेगा।

7. न्यासी बोर्ड द्वारा घोषित व्याज में किसी कमी को भी नियोक्ता द्वारा पूरा किया जाना होगा और उसे सांविधिक सीमा तक लाना होगा।
8. नियोक्ता जब कभी नियम संशोधित किए जाएं, समुचित प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित, निधि के नियमों की एक प्रति अधिसंख्यक कर्मचारियों की भाषा में उनके अनुवाद सहित प्रतिष्ठान के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।
9. प्रतिष्ठान के भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत निर्धारित देय अंशदान की दर, अग्रिम की शर्तें और मात्रा तथा अन्य मामले और सदस्य के मासिक चालू शेष पर संगणित और न्यासी बोर्ड द्वारा घोषित, प्रत्येक सदस्य के खाते में जमा किया गया व्याज, अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित योजना में निर्धारित विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा घोषित दर से कम नहीं होगा।
10. योजना में कोई संशोधन, जो प्रतिष्ठान के विद्यमान नियमों की तुलना में कर्मचारियों के लिए अधिक लाभदायक हो, उसे न्यास के नियमों में औपचारिक संशोधन के लंबित रहते उन पर स्वतः लागू किया जाएगा।
11. नियोक्ता द्वारा नियमों में कोई भी संशोधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना रुख स्पष्ट करने का वाजिब अवसर देगा।
12. निकासी, अग्रिम और अंतरण के सभी दावे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित अधिकतम समय-सीमा के भीतर, शीघ्रता से निपटाए जाएंगे।
13. न्यासी बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में जमा किए गए अंशदान, निकासी और व्याज दर्शाने के लिए विस्तारित लेखों का रख-रखाव करेगा। ऐसे अभिलेखों का रख-रखाव अधिमानतः इलैक्ट्रॉनिक रूप से रखा जाएगा। प्रतिष्ठान आवधिक रूप से जब कभी केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा निदेश दिया जाए, सदस्यों के लेखों को इलैक्ट्रॉनिक रूप से सम्प्रेषित करेंगे।
14. न्यासी बोर्ड वर्ष में एक बार वित्तीय/लेखा वर्ष के समाप्त होने के छः माह के भीतर प्रत्येक कर्मचारी को निःशुल्क लेखों का वार्षिक विवरण अथवा पासबुक जारी करेगा। जब कभी सदस्य चाहें, अतिरिक्त प्रिंटआउट नाममात्र के प्रभार के साथ उपलब्ध कराए जा सकते हैं। पासबुक के मामले में वह कर्मचारी के पास रहेगी जिसे प्रस्तुत किए जाने पर न्यासियों द्वारा आवधिक रूप से अद्यतन किया जाएगा।
15. नियोक्ता सभी सदस्यों को उनकी आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर टर्मिनलों से अपने खाते में पड़ी शेष राशि को देखने के समर्थ बनाने के लिए आवश्यक प्रावधान करेंगे।
16. न्यासी बोर्ड और नियोक्ता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा यथा विहित रूप में ये विवरणियां विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर मासिक/वार्षिक रूप से दायर करेंगे, जिसे न करने पर इसे चूक माना जाएगा तथा न्यासी बोर्ड और नियोक्ता संयुक्त रूप से और अलग-अलग, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा की जाने वाली उपयुक्त दाण्डिक कार्रवाई के भागी होंगे।
17. न्यासी बोर्ड समय-समय पर सरकार के निर्देशों के अनुसार भविष्य निधि के पैसे का निवेश करेगा। सरकार के निर्देशों के अनुसार निवेश करने में असफल होने पर न्यासी बोर्ड अलग-अलग और संयुक्त रूप से केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उसके प्रतिनिधि द्वारा यथा अधिरोपित अधिशुल्क का भागी बन जाएगा।
18. (क) प्रतिभूतियां न्यास के नाम से प्राप्त की जाएंगी। इस प्रकार प्राप्त की गई प्रतिभूतियां अभौतिक (डीमेट) रूप में होनी चाहिए तथा न्यास के कार्यचालित रहने वाले क्षेत्रों में अपेक्षित सुविधा के उपलब्ध न होने की स्थिति में न्यासी बोर्ड संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को इसकी सूचना देंगे।
- (ख) न्यासी बोर्ड लिपि-वार रजिस्टर बनाएगा तथा व्याज की समय पर उगाही सुनिश्चित करेगा।
- (ग) डीमेट खाता इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित निक्षेपागार प्रतिभागियों के माध्यम से खोला जाए।
- (घ) डीमेट खाते का खर्च न्यास द्वारा किए जाने वाले निवेश का प्रासंगिक व्यय व्यय माना जाए। प्रतिभूतियों आदि की खरीद की दलाली जैसे निवेशों के सभी प्रकार के खर्चों को भी न्यास द्वारा किए जाने वाले निवेश का प्रासंगिक व्यय माना जाएगा।

19. प्रतिभूतियों और बाण्डों की खरीद जैसे ऐसे सभी निवेश भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित निक्षेपागार प्रतिभागियों की सुरक्षा अभिरक्षा में दर्ज किए जाएं, जो इसके संरक्षक होंगे। स्थापना की बंदी या परिसमापन या कर्मचारी भविष्य निधि, 1952 से छूट पर यह संरक्षक, न्यास के नाम पर प्राप्त तथा अपने जमा में पड़े निवेश को संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के, इस आशय के, अनुरोध पर संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को सीधे अंतरित करेगा।

20. स्थापना संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को उन निक्षेपागार प्रतिभागियों (भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित) के विवरण से सूचित करेगी, जिनके पास तथा जिनकी सुरक्षा अभिरक्षा में न्यास के नाम पर किए गए निवेश अर्थात् प्रतिभूतियों, बाण्डों आदि में किए गए निवेश दर्ज किए गए हैं। तथापि, न्यासी बोर्ड उस धनराशि की उगाही कर सकता है, जो दावों के निपटान, नियमानुसार अग्रिमों की मंजूरी और नियोक्ता की सेवा छोड़ने की स्थिति में सदस्य के भविष्य निधि संचयन के अंतरण और प्रतिभूतियों की बिक्री द्वारा अन्य किसी प्राप्तियों अथवा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के शर्ताधीन निधि के नाम में पड़े अन्य निवेशों जैसे बाध्यकारी व्ययों को पूरा करने के लिए अपेक्षित हों।

21. न्यास द्वारा किए गए निवेशों के लिए किसी वित्तीय या अन्य संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले किसी कमीशन, प्रोत्साहन, बोनस या अन्य आर्थिक लाभ इसके खाते में डाले जाएं।

22. नियोक्ता और न्यासी बोर्ड के सदस्य शर्तों का पालन करने की सहमति देते हुए लिखित वचन देंगे तथा यह वैधिक रूप से नियोक्ता और न्यासी बोर्ड के उत्तराधिकारियों और समनुदेशितों पर उनके साथ-साथ बाध्यकारी होगा।

23. नियोक्ता और न्यासी बोर्ड छूट के रद्द होने की स्थिति में संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा विहित समय सीमा के भीतर तत्काल निधियों का अंतरण करने का वचन भी देगा। यह उन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा तथा उन्हें निधियों के अंतरण में कोई विलंब होने की स्थिति में अभियोजन का भागी बनाएगा।

24. (क) न्यासी बोर्ड द्वारा अनुरक्षित भविष्य निधि खाता किसी योग्य स्वतंत्र चार्टर्ड लेखाकार द्वारा वार्षिक रूप से लेखा-परीक्षा करने के शर्ताधीन होगा। जहां भी आवश्यक समझा जाए, वहां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अधिकार होगा कि यह किसी अन्य योग्य लेखा-परीक्षक द्वारा खातों की लेखा-परीक्षा कराए तथा इस प्रकार हुए खर्च नियोक्ता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(ख) लेखा-परीक्षकों द्वारा वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की समाप्ति के बाद छह महीने के भीतर लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र सहित लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की प्रति सीधे इस कार्यालय में प्रस्तुत की जाए। तुलन-पत्र का प्रारूप और इस रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित की जाएगी तथा संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में इलैक्ट्रॉनिक प्रारूप के साथ हस्ताक्षरित प्रतिलिपि में उपलब्ध कराई जाएगी।

(ग) एक ही लेखा-परीक्षकों को लगातार दो वर्ष के लिए तथा अगले वित्तीय वर्ष के पहले दिन से मिली छूट से अधिक के लिए नियुक्त न किया जाए।

25. लगातार तीन वित्तीय वर्षों तक कोई हानि या पूंजी आधार में कटौती को अगले वित्तीय वर्ष के पहले दिन से मिली छूट प्राप्त होगी।

26. नियोक्ता प्रत्येक माह की समाप्ति से 15 दिन के भीतर निरीक्षण हेतु ऐसी सुविधाओं का प्रावधान करेगा तथा ऐसे निरीक्षण प्रभारों का भुगतान करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 17 के उप-खण्ड (3) के खण्ड(क) के अंतर्गत समय-समय पर दिए निर्देशों के अनुसार हों।

27. न्यासी बोर्ड या नियोक्ता द्वारा छूट देने के लिए शर्तों के किसी उल्लंघन की स्थिति में दी गई छूट संबंधित व्यक्ति को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद रद्द कर दी जाएगी।

28. किसी भी धोखे, गबन, गलत निवेश निर्णयों आदि के फलस्वरूप ट्रस्ट को हुए किसी भी नुकसान की स्थिति में नियोक्ता नुकसान पूरा करने का भागी होगा।

29. किसी विलय, अविलय, अभिग्रहण, बिक्री, एकीकरण, सहायक कंपनी का गठन चाहे पूर्णतः स्वामित्व वाली हो या नहीं इत्यादि के फलस्वरूप यदि प्रतिष्ठान की कानूनी स्थिति में कोई भी बदलाव होता है तो दी गई छूट निरस्त होगी एवं प्रतिष्ठान को तुरंत नई छूट देने के लिए मामले की रिपोर्ट करनी चाहिए।

30. एक ही भविष्य निधि ट्रस्ट में एक से अधिक इकाई/प्रतिष्ठानों के भाग लेने की स्थिति में भाग लेने वाली इकाईयों के किसी भी ट्रस्टी/नियोक्ता द्वारा कोई भी चूक होने पर सभी ट्रस्टी संयुक्त रूप से एवं अलग से जिम्मेदार/उत्तरदायी होंगे और आरपीएफसी आम भविष्य निधि ट्रस्ट के सभी न्यासियों के विरुद्ध उपयुक्त कानूनी कार्यवाई करेगा।

31. छूट प्राप्त न्यास निधि के अधिग्रहण के मामले में, अंतरीय ब्याज के कारण हानि के अनुमानित निवल वर्तमान मूल्य की वसूली प्रतिष्ठान से की जानी चाहिए।

32. केन्द्र सरकार प्रतिष्ठान की छूट की निरंतरता के लिए शर्तों को बढ़ा सकती है और जब भी इनको संप्रेषित किया जाएगा ये प्रतिष्ठान इन अतिरिक्त शर्तों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

New Delhi, the 3rd May, 2016

S.O. 846.—Whereas M/s. Honda Siel Power Products Limited [under Code No. UP/36460 in Noida sub region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act and subject to the conditions annexed with this notification, the Central Government, hereby, exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 01.02.1990 until further notification.

[No. S-35015/36/2015-SS-II]

SUBHASH KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CONDITIONS FOR GRANT OF EXEMPTION FROM THE PROVISIONS OF EMPLOYEES PROVIDENT FUND SCHEME, 1952

1. The employer shall establish a Board of Trustees under his Chairmanship for the management of the Provident Fund according to such directions as may be given by the Central Government or the Central Provident Fund Commissioner, as the case may be, from time to time. The provident fund shall vest in the Board of Trustees who will be responsible for and accountable to the Employees' Provident Funds Organisation, inter alia, for proper accounts of the receipts into and payment from the Provident Fund and the balance in their custody. For this purpose, the "employer" shall mean:-

(i) In relation to an establishment, which is a factory, the owner or occupier of the factory: and

(ii) In relation to any other establishment, the person who, or the authority, that has the ultimate control over the affairs of the establishment.

2. The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the guidelines that may be issued from time to time by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner(CPFC) or an officer authorized by him.

3. All employees' as defined in section 2(f) of the act, who have been eligible to become members of the Provident Fund' had the establishment not been granted exemption, shall be enrolled as members.

4. Where an employee who is already a member of Employees' Provident fund or a Provident Fund of any other exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the fund. The employer should also arrange to have the accumulations in the Provident Fund account of such employee with his previous employer transferred and credited into his account.

5. The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the Provident Fund by himself and employees at the rate prescribed under the act from time to time by the 15th of each month following the month for which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay simple interest in terms of the provisions of Section 7Q of the Act for any delay in payment of any dues towards the Board of Trustees.

6. The employer shall bear all the expenses of the administration of Provident Fund and also make good any other loss that may be caused to the Provident Fund due to theft, burglary, defalcation, misappropriation or any other reason.

7. Any deficiency in the interest declared by the Board of Trustees is to be made good by the employer to bring it up to the statutory limit.

8. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the funds as approved by the appropriate authority and as and when amended thereto along with a translation in the language of the majority of the employees.
9. The rate of contributions payable, the conditions and quantum of advances and other matters laid down under the provident fund rules of the establishment and the interest credited to the account of each member, calculated on the monthly running balance of the member and declared by the Board of Trustees shall not be lower than those declared by the Central Government under the various provisions prescribed in the Act and Scheme framed thereunder.
10. Any amendment to the Scheme, which is more beneficial to the employees than the existing rules of the establishment, shall be made applicable to them automatically pending formal amendment of the Rules of the Trust.
11. No amendment in the rules shall be made by the employer without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
12. All claims for withdrawals, advances and transfers should be settled expeditiously, within the maximum time frame prescribed by the Employees' Provident Fund Organisation.
13. The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited withdrawal and interest in respect of each employee. The maintenance of such records should preferably be done electronically. The establishments should periodically transmit the details of members' accounts electronically as and when directed by the Central Provident Commissioner/Regional Provident Fund Commissioner.
14. The Board of Trustees shall issue an annual statement of accounts or pass books to every employee within six months of the close of financial/accounting year free of cost once in the year. Additional printouts can be made available as and when the members want, subject to nominal charges. In case of passbook, the same shall remain in custody of employee to be updated periodically by the Trustees when presented to them.
15. The employer shall make necessary provisions to enable all the members to be able to see their account balance from the computer terminals as and when required by them.
16. The Board of Trustees and the employer shall file such returns monthly/annually as may be prescribed by the Employees' Provident Fund Organisation within the specified time limit, failing which it will be deemed as a default and the Board of Trustees and employer will jointly and separately be liable for suitable penal action by the Employees' Provident Fund Organisation.
17. The Board of Trustees shall invest the monies of the provident fund as per the directions of the Government from time to time. Failure to make investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees separately and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his representative.
18. (a) The securities shall be obtained in the name of Trust. The securities so obtained should be in dematerialized (DEMAT) form and in case the required facility is not available in the areas where the trust operates the Board of Trustees shall inform the Regional Provident Fund Commissioner concerned about the same.
(b) The Board of Trustees shall maintain a script wise register and ensure timely realization of interest.
(c) The DEMAT Account should be opened through depository participants approved by Reserve Bank of India and Central Government in accordance with the instructions issued by the Central Government in this regard.
(d) The cost of maintaining DEMAT account should be treated as incidental cost of investment by the Trust. Also all types of cost of investments like brokerage for purchase of securities etc. shall be treated as incidental cost of investment by the Trust.
19. All such investments made like purchase of securities and bonds, should be lodged in the safe custody of depository participants approved by Reserve Bank of India and Central Government, who shall be the custodian of the same. On closure of establishment or liquidation or cancellation of exemption from EPF Scheme, 1952 such custodian shall transfer the investment obtained in the name of the Trust and standing in its credit to the Regional PF Commissioner concerned directly on receipt of request from the Regional PF Commissioner concerned to that effect.
20. The establishment shall intimate to the Regional P.F. Commissioner concerned the details of depository participants (approved by RBI and Central Government), with whom and in whose safe custody, the investments made in the name of trust, viz., investments made in securities, bonds, etc. have been lodged. However, the Board of Trustees may raise such sum of sums of money as may be required for meeting obligatory expenses such as settlement of claims, grant of advances as per rules and transfer of member's PF accumulations in the event of his/her leaving service of the

employer and any other receipts by sale of the securities or other investments standing in the name of the Fund subject to the prior approval of the Regional PF Commissioner.

21. Any commission, incentive, bonus or other pecuniary rewards given by any financial or other institutions for the investments made by the Trust should be credited to its account.

22. The employer and the members of the Board of Trustees, shall furnish a written undertaking agreeing to abide by the conditions and this shall be legally binding on the employer and the Board of Trustees, including their successors and assignees.

23. The employer and the Board of Trustees shall also give an undertaking to transfer the funds promptly within the time limit prescribed by the concerned RPFC in the event of cancellation of relaxation. This shall be legally binding on them and will make them liable for prosecution in the event of any delay in the transfer of funds.

24. (a) The account of the Provident Fund maintained by the Board of Trustees shall be subject to audit by a qualified independent chartered accountant annually. Where considered necessary the EPFO shall have the right to have the accounts re-audited by any other qualified auditor and the expenses so incurred shall be borne by the employer.

(b) A copy of the Auditor's report alongwith the audited balance sheet should be submitted to this office by the Auditors directly within six months after the closing of the financial year from 1st April to 31st March. The format of the balance sheet and the information to be furnished in the report shall be prescribed by the Employees' Provident fund Organisation and made available with the RPFC office in electronic format as well as a signed hard copy.

(c) The same auditors should not be appointed for two consecutive years and not more than the relaxation withdrawn from the first day of the next succeeding financial year.

25. Any loss for the three consecutive financial years or erosion in the capital base shall have the relaxation withdrawn from the first day of the next succeeding financial year.

26. The employer shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section (3) of Section 17 of the Act within 15 days from the close of every month.

27. In the event of any violation of the conditions for grant of relaxation, by the employer or the Board of Trustees, the relaxation granted shall be cancelled after issuing a show cause notice in this regard to the concerned persons.

28. In the event of any loss to the trust as a result of any fraud, defalcation, wrong investment decisions etc. the employer shall be liable to make good the loss.

29. In case of any change of legal status of the establishment as a result of merger, de-merger, acquisition, sale, amalgamation, formation of a subsidiary, whether wholly owned or not etc., the relaxation granted shall stand revoked and the establishment should promptly report the matter for grant of fresh relaxation.

30. In case there are more than one unit/establishment participating in the common Provident Fund Trust, all the trustees shall be jointly and separately liable/responsible for any default committed by any of the trustees/employer of any of the participating units and the RPFC shall take suitable legal action against all the trustees of the common Provident Fund Trust.

31. In case of takeover of the exempted Trust Fund, estimated net present value of the loss due to differential interest should be recovered from the establishment.

32. The Central Government may lay down further conditions for continuation of exemption of the establishment and the establishment shall be bound to comply with these additional conditions as and when the same are communicated.

नई दिल्ली, 3 मई, 2016

का.आ. 847.—जबकि मैसर्स चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (कोटा उपक्षेत्र में कोड संख्या आरजे/5161 के अंतर्गत) (एतदुपरांत प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरांत अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है।

2. और जबकि केन्द्रीय सरकार के विचार में, अंशदान की दरों के संबंध में उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि नियम उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कर्मचारियों के लिए कम उपयुक्त नहीं हैं और कर्मचारी उक्त अधिनियम अथवा कर्मचारी भविष्य

निधि योजना, 1952 (एतदुपरांत योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत सदृश स्वरूप के किसी अन्य प्रतिष्ठान में कर्मचारियों के संबंध में दी जाने वाली अन्य भविष्य निधि प्रसुविधाओं का भी लाभ उठा रहे हैं।

3. अतः, अब, केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के साथ सन्लग्न शर्तों के अध्याधीन उक्त प्रतिष्ठान को अगली अधिसूचना तक 01.11.1994 से उक्त योजना के सभी उपबंधों के प्रभाव से छूट प्रदान करती है।

[सं. एस-35015/28/2015-एसएस-II]

सुभाष कुमार, अवर सचिव

अनुबंध

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के उपबंधों से छूट प्रदान करने संबंधी शर्तें

1. नियोक्ता समय-समय पर केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा दिए जाने वाले ऐसे निदेशों के अनुसार भविष्य निधि के प्रबंधन हेतु अपनी अध्यक्षता में एक न्यासी बोर्ड गठित करेगा। भविष्य निधि न्यासी बोर्ड में विहित होगी जो अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रति भविष्य निधि में प्राप्तियों और उसमें से भुगतान के उचित लेखों और उनकी अभिरक्षा में शेष राशि के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रयोजनार्थ, "नियोक्ता" से:-

- (i) किसी प्रतिष्ठान, जो एक कारखाना हो, उसके संबंध में, कारखाने का स्वामी अथवा अधिष्ठाता अभिप्रेत होगा; और
- (ii) किसी अन्य प्रतिष्ठान के संबंध में, वह व्यक्ति, अथवा प्राधिकारी अभिप्रेत होगा, जिसका उस प्रतिष्ठान के कामकाज पर अंतिम नियंत्रण हो।

2. न्यासी बोर्ड हरेक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगा और वह केन्द्र सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।

3. अधिनियम की धारा 2(च) में यथा परिभाषित सभी कर्मचारी, जो भविष्य निधि के सदस्य बनने के पात्र रहें हैं, यदि प्रतिष्ठान को छूट प्रदान नहीं की होती, उन्हें सदस्यों के रूप में नामांकित किया जाएगा।

4. जहां कोई कर्मचारी जो पहले ही किसी अन्य छूट-प्राप्त प्रतिष्ठान के किसी कर्मचारी भविष्य निधि अथवा भविष्य निधि का सदस्य हो, उसे उसके प्रतिष्ठान में नियोजित किया जाता है, तो नियोक्ता उसे तत्काल निधि के सदस्य के रूप में नामांकित करेगा। नियोक्ता ऐसे कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में उसके पहले नियोक्ता से संचय राशियां अंतरित और जमा करवाने की भी व्यवस्था करेगा।

5. नियोक्ता भविष्य निधि को उसके द्वारा और कर्मचारी के द्वारा समय-समय पर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दर से देय अंशदान को, जिस माह के लिए अंशदान देय हों उसके बाद के माह की 15 तारीख तक न्यासी बोर्ड को अंतरित करेगा। नियोक्ता न्यासी बोर्ड को किन्हीं देयों के भुगतान में किसी विलम्ब के लिए अधिनियम की धारा 7 थ के उपबंधों के अनुसार साधारण व्याज अदा करने का दायी होगा।

6. नियोक्ता भविष्य निधि के प्रशासन के सभी व्यय वहन करेगा और चोरी, डकैती, गबन, दुर्विनियोग अथवा किसी अन्य कारण से भविष्य निधि को हो सकने वाले किसी घाटे की भी भरपाई करेगा।

7. न्यासी बोर्ड द्वारा घोषित व्याज में किसी कमी को भी नियोक्ता द्वारा पूरा किया जाना होगा और उसे सांविधिक सीमा तक लाना होगा।

8. नियोक्ता जब कभी नियम संशोधित किए जाएं, समुचित प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित, निधि के नियमों की एक प्रति अधिसंख्यक कर्मचारियों की भाषा में उनके अनुवाद सहित प्रतिष्ठान के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।

9. प्रतिष्ठान के भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत निर्धारित देय अंशदान की दर, अग्रिम की शर्तें और मात्रा तथा अन्य मामले और सदस्य के मासिक चालू शेष पर संगणित और न्यासी बोर्ड द्वारा घोषित, प्रत्येक सदस्य के खाते में जमा किया गया व्याज, अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित योजना में निर्धारित विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा घोषित दर से कम नहीं होगा।

10. योजना में कोई संशोधन, जो प्रतिष्ठान के विद्यमान नियमों की तुलना में कर्मचारियों के लिए अधिक लाभदायक हो, उसे न्यास के नियमों में औपचारिक संशोधन के लंबित रहते उन पर स्वतः लागू किया जाएगा।
11. नियोक्ता द्वारा नियमों में कोई भी संशोधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना रुख स्पष्ट करने का वाजिब अवसर देगा।
12. निकासी, अग्रिम और अंतरण के सभी दावे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित अधिकतम समय सीमा के भीतर, शीघ्रता से निपटाए जाएंगे।
13. न्यासी बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में जमा किए गए अंशदान, निकासी और व्याज दर्शाने के लिए विस्तारित लेखों का रख-रखाव करेगा। ऐसे अभिलेखों का रख-रखाव अधिमानतः इलैक्ट्रॉनिक रूप से रखा जाएगा। प्रतिष्ठान आवधिक रूप से जब कभी केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा निदेश दिया जाए, सदस्यों के लेखों को इलैक्ट्रॉनिक रूप से सम्प्रेषित करेंगे।
14. न्यासी बोर्ड वर्ष में एक बार वित्तीय/लेखा वर्ष के समाप्त होने के छः माह के भीतर प्रत्येक कर्मचारी को निःशुल्क लेखों का वार्षिक विवरण अथवा पासबुक जारी करेगा। जब कभी सदस्य चाहें, अतिरिक्त प्रिंटआउट नाममात्र के प्रभार के साथ उपलब्ध कराए जा सकते हैं। पासबुक के मामले में वह कर्मचारी के पास रहेगी जिसे प्रस्तुत किए जाने पर न्यासियों द्वारा आवधिक रूप से अद्यतन किया जाएगा।
15. नियोक्ता सभी सदस्यों को उनकी आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर टर्मिनलों से अपने खाते में पड़ी शेष राशि को देखने के समर्थ बनाने के लिए आवश्यक प्रावधान करेंगे।
16. न्यासी बोर्ड और नियोक्ता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा यथा विहित रूप में ये विवरणियां विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर मासिक/वार्षिक रूप से दायर करेंगे, जिसे न करने पर इसे चूक माना जाएगा तथा न्यासी बोर्ड और नियोक्ता संयुक्त रूप से और अलग-अलग, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा की जाने वाली उपयुक्त दाण्डिक कार्रवाई के भागी होंगे।
17. न्यासी बोर्ड समय-समय पर सरकार के निर्देशों के अनुसार भविष्य निधि के पैसे का निवेश करेगा। सरकार के निर्देशों के अनुसार निवेश करने में असफल होने पर न्यासी बोर्ड अलग-अलग और संयुक्त रूप से केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उसके प्रतिनिधि द्वारा यथा अधिरोपित अधिशुल्क का भागी बन जाएगा।
18. (क) प्रतिभूतियां न्यास के नाम से प्राप्त की जाएंगी। इस प्रकार प्राप्त की गई प्रतिभूतियां अभौतिक (डीमेट) रूप में होनी चाहिए तथा न्यास के कार्यचालित रहने वाले क्षेत्रों में अपेक्षित सुविधा के उपलब्ध न होने की स्थिति में न्यासी बोर्ड संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को इसकी सूचना देंगे।
(ख) न्यासी बोर्ड लिपि-वार रजिस्टर बनाएगा तथा व्याज की समय पर उगाही सुनिश्चित करेगा।
(ग) डीमेट खाता इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित निक्षेपागार प्रतिभागियों के माध्यम से खोला जाए।
(घ) डीमेट खाते का खर्च न्यास द्वारा किए जाने वाले निवेश का प्रासंगिक व्यय व्यय माना जाए। प्रतिभूतियों आदि की खरीद की दलाली जैसे निवेशों के सभी प्रकार के खर्चों को भी न्यास द्वारा किए जाने वाले निवेश का प्रासंगिक व्यय माना जाएगा।
19. प्रतिभूतियों और बाण्डों की खरीद जैसे ऐसे सभी निवेश भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित निक्षेपागार प्रतिभागियों की सुरक्षा अभिरक्षा में दर्ज किए जाएं, जो इसके संरक्षक होंगे। स्थापना की बंदी या परिसमापन या कर्मचारी भविष्य निधि, 1952 से छूट पर यह संरक्षक, न्यास के नाम पर प्राप्त तथा अपने जमा में पड़े निवेश को संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के, इस आशय के, अनुरोध पर संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को सीधे अंतरित करेगा।
20. स्थापना संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को उन निक्षेपागार प्रतिभागियों (भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित) के विवरण से सूचित करेगी, जिनके पास तथा जिनकी सुरक्षा अभिरक्षा में न्यास के नाम पर किए गए निवेश अर्थात् प्रतिभूतियों, बाण्डों आदि में किए गए निवेश दर्ज किए गए हैं। तथापि, न्यासी बोर्ड उस धनराशि की उगाही कर सकता है, जो दावों के निपटान, नियमानुसार अग्रिमों की मंजूरी और नियोक्ता की सेवा छोड़ने की स्थिति में सदस्य के भविष्य निधि

संचयन के अंतरण और प्रतिभूतियों की बिक्री द्वारा अन्य किसी प्राप्तियों अथवा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के शर्ताधीन निधि के नाम में पड़े अन्य निवेशों जैसे बाध्यकारी व्ययों को पूरा करने के लिए अपेक्षित हों।

21. न्यास द्वारा किए गए निवेशों के लिए किसी वित्तीय या अन्य संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले किसी कमीशन, प्रोत्साहन, बोनस या अन्य आर्थिक लाभ इसके खाते में डाले जाएंगे।

22. नियोक्ता और न्यासी बोर्ड के सदस्य शर्तों का पालन करने की सहमति देते हुए लिखित वचन देंगे तथा यह वैधिक रूप से नियोक्ता और न्यासी बोर्ड के उत्तराधिकारियों और समनुदेशितों पर उनके साथ-साथ बाध्यकारी होगा।

23. नियोक्ता और न्यासी बोर्ड छूट के रद्द होने की स्थिति में संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा विहित समय सीमा के भीतर तत्काल निधियों का अंतरण करने का वचन भी देगा। यह उन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा तथा उन्हें निधियों के अंतरण में कोई विलंब होने की स्थिति में अभियोजन का भागी बनाएगा।

24. (क) न्यासी बोर्ड द्वारा अनुरक्षित भविष्य निधि खाता किसी योग्य स्वतंत्र चार्टर्ड लेखाकार द्वारा वार्षिक रूप से लेखा-परीक्षा करने के शर्ताधीन होगा। जहां भी आवश्यक समझा जाए, वहां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अधिकार होगा कि यह किसी अन्य योग्य लेखा-परीक्षक द्वारा खातों की लेखा-परीक्षा कराए तथा इस प्रकार हुए खर्च नियोक्ता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(ख) लेखा-परीक्षकों द्वारा वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की समाप्ति के बाद छह महीने के भीतर लेखा-परीक्षीत तुलन-पत्र सहित लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की प्रति सीधे इस कार्यालय में प्रस्तुत की जाए। तुलन-पत्र का प्रारूप और इस रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित की जाएगी तथा संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में इलैक्ट्रॉनिक प्रारूप के साथ हस्ताक्षरित प्रतिलिपि में उपलब्ध कराई जाएगी।

(ग) एक ही लेखा-परीक्षकों को लगातार दो वर्ष के लिए तथा अगले वित्तीय वर्ष के पहले दिन से मिली छूट से अधिक के लिए नियुक्त न किया जाए।

25. लगातार तीन वित्तीय वर्षों तक कोई हानि या पूंजी आधार में कटौती को अगले वित्तीय वर्ष के पहले दिन से मिली छूट प्राप्त होगी।

26. नियोक्ता प्रत्येक माह की समाप्ति से 15 दिन के भीतर निरीक्षण हेतु ऐसी सुविधाओं का प्रावधान करेगा तथा ऐसे निरीक्षण प्रभारों का भुगतान करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 17 के उप-खण्ड (3) के खण्ड(क) के अंतर्गत समय-समय पर दिए निर्देशों के अनुसार हों।

27. न्यासी बोर्ड या नियोक्त द्वारा छूट देने के लिए शर्तों के किसी उल्लंघन की स्थिति में दी गई छूट संबंधित व्यक्ति को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद रद्द कर दी जाएगी।

28. किसी भी धोखे, गबन, गलत निवेश निर्णयों आदि के फलस्वरूप ट्रस्ट को हुए किसी भी नुकसान की स्थिति में नियोक्ता नुकसान पूरा करने का भागी होगा।

29. किसी विलय, अविलय, अभिग्रहण, बिक्री, एकीकरण, सहायक कंपनी का गठन चाहे पूर्णतः स्वामित्व वाली हो या नहीं इत्यादि के फलस्वरूप यदि प्रतिष्ठान की कानूनी स्थिति में कोई भी बदलाव होता है तो दी गई छूट निरस्त होगी एवं प्रतिष्ठान को तुरंत नई छूट देने के लिए मामले की रिपोर्ट करनी चाहिए।

30. एक ही भविष्य निधि ट्रस्ट में एक से अधिक इकाई/प्रतिष्ठानों के भाग लेने की स्थिति में भाग लेने वाली इकाईयों के किसी भी ट्रस्टी/नियोक्ता द्वारा कोई भी चूक होने पर सभी ट्रस्टी संयुक्त रूप से एवं अलग से जिम्मेदार/उत्तरदायी होंगे और आरपीएफसी आम भविष्य निधि ट्रस्ट के सभी न्यासियों के विरुद्ध उपयुक्त कानूनी कार्यवाई करेगा।

31. छूट प्राप्त न्यास निधि के अधिग्रहण के मामले में, अंतरीय व्याज के कारण हानि के अनुमानित निवल वर्तमान मूल्य की वसूली प्रतिष्ठान से की जानी चाहिए।

32. केन्द्र सरकार प्रतिष्ठान की छूट की निरंतरता के लिए शर्तों को बढ़ा सकती है और जब भी इनको संप्रेषित किया जाएगा ये प्रतिष्ठान इन अतिरिक्त शर्तों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

New Delhi, the 3rd May, 2016

S.O. 847.—Whereas M/s. Chambal Fertilisers and Chemicals Limited [under Code No. RJ/5161 in Kota sub region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act and subject to the conditions annexed with this notification, the Central Government, hereby, exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 01.11.1994 until further notification.

[No. S-35015/28/2015-SS-II]

SUBHASH KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CONDITIONS FOR GRANT OF EXEMPTION FROM THE PROVISIONS OF EMPLOYEES PROVIDENT FUND SCHEME, 1952

1. The employer shall establish a Board of Trustees under his Chairmanship for the management of the Provident Fund according to such directions as may be given by the Central Government or the Central Provident Fund Commissioner, as the case may be, from time to time. The provident fund shall vest in the Board of Trustees who will be responsible for and accountable to the Employees' Provident Funds Organisation, inter alia, for proper accounts of the receipts into and payment from the Provident Fund and the balance in their custody. For this purpose, the "employer" shall mean:-

(i) In relation to an establishment, which is a factory, the owner or occupier of the factory: and

(ii) In relation to any other establishment, the person who, or the authority, that has the ultimate control over the affairs of the establishment.

2. The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the guidelines that may be issued from time to time by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner(CPFC) or an officer authorized by him.

3. All employees' as defined in section 2(f) of the act, who have been eligible to become members of the Provident Fund' had the establishment not been granted exemption, shall be enrolled as members.

4. Where an employee who is already a member of Employees' Provident fund or a Provident Fund of any other exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the fund. The employer should also arrange to have the accumulations in the Provident Fund account of such employee with his previous employer transferred and credited into his account.

5. The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the Provident Fund by himself and employees at the rate prescribed under the act from time to time by the 15th of each month following the month for which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay simple interest in terms of the provisions of Section 7Q of the Act for any delay in payment of any dues towards the Board of Trustees.

6. The employer shall bear all the expenses of the administration of Provident Fund and also make good any other loss that may be caused to the Provident Fund due to theft, burglary, defalcation, misappropriation or any other reason.

7. Any deficiency in the interest declared by the Board of Trustees is to be made good by the employer to bring it up to the statutory limit.

8. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the funds as approved by the appropriate authority and as and when amended thereto along with a translation in the language of the majority of the employees.

9. The rate of contributions payable, the conditions and quantum of advances and other matters laid down under the provident fund rules of the establishment and the interest credited to the account of each member, calculated on the monthly running balance of the member and declared by the Board of Trustees shall not be lower than those declared by the Central Government under the various provisions prescribed in the Act and Scheme framed thereunder.

10. Any amendment to the Scheme, which is more beneficial to the employees than the existing rules of the establishment, shall be made applicable to them automatically pending formal amendment of the Rules of the Trust.

11. No amendment in the rules shall be made by the employer without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
12. All claims for withdrawals, advances and transfers should be settled expeditiously, within the maximum time frame prescribed by the Employees' Provident Fund Organisation.
13. The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited withdrawal and interest in respect of each employee. The maintenance of such records should preferably be done electronically. The establishments should periodically transmit the details of members' accounts electronically as and when directed by the Central Provident Commissioner/Regional Provident Fund Commissioner.
14. The Board of Trustees shall issue an annual statement of accounts or pass books to every employee within six months of the close of financial/accounting year free of cost once in the year. Additional printouts can be made available as and when the members want, subject to nominal charges. In case of passbook, the same shall remain in custody of employee to be updated periodically by the Trustees when presented to them.
15. The employer shall make necessary provisions to enable all the members to be able to see their account balance from the computer terminals as and when required by them.
16. The Board of Trustees and the employer shall file such returns monthly/annually as may be prescribed by the Employees' Provident Fund Organisation within the specified time limit, failing which it will be deemed as a default and the Board of Trustees and employer will jointly and separately be liable for suitable penal action by the Employees' Provident Fund Organisation.
17. The Board of Trustees shall invest the monies of the provident fund as per the directions of the Government from time to time. Failure to make investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees separately and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his representative.
18. (a) The securities shall be obtained in the name of Trust. The securities so obtained should be in dematerialized (DEMAT) form and in case the required facility is not available in the areas where the trust operates the Board of Trustees shall inform the Regional Provident Fund Commissioner concerned about the same.
(b) The Board of Trustees shall maintain a script wise register and ensure timely realization of interest.
(c) The DEMAT Account should be opened through depository participants approved by Reserve Bank of India and Central Government in accordance with the instructions issued by the Central Government in this regard.
(d) The cost of maintaining DEMAT account should be treated as incidental cost of investment by the Trust. Also all types of cost of investments like brokerage for purchase of securities etc. shall be treated as incidental cost of investment by the Trust.
19. All such investments made like purchase of securities and bonds, should be lodged in the safe custody of depository participants approved by Reserve Bank of India and Central Government, who shall be the custodian of the same. On closure of establishment or liquidation or cancellation of exemption from EPF Scheme, 1952 such custodian shall transfer the investment obtained in the name of the Trust and standing in its credit to the Regional PF Commissioner concerned directly on receipt of request from the Regional PF Commissioner concerned to that effect.
20. The establishment shall intimate to the Regional P.F. Commissioner concerned the details of depository participants (approved by RBI and Central Government), with whom and in whose safe custody, the investments made in the name of trust, viz., investments made in securities, bonds, etc. have been lodged. However, the Board of Trustees may raise such sum of sums of money as may be required for meeting obligatory expenses such as settlement of claims, grant of advances as per rules and transfer of member's PF accumulations in the event of his/her leaving service of the employer and any other receipts by sale of the securities or other investments standing in the name of the Fund subject to the prior approval of the Regional PF Commissioner.
21. Any commission, incentive, bonus or other pecuniary rewards given by any financial or other institutions for the investments made by the Trust should be credited to its account.
22. The employer and the members of the Board of Trustees, shall furnish a written undertaking agreeing to abide by the conditions and this shall be legally binding on the employer and the Board of Trustees, including their successors and assignees.
23. The employer and the Board of Trustees shall also give an undertaking to transfer the funds promptly within the time limit prescribed by the concerned RPFC in the event of cancellation of relaxation. This shall be legally binding on them and will make them liable for prosecution in the event of any delay in the transfer of funds.

24. (a) The account of the Provident Fund maintained by the Board of Trustees shall be subject to audit by a qualified independent chartered accountant annually. Where considered necessary the EPFO shall have the right to have the accounts re-audited by any other qualified auditor and the expenses so incurred shall be borne by the employer.

(b) A copy of the Auditor's report alongwith the audited balance sheet should be submitted to this office by the Auditors directly within six months after the closing of the financial year from 1st April to 31st March. The format of the balance sheet and the information to be furnished in the report shall be prescribed by the Employees' Provident fund Organisation and made available with the RPFC office in electronic format as well as a signed hard copy.

(c) The same auditors should not be appointed for two consecutive years and not more than the relaxation withdrawn from the first day of the next succeeding financial year.

25. Any loss for the three consecutive financial years or erosion in the capital base shall have the relaxation withdrawn from the first day of the next succeeding financial year.

26. The employer shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section (3) of Section 17 of the Act within 15 days from the close of every month.

27. In the event of any violation of the conditions for grant of relaxation, by the employer or the Board of Trustees, the relaxation granted shall be cancelled after issuing a show cause notice in this regard to the concerned persons.

28. In the event of any loss to the trust as a result of any fraud, defalcation, wrong investment decisions etc. the employer shall be liable to make good the loss.

29. In case of any change of legal status of the establishment as a result of merger, de-merger, acquisition, sale, amalgamation, formation of a subsidiary, whether wholly owned or not etc., the relaxation granted shall stand revoked and the establishment should promptly report the matter for grant of fresh relaxation.

30. In case there are more than one unit/establishment participating in the common Provident Fund Trust, all the trustees shall be jointly and separately liable/responsible for any default committed by any of the trustees/employer of any of the participating units and the RPFC shall take suitable legal action against all the trustees of the common Provident Fund Trust.

31. In case of takeover of the exempted Trust Fund, estimated net present value of the loss due to differential interest should be recovered from the establishment.

32. The Central Government may lay down further conditions for continuation of exemption of the establishment and the establishment shall be bound to comply with these additional conditions as and when the same are communicated.

नई दिल्ली, 3 मई, 2016

का.आ. 848.—जबकि मैसर्स रिलायंस रिटेल लिमिटेड (बंद्रा क्षेत्र में कोड संख्या एमएच/बीएन/48270 के अंतर्गत) (एतदुपरांत प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरांत अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है।

2. और जबकि केन्द्रीय सरकार के विचार में, अंशदान की दरों के संबंध में उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि नियम उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कर्मचारियों के लिए कम उपयुक्त नहीं हैं और कर्मचारी उक्त अधिनियम अथवा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरांत योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत सदृश स्वरूप के किसी अन्य प्रतिष्ठान में कर्मचारियों के संबंध में दी जाने वाली अन्य भविष्य निधि प्रसुविधाओं का भी लाभ उठा रहे हैं।

3. अतः, अब, केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के साथ सन्लग्न शर्तों के अध्याधीन उक्त प्रतिष्ठान को अगली अधिसूचना तक 01.05.2006 से उक्त योजना के सभी उपबंधों के प्रभाव से छूट प्रदान करती है।

[सं. एस-35015/44/2014-एसएस-II]

सुभाष कुमार, अवर सचिव

अनुबंध

**कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के उपबंधों से
छूट प्रदान करने संबंधी शर्तें।**

1. नियोक्ता समय-समय पर केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा दिए जाने वाले ऐसे निदेशों के अनुसार भविष्य निधि के प्रबंधन हेतु अपनी अध्यक्षता में एक न्यासी बोर्ड गठित करेगा। भविष्य निधि न्यासी बोर्ड में विहित होगी जो अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रति भविष्य निधि में प्राप्तियों और उसमें से भुगतान के उचित लेखों और उनकी अभिरक्षा में शेष राशि के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रयोजनार्थ, "नियोक्ता" से:-

- (i) किसी प्रतिष्ठान, जो एक कारखाना हो, उसके संबंध में, कारखाने का स्वामी अथवा अधिष्ठाता अभिप्रेत होगा; और
- (ii) किसी अन्य प्रतिष्ठान के संबंध में, वह व्यक्ति, अथवा प्राधिकारी अभिप्रेत होगा, जिसका उस प्रतिष्ठान के कामकाज पर अंतिम नियंत्रण हो।

2. न्यासी बोर्ड हरेक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगा और वह केन्द्र सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।

3. अधिनियम की धारा 2(च) में यथा परिभाषित सभी कर्मचारी, जो भविष्य निधि के सदस्य बनने के पात्र रहें हैं, यदि प्रतिष्ठान को छूट प्रदान नहीं की होती, उन्हें सदस्यों के रूप में नामांकित किया जाएगा।

4. जहां कोई कर्मचारी जो पहले ही किसी अन्य छूट-प्राप्त प्रतिष्ठान के किसी कर्मचारी भविष्य निधि अथवा भविष्य निधि का सदस्य हो, उसे उसके प्रतिष्ठान में नियोजित किया जाता है, तो नियोक्ता उसे तत्काल निधि के सदस्य के रूप में नामांकित करेगा। नियोक्ता ऐसे कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में उसके पहले नियोक्ता से संचय राशियां अंतरित और जमा करवाने की भी व्यवस्था करेगा।

5. नियोक्ता भविष्य निधि को उसके द्वारा और कर्मचारी के द्वारा समय-समय पर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दर से देय अंशदान को, जिस माह के लिए अंशदान देय हों उसके बाद के माह की 15 तारीख तक न्यासी बोर्ड को अंतरित करेगा। नियोक्ता न्यासी बोर्ड को किन्हीं देयों के भुगतान में किसी विलम्ब के लिए अधिनियम की धारा 7 थ के उपबंधों के अनुसार साधारण ब्याज अदा करने का दायी होगा।

6. नियोक्ता भविष्य निधि के प्रशासन के सभी व्यय वहन करेगा और चोरी, डकैती, गबन, दुर्विनियोग अथवा किसी अन्य कारण से भविष्य निधि को हो सकने वाले किसी घाटे की भी भरपाई करेगा।

7. न्यासी बोर्ड द्वारा घोषित ब्याज में किसी कमी को भी नियोक्ता द्वारा पूरा किया जाना होगा और उसे सांविधिक सीमा तक लाना होगा।

8. नियोक्ता जब कभी नियम संशोधित किए जाएं, समुचित प्राधिकारी द्वारा यथा-अनुमोदित, निधि के नियमों की एक प्रति अधिसंख्यक कर्मचारियों की भाषा में उनके अनुवाद सहित प्रतिष्ठान के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।

9. प्रतिष्ठान के भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत निर्धारित देय अंशदान की दर, अग्रिम की शर्तें और मात्रा तथा अन्य मामले और सदस्य के मासिक चालू शेष पर संगणित और न्यासी बोर्ड द्वारा घोषित, प्रत्येक सदस्य के खाते में जमा किया गया ब्याज, अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित योजना में निर्धारित विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा घोषित दर से कम नहीं होगा।

10. योजना में कोई संशोधन, जो प्रतिष्ठान के विद्यमान नियमों की तुलना में कर्मचारियों के लिए अधिक लाभदायक हो, उसे न्यास के नियमों में औपचारिक संशोधन के लंबित रहते उन पर स्वतः लागू किया जाएगा।

11. नियोक्ता द्वारा नियमों में कोई भी संशोधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना रुख स्पष्ट करने का वाजिब अवसर देगा।

12. निकासी, अग्रिम और अंतरण के सभी दावे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित अधिकतम समय-सीमा के भीतर, शीघ्रता से निपटाए जाएंगे।

13. न्यासी बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में जमा किए गए अंशदान, निकासी और ब्याज दर्शाने के लिए विस्तारित लेखों का रख-रखाव करेगा। ऐसे अभिलेखों का रख-रखाव अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखा जाएगा। प्रतिष्ठान आवधिक रूप से

जब कभी केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा निदेश दिया जाए, सदस्यों के लेखों को इलैक्ट्रॉनिक रूप से सम्प्रेषित करेंगे।

14. न्यासी बोर्ड वर्ष में एक बार वित्तीय/लेखा वर्ष के समाप्त होने के छः माह के भीतर प्रत्येक कर्मचारी को निःशुल्क लेखों का वार्षिक विवरण अथवा पासबुक जारी करेगा। जब कभी सदस्य चाहें, अतिरिक्त प्रिंटआउट नाममात्र के प्रभार के साथ उपलब्ध कराए जा सकते हैं। पासबुक के मामले में वह कर्मचारी के पास रहेगी जिसे प्रस्तुत किए जाने पर न्यासियों द्वारा आवधिक रूप से अद्यतन किया जाएगा।

15. नियोक्ता सभी सदस्यों को उनकी आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर टर्मिनलों से अपने खाते में पड़ी शेष राशि को देखने के समर्थ बनाने के लिए आवश्यक प्रावधान करेंगे।

16. न्यासी बोर्ड और नियोक्ता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा यथा विहित रूप में ये विवरणियां विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर मासिक/वार्षिक रूप से दायर करेंगे, जिसे न करने पर इसे चूक माना जाएगा तथा न्यासी बोर्ड और नियोक्ता संयुक्त रूप से और अलग-अलग, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा की जाने वाली उपयुक्त दाण्डिक कार्रवाई के भागी होंगे।

17. न्यासी बोर्ड समय-समय पर सरकार के निर्देशों के अनुसार भविष्य निधि के पैसे का निवेश करेगा। सरकार के निर्देशों के अनुसार निवेश करने में असफल होने पर न्यासी बोर्ड अलग-अलग और संयुक्त रूप से केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उसके प्रतिनिधि द्वारा यथा अधिरोपित अधिशुल्क का भागी बन जाएगा।

18. (क) प्रतिभूतियां न्यास के नाम से प्राप्त की जाएंगी। इस प्रकार प्राप्त की गई प्रतिभूतियां अभौतिक (डीमेट) रूप में होनी चाहिए तथा न्यास के कार्यचालित रहने वाले क्षेत्रों में अपेक्षित सुविधा के उपलब्ध न होने की स्थिति में न्यासी बोर्ड संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को इसकी सूचना देंगे।

(ख) न्यासी बोर्ड लिपि-वार रजिस्टर बनाएगा तथा व्याज की समय पर उगाही सुनिश्चित करेगा।

(ग) डीमेट खाता इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित निक्षेपागार प्रतिभागियों के माध्यम से खोला जाए।

(घ) डीमेट खाते का खर्च न्यास द्वारा किए जाने वाले निवेश का प्रासंगिक व्यय व्यय माना जाए। प्रतिभूतियों आदि की खरीद की दलाली जैसे निवेशों के सभी प्रकार के खर्चों को भी न्यास द्वारा किए जाने वाले निवेश का प्रासंगिक व्यय माना जाएगा।

19. प्रतिभूतियों और बाण्डों की खरीद जैसे ऐसे सभी निवेश भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित निक्षेपागार प्रतिभागियों की सुरक्षा अभिरक्षा में दर्ज किए जाएं, जो इसके संरक्षक होंगे। स्थापना की बंदी या परिसमापन या कर्मचारी भविष्य निधि, 1952 से छूट पर यह संरक्षक, न्यास के नाम पर प्राप्त तथा अपने जमा में पड़े निवेश को संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के, इस आशय के, अनुरोध पर संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को सीधे अंतरित करेगा।

20. स्थापना संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को उन निक्षेपागार प्रतिभागियों (भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित) के विवरण से सूचित करेगी, जिनके पास तथा जिनकी सुरक्षा अभिरक्षा में न्यास के नाम पर किए गए निवेश अर्थात् प्रतिभूतियों, बाण्डों आदि में किए गए निवेश दर्ज किए गए हैं। तथापि, न्यासी बोर्ड उस धनराशि की उगाही कर सकता है, जो दावों के निपटान, नियमानुसार अग्रिमों की मंजूरी और नियोक्ता की सेवा छोड़ने की स्थिति में सदस्य के भविष्य निधि संचयन के अंतरण और प्रतिभूतियों की बिक्री द्वारा अन्य किसी प्राप्तियों अथवा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के शर्ताधीन निधि के नाम में पड़े अन्य निवेशों जैसे बाध्यकारी व्ययों को पूरा करने के लिए अपेक्षित हों।

21. न्यास द्वारा किए गए निवेशों के लिए किसी वित्तीय या अन्य संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले किसी कमीशन, प्रोत्साहन, बोनस या अन्य आर्थिक लाभ इसके खाते में डाले जाएं।

22. नियोक्ता और न्यासी बोर्ड के सदस्य शर्तों का पालन करने की सहमति देते हुए लिखित वचन देंगे तथा यह वैधिक रूप से नियोक्ता और न्यासी बोर्ड के उत्तराधिकारियों और समनुदेशितों पर उनके साथ-साथ बाध्यकारी होगा।

23. नियोक्ता और न्यासी बोर्ड छूट के रद्द होने की स्थिति में संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा विहित समय सीमा के भीतर तत्काल निधियों का अंतरण करने का वचन भी देगा। यह उन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा तथा उन्हें निधियों के अंतरण में कोई विलंब होने की स्थिति में अभियोजन का भागी बनाएगा।

24. (क) न्यासी बोर्ड द्वारा अनुरक्षित भविष्य निधि खाता किसी योग्य स्वतंत्र चार्टर्ड लेखाकार द्वारा वार्षिक रूप से लेखा-परीक्षा करने के शर्ताधीन होगा। जहां भी आवश्यक समझा जाए, वहां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अधिकार होगा कि यह किसी अन्य योग्य लेखा-परीक्षक द्वारा खातों की लेखा-परीक्षा कराए तथा इस प्रकार हुए खर्च नियोक्ता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(ख) लेखा-परीक्षकों द्वारा वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की समाप्ति के बाद छह महीने के भीतर लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र सहित लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की प्रति सीधे इस कार्यालय में प्रस्तुत की जाए। तुलन-पत्र का प्रारूप और इस रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित की जाएगी तथा संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में इलैक्ट्रॉनिक प्रारूप के साथ हस्ताक्षरित प्रतिलिपि में उपलब्ध कराई जाएगी।

(ग) एक ही लेखा-परीक्षकों को लगातार दो वर्ष के लिए तथा अगले वित्तीय वर्ष के पहले दिन से मिली छूट से अधिक के लिए नियुक्त न किया जाए।

25. लगातार तीन वित्तीय वर्षों तक कोई हानि या पूंजी आधार में कटौती को अगले वित्तीय वर्ष के पहले दिन से मिली छूट प्राप्त होगी।

26. नियोक्ता प्रत्येक माह की समाप्ति से 15 दिन के भीतर निरीक्षण हेतु ऐसी सुविधाओं का प्रावधान करेगा तथा ऐसे निरीक्षण प्रभारों का भुगतान करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 17 के उप-खण्ड (3) के खण्ड(क) के अंतर्गत समय-समय पर दिए निर्देशों के अनुसार हों।

27. न्यासी बोर्ड या नियोक्त द्वारा छूट देने के लिए शर्तों के किसी उल्लंघन की स्थिति में दी गई छूट संबंधित व्यक्ति को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद रद्द कर दी जाएगी।

28. किसी भी धोखे, गबन, गलत निवेश निर्णयों आदि के फलस्वरूप ट्रस्ट को हुए किसी भी नुकसान की स्थिति में नियोक्ता नुकसान पूरा करने का भागी होगा।

29. किसी विलय, अविलय, अभिग्रहण, बिक्री, एकीकरण, सहायक कंपनी का गठन चाहे पूर्णतः स्वामित्व वाली हो या नहीं इत्यादि के फलस्वरूप यदि प्रतिष्ठान की कानूनी स्थिति में कोई भी बदलाव होता है तो दी गई छूट निरस्त होगी एवं प्रतिष्ठान को तुरंत नई छूट देने के लिए मामले की रिपोर्ट करनी चाहिए।

30. एक ही भविष्य निधि ट्रस्ट में एक से अधिक इकाई/प्रतिष्ठानों के भाग लेने की स्थिति में भाग लेने वाली इकाईयों के किसी भी ट्रस्टी/नियोक्ता द्वारा कोई भी चूक होने पर सभी ट्रस्टी संयुक्त रूप से एवं अलग से जिम्मेदार/उत्तरदायी होंगे और आरपीएफसी आम भविष्य निधि ट्रस्ट के सभी न्यासियों के विरुद्ध उपयुक्त कानूनी कार्यवाई करेगा।

31. छूट प्राप्त न्यास निधि के अधिग्रहण के मामले में, अंतरीय ब्याज के कारण हानि के अनुमानित निवल वर्तमान मूल्य की वसूली प्रतिष्ठान से की जानी चाहिए।

32. केन्द्र सरकार प्रतिष्ठान की छूट की निरंतरता के लिए शर्तों को बढ़ा सकती है और जब भी इनको संप्रेषित किया जाएगा ये प्रतिष्ठान इन अतिरिक्त शर्तों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

New Delhi, the 3rd May, 2016

S.O. 848.—Whereas M/s Reliance Retail Limited [under Code No. MH/BAN/48270 in Bandra region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions annexed with this notification, the Central Government, hereby, exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 01.05.2006 until further notification.

[No. S-35015/44/2014-SS-II]

SUBHASH KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CONDITIONS FOR GRANT OF EXEMPTION FROM THE PROVISIONS OF EMPLOYEES PROVIDENT FUND SCHEME, 1952

1. The employer shall establish a Board of Trustees under his Chairmanship for the management of the Provident Fund according to such directions as may be given by the Central Government or the Central Provident Fund Commissioner, as the case may be, from time to time. The provident fund shall vest in the Board of Trustees who will be responsible for and accountable to the Employees' Provident Funds Organisation, inter alia, for proper accounts of the receipts into and payment from the Provident Fund and the balance in their custody. For this purpose, the "employer" shall mean:-

(i) In relation to an establishment, which is a factory, the owner or occupier of the factory: and

(ii) In relation to any other establishment, the person who, or the authority, that has the ultimate control over the affairs of the establishment.

2. The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the guidelines that may be issued from time to time by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner(CPFC) or an officer authorized by him.

3. All employees' as defined in section 2(f) of the act, who have been eligible to become members of the Provident Fund' had the establishment not been granted exemption, shall be enrolled as members.

4. Where an employee who is already a member of Employees' Provident fund or a Provident Fund of any other exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the fund. The employer should also arrange to have the accumulations in the Provident Fund account of such employee with his previous employer transferred and credited into his account.

5. The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the Provident Fund by himself and employees at the rate prescribed under the act from time to time by the 15th of each month following the month for which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay simple interest in terms of the provisions of Section 7Q of the Act for any delay in payment of any dues towards the Board of Trustees.

6. The employer shall bear all the expenses of the administration of Provident Fund and also make good any other loss that may be caused to the Provident Fund due to theft, burglary, defalcation, misappropriation or any other reason.

7. Any deficiency in the interest declared by the Board of Trustees is to be made good by the employer to bring it up to the statutory limit.

8. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the funds as approved by the appropriate authority and as and when amended thereto along with a translation in the language of the majority of the employees.

9. The rate of contributions payable, the conditions and quantum of advances and other matters laid down under the provident fund rules of the establishment and the interest credited to the account of each member, calculated on the monthly running balance of the member and declared by the Board of Trustees shall not be lower than those declared by the Central Government under the various provisions prescribed in the Act and Scheme framed thereunder.

10. Any amendment to the Scheme, which is more beneficial to the employees than the existing rules of the establishment, shall be made applicable to them automatically pending formal amendment of the Rules of the Trust.

11. No amendment in the rules shall be made by the employer without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

12. All claims for withdrawals, advances and transfers should be settled expeditiously, within the maximum time frame prescribed by the Employees' Provident Fund Organisation.

13. The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited withdrawal and interest in respect of each employee. The maintenance of such records should preferably be done electronically. The establishments should periodically transmit the details of members' accounts electronically as and when directed by the Central Provident Commissioner/Regional Provident Fund Commissioner.

14. The Board of Trustees shall issue an annual statement of accounts or pass books to every employee within six months of the close of financial/accounting year free of cost once in the year. Additional printouts can be made available as and when the members want, subject to nominal charges. In case of passbook, the same shall remain in custody of employee to be updated periodically by the Trustees when presented to them.

15. The employer shall make necessary provisions to enable all the members to be able to see their account balance from the computer terminals as and when required by them.
16. The Board of Trustees and the employer shall file such returns monthly/annually as may be prescribed by the Employees' Provident Fund Organisation within the specified time limit, failing which it will be deemed as a default and the Board of Trustees and employer will jointly and separately be liable for suitable penal action by the Employees' Provident Fund Organisation.
17. The Board of Trustees shall invest the monies of the provident fund as per the directions of the Government from time to time. Failure to make investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees separately and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his representative.
18. (a) The securities shall be obtained in the name of Trust. The securities so obtained should be in dematerialized (DEMAT) form and in case the required facility is not available in the areas where the trust operates the Board of Trustees shall inform the Regional Provident Fund Commissioner concerned about the same.
- (b) The Board of Trustees shall maintain a script wise register and ensure timely realization of interest.
- (c) The DEMAT Account should be opened through depository participants approved by Reserve Bank of India and Central Government in accordance with the instructions issued by the Central Government in this regard.
- (d) The cost of maintaining DEMAT account should be treated as incidental cost of investment by the Trust. Also all types of cost of investments like brokerage for purchase of securities etc. shall be treated as incidental cost of investment by the Trust.
19. All such investments made like purchase of securities and bonds, should be lodged in the safe custody of depository participants approved by Reserve Bank of India and Central Government, who shall be the custodian of the same. On closure of establishment or liquidation or cancellation of exemption from EPF Scheme, 1952 such custodian shall transfer the investment obtained in the name of the Trust and standing in its credit to the Regional PF Commissioner concerned directly on receipt of request from the Regional PF Commissioner concerned to that effect.
20. The establishment shall intimate to the Regional P.F. Commissioner concerned the details of depository participants (approved by RBI and Central Government), with whom and in whose safe custody, the investments made in the name of trust, viz., investments made in securities, bonds, etc. have been lodged. However, the Board of Trustees may raise such sum of sums of money as may be required for meeting obligatory expenses such as settlement of claims, grant of advances as per rules and transfer of member's PF accumulations in the event of his/her leaving service of the employer and any other receipts by sale of the securities or other investments standing in the name of the Fund subject to the prior approval of the Regional PF Commissioner.
21. Any commission, incentive, bonus or other pecuniary rewards given by any financial or other institutions for the investments made by the Trust should be credited to its account.
22. The employer and the members of the Board of Trustees, shall furnish a written undertaking agreeing to abide by the conditions and this shall be legally binding on the employer and the Board of Trustees, including their successors and assignees.
23. The employer and the Board of Trustees shall also give an undertaking to transfer the funds promptly within the time limit prescribed by the concerned RPFC in the event of cancellation of relaxation. This shall be legally binding on them and will make them liable for prosecution in the event of any delay in the transfer of funds.
24. (a) The account of the Provident Fund maintained by the Board of Trustees shall be subject to audit by a qualified independent chartered accountant annually. Where considered necessary the EPFO shall have the right to have the accounts re-audited by any other qualified auditor and the expenses so incurred shall be borne by the employer.
- (b) A copy of the Auditor's report alongwith the audited balance sheet should be submitted to this office by the Auditors directly within six months after the closing of the financial year from 1st April to 31st March. The format of the balance sheet and the information to be furnished in the report shall be prescribed by the Employees' Provident fund Organisation and made available with the RPFC office in electronic format as well as a signed hard copy.
- (c) The same auditors should not be appointed for two consecutive years and not more than the relaxation withdrawn from the first day of the next succeeding financial year.
25. Any loss for the three consecutive financial years or erosion in the capital base shall have the relaxation withdrawn from the first day of the next succeeding financial year.

26. The employer shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section (3) of Section 17 of the Act within 15 days from the close of every month.
27. In the event of any violation of the conditions for grant of relaxation, by the employer or the Board of Trustees, the relaxation granted shall be cancelled after issuing a show cause notice in this regard to the concerned persons.
28. In the event of any loss to the trust as a result of any fraud, defalcation, wrong investment decisions etc. the employer shall be liable to make good the loss.
29. In case of any change of legal status of the establishment as a result of merger, de-merger, acquisition, sale, amalgamation, formation of a subsidiary, whether wholly owned or not etc., the relaxation granted shall stand revoked and the establishment should promptly report the matter for grant of fresh relaxation.
30. In case there are more than one unit/establishment participating in the common Provident Fund Trust, all the trustees shall be jointly and separately liable/responsible for any default committed by any of the trustees/employer of any of the participating units and the RPFC shall take suitable legal action against all the trustees of the common Provident Fund Trust.
31. In case of takeover of the exempted Trust Fund, estimated net present value of the loss due to differential interest should be recovered from the establishment.
32. The Central Government may lay down further conditions for continuation of exemption of the establishment and the establishment shall be bound to comply with these additional conditions as and when the same are communicated.

नई दिल्ली, 3 मई, 2016

का.आ. 849.—जबकि मैसर्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस लिमिटेड (बांदरा क्षेत्र में कोड संख्या एमएच/बीएएन/3972 के अंतर्गत) (एतदुपरांत प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरांत अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है।

2. और जबकि केन्द्रीय सरकार के विचार में, अंशदान की दरों के संबंध में उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि नियम उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कर्मचारियों के लिए कम उपयुक्त नहीं हैं और कर्मचारी उक्त अधिनियम अथवा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरांत योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत सदृश स्वरूप के किसी अन्य प्रतिष्ठान में कर्मचारियों के संबंध में दी जाने वाली अन्य भविष्य निधि प्रसुविधाओं का भी लाभ उठा रहे हैं।

3. अतः, अब, केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के साथ सन्लग्न शर्तों के अध्याधीन उक्त प्रतिष्ठान को अगली अधिसूचना तक 01.05.1987 से उक्त योजना के सभी उपबंधों के प्रभाव से छूट प्रदान करती है।

[सं. एस-35015/91/2014-एसएस-II]

सुभाष कुमार, अवर सचिव

अनुबंध

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के उपबंधों से छूट प्रदान करने संबंधी शर्तें

1. नियोक्ता समय-समय पर केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा दिए जाने वाले ऐसे निदेशों के अनुसार भविष्य निधि के प्रबंधन हेतु अपनी अध्यक्षता में एक न्यासी बोर्ड गठित करेगा। भविष्य निधि न्यासी बोर्ड में विहित होगी जो अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रति भविष्य निधि में प्राप्तियों और उसमें से भुगतान के उचित लेखों और उनकी अभिरक्षा में शेष राशि के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रयोजनार्थ, "नियोक्ता" से:-
- (i) किसी प्रतिष्ठान, जो एक कारखाना हो, उसके संबंध में, कारखाने का स्वामी अथवा अधिष्ठाता अभिप्रेत होगा; और
- (ii) किसी अन्य प्रतिष्ठान के संबंध में, वह व्यक्ति, अथवा प्राधिकारी अभिप्रेत होगा, जिसका उस प्रतिष्ठान के कामकाज पर अंतिम नियंत्रण हो।

2. न्यासी बोर्ड हरेक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगा और वह केन्द्र सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।
3. अधिनियम की धारा 2(च) में यथा परिभाषित सभी कर्मचारी, जो भविष्य निधि के सदस्य बनने के पात्र रहें हैं, यदि प्रतिष्ठान को छूट प्रदान नहीं की होती, उन्हें सदस्यों के रूप में नामांकित किया जाएगा।
4. जहां कोई कर्मचारी जो पहले ही किसी अन्य छूट-प्राप्त प्रतिष्ठान के किसी कर्मचारी भविष्य निधि अथवा भविष्य निधि का सदस्य हो, उसे उसके प्रतिष्ठान में नियोजित किया जाता है, तो नियोक्ता उसे तत्काल निधि के सदस्य के रूप में नामांकित करेगा। नियोक्ता ऐसे कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में उसके पहले नियोक्ता से संचय राशियां अंतरित और जमा करवाने की भी व्यवस्था करेगा।
5. नियोक्ता भविष्य निधि को उसके द्वारा और कर्मचारी के द्वारा समय—समय पर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दर से देय अंशदान को, जिस माह के लिए अंशदान देय हों उसके बाद के माह की 15 तारीख तक न्यासी बोर्ड को अंतरित करेगा। नियोक्ता न्यासी बोर्ड को किन्हीं देयों के भुगतान में किसी विलम्ब के लिए अधिनियम की धारा 7 थ के उपबंधों के अनुसार साधारण व्याज अदा करने का दायी होगा।
6. नियोक्ता भविष्य निधि के प्रशासन के सभी व्यय वहन करेगा और चोरी, डकैती, गबन, दुर्विनियोग अथवा किसी अन्य कारण से भविष्य निधि को हो सकने वाले किसी घाटे की भी भरपाई करेगा।
7. न्यासी बोर्ड द्वारा घोषित व्याज में किसी कमी को भी नियोक्ता द्वारा पूरा किया जाना होगा और उसे सांविधिक सीमा तक लाना होगा।
8. नियोक्ता जब कभी नियम संशोधित किए जाएं, समुचित प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित, निधि के नियमों की एक प्रति अधिसंख्यक कर्मचारियों की भाषा में उनके अनुवाद सहित प्रतिष्ठान के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।
9. प्रतिष्ठान के भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत निर्धारित देय अंशदान की दर, अग्रिम की शर्तें और मात्रा तथा अन्य मामले और सदस्य के मासिक चालू शेष पर संगणित और न्यासी बोर्ड द्वारा घोषित, प्रत्येक सदस्य के खाते में जमा किया गया व्याज, अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित योजना में निर्धारित विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा घोषित दर से कम नहीं होगा।
10. योजना में कोई संशोधन, जो प्रतिष्ठान के विद्यमान नियमों की तुलना में कर्मचारियों के लिए अधिक लाभदायक हो, उसे न्यास के नियमों में औपचारिक संशोधन के लंबित रहते उन पर स्वतः लागू किया जाएगा।
11. नियोक्ता द्वारा नियमों में कोई भी संशोधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना रुख स्पष्ट करने का वाजिब अवसर देगा।
12. निकासी, अग्रिम और अंतरण के सभी दावे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित अधिकतम समय सीमा के भीतर, शीघ्रता से निपटाए जाएंगे।
13. न्यासी बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में जमा किए गए अंशदान, निकासी और व्याज दर्शाने के लिए विस्तारित लेखों का रख-रखाव करेगा। ऐसे अभिलेखों का रख-रखाव अधिमानतः इलैक्ट्रॉनिक रूप से रखा जाएगा। प्रतिष्ठान आवधिक रूप से जब कभी केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा निदेश दिया जाए, सदस्यों के लेखों को इलैक्ट्रॉनिक रूप से सम्प्रेषित करेंगे।
14. न्यासी बोर्ड वर्ष में एक बार वित्तीय/लेखा वर्ष के समाप्त होने के छः माह के भीतर प्रत्येक कर्मचारी को निःशुल्क लेखों का वार्षिक विवरण अथवा पासबुक जारी करेगा। जब कभी सदस्य चाहें, अतिरिक्त प्रिंटआउट नाममात्र के प्रभार के साथ उपलब्ध कराए जा सकते हैं। पासबुक के मामले में वह कर्मचारी के पास रहेगी जिसे प्रस्तुत किए जाने पर न्यासियों द्वारा आवधिक रूप से अद्यतन किया जाएगा।
15. नियोक्ता सभी सदस्यों को उनकी आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर टर्मिनलों से अपने खाते में पड़ी शेष राशि को देखने के समर्थ बनाने के लिए आवश्यक प्रावधान करेंगे।

16. न्यासी बोर्ड और नियोक्ता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा यथा विहित रूप में ये विवरणियां विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर मासिक/वार्षिक रूप से दायर करेंगे, जिसे न करने पर इसे चूक माना जाएगा तथा न्यासी बोर्ड और नियोक्ता संयुक्त रूप से और अलग-अलग, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा की जाने वाली उपयुक्त दाण्डिक कार्रवाई के भागी होंगे।

17. न्यासी बोर्ड समय-समय पर सरकार के निर्देशों के अनुसार भविष्य निधि के पैसे का निवेश करेगा। सरकार के निर्देशों के अनुसार निवेश करने में असफल होने पर न्यासी बोर्ड अलग-अलग और संयुक्त रूप से केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उसके प्रतिनिधि द्वारा यथा अधिरोपित अधिशुल्क का भागी बन जाएगा।

18. (क) प्रतिभूतियां न्यास के नाम से प्राप्त की जाएंगी। इस प्रकार प्राप्त की गई प्रतिभूतियां अभौतिक (डीमेट) रूप में होनी चाहिए तथा न्यास के कार्यचालित रहने वाले क्षेत्रों में अपेक्षित सुविधा के उपलब्ध न होने की स्थिति में न्यासी बोर्ड संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को इसकी सूचना देंगे।

(ख) न्यासी बोर्ड लिपि-वार रजिस्टर बनाएगा तथा व्याज की समय पर उगाही सुनिश्चित करेगा।

(ग) डीमेट खाता इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित निक्षेपागार प्रतिभागियों के माध्यम से खोला जाए।

(घ) डीमेट खाते का खर्च न्यास द्वारा किए जाने वाले निवेश का प्रासंगिक व्यय व्यय माना जाए। प्रतिभूतियों आदि की खरीद की दलाली जैसे निवेशों के सभी प्रकार के खर्चों को भी न्यास द्वारा किए जाने वाले निवेश का प्रासंगिक व्यय माना जाएगा।

19. प्रतिभूतियों और बाण्डों की खरीद जैसे ऐसे सभी निवेश भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित निक्षेपागार प्रतिभागियों की सुरक्षा अभिरक्षा में दर्ज किए जाएं, जो इसके संरक्षक होंगे। स्थापना की बंदी या परिसमापन या कर्मचारी भविष्य निधि, 1952 से छूट पर यह संरक्षक, न्यास के नाम पर प्राप्त तथा अपने जमा में पड़े निवेश को संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के, इस आशय के, अनुरोध पर संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को सीधे अंतरित करेगा।

20. स्थापना संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को उन निक्षेपागार प्रतिभागियों (भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित) के विवरण से सूचित करेगी, जिनके पास तथा जिनकी सुरक्षा अभिरक्षा में न्यास के नाम पर किए गए निवेश अर्थात् प्रतिभूतियों, बाण्डों आदि में किए गए निवेश दर्ज किए गए हैं। तथापि, न्यासी बोर्ड उस धनराशि की उगाही कर सकता है, जो दावों के निपटान, नियमानुसार अग्रिमों की मंजूरी और नियोक्ता की सेवा छोड़ने की स्थिति में सदस्य के भविष्य निधि संचयन के अंतरण और प्रतिभूतियों की बिक्री द्वारा अन्य किसी प्राप्ति अथवा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के शर्ताधीन निधि के नाम में पड़े अन्य निवेशों जैसे बाध्यकारी व्ययों को पूरा करने के लिए अपेक्षित हों।

21. न्यास द्वारा किए गए निवेशों के लिए किसी वित्तीय या अन्य संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले किसी कमीशन, प्रोत्साहन, बोनस या अन्य आर्थिक लाभ इसके खाते में डाले जाएं।

22. नियोक्ता और न्यासी बोर्ड के सदस्य शर्तों का पालन करने की सहमति देते हुए लिखित वचन देंगे तथा यह वैधिक रूप से नियोक्ता और न्यासी बोर्ड के उत्तराधिकारियों और समनुदेशितों पर उनके साथ-साथ बाध्यकारी होगा।

23. नियोक्ता और न्यासी बोर्ड छूट के रद्द होने की स्थिति में संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा विहित समय सीमा के भीतर तत्काल निधियों का अंतरण करने का वचन भी देगा। यह उन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा तथा उन्हें निधियों के अंतरण में कोई विलंब होने की स्थिति में अभियोजन का भागी बनाएगा।

24. (क) न्यासी बोर्ड द्वारा अनुरक्षित भविष्य निधि खाता किसी योग्य स्वतंत्र चार्टर्ड लेखाकार द्वारा वार्षिक रूप से लेखा-परीक्षा करने के शर्ताधीन होगा। जहां भी आवश्यक समझा जाए, वहां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अधिकार होगा कि यह किसी अन्य योग्य लेखा-परीक्षक द्वारा खातों की लेखा-परीक्षा कराए तथा इस प्रकार हुए खर्च नियोक्ता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(ख) लेखा-परीक्षकों द्वारा वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की समाप्ति के बाद छह महीने के भीतर लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र सहित लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की प्रति सीधे इस कार्यालय में प्रस्तुत की जाए। तुलन-पत्र का प्रारूप और इस रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित की जाएगी तथा संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में इलैक्ट्रॉनिक प्रारूप के साथ हस्ताक्षरित प्रतिलिपि में उपलब्ध कराई जाएगी।

(ग) एक ही लेखा-परीक्षकों को लगातार दो वर्ष के लिए तथा अगले वित्तीय वर्ष के पहले दिन से मिली छूट से अधिक के लिए नियुक्त न किया जाए।

25. लगातार तीन वित्तीय वर्षों तक कोई हानि या पूंजी आधार में कटौती को अगले वित्तीय वर्ष के पहले दिन से मिली छूट प्राप्त होगी।

26. नियोक्ता प्रत्येक माह की समाप्ति से 15 दिन के भीतर निरीक्षण हेतु ऐसी सुविधाओं का प्रावधान करेगा तथा ऐसे निरीक्षण प्रभारों का भुगतान करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 17 के उप-खण्ड (3) के खण्ड(क) के अंतर्गत समय-समय पर दिए निर्देशों के अनुसार हों।

27. न्यासी बोर्ड या नियोक्त द्वारा छूट देने के लिए शर्तों के किसी उल्लंघन की स्थिति में दी गई छूट संबंधित व्यक्ति को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद रद्द कर दी जाएगी।

28. किसी भी धोखे, गबन, गलत निवेश निर्णयों आदि के फलस्वरूप ट्रस्ट को हुए किसी भी नुकसान की स्थिति में नियोक्ता नुकसान पूरा करने का भागी होगा।

29. किसी विलय, अविलय, अभिग्रहण, बिक्री, एकीकरण, सहायक कंपनी का गठन चाहे पूर्णतः स्वामित्व वाली हो या नहीं इत्यादि के फलस्वरूप यदि प्रतिष्ठान की कानूनी स्थिति में कोई भी बदलाव होता है तो दी गई छूट निरस्त होगी एवं प्रतिष्ठान को तुरंत नई छूट देने के लिए मामले की रिपोर्ट करनी चाहिए।

30. एक ही भविष्य निधि ट्रस्ट में एक से अधिक इकाई/प्रतिष्ठानों के भाग लेने की स्थिति में भाग लेने वाली इकाईयों के किसी भी ट्रस्टी/नियोक्ता द्वारा कोई भी चूक होने पर सभी ट्रस्टी संयुक्त रूप से एवं अलग से जिम्मेदार/उत्तरदायी होंगे और आरपीएफसी आम भविष्य निधि ट्रस्ट के सभी न्यासियों के विरुद्ध उपयुक्त कानूनी कार्रवाई करेगा।

31. छूट प्राप्त न्यास निधि के अधिग्रहण के मामले में, अंतरीय ब्याज के कारण हानि के अनुमानित निवल वर्तमान मूल्य की वसूली प्रतिष्ठान से की जानी चाहिए।

32. केन्द्र सरकार प्रतिष्ठान की छूट की निरंतरता के लिए शर्तों को बढ़ा सकती है और जब भी इनको संप्रेषित किया जाएगा ये प्रतिष्ठान इन अतिरिक्त शर्तों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

New Delhi, the 3rd May, 2016

S.O. 849.— Whereas M/s Oxford University Press Limited [under Code No. MH/BAN/3972 in Bandra region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions annexed with this notification, the Central Government, hereby, exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 01.05.1987 until further notification.

[No. S-35015/91/2014-SS-II]

SUBHASH KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CONDITIONS FOR GRANT OF EXEMPTION FROM THE PROVISIONS OF EMPLOYEES PROVIDENT FUND SCHEME, 1952

1. The employer shall establish a Board of Trustees under his Chairmanship for the management of the Provident Fund according to such directions as may be given by the Central Government or the Central Provident Fund Commissioner, as the case may be, from time to time. The provident fund shall vest in the Board of Trustees who will be responsible for and accountable to the Employees' Provident Funds Organisation, inter alia, for proper accounts of

the receipts into and payment from the Provident Fund and the balance in their custody. For this purpose, the “employer” shall mean:-

- (i) In relation to an establishment, which is a factory, the owner or occupier of the factory: and
- (ii) In relation to any other establishment, the person who, or the authority, that has the ultimate control over the affairs of the establishment.

2. The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the guidelines that may be issued from time to time by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner(CPFC) or an officer authorized by him.

3. All employees’ as defined in section 2(f) of the act, who have been eligible to become members of the Provident Fund’ had the establishment not been granted exemption, shall be enrolled as members.

4. Where an employee who is already a member of Employees’ Provident fund or a Provident Fund of any other exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the fund. The employer should also arrange to have the accumulations in the Provident Fund account of such employee with his previous employer transferred and credited into his account.

5. The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the Provident Fund by himself and employees at the rate prescribed under the act from time to time by the 15th of each month following the month for which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay simple interest in terms of the provisions of Section 7Q of the Act for any delay in payment of any dues towards the Board of Trustees.

6 The employer shall bear all the expenses of the administration of Provident Fund and also make good any other loss that may be caused to the Provident Fund due to theft, burglary, defalcation, misappropriation or any other reason.

7. Any deficiency in the interest declared by the Board of Trustees is to be made good by the employer to bring it up to the statutory limit.

8. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the funds as approved by the appropriate authority and as and when amended thereto along with a translation in the language of the majority of the employees.

9. The rate of contributions payable, the conditions and quantum of advances and other matters laid down under the provident fund rules of the establishment and the interest credited to the account of each member, calculated on the monthly running balance of the member and declared by the Board of Trustees shall not be lower than those declared by the Central Government under the various provisions prescribed in the Act and Scheme framed thereunder.

10. Any amendment to the Scheme, which is more beneficial to the employees than the existing rules of the establishment, shall be made applicable to them automatically pending formal amendment of the Rules of the Trust.

11. No amendment in the rules shall be made by the employer without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

12. All claims for withdrawals, advances and transfers should be settled expeditiously, within the maximum time frame prescribed by the Employees’ Provident Fund Organisation.

13. The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited withdrawal and interest in respect of each employee. The maintenance of such records should preferably be done electronically. The establishments should periodically transmit the details of members’ accounts electronically as and when directed by the Central Provident Commissioner/Regional Provident Fund Commissioner.

14. The Board of Trustees shall issue an annual statement of accounts or pass books to every employee within six months of the close of financial/accounting year free of cost once in the year. Additional printouts can be made available as and when the members want, subject to nominal charges. In case of passbook, the same shall remain in custody of employee to be updated periodically by the Trustees when presented to them.

15. The employer shall make necessary provisions to enable all the members to be able to see their account balance from the computer terminals as and when required by them.

16. The Board of Trustees and the employer shall file such returns monthly/annually as may be prescribed by the Employees’ Provident Fund Organisation within the specified time limit, failing which it will be deemed as a default and the Board of Trustees and employer will jointly and separately be liable for suitable penal action by the Employees’ Provident Fund Organisation.

17. The Board of Trustees shall invest the monies of the provident fund as per the directions of the Government from time to time. Failure to make investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees separately and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his representative.

18. (a) The securities shall be obtained in the name of Trust. The securities so obtained should be in dematerialized (DEMAT) form and in case the required facility is not available in the areas where the trust operates the Board of Trustees shall inform the Regional Provident Fund Commissioner concerned about the same.

(b) The Board of Trustees shall maintain a script wise register and ensure timely realization of interest.

(c) The DEMAT Account should be opened through depository participants approved by Reserve Bank of India and Central Government in accordance with the instructions issued by the Central Government in this regard.

(d) The cost of maintaining DEMAT account should be treated as incidental cost of investment by the Trust. Also all types of cost of investments like brokerage for purchase of securities etc. shall be treated as incidental cost of investment by the Trust.

19. All such investments made like purchase of securities and bonds, should be lodged in the safe custody of depository participants approved by Reserve Bank of India and Central Government, who shall be the custodian of the same. On closure of establishment or liquidation or cancellation of exemption from EPF Scheme, 1952 such custodian shall transfer the investment obtained in the name of the Trust and standing in its credit to the Regional PF Commissioner concerned directly on receipt of request from the Regional PF Commissioner concerned to that effect.

20. The establishment shall intimate to the Regional P.F. Commissioner concerned the details of depository participants (approved by RBI and Central Government), with whom and in whose safe custody, the investments made in the name of trust, viz., investments made in securities, bonds, etc. have been lodged. However, the Board of Trustees may raise such sum of sums of money as may be required for meeting obligatory expenses such as settlement of claims, grant of advances as per rules and transfer of member's PF accumulations in the event of his/her leaving service of the employer and any other receipts by sale of the securities or other investments standing in the name of the Fund subject to the prior approval of the Regional PF Commissioner.

21. Any commission, incentive, bonus or other pecuniary rewards given by any financial or other institutions for the investments made by the Trust should be credited to its account.

22. The employer and the members of the Board of Trustees, shall furnish a written undertaking agreeing to abide by the conditions and this shall be legally binding on the employer and the Board of Trustees, including their successors and assignees.

23. The employer and the Board of Trustees shall also give an undertaking to transfer the funds promptly within the time limit prescribed by the concerned RPFC in the event of cancellation of relaxation. This shall be legally binding on them and will make them liable for prosecution in the event of any delay in the transfer of funds.

24. (a) The account of the Provident Fund maintained by the Board of Trustees shall be subject to audit by a qualified independent chartered accountant annually. Where considered necessary the EPFO shall have the right to have the accounts re-audited by any other qualified auditor and the expenses so incurred shall be borne by the employer.

(b) A copy of the Auditor's report alongwith the audited balance sheet should be submitted to this office by the Auditors directly within six months after the closing of the financial year from 1st April to 31st March. The format of the balance sheet and the information to be furnished in the report shall be prescribed by the Employees' Provident fund Organisation and made available with the RPFC office in electronic format as well as a signed hard copy.

(c) The same auditors should not be appointed for two consecutive years and not more than the relaxation withdrawn from the first day of the next succeeding financial year.

25. Any loss for the three consecutive financial years or erosion in the capital base shall have the relaxation withdrawn from the first day of the next succeeding financial year.

26. The employer shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section (3) of Section 17 of the Act within 15 days from the close of every month.

27. In the event of any violation of the conditions for grant of relaxation, by the employer or the Board of Trustees, the relaxation granted shall be cancelled after issuing a show cause notice in this regard to the concerned persons.

28. In the event of any loss to the trust as a result of any fraud, defalcation, wrong investment decisions etc. the employer shall be liable to make good the loss.

29. In case of any change of legal status of the establishment as a result of merger, de-merger, acquisition, sale, amalgamation, formation of a subsidiary, whether wholly owned or not etc., the relaxation granted shall stand revoked and the establishment should promptly report the matter for grant of fresh relaxation.

30. In case there are more than one unit/establishment participating in the common Provident Fund Trust, all the trustees shall be jointly and separately liable/responsible for any default committed by any of the trustees/employer of any of the participating units and the RPFC shall take suitable legal action against all the trustees of the common Provident Fund Trust.

31. In case of takeover of the exempted Trust Fund, estimated net present value of the loss due to differential interest should be recovered from the establishment.

32. The Central Government may lay down further conditions for continuation of exemption of the establishment and the establishment shall be bound to comply with these additional conditions as and when the same are communicated.

नई दिल्ली, 3 मई, 2016

का.आ. 850.—जबकि मैसर्स बिल्ट ग्राफिक पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (बेहरामपुर उपक्षेत्र में कोड संख्या ओआर/2910 के अंतर्गत) (एतदुपरांत प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (एतदुपरांत अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है।

2. और जबकि केन्द्रीय सरकार के विचार में, अंशदान की दरों के संबंध में उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि नियम उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियमों की तुलना में कर्मचारियों के लिए कम उपयुक्त नहीं हैं और कर्मचारी उक्त अधिनियम अथवा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (एतदुपरांत योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत सदृश स्वरूप के किसी अन्य प्रतिष्ठान में कर्मचारियों के संबंध में दी जाने वाली अन्य भविष्य निधि प्रसुविधाओं का भी लाभ उठा रहे हैं।

3. अतः, अब, केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के साथ सन्लग्न शर्तों के अध्याधीन उक्त प्रतिष्ठान को अगली अधिसूचना तक 01.03.1992 से उक्त योजना के सभी उपबंधों के प्रभाव से छूट प्रदान करती है।

[सं. एस-35015/45/2014-एसएस-II]

सुभाष कुमार, अवर सचिव

अनुबंध

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के उपबंधों से छूट प्रदान करने संबंधी शर्तें

1. नियोक्ता समय-समय पर केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा दिए जाने वाले ऐसे निदेशों के अनुसार भविष्य निधि के प्रबंधन हेतु अपनी अध्यक्षता में एक न्यासी बोर्ड गठित करेगा। भविष्य निधि न्यासी बोर्ड में विहित होगी जो अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रति भविष्य निधि में प्राप्तियों और उसमें से भुगतान के उचित लेखों और उनकी अभिरक्षा में शेष राशि के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रयोजनार्थ, "नियोक्ता" से:-

(i) किसी प्रतिष्ठान, जो एक कारखाना हो, उसके संबंध में, कारखाने का स्वामी अथवा अधिष्ठाता अभिप्रेत होगा; और

(ii) किसी अन्य प्रतिष्ठान के संबंध में, वह व्यक्ति, अथवा प्राधिकारी अभिप्रेत होगा, जिसका उस प्रतिष्ठान के कामकाज पर अंतिम नियंत्रण हो।

2. न्यासी बोर्ड हरेक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगा और वह केन्द्र सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।

3. अधिनियम की धारा 2(च) में यथा परिभाषित सभी कर्मचारी, जो भविष्य निधि के सदस्य बनने के पात्र रहें हैं, यदि प्रतिष्ठान को छूट प्रदान नहीं की होती, उन्हें सदस्यों के रूप में नामांकित किया जाएगा।

4. जहां कोई कर्मचारी जो पहले ही किसी अन्य ब्रूट-प्राप्त प्रतिष्ठान के किसी कर्मचारी भविष्य निधि अथवा भविष्य निधि का सदस्य हो, उसे उसके प्रतिष्ठान में नियोजित किया जाता है, तो नियोक्ता उसे तत्काल निधि के सदस्य के रूप में नामांकित करेगा। नियोक्ता ऐसे कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में उसके पहले नियोक्ता से संचय राशियां अंतरित और जमा करवाने की भी व्यवस्था करेगा।
5. नियोक्ता भविष्य निधि को उसके द्वारा और कर्मचारी के द्वारा समय—समय पर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दर से देय अंशदान को, जिस माह के लिए अंशदान देय हों उसके बाद के माह की 15 तारीख तक न्यासी बोर्ड को अंतरित करेगा। नियोक्ता न्यासी बोर्ड को किन्हीं देयों के भुगतान में किसी विलम्ब के लिए अधिनियम की धारा 7 थ के उपबंधों के अनुसार साधारण ब्याज अदा करने का दायी होगा।
6. नियोक्ता भविष्य निधि के प्रशासन के सभी व्यय वहन करेगा और चोरी, डकैती, गबन, दुर्विनियोग अथवा किसी अन्य कारण से भविष्य निधि को हो सकने वाले किसी घाटे की भी भरपाई करेगा।
7. न्यासी बोर्ड द्वारा घोषित ब्याज में किसी कमी को भी नियोक्ता द्वारा पूरा किया जाना होगा और उसे सांविधिक सीमा तक लाना होगा।
8. नियोक्ता जब कभी नियम संशोधित किए जाएं, समुचित प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित, निधि के नियमों की एक प्रति अधिसंख्यक कर्मचारियों की भाषा में उनके अनुवाद सहित प्रतिष्ठान के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।
9. प्रतिष्ठान के भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत निर्धारित देय अंशदान की दर, अग्रिम की शर्तें और मात्रा तथा अन्य मामले और सदस्य के मासिक चालू शेष पर संगणित और न्यासी बोर्ड द्वारा घोषित, प्रत्येक सदस्य के खाते में जमा किया गया ब्याज, अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित योजना में निर्धारित विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा घोषित दर से कम नहीं होगा।
10. योजना में कोई संशोधन, जो प्रतिष्ठान के विद्यमान नियमों की तुलना में कर्मचारियों के लिए अधिक लाभदायक हो, उसे न्यास के नियमों में औपचारिक संशोधन के लंबित रहते उन पर स्वतः लागू किया जाएगा।
11. नियोक्ता द्वारा नियमों में कोई भी संशोधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना रुख स्पष्ट करने का वाजिब अवसर देगा।
12. निकासी, अग्रिम और अंतरण के सभी दावे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित अधिकतम समय सीमा के भीतर, शीघ्रता से निपटाए जाएंगे।
13. न्यासी बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में जमा किए गए अंशदान, निकासी और ब्याज दर्शाने के लिए विस्तारित लेखों का रख-रखाव करेगा। ऐसे अभिलेखों का रख-रखाव अधिमानतः इलैक्ट्रॉनिक रूप से रखा जाएगा। प्रतिष्ठान आवधिक रूप से जब कभी केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा निदेश दिया जाए, सदस्यों के लेखों को इलैक्ट्रॉनिक रूप से सम्प्रेषित करेंगे।
14. न्यासी बोर्ड वर्ष में एक बार वित्तीय/लेखा वर्ष के समाप्त होने के छः माह के भीतर प्रत्येक कर्मचारी को निःशुल्क लेखों का वार्षिक विवरण अथवा पासबुक जारी करेगा। जब कभी सदस्य चाहें, अतिरिक्त प्रिंटआउट नाममात्र के प्रभार के साथ उपलब्ध कराए जा सकते हैं। पासबुक के मामले में वह कर्मचारी के पास रहेगी जिसे प्रस्तुत किए जाने पर न्यासियों द्वारा आवधिक रूप से अद्यतन किया जाएगा।
15. नियोक्ता सभी सदस्यों को उनकी आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर टर्मिनलों से अपने खाते में पड़ी शेष राशि को देखने के समर्थ बनाने के लिए आवश्यक प्रावधान करेंगे।
16. न्यासी बोर्ड और नियोक्ता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा यथा विहित रूप में ये विवरणियां विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर मासिक/वार्षिक रूप से दायर करेंगे, जिसे न करने पर इसे चूक माना जाएगा तथा न्यासी बोर्ड और नियोक्ता संयुक्त रूप से और अलग-अलग, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा की जाने वाली उपयुक्त दाण्डिक कार्रवाई के भागी होंगे।
17. न्यासी बोर्ड समय-समय पर सरकार के निर्देशों के अनुसार भविष्य निधि के पैसे का निवेश करेगा। सरकार के निर्देशों के अनुसार निवेश करने में असफल होने पर न्यासी बोर्ड अलग-अलग और संयुक्त रूप से केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उसके प्रतिनिधि द्वारा यथा अधिरोपित अधिशुल्क का भागी बन जाएगा।

18. (क) प्रतिभूतियां न्यास के नाम से प्राप्त की जाएंगी। इस प्रकार प्राप्त की गई प्रतिभूतियां अभौतिक (डीमेट) रूप में होनी चाहिए तथा न्यास के कार्यचालित रहने वाले क्षेत्रों में अपेक्षित सुविधा के उपलब्ध न होने की स्थिति में न्यासी बोर्ड संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को इसकी सूचना देंगे।

(ख) न्यासी बोर्ड लिपि-वार रजिस्टर बनाएगा तथा व्याज की समय पर उगाही सुनिश्चित करेगा।

(ग) डीमेट खाता इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित निक्षेपागार प्रतिभागियों के माध्यम से खोला जाए।

(घ) डीमेट खाते का खर्च न्यास द्वारा किए जाने वाले निवेश का प्रासंगिक व्यय व्यय माना जाएगा। प्रतिभूतियों आदि की खरीद की दलाली जैसे निवेशों के सभी प्रकार के खर्चों को भी न्यास द्वारा किए जाने वाले निवेश का प्रासंगिक व्यय माना जाएगा।

19. प्रतिभूतियों और बाण्डों की खरीद जैसे ऐसे सभी निवेश भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित निक्षेपागार प्रतिभागियों की सुरक्षा अभिरक्षा में दर्ज किए जाएं, जो इसके संरक्षक होंगे। स्थापना की बंदी या परिसमापन या कर्मचारी भविष्य निधि, 1952 से छूट पर यह संरक्षक, न्यास के नाम पर प्राप्त तथा अपने जमा में पड़े निवेश को संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के, इस आशय के, अनुरोध पर संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को सीधे अंतरित करेगा।

20. स्थापना संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को उन निक्षेपागार प्रतिभागियों (भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित) के विवरण से सूचित करेगी, जिनके पास तथा जिनकी सुरक्षा अभिरक्षा में न्यास के नाम पर किए गए निवेश अर्थात् प्रतिभूतियों, बाण्डों आदि में किए गए निवेश दर्ज किए गए हैं। तथापि, न्यासी बोर्ड उस धनराशि की उगाही कर सकता है, जो दावों के निपटान, नियमानुसार अग्रिमों की मंजूरी और नियोक्ता की सेवा छोड़ने की स्थिति में सदस्य के भविष्य निधि संचयन के अंतरण और प्रतिभूतियों की विक्री द्वारा अन्य किसी प्राप्तियों अथवा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के शर्ताधीन निधि के नाम में पड़े अन्य निवेशों जैसे बाध्यकारी व्ययों को पूरा करने के लिए अपेक्षित हों।

21. न्यास द्वारा किए गए निवेशों के लिए किसी वित्तीय या अन्य संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले किसी कमीशन, प्रोत्साहन, बोनस या अन्य आर्थिक लाभ इसके खाते में डाले जाएं।

22. नियोक्ता और न्यासी बोर्ड के सदस्य शर्तों का पालन करने की सहमति देते हुए लिखित वचन देंगे तथा यह वैधिक रूप से नियोक्ता और न्यासी बोर्ड के उत्तराधिकारियों और समनुदेशितों पर उनके साथ-साथ बाध्यकारी होगा।

23. नियोक्ता और न्यासी बोर्ड छूट के रद्द होने की स्थिति में संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा विहित समय सीमा के भीतर तत्काल निधियों का अंतरण करने का वचन भी देगा। यह उन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा तथा उन्हें निधियों के अंतरण में कोई विलंब होने की स्थिति में अभियोजन का भागी बनाएगा।

24. (क) न्यासी बोर्ड द्वारा अनुरक्षित भविष्य निधि खाता किसी योग्य स्वतंत्र चार्टर्ड लेखाकार द्वारा वार्षिक रूप से लेखा-परीक्षा करने के शर्ताधीन होगा। जहां भी आवश्यक समझा जाए, वहां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अधिकार होगा कि यह किसी अन्य योग्य लेखा-परीक्षक द्वारा खातों की लेखा-परीक्षा कराए तथा इस प्रकार हुए खर्च नियोक्ता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(ख) लेखा-परीक्षकों द्वारा वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की समाप्ति के बाद छह महीने के भीतर लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र सहित लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की प्रति सीधे इस कार्यालय में प्रस्तुत की जाए। तुलन-पत्र का प्रारूप और इस रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित की जाएगी तथा संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में इलैक्ट्रॉनिक प्रारूप के साथ हस्ताक्षरित प्रतिलिपि में उपलब्ध कराई जाएगी।

(ग) एक ही लेखा-परीक्षकों को लगातार दो वर्ष के लिए तथा अगले वित्तीय वर्ष के पहले दिन से मिली छूट से अधिक के लिए नियुक्त न किया जाए।

25. लगातार तीन वित्तीय वर्षों तक कोई हानि या पूंजी आधार में कटौती को अगले वित्तीय वर्ष के पहले दिन से मिली छूट प्राप्त होगी।

26. नियोक्ता प्रत्येक माह की समाप्ति से 15 दिन के भीतर निरीक्षण हेतु ऐसी सुविधाओं का प्रावधान करेगा तथा ऐसे निरीक्षण प्रभारों का भुगतान करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 17 के उप-खण्ड (3) के खण्ड(क) के अंतर्गत समय-समय पर दिए निर्देशों के अनुसार हों।

27. न्यासी बोर्ड या नियोक्त द्वारा छूट देने के लिए शर्तों के किसी उल्लंघन की स्थिति में दी गई छूट संबंधित व्यक्ति को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद रद्द कर दी जाएगी।
28. किसी भी धोखे, गबन, गलत निवेश निर्णयों आदि के फलस्वरूप ट्रस्ट को हुए किसी भी नुकसान की स्थिति में नियोक्ता नुकसान पूरा करने का भागी होगा।
29. किसी विलय, अविलय, अभिग्रहण, विक्री, एकीकरण, सहायक कंपनी का गठन चाहे पूर्णतः स्वामित्व वाली हो या नहीं इत्यादि के फलस्वरूप यदि प्रतिष्ठान की कानूनी स्थिति में कोई भी बदलाव होता है तो दी गई छूट निरस्त होगी एवं प्रतिष्ठान को तुरंत नई छूट देने के लिए मामले की रिपोर्ट करनी चाहिए।
30. एक ही भविष्य निधि ट्रस्ट में एक से अधिक इकाई/प्रतिष्ठानों के भाग लेने की स्थिति में भाग लेने वाली इकाईयों के किसी भी ट्रस्टी/नियोक्ता द्वारा कोई भी चूक होने पर सभी ट्रस्टी संयुक्त रूप से एवं अलग से जिम्मेदार/उत्तरदायी होंगे और आरपीएफसी आम भविष्य निधि ट्रस्ट के सभी न्यासियों के विरुद्ध उपयुक्त कानूनी कार्रवाई करेगा।
31. छूट प्राप्त न्यास निधि के अधिग्रहण के मामले में, अंतरीय ब्याज के कारण हानि के अनुमानित निवल वर्तमान मूल्य की वसूली प्रतिष्ठान से की जानी चाहिए।
32. केन्द्र सरकार प्रतिष्ठान की छूट की निरंतरता के लिए शर्तों को बढ़ा सकती है और जब भी इनको संप्रेषित किया जाएगा ये प्रतिष्ठान इन अतिरिक्त शर्तों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

New Delhi, the 3rd May, 2016

S.O. 850.— Whereas M/s BILT Graphic Paper Products Limited [under Code No. OR/2910 in Berhampur sub region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act and subject to the conditions annexed with this notification, the Central Government, hereby, exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 01.03.1992 until further notification.

[No. S-35015/45/2014-SS-II]

SUBHASH KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CONDITIONS FOR GRANT OF EXEMPTION FROM THE PROVISIONS OF EMPLOYEES PROVIDENT FUND SCHEME, 1952

1. The employer shall establish a Board of Trustees under his Chairmanship for the management of the Provident Fund according to such directions as may be given by the Central Government or the Central Provident Fund Commissioner, as the case may be, from time to time. The provident fund shall vest in the Board of Trustees who will be responsible for and accountable to the Employees' Provident Funds Organisation, inter alia, for proper accounts of the receipts into and payment from the Provident Fund and the balance in their custody. For this purpose, the "employer" shall mean:-

- (i) In relation to an establishment, which is a factory, the owner or occupier of the factory: and
- (ii) In relation to any other establishment, the person who, or the authority, that has the ultimate control over the affairs of the establishment.

2. The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the guidelines that may be issued from time to time by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner(CPFC) or an officer authorized by him.

3. All employees' as defined in section 2(f) of the act, who have been eligible to become members of the Provident Fund' had the establishment not been granted exemption, shall be enrolled as members.

4. Where an employee who is already a member of Employees' Provident fund or a Provident Fund of any other exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the fund. The employer should also arrange to have the accumulations in the Provident Fund account of such employee with his previous employer transferred and credited into his account.
5. The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the Provident Fund by himself and employees at the rate prescribed under the act from time to time by the 15th of each month following the month for which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay simple interest in terms of the provisions of Section 7Q of the Act for any delay in payment of any dues towards the Board of Trustees.
6. The employer shall bear all the expenses of the administration of Provident Fund and also make good any other loss that may be caused to the Provident Fund due to theft, burglary, defalcation, misappropriation or any other reason.
7. Any deficiency in the interest declared by the Board of Trustees is to be made good by the employer to bring it up to the statutory limit.
8. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the funds as approved by the appropriate authority and as and when amended thereto along with a translation in the language of the majority of the employees.
9. The rate of contributions payable, the conditions and quantum of advances and other matters laid down under the provident fund rules of the establishment and the interest credited to the account of each member, calculated on the monthly running balance of the member and declared by the Board of Trustees shall not be lower than those declared by the Central Government under the various provisions prescribed in the Act and Scheme framed thereunder.
10. Any amendment to the Scheme, which is more beneficial to the employees than the existing rules of the establishment, shall be made applicable to them automatically pending formal amendment of the Rules of the Trust.
11. No amendment in the rules shall be made by the employer without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
12. All claims for withdrawals, advances and transfers should be settled expeditiously, within the maximum time frame prescribed by the Employees' Provident Fund Organisation.
13. The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited withdrawal and interest in respect of each employee. The maintenance of such records should preferably be done electronically. The establishments should periodically transmit the details of members' accounts electronically as and when directed by the Central Provident Commissioner/Regional Provident Fund Commissioner.
14. The Board of Trustees shall issue an annual statement of accounts or pass books to every employee within six months of the close of financial/accounting year free of cost once in the year. Additional printouts can be made available as and when the members want, subject to nominal charges. In case of passbook, the same shall remain in custody of employee to be updated periodically by the Trustees when presented to them.
15. The employer shall make necessary provisions to enable all the members to be able to see their account balance from the computer terminals as and when required by them.
16. The Board of Trustees and the employer shall file such returns monthly/annually as may be prescribed by the Employees' Provident Fund Organisation within the specified time limit, failing which it will be deemed as a default and the Board of Trustees and employer will jointly and separately be liable for suitable penal action by the Employees' Provident Fund Organisation.
17. The Board of Trustees shall invest the monies of the provident fund as per the directions of the Government from time to time. Failure to make investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees separately and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his representative.
18. (a) The securities shall be obtained in the name of Trust. The securities so obtained should be in dematerialized (DEMAT) form and in case the required facility is not available in the areas where the trust operates the Board of Trustees shall inform the Regional Provident Fund Commissioner concerned about the same.
(b) The Board of Trustees shall maintain a script wise register and ensure timely realization of interest.
(c) The DEMAT Account should be opened through depository participants approved by Reserve Bank of India and Central Government in accordance with the instructions issued by the Central Government in this regard.
(d) The cost of maintaining DEMAT account should be treated as incidental cost of investment by the Trust. Also all types of cost of investments like brokerage for purchase of securities etc. shall be treated as incidental cost of investment by the Trust.

19. All such investments made like purchase of securities and bonds, should be lodged in the safe custody of depository participants approved by Reserve Bank of India and Central Government, who shall be the custodian of the same. On closure of establishment or liquidation or cancellation of exemption from EPF Scheme, 1952 such custodian shall transfer the investment obtained in the name of the Trust and standing in its credit to the Regional PF Commissioner concerned directly on receipt of request from the Regional PF Commissioner concerned to that effect.

20. The establishment shall intimate to the Regional P.F. Commissioner concerned the details of depository participants (approved by RBI and Central Government), with whom and in whose safe custody, the investments made in the name of trust, viz., investments made in securities, bonds, etc. have been lodged. However, the Board of Trustees may raise such sum of sums of money as may be required for meeting obligatory expenses such as settlement of claims, grant of advances as per rules and transfer of member's PF accumulations in the event of his/her leaving service of the employer and any other receipts by sale of the securities or other investments standing in the name of the Fund subject to the prior approval of the Regional PF Commissioner.

21. Any commission, incentive, bonus or other pecuniary rewards given by any financial or other institutions for the investments made by the Trust should be credited to its account.

22. The employer and the members of the Board of Trustees, shall furnish a written undertaking agreeing to abide by the conditions and this shall be legally binding on the employer and the Board of Trustees, including their successors and assignees.

23. The employer and the Board of Trustees shall also give an undertaking to transfer the funds promptly within the time limit prescribed by the concerned RPFC in the event of cancellation of relaxation. This shall be legally binding on them and will make them liable for prosecution in the event of any delay in the transfer of funds.

24. (a) The account of the Provident Fund maintained by the Board of Trustees shall be subject to audit by a qualified independent chartered accountant annually. Where considered necessary the EPFO shall have the right to have the accounts re-audited by any other qualified auditor and the expenses so incurred shall be borne by the employer.

(b) A copy of the Auditor's report alongwith the audited balance sheet should be submitted to this office by the Auditors directly within six months after the closing of the financial year from 1st April to 31st March. The format of the balance sheet and the information to be furnished in the report shall be prescribed by the Employees' Provident fund Organisation and made available with the RPFC office in electronic format as well as a signed hard copy.

(c) The same auditors should not be appointed for two consecutive years and not more than the relaxation withdrawn from the first day of the next succeeding financial year.

25. Any loss for the three consecutive financial years or erosion in the capital base shall have the relaxation withdrawn from the first day of the next succeeding financial year.

26. The employer shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section (3) of Section 17 of the Act within 15 days from the close of every month.

27. In the event of any violation of the conditions for grant of relaxation, by the employer or the Board of Trustees, the relaxation granted shall be cancelled after issuing a show cause notice in this regard to the concerned persons.

28. In the event of any loss to the trust as a result of any fraud, defalcation, wrong investment decisions etc. the employer shall be liable to make good the loss.

29. In case of any change of legal status of the establishment as a result of merger, de-merger, acquisition, sale, amalgamation, formation of a subsidiary, whether wholly owned or not etc., the relaxation granted shall stand revoked and the establishment should promptly report the matter for grant of fresh relaxation.

30. In case there are more than one unit/establishment participating in the common Provident Fund Trust, all the trustees shall be jointly and separately liable/responsible for any default committed by any of the trustees/employer of any of the participating units and the RPFC shall take suitable legal action against all the trustees of the common Provident Fund Trust.

31. In case of takeover of the exempted Trust Fund, estimated net present value of the loss due to differential interest should be recovered from the establishment.

32. The Central Government may lay down further conditions for continuation of exemption of the establishment and the establishment shall be bound to comply with these additional conditions as and when the same are communicated.